

भगवान् महावीरके २५००वे निर्वाण महोत्सवके अवसरपर प्रकाशित
ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला : सस्कृत ग्रन्थांक ४५

श्री-सकलकीर्ति-विरचित

वीरवर्धमानचरितम्

[हिन्दीटीकोपेतम्]

सम्पादन-अनुवाद

प. हीरालाल जैन, सिद्धान्तशास्त्री



भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

वीर नि० सवत् २५०० विक्रम सवत् २०३१ सन् १९७४

प्रथम सस्करण मूल्य उन्नीस रूपये

स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा

सस्थापित

भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमालाके अन्तर्गत प्राकृत सस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तमिल आदि प्राचीन भाषाओंमें उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन तथा उसका मूल और यथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन भण्डारोंकी सूचियों, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो रहे हैं।

ग्रन्थमाला सम्पादक

डॉ. आ. ने. उपाध्ये, एम. ए., डी. लिट्.

पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री

प्रकाशक

भारतीय ज्ञानपीठ

प्रधान कार्यालय बी/४५-४७, कर्नॉट प्लेस, नयी दिल्ली-११०००१

प्रकाशन कार्यालय दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-२२१००५

मुद्रक सन्मति मुद्रणालय, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-२२१००५

स्थापना फाल्गुन कृष्ण ९, वीर नि० २४७०, विक्रम सं० २०००, १८ फरवरी १९४४
सर्वाधिकार सुरक्षित

भारतीय ज्ञानपोठ, काशी



स्व० मूर्तिदेवी, मातेश्वरी सेठ शान्तिप्रसाद जैन

Published on the occasion of 2500th Nirvana Mahotsava of Bhagavan Mahavir

JÑANAPĪTHA MŪRTIDEVĪ GRANTHAMĀLĀ Sanskrit Grantha No 45


VĪRAVARDHAMĀNCARITAM

of

ŚRĪ SAKALAKĪRTI

by

Pt HIRALAL JAIN, Siddhantashastrī



BHĀRATĪYA JÑANAPĪTHA PUBLICATION

VĪRA SAMVAT 2500 V SAMVAT 2031 A D 1974

First Edition Price Rs 19/-

BHĀRĀTĪYĀ JÑĀNĀPĪTHA MŪRTIDEVĪ

JAIN GRANTHAMĀLĀ

FOUNDED BY

SĀHU SHĀNTIPRASĀD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SHRĪ MŪRTIDEVĪ

IN THIS GRANTHAMĀLĀ CRITICALLY EDITED JAIN ĀGAMIC PHILOSOPHICAL
PAURĀNIC LITERARY HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS

AVAILABLE IN PRĀKRĪTA, SANSKRĪTA, APABHRAMŚĀ HINDĪ

KANNĀḌA, TAMIL, ETC, ARE BEING PUBLISHED

IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR

TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS,

STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR

JAIN LITERATURE ARE ALSO BEING PUBLISHED



General Editors

Dr A N Upadhye, M A , D Litt

Pt Kailash Chandra Shastri



Published by

Bharatiya Jnanapitha

Head office B/45-47 Connaught Place, New Delhi-110001

Publication office Durgakund Road, Varana 1-221005



Founded on Phalguna Krishna 9, Vira Sam 2470, Vikrama Sam 2000, 18th Feb, 1944

All Rights Reserved

प्रधान सम्पादकीय

भगवान् महावीरके पच्चीस सौवे निर्वाण महोत्सव वर्षके उपलक्ष्यमे भारतीय ज्ञानपीठके सचालक-मण्डल तथा परामशदात्री समितिने यह निणय लिया था कि प्राकृत, सस्कृत और अपभ्रंशमे पाये जानेवाले भगवान् महावीरके चरित्तोका प्रकाशन किया जाये। तदनुसार अपभ्रंश भाषाके कवि पुष्पदन्तके महापुराणसे सकलित 'वीरजिणिदचरिउ' डाँ हीरालाल जैनके द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशमे आ चुका है।

उसके पश्चात् आचार्य सकलकीर्तिके द्वारा सस्कृतमे निबद्ध श्री वीरवद्धमान चरित प हीरालाल जी सिद्धान्तशास्त्रीके द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशमे आ रहा है।

भगवान् महावीर जैन धमके अन्तिम तीर्थंकर थे। वह एक ऐतिहासिक महापुरुष थे। प्राचीन बौद्ध त्रिपिटकोमे 'निगठ नातपुत्त' के नामसे उनका उल्लेख मिलता है। तथा उनके अनुयायी निग्रन्थोका भी उल्लेख बहुतायतसे मिलता है। डाँ हमन् याकोबीने जैन सूत्रोकी प्रस्तावनामे कहा है—“इस बातसे अब सब सहमत है कि नातपुत्त, जो महावीर अथवा वधमानके नामसे प्रसिद्ध है, बुद्धके समकालीन थे। बौद्ध ग्रन्थोमे मिलनेवाले उल्लेख हमारे इस विचारको दृढ करते हैं कि नातपुत्तके पहले भी निग्रन्थोका, जो आज जैन अथवा आहृतके नामसे अधिक प्रसिद्ध है, अस्तित्व था। जब बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ तब निग्रन्थोका सम्प्रदाय एक बड़े सम्प्रदायके रूपमे गिना जाता होगा। बौद्ध पिटकोमे कुछ निग्रन्थोका बुद्ध और उमके शिष्योके विरोधीके रूपमे और कुछका बुद्धके अनुयायी बन जानेके रूपमे वर्णन आता है। उसके ऊपरसे हम उक्त बातका अनुमान करते हैं।”

जैन आगमोमे यह भी उल्लेख मिलता है कि भगवान् महावीरके माता-पिता पाश्वनाथके अनुयायी थे। दिगम्बर परम्परामे उनका कोई चरित प्राकृत भाषामे निबद्ध प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु आचार्य वीरसेनने जय-धवला टीकाके प्रारम्भमे कुछ गाथाएँ उद्धृत की हैं जिनमे उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण तथा प्रथम धमदेशनाका चित्रण है। वे गाथाएँ कितनी प्राचीन हैं और कहाँसे सकलित की गयी हैं यह ज्ञात नहीं हो सका। उसके पश्चात् जिनसेनके हरिवशपुराण (७८३ ई०) के प्रारम्भमे उनका सक्षिप्त चरित वर्णित है। प्रथम विस्तीर्णचरित गुणभद्रके उत्तरपुराणके अन्तिम परिच्छेदोमे मिलता है उसमे उनके पूर्व भवोका भी वर्णन है। महाकवि असगने वि स ९१० मे स्वतन्त्र रूपसे महावीरचरित सस्कृतमे रचा। इसमे अठारह सर्ग हैं किन्तु प्रारम्भके सोलह सर्गोमे महावीरके पूर्व भवोका चित्रण है और अन्तके दो सर्गोमे उनका चरित वर्णित है। आचार्य सकलकीर्तिके वीरवद्धमानचरितमे १९ अधिकार हैं और प्रारम्भके छह अधिकारोमे पूर्व-भवोका चित्रण है। शेष तेरह अधिकारोमे जीवनचरित है किन्तु अन्य चरितोसे इसमे कुछ विशेष कथन नहीं है। जिन घटनाओका चित्रण असग कविने दो सर्गोमे किया है उन्हीका इस चरित ग्रन्थमे १३ अधिकारोमे वर्णन है।

हमे यदि किञ्चित् विशेषता प्रतीत हुई तो हरिवशपुराणके कथनमे प्रतीत हुई। उसके अन्तिम छियासठवे सर्गके प्रारम्भमे गौतम गणवर श्रेणिकसे कहते हैं “जरत्कुमार, जिसके बाणसे कृष्णकी मृत्यु हुई थी, की पटरानी कलिगराजाकी पुत्री थी। उसीकी वश परम्परामे जितशत्रु हुआ। हे श्रेणिक ! क्या तुम इस जितशत्रुको नहीं जानते जिसके साथ भगवान् महावीरके पिता राजा सिद्धार्थकी छोटी बहनका विवाह हुआ था। जब भगवान् महावीरका जन्मोत्सव हो रहा था तब यह कुण्डपुर आया था। इसकी यशोदया रानीसे उत्पन्न यशोदा नामकी पुत्री थी। उसके साथ भगवान् महावीरके विवाहकी यह उत्कट कामना रखता था किन्तु भगवान् महावीर विरक्त होकर वनको चले गये, तब वह स्वयं भी विरक्त होकर पृथिवी छोड़ तपमे लीन हो गया।”

इसका निर्देश अन्य चरितोमे नहीं है। यह महावीरके विवाहके प्रसंगमे एक उल्लेखनीय यथाथ प्रतीत होता है। श्वे परम्परामे महावीरकी पत्नीका नाम यशोदा ही मिलता है। हरिवशके कथनका दूसरा उल्लेखनीय प्रसंग है कि भगवान् महावीरके निर्वाणके उपलक्ष्यमे भारतमे प्रतिवर्ष लोगोके द्वारा दीपमालिका पवका मनाया जाना—

ततस्तु लोक प्रतिवर्षमादरात् प्रसिद्धदीपालिकयात्र भारते ।
समुद्यत पूजयितु जिनेश्वर जिनन्द्रनिर्वाणविभूतिभक्तिभाक ॥

—६६।२१

इसका भी निर्देश किसी चरितकारने नहीं किया है। प्राचीन और अर्वाचीन जनमानसमे बहुत अन्तर था गया है। प्राचीन युगमे किसी व्यक्तिको उसके मात्र वतमान जीवनसे ही नहीं आँका जाता था किन्तु उसके अतीत जीवन सम्बन्धी जन्मपरम्परासे भी आँका जाता था। उससे उस व्यक्तिके विगत जीवनके उत्थान-पतनकी शृंखलासे बद्ध पाठकका मानस अपने जीवनके प्रति सुशिक्षित होता था। वह एक जन्मकी ही मृग-मरीचिकामे न फँसकर जीवनके यथाथरूपको देखता था। इससे उसे प्रबोध मिलता था, और मिलता था पतनसे उत्थान की ओर जानेका दिग्दर्शन। यही वजह है कि उपलब्ध महावीर चरितोमे महावीरके पूर्व जन्मोकी घटनाओको विशेष प्राधान्य दिया गया।

जैन परम्परामे ससारका सर्वोच्च पद है तीथकरत्व—धर्मतीर्थका प्रवर्तक होकर मोक्ष प्राप्त करना। मुक्ति तो अनेक प्राप्त करते हैं किन्तु वे सब धर्मतीर्थके प्रवर्तक नहीं होते। इसीसे तीथकरके गर्भमे आने और जन्म लेने का महत्त्व है। और उन्हे गर्भकल्याणक, जन्मकल्याणक कहा जाता है। जो भी व्यक्ति मोक्ष जाता है वह पहले अपनी माताके गर्भमे आता है, फिर जन्म लेता है, फिर प्रबुद्ध हो तप धारण करता है, फिर केवलज्ञान प्राप्त करता है, तब मोक्ष जाता है। इस तरह उसके भी गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण होते हैं किन्तु न उन्हे कल्याणक कहा जाता है और न उनका उतना सावजनिक महत्त्व ही होता है क्योंकि वह एक व्यक्तिगत जैसी बात है। किन्तु तीथकरका जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं होता। उसका जन्म तो धर्ममार्ग प्रवर्तनके लिए होता है जो उसके मोक्ष चले जानेपर भी चलता रहता है। जैसे भगवान् महावीरके निर्वाणको अढ़ाई हजार वर्ष बीतनेपर भी उनका धममाग चल रहा है और जनता उससे लाभान्वित हो रही है। इसीसे वस्तुतः तीथकर पद केवलज्ञान प्राप्त होने पर ही प्राप्त होता है इससे पहले तो वह वास्तवमें तीथकर नहीं होते। तीथका प्रवर्तन करने पर ही होते हैं और तीर्थका प्रवर्तन पूर्ण ज्ञान प्राप्त होनेपर ही होता है। जबतक राग-द्वेष, मोहका अस्तित्व है तबतक उपदेश की पात्रता नहीं मानी गयी। क्योंकि मनुष्य रागादिके वश होकर झूठ भी बोलता है। जब वह इस त्रिवेणीको पार करके पूर्ण ज्ञानी होता है तब वह धर्मोपदेशका पात्र होता है। तब उसकी उपदेशसभा लगती है जिसका नाम समवसरण है। उसमे सब ओरसे प्राणी आकर सम्मिलित होते हैं। किसीके आनेपर प्रतिबन्ध नहीं है। पशु-पक्षी तक पहुँचते हैं। किन्तु वहाँ वही पहुँचते हैं जिनका भविष्य उज्ज्वल होता है।

जैसे—इन्द्रभूति गौतम आदि भगवान् महावीरके समवसरणमे पहुँचे और उन्होंने भगवान्का शिष्यत्व स्वीकार कर प्रधान गणधरका पद पाया। भगवान्के पश्चात् दूसरा स्थान उनके गणधरोका ही होता है। वे ही भगवान्की वाणीका अवधारण करके उसे द्वादशागके रूपमे निबद्ध करते हैं और फिर शिष्य प्रशिष्य परम्परामे क्रमसे अवतरित होती हुई द्वादशागवाणी प्रवाहित होती है। इसीसे गणधरका बड़ा महत्त्व है। गणधरके अभावमे भगवान् महावीरकी वाणी ६५ दिन तक नहीं खिर सकी थी। गौतमके गणधर बनने पर ही उसका खिरना प्रारम्भ हुआ।

इस देशमे ज्ञान-विज्ञानके प्रसारमे ब्राह्मण वर्ण की महती देन है। भगवान् महावीरके प्राय सब गणधर ब्राह्मण थे। ब्राह्मण परम्परा वेद और जगत्कर्ता ईश्वरकी अनुगामिनी है और भगवान् महावीरके धममें दोनोको ही स्वीकार नहीं किया। ब्राह्मण परम्परा और श्रमण परम्परामे पारस्परिक विरोधका मूल

कारण यह विचारभेद भी है किन्तु उसी ब्राह्मण परम्परामें ऐसे सत्य-प्रेमी भी हुए जिन्होंने उसे हृदयसे स्वीकार किया और अपने गुरु महावीर भगवान्का अनुगमन किया ।

आचार्य सकलकीर्तिने अपने वीरवर्धमानचरितमें महाकवि असग की तरह ही केवलज्ञानके पश्चात् समवसरणका निर्माण कराकर गणधरकी उपलब्धि होनेपर भगवान्की देशना करायी है । पश्चात् उनका विहार कराकर राजगृहीमें समवसरणकी रचना करायी है । किन्तु भगवान्की प्रथम धर्मदेशना राजगृहीमें ही श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके ब्राह्ममुहूर्तमें होनेके प्राचीन उल्लेख है । ग्रन्थकारादिका परिचय ग्रन्थ सम्पादक प हीरालालजीने अपनी प्रस्तावनामें दिया है । हमें प्रसन्नता है कि उन्होंने ग्रन्थका सम्पादनादि कार्य परिश्रमपूर्वक समयसे किया है ।

सकलकीर्ति एक प्रभावशाली भट्टारक थे । भट्टारक परम्परा यद्यपि एक नवीन परम्परा थी और उसमें बुराइयाँ भी आ गयी थी । विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके ग्रन्थकार प आशाधरने अपने अनगार-धर्मामृतमें (२।९६) उनके आचरणको म्लेच्छोके तुल्य कहा है । किन्तु इस परम्पराने सरक्षणका भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । उसे भुलाया नहीं जा सकता । अस्तु ।

हम भारतीय ज्ञानपीठके सस्थापक दानवीर साहू शान्तिप्रसादजी और ज्ञानपीठकी अध्यक्षता उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमा जैनके अतिकृतज्ञ है जिनकी प्राचीन भारतीय साहित्यके उद्धारकी महती भावना तथा अभिरुचि है । ज्ञानपीठके मन्त्री बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी भी धन्यवादाह है जिनके सहयोग और श्रमसे मूर्तिदेवी ग्रन्थमालाका प्रकाशन कार्य बराबर प्रगति पर है ।

द्वि० भाद्रपद शुक्ल ५,
वि स २०३१

आ ने उपाध्ये
कैलाशचन्द्र शास्त्री

सम्पादकीय

भगवान् महावीरकी पचीस सौवी निर्वाण तिथिके महोत्सवके समय विभिन्न भाषाओमे रचित सभी महावीर-चरितोका प्रकाशन किया जाना आवश्यक है, ऐसा निर्णय भारतीय ज्ञानपीठके सचालकोने किया और तदनुसार संस्कृत भाषामे रचित प्रस्तुत चरितके सम्पादनका काय मुझे सौपा गया। इसका सम्पादन ऐ पन्नालाल दि जैन सरस्वती भवन ब्यावरकी प्रतियोके आधारपर किया गया है। प्रतियोका परिचय प्रस्तावनामे दिया गया है। उन प्रतियोके अतिरिक्त पुरानी हिन्दीमे सकलकीर्तिके इस चरितके अनुवादकी एक हस्तलिखित प्रति भी उक्त सरस्वती-भवनमे है। यद्यपि उसमे लेखन-काल नहीं दिया है, तथापि वह लगभग १०० वर्ष पुरानी अवश्य है। उसमे भाषाकारने आदि या अन्तमे कही भी अपना नाम नहीं दिया है। पर अनुवादमे प्रत्येक अधिकारकी श्लोक सख्या मूलके समान ही दी गयी है। अनेक सन्दिग्ध स्थलोपर इस प्रतिका उपयोग किया है। पाठमनिवासी स्व प मनोहरलालजी शास्त्रीने भी प्रस्तुत चरितका हिन्दी अनुवाद किया था, जिसे उन्होने स्वय ही अपने ग्रन्थोद्धारककार्यालयसे वि स १९७३ मे प्रकाशित किया था, जो कि इधर अनेक वर्षोंसे अप्राप्य है। इसके अनुवादमे श्लोक सख्याके अंक नहीं दिये गये हैं और मिलान करनेसे ज्ञात हुआ है कि अनेक स्थलोपर अनेक श्लोकोका अनुवाद भी नहीं है। प्रथम अधिकारके श्लोक ११ से लेकर ३३ तकके श्लोकोका अनुवाद न देकर एक पक्तिमे केवल यह लिख दिया गया है कि “इसी तरह शेष तीथकर जो ऋषभदेव आदिक है उनको भी तीन योगोसे नमस्कार करता हूँ।” फिर भी इस अनुवादसे अनेक सन्दिग्ध स्थलोपर मूल पाठके सशोधन करनेमे सहायता मिली है।

सरस्वती भवनकी ‘अ’ सकेतवाली प्रतिको आदर्श मानकर मूलका सम्पादन किया गया है। प्रतिके अति जीर्ण होनेसे अनेक स्थलोपर कुछ अक्षर खिर जानेसे उनकी पूर्ति अन्य प्रतियोसे की गयी है। उन्नीसवे अधिकारके पाँच श्लोकोके खण्डित अशोकी पूर्ति आमेर (जयपुर) के भण्डारकी प्रतिसे हुई है। इसके लिए मै डॉ कस्तूरचन्द कासलीवाल जयपुरका आभारी हूँ।

प्रस्तुत चरितके प्रकाशनके लिए मैं भारतीय ज्ञानपीठके सचालकोका आभारी हूँ।

ऐ पन्नालाल दि जैन
सरस्वती भवन ब्यावर
२० ८ ७३

}

—हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री
न्यायतीर्थ

प्रस्तावना

१ सम्पादन-प्रति परिचय—प्रस्तुत वधमान चरित्रका सम्पादन ऐलक पन्नालाल 'दि जैन सरस्वती भवनकी तीन प्रतियोंके आधारसे हुआ है। उनका परिचय इस प्रकार है—

अ—इस प्रतिका आकार १२ × ५ इंच है। पत्र सख्या १३९ है। प्रत्येक पृष्ठपर पक्ति सख्या ११ है और प्रति पक्ति अक्षर सख्या ३५-३६ है। इस प्रतिमे अन्तिम पत्र नहीं है, जिससे ग्रन्थकारकी प्रशस्तिका अन्तिम भाग छूट गया है। जितना अश १३९वें पत्रके अन्तमे उपलब्ध है, वह इस प्रकार है—

‘श्रीमूलसधे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्री कुन्दकुन्दान्वये भ श्री पद्मनन्दिदेवास्तत्पट्टे भट्टारक श्रीसकलकीर्त्तिदेवान् ’ ।

यह प्रति अति जीर्ण-शीर्ण होनेपर भी बहुत शुद्ध है। यद्यपि इसके अन्तमे प्रति लिखनेका समय नहीं दिया गया है, तथापि यह लगभग तीन सो वर्ष प्राचीन अवश्य होनी चाहिए। सभी श्लोक पडिमात्रामे लिखित है।

ब—इस प्रतिका आकार १० $\frac{1}{2}$ × ५ $\frac{1}{2}$ इंच है। पत्र सख्या ७५ है। प्रत्येक पृष्ठपर पक्ति सख्या १६ है। प्रति पक्ति अक्षर-सख्या ४४-४५ है। यह प्रति उक्त ‘अ’ प्रतिसे नकल की गयी प्रतीत होती है, क्योंकि उसमे जहाँ जो पाठ अशुद्ध या सन्दिग्ध है, ठीक वैसा ही पाठ इसमे भी है, तथा उस प्रतिमे जहाँ जो पाठ खण्डित या त्रुटित है, वह इसमे भी तथैव है। अन्तिम प्रशस्ति भी उसीके समान अपूर्ण है। हाँ, उसके आगे इतना अश और लिखा हुआ है—

‘श्री ल पुष्करणा ज्ञाती व्यास बनसीधर मछाराम रेवासी नागौर तेलीवाड ।’

इस प्रतिका कागज पुष्ट है और लिखावट लगभग १५० वर्ष पुरानी प्रतीत होती है।

स—इस प्रतिका आकार ११ × ५ $\frac{1}{2}$ इंच है। पत्र सख्या ८७ है। प्रति पृष्ठ पक्ति सरया १० है और प्रति पक्ति अक्षर-सख्या ३९-४० है। यह प्रति अपूर्ण है। इसमे प्रारम्भके १३ ही अधिकार लिखे गये हैं। यह वि स १९८२ के वैशाख वदी १० को लिखी गयी है। लेखक है नूपचन्द जैन पालम (देहली)। आश्चर्य इस बातका है कि लेखकने अपूर्ण ग्रन्थको पूर्ण कैसे मान लिया ?

उपर्युक्त तीन प्रतियोंके अतिरिक्त सरस्वती भवनमे पुरानी हिन्दीमे लिखित एक और हस्तलिखित प्रति है जिसमे मूल श्लोक तो नहीं है, पर अनुवादक्रमसे श्लोक सख्या दी हुई है। तथा अनुवादके अन्तमे उसका ७७०० श्लोकप्रमाण परिमाण भी लिखा है। इसका आकार १० $\frac{1}{2}$ × ५ $\frac{1}{2}$ इंच है। पत्र सख्या ३२३ है। प्रति पृष्ठ पक्ति सख्या ८ है और प्रति पक्ति अक्षर-सख्या ३५-३६ है। इसके अन्तमे लेखन-काल नहीं दिया है, तो भी कागज, स्याही आदिसे १०० वर्ष पुरानी अवश्य प्रतीत होती है।

२ वर्धमान चरित—जहा तक मेरी जानकारी है, दि सम्प्रदायमे भगवान् महावीरके चरितका विस्तृत वणन सबप्रथम गुणभद्राचार्यने अपने उत्तरपुराणमे किया है। तत्पश्चात् असग कविने वि स ९१० मे महावीर चरितका संस्कृत भाषामे एक महाकाव्यके रूपमे निर्माण किया। इसके पश्चात् संस्कृत भाषामे प्रस्तुत महावीर-चरितको लिखनेवाले भट्टारक सकलकीर्त्ति है। इस प्रकार संस्कृत भाषामे निबद्ध उक्त तीन चरित पाये जाते हैं।

प्राकृत भाषामे किसी दि आचायने महावीर चरित लिखा हो, ऐसा अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। हाँ, अपभ्रंश भाषामे पुष्पदन्त-लिखित महापुराणमे महावीर-चरित, जयमित्तहृत्लका वड्डमाणचरिउ, विबुध श्रीधरका वड्डमाणचरिउ और रयवू कविका महावीरचरिउ, इस प्रकार चार रचनाएँ पायी जाती हैं।

राजस्थानी हिन्दी भाषामे छन्दोबद्ध महावीररास भट्टारक कुमुदचन्द्रने लिखा है जो कि भ रत्नकीर्त्तिके

पट्टपर वि स १६५६ मे बठे थे। ऐ० पन्नालाल दि जैन सरस्वती भवनमे इसकी एक प्रति है जो कि वि स १७४० की लिखी हुई है। दूसरा हिन्दीमे छन्दोबद्ध महावीर पुराण श्री नवलशाहने वि स १८२५ मे रचा है, जो कि सूरतसे प्रकाशित भी हो चुका है।

यद्यपि सकलकीर्तिने प्रस्तुत चरितके प्रत्येक अधिकारके अन्तमे 'श्रीवीर-वर्धमानचरित्र' यह नाम दिया है, तथापि सुविधाकी दृष्टिसे हमने इसका नाम 'वर्धमानचरित' रखा है।

३ वर्धमान चरितका आधार—दि परम्परामें उपलब्ध उक्त सभी महावीर-चरितका आधार गुणभद्राचार्यका उत्तरपुराण रहा है, ऐसा उक्त ग्रन्थोके अध्ययनसे स्पष्ट ज्ञात होता है। हाँ, अपभ्रंश कवियोंने एक-दो घटनाओके उल्लेखोमे श्वे० परम्पराके महावीर चरितका भी अनुसरण किया है।

४ वर्धमान चरितके रचयिता—भ० सकल कीर्ति—प्रस्तुत चरितके निर्माता भ० सकलकीर्ति है। इन्होंने प्रस्तुत चरितके अन्तमे अपने नामका इस प्रकार उल्लेख किया है—

वीरनाथगुणकोटिनिबद्ध पावन वरचरित्रमिद च।

शोधयन्तु सुविदश्च्युतदोषा सवकीर्तिगणिना रचित यत् ॥

(अधिकार १९, श्लो २५६)

इस पद्यमे सकलकीर्तिने अपने नामका उल्लेख 'सर्वकीर्ति गणी'के रूपमे किया है। 'सकल' पदके देनेसे छन्दोभंग होता था, अत अपनेको 'सवकीर्ति' कहा है।

प्रश्नोत्तर श्रावकाचारके अन्तमे आपने अपना उल्लेख 'समस्तकीर्ति'के रूपमे भी किया है। यथा—

उपासकारयो विबुधै प्रपूज्यो ग्रन्थो महाधमकरो गुणाढ्य।

ममस्तकीर्त्यादिमुनीश्वरोक्त सुपुण्यहेतुजयताद् धरित्र्याम् ॥

(परिच्छेद २४, श्लो १४२)

पुराणसार सग्रह ग्रन्थके अन्तमे आपने अपना उल्लेख 'समस्तकीर्तियोगी' के रूपमे किया है। यथा—

पुराणसार किल सग्रहान्त समस्तकीर्त्याह्वययोगिनोक्त।

ग्रन्थो धरित्र्या सकलै सुसधैर्वीद्धि प्रयात्वेव हि यावदार्या ॥

(अधिकार १५, श्लो १८)

किन्तु मूलाचार प्रदीपमे आपने अपने 'सकलकीर्ति' नामका स्पष्ट उल्लेख किया है। यथा—

रहितसकलदोषा ज्ञानपूर्णा ऋषीन्द्रा-

स्त्रिभुवनपतिपूज्या शोधयन्त्वेव यत्नात्।

विशदसकलकीर्त्याख्येन चाचारशास्त्र-

मिदमिह गणिना सकीर्तित धर्मसिद्धयै ॥

(अधिकार १२, श्लो २२४)

इस प्रकार यद्यपि पद्य-रचनामे यथासम्भव भिन्न-भिन्न शब्द-विन्यासके द्वारा आपने 'सकलकीर्ति' नामको सूचित किया है, तथापि प्रत्येक ग्रन्थके अधिकार या परिच्छेदके अन्तमे आपने प्रस्तुत ग्रन्थके समान 'इति भट्टारकश्री सकलकीर्तिविरचिते' लिखकर अपने नामका स्पष्ट निर्देश किया है, जिससे कि उसे उनके द्वारा रचे जानेमे किसी भी प्रकारका सन्देह नहीं रह जाता है।

५ सकलकीर्तिका समय—'भट्टारक-सम्प्रदाय'के लेखानुसार सकलकीर्ति नामके तीन भट्टारक हुए हैं—एक पद्मनन्दिके शिष्य, दूसरे पद्मकीर्तिके शिष्य और तीसरे सुरेन्द्रकीर्तिके शिष्य। इनमे प्रथमका समय स १४३७ से १४९९ है (देखो—भट्टारकसम्प्रदाय लेखाक ३३० से ३३४)। दूसरे सकलकीर्तिका समय स १७११ से १७२० है (देखो—भ स ले० ५३३ से ५३७)। तीसरे सकलकीर्तिका समय स १८१६ का पाया जाता है (देखो—भ स ले ७६३)।

इन उक्त तीनोंमे से प्रस्तुत ग्रन्थके रचयिता प्रथम सकलकीर्ति है। यद्यपि इन्होंने अपने किसी भी

ग्रन्थमे उसके रचे जानेके कालका निर्देश नहीं किया है, तथापि निम्न लिखित उद्धरणोंसे ये प्रथम सकलकीर्ति सिद्ध होते हैं—

(१) लेखाक ३३१—चौबीसमूर्ति

स १४९० वैशाख सुदी ९ सनौ श्रीमूलसधे नन्दीसधे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुन्दकुन्दा-
चार्यान्वये भ पद्मनन्दी तत्पट्टे श्री शुभचन्द्र तस्य भ्राता जगत्त्रयविख्यात मुनि श्री सकलकीर्ति-उपदेशात्
हुबडजातीय ठा नरवद भार्या बला तयो पुत्र ठा देपाल अर्जुन भीमा कृपा चासण चापा कान्हा श्री आदिनाथ-
प्रतिमेय ॥ (सूरत, दा ५३)

लेखाक ३३२—पार्श्वनाथमूर्ति

सवत् १४९२ वर्षे वैशाखवदि १० गुरु श्रीमूल सधे भ श्रीपद्मनन्दिदेवा तत्पट्टे श्रीशुभचन्द्रदेवा
ततभ्राता श्रीसकलकीर्ति-उपदेशात् हुबडन्याति उन्नेश्वरगोत्रे ठा लीबा भार्या कह श्रीपार्श्वनाथ नित्य प्रणमति
स तेजा टोई श्रा ठाकरसी हीरा देवा मूडलि वास्तव्य प्रतिष्ठिता । (भा ७, पृष्ठ १५)

लेखाक ३३३ शिलालेख

स्वस्ति श्री १४९४ वर्षे वैशाखसुदी १३ गुरौ मूलसधे भ श्री पद्मनन्दी तत्पट्टे श्रीशुभचन्द्र भ
श्री सकलकीर्ति उपदेशाद्यौ व्याव (?) कृत्वा सधवै नरपाल समस्त श्री सध दिगम्बर अर्बदाचले आगिह-
तीर्थ सीताबरु प्रासाद दिगम्बर पाछि दछाव्या श्री आदिनाथ बडादीकीजी श्री नेमिनाथ जी जिह श्री सीतल
हरबुध प्रसाद दिगम्बर पाछिह पेहरी तिन वहण री महापूज धज अवासकरी सधवी गोव्यद प्रशस्ति
लिखाती । (आबू, जैनमित्र ३-२ १९२१)

लेखाक ३३४, आदिनाथमूर्ति

स १४९७ मूलसधे श्री सकलकीर्ति हुबडजातीय शाह कर्णा भार्या भोली सुता सोमा भात्री मोदी
भार्या पासी आदिनाथ प्रणमति ॥ (सूरत, दा पृ ५२)

‘भट्टारक सम्प्रदाय’ से उद्धृत उक्त मूर्ति और शिलालेखोंसे तीन बातें सिद्ध होती हैं—पहली तो यह
कि सकलकीर्ति भ पद्मनन्दीके शिष्य थे, दूसरी यह कि वे भ शुभचन्द्रके भाई थे और तीसरी यह कि उनके
उपदेशसे वि स १४९० से लगाकर स १४९७ तक उक्त मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा हुई है ।

६ जीवन-परिचय—भगवान् सकलकीर्तिके जीवनकालका बहुत कुछ परिचय जैनसिद्धान्त भास्करमे
प्रकाशित ऐतिहासिक पत्रके निम्न अंशसे प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है—

‘आचार्य श्री सकलकीर्ति वष २६ छविसतो सम्थाह तथा तीवारे सयम लेई वर्ष ८ गुरापासे रहीने
व्याकरण २ तथा ४ तथा काव्य ५ तथा न्यायशास्त्र तथा सिद्धान्तशास्त्र गोम्मटसार तथा त्रिलोकसार तथा
पुराणसर्वे तथा आगम तथा अध्यात्म इत्यादि सवशास्त्र पूर्वदेशमाहे रहीने वर्ष ८ माहे भणीने श्री वाग्वर
गुजरात माहे गाम खोडेपे पधार्या, वष ३४ सस्था थई तीवारे स १४७१ ने वर्षे साहा श्रीयौचाने गृहे
आहार लीधो । तेहा थकी वाग्वरदेश तथा गुजरात माहे विहार कीधो । वर्ष २२ पयन्त स्वामी नग्न हुता
जुमले वष ५६ छप्पन पर्यन्त आवर्या भोगवीने धर्मप्रभाववीने सवत् १४९९ गाम मेसाणे गुजरात जईने श्री
सकलकीर्ति आचार्य हुआ (भुआ) पीछे श्री नोगामे सधे पदस्थापन करी ।

(जैनसिद्धान्त भास्कर, भाग १३, पृ ११३)

इस ऐतिहासिक पत्रके उक्त अंशसे सकलकीर्तिके समग्र जीवनपर अच्छा प्रकाश पडता है और अनेक
निर्णय प्राप्त होते हैं । अर्थात् सकलकीर्ति २६ छब्बीस वषकी अवस्था तक घरमे रहे । तत्पश्चात् सयमको
स्वीकार करके ८ वष तक गुरुके पास रहकर व्याकरण, काव्य, न्याय और सिद्धान्त शास्त्रोंका अध्ययन करते
रहे । चौतीस वषकी अवस्थामे आप गुजरातके ग्राम खोडे पधारे । उस समय स १४७१ मे आपने साह श्री
यौचा (पौचा ?) के घर आहार लिया । इस उल्लेखसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि आपका जन्म वि स
१४३७ मे हुआ था, क्योंकि स १४७१ मे आपकी आयु ३४ वर्षकी थी । इस प्रकार १४७१ मे से ३४ घटा
देनेपर १४३७ शेष रहते हैं । सकलकीर्ति २२ वष तक नग्न मुनिवेषमे रहे । इस प्रकार उपयुक्त (२६ + ८

+ २२ = ५६) छप्पन वर्षकी आयु तक अर्थात् वि स १४९३ तक आपका दिगम्बर वेषमे रहना सिद्ध होता है। इसके पश्चात् पूर्वोक्त लेखाक ३३१, ३३२, ३३३ और ३३४ के अनुसार वि स १४९७ तक उनका प्रतिष्ठादि कराना सिद्ध होता है और उक्त ऐतिहासिक पत्रके अनुसार वि स १४९९ मे आपका मरण और चरण-स्थापन सिद्ध है। इस प्रकार सकलकीर्तिकी आयु ६२ वर्ष सिद्ध होती है। यत ऐतिहासिक पत्रमे २२ वर्ष नग्न रहनेका स्पष्ट उल्लेख है, और लेखाकोके अनुसार स १४९७ तक प्रतिष्ठादि कराना भी सिद्ध है, उससे यही सिद्ध होता है कि सकलकीर्ति अपने जीवनके अन्तिम कालमे भट्टारकीय वेषके अनुसार वस्त्र-धारी हो गये थे।

यद्यपि उक्त ऐतिहासिक पत्रमे भट्टारकीकी वि स १३०० से लेकर वि स १८०५ तक बागड-देशमे होनेवाले भट्टारकीकी पट्टावली दी गयी है अत उसमे सकलकीर्तिके ग्रन्थरचना-कालका कोई उल्लेख नहीं है और मूर्तिलेखो आदिसे उनका वि स १४९७ तक प्रतिष्ठा आदिके करानेका उल्लेख मिलता है, इससे यह सिद्ध होता है कि सकलकीर्ति वि स १४७१ से लेकर स १४९० तक वे एकमात्र ग्रन्थोकी रचना करनेमे सलग्न रहे। उन्होने अपने किसी भी ग्रन्थमे उसके रचनाकालको नहीं दिया है, तो भी उनके निर्मित ग्रन्थोको देखनेसे यह अवश्य प्रतीत होता है कि उन्होने चार अनुयोगोके क्रमसे अपने ग्रन्थोकी रचना की होगी। तदनुसार आदिनाथ आदि तीर्थकरोके चरित एव अन्य चरित पहले रचे। पुन प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, मूलाचार प्रदीप आदि ग्रन्थाकी रचना की। तत्पश्चात् कमविपाक, सिद्धान्तसार दीपक आदि ग्रन्थोकी रचना की और अन्तिम कालमे समाधिमरणोत्साहदीपक जैसे ग्रन्थोकी रचना की होगी।

ऊपर दिये गये भट्टारक सम्प्रदायके लेखाक ३३१ और ३३२ मे सकलकीर्तिको भ० शुभचन्द्रका भाई बताया गया है। तथा उक्त ऐतिहासिक पत्रके आधारपर उनका जन्म स १४३७ मे सिद्ध होता है। सकलकीर्तिसे उनके भाई भ शुभचन्द्र कितने बड़े थे, यह भट्टारक सम्प्रदायके लेखाक २४६ की पट्टावलीसे ज्ञात होता है। वह इस प्रकार है—

‘स १४५० माह सुदि ५ भ शुभचन्द्रजी गृहस्थ वष १६ दिक्षा वष २४ पट्टवष ५६ मास ३ दिवस ४ अन्तर दिवस ११ सव वर्ष ९६ मास ३ दिवस २५ ब्राह्मण जाति पट्ट दिल्ली।

(बलात्कार गण, मन्दिर, अजनगाँव)

इस पट्टावलीके अनुसार शुभचन्द्र स १४५० मे १६ वर्षके थे, अत १४५० मे-से १६ घटा देनेपर स १४३४ मे उनका जन्म होना सिद्ध होता है। ऊपर ऐतिहासिक पत्रके आधारपर सकलकीर्तिका जन्म स १४३७ मे सिद्ध होता है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि शुभचन्द्र सकलकीर्तिसे ३ वर्ष बड़े थे। दूसरी बात यह भी ज्ञात होती है कि शुभचन्द्र की जन्मजाति ब्राह्मण थी। अत सोलह वर्षमे ही उन्होने दीक्षा ली, अत वे बालब्रह्मचारी और अविवाहित ही ज्ञात होते हैं।

‘भट्टारक सम्प्रदाय’क पृ ९६ पर जो बलात्कारगणकी उत्तर शाखाका कालपट दिया है, तदनुसार भ पद्मनन्दिके प्रथम शिष्य शुभचन्द्र जयपुर-दिल्ली शाखाके, द्वितीय शिष्य सकलकीर्ति ईडरशाखाके और तृतीय शिष्य देवेन्द्रकीर्ति सूरत शाखाके पट्टपर आसीन हुए। इनमे भ शुभचन्द्रका समय स १४५० से १५०७ तक, सकलकीर्तिका समय स १४५० से १५१० तक और देवेन्द्रकीर्तिका समय स १४५० से १४९३ तक रहा है, यह बात ‘भट्टारक सम्प्रदाय’के कालपटोमे दी गयी है। परन्तु १४९९ के बादका कोई प्रमाण वहाँपर नहीं दिया गया है।

इस प्रकार ऊपरके विवेचनसे सकलकीर्तिका जीवनकाल वि स १४३७ से १४९९ तक निर्विवाद सिद्ध होता है। इससे २६ वर्ष तक वे गृहस्थ अवस्थामे रहे और ४७ वर्ष तक सयमी जीवन व्यतीत करते हुए अनेक ग्रन्थोकी रचना की और अनेक स्थानोपर मूर्तिप्रतिष्ठा आदि करते रहे।

१ किन्तु यदि शुभचन्द्र वास्तवमें सकलकीर्तिके बड़े भाई है, तो वे ब्रह्मग नहीं, किन्तु हमड होना चाहिए। मेरे विचारसे दोनों गुरुभाई थे।—सम्पादक

यद्यपि सकलकीर्तिने अपने जन्मस्थान और माता-पिता आदिका कोई भी उल्लेख नहीं किया है, तथापि गुणराजरचित सकलकीर्तिज्ञानसे पता चलता है कि उनका जन्म 'अणहिल्लपुर पट्टण' (गुजरात) निवासी हुमड जातीय श्री करमसिंहजीकी पत्नी शोभादेवीकी कुक्षिसे हुआ था । उनके माता-पिताने उनका नाम पूर्णसिंह रखा था । वे अपने पाँचो भाइयोमे सबसे ज्येष्ठ थे । विवाहित होनेके पश्चात् आप ससारसे विरक्त हो गये और 'नेणवा' ग्राम आकर उन्होंने भ पद्मनन्दिसे दीक्षा ले ली । गुरुने उनका नाम सकलकीर्ति रखा । उक्त रासके उक्त अर्थसूचक पद्य इस प्रकार है—

वदिस्यु ए गुरुनिग्रन्थ मूलसधि गुरुगाइस्यु ए ।
 गुर्जर देश मझार अणहिल्लाडो पाटणु ए ॥२॥
 हुँबडए ज्ञाति सिणगार करमसी साह तिहाँ वसिए ।
 सोभिसिरीए देवीयकत च्यारि पदारथ तिहा बसिए ॥३॥
 तस धरि ए नन्दन पाँच वन कण पूत सजूत ताय ।
 पालए जिणवर धर्म सातइ व्यसन म इच्छति ताय ॥४॥
 पूनसिघ ए पहिलो पूत बधन तोडि कमधूय ।
 विग-धिग ए ए ससार भवि भवि जामण मरण भय ॥५॥

परियणू ए माय ने बाप सबोधि करि नीकल्या ए ।
 पहुँच्यो ए साबरदेस नयणवाह पुरी तिहा गया ए ॥१२॥
 तिहा छे ए जिणवरवम पोमनदी गुरु पाट धरु ।
 पूनसिघ ए सेवइ पाए गुरुक्रमि लीधऊ ज्ञानधरु ॥१३॥

श्री सकलकीरति गुरुनाम कीयो श्रीमूलसघ सिणगार ।
 ता पदमनदी गुरु पायतली फोड्या बहुत ससार ॥१९॥

७ सकलकीर्ति-रचित ग्रन्थ

- १ कम विपाक—सस्कृत गद्यमे रचित इसका प्रमाण ५४७ श्लोक है ।
- २ धर्म प्रश्नोत्तर-धार्मिक प्रश्नोको उठाकर उनके उत्तर रूपमे रचित पद्यमय यह ग्रन्थ १५०० श्लोक प्रमाण है ।
- ३ प्रश्नोत्तर श्रावकाचार-प्रश्न और उत्तरके रूपमे श्रावक धर्मका विस्तृत वर्णन करनेवाले इस ग्रन्थका प्रमाण २८८० श्लोक है ।
- ४ मूलाचार प्रदीप-प्राकृत मूलाचारको आधार बनाकर मुनिधमके वर्णन करनेवाले इस ग्रन्थका प्रमाण ३३६५ श्लोक है ।
- ५ सिद्धान्तसार दीपक-जैन सिद्धान्तके विषयोका विस्तृत एव सुगम रीतिमे वर्णन करनेवाले ग्रन्थका प्रमाण ४५१६ श्लोक है ।
- ६ सार चतुर्विंशतिका प्रमाण २५२५ श्लोक है ।
- ७ सुभाषितावली का प्रमाण ५७५ श्लोक है ।
- ८ आदिनाथ या वृषभचरितका प्रमाण ४६२८ श्लोक है ।
- ९ शान्तिनाथ चरितका प्रमाण ४३७५ श्लोक है ।
- १० मल्लिनाथ चरित ९२४ श्लोक प्रमाण है ।
- ११ पार्श्वनाथ चरित २८५० श्लोक प्रमाण है ।
- १२ वधमान चरित ३०५० श्लोक प्रमाण है ।

- १३ पुराणसार सग्रह—इसमें चौबीस तीथकरो, चक्रवर्तियो आदि शलाकापुरुषो और उनके समयमें होनेवाले अन्य भी महापुरुषोके चरितोका वणन गद्य और पद्यमें किया गया है। इसका प्रमाण ५००० श्लोक है।
- १४ श्रीपाल चरित १६०० श्लोक प्रमाण है।
- १५ सुकुमाल चरित ११०० श्लोक प्रमाण है।
- १६ सुदशन चरित ९०० श्लोक प्रमाण है।
- १७ व्रत कथाकोष—इसका प्रमाण १६५७ श्लोक है। इसमें २१ व्रतो की कथाएँ दी गयी है।

जिनका विवरण इस प्रकार है—

१ एकावली व्रत कथा	११ श्रुतस्कन्ध कथा
२ द्विकावली ,,	१२ दश लक्षण व्रत कथा
३ रत्नावली ,,	१३ कनकावली ,,
४ नन्दीश्वर पक्ति कथा	१४ पुरन्दर विधि ,,
५ शीलकल्याण कथा	१५ मुक्तावली व्रत ,,
६ नक्षत्रमाला व्रत कथा	१६ अक्षय निधि ,,
७ विमान पक्ति ,,	१७ सुगन्ध दशमी ,,
८ मेहपक्ति ,,	१८ जिनमुखावलोकन कथा
९ श्रुत ज्ञानविधि कथा	१९ मुकुट सप्तमी व्रत कथा
१० सुख सम्पत्ति ,,	२० चन्दन षष्ठी व्रत कथा
	२१ अनन्त व्रत कथा कथा।

- १८ तत्त्वार्थदीपक—तत्त्वार्थसूत्रके प्रमुख विषयो पर प्रकाश डालनेवाले इस ग्रन्थका प्रमाण ११०० श्लोक है।
- १९ आराधना प्रतिबोध ५५ श्लोक है।
- २० समाधि मरणोत्साह दीपक २१५ श्लोक है।

उपर्युक्त सर्व ग्रन्थोकी हस्तलिखित प्रतियाँ ए० पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवनमें विद्यमान है। उन्हीके आधार पर उक्त ग्रन्थोके श्लोकोका प्रमाण दिया गया है। इनके अतिरिक्त सकलकीर्ति-रचित समाधि-मरणोत्साह दीपक नामक ग्रन्थ सानुवाद प्रकाशित हो चुका है।

उक्त ग्रन्थोके अतिरिक्त राजस्थानके जैनशास्त्र भण्डारोकी ग्रन्थ सूचीसे सकलकीर्ति-रचित निम्नलिखित ग्रन्थोका और भी पता चला है—

१ अष्टाह्निक पूजा सस्कृत	९ आदित्यवार कथा हिन्दी
२ गणधर बलय पूजा ,,	१० आराधना प्रतिबोध ,,
३ उत्तरपुराण ,,	११ मुक्तावली कथा ,,
४ राम पुराण ,,	१२ मुक्तावली रास ,,
५ यशोधर चरित ,,	१३ सोलहकारण रास ,,
६ धन्यकुमार चरित ,,	१४ रक्षाबन्धन कथा सस्कृत
७ चन्द्रप्रभ चरित ,,	१५ नेमीश्वर गीत हिन्दी
८ जम्बूस्वामि चरित ,,	१६ रत्नत्रय रास ,,

उक्त ग्रन्थोके अतिरिक्त प परमानन्द शास्त्रीके लेखानुसार निम्नलिखित ग्रन्थ भी सकलकीर्तिने रचे है—

१ परमात्मराज स्तोत्र	५ आगमसार
२ पार्श्वनाथाष्टक	६ णमोकार गीत
३ पंचपरमेष्ठी पूजा	७ सोलहकारण पूजा
४ द्वादशानुप्रेक्षा	८ मुक्तावली गीत

इस प्रकार आपके द्वारा रचे गये ग्रन्थोकी सख्या ४४ ज्ञात हो गयी है। सम्भव है कि पुराने भण्डारोकी छानबीन करनेपर और भी आपकी रचनाएँ उपलब्ध होंगे। प्रारम्भमे दिये गये २० ग्रन्थोके श्लोकोका प्रमाण ४४३६२ है। तत्पश्चात् उल्लिखित २४ ग्रन्थोका परिमाण यदि ३० हजार श्लोक प्रमाण भी मान लिया जाये, तो आपके द्वारा रचित सब श्लोक सरया ७५ हजारके लगभग पहुँचती है।

उक्त ग्रन्थोको देखते हुए यह निस्कोच कहा जा सकता है कि आपकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी और आपने चारो अनुयोगोपर ग्रन्थ-रचना की है।

सकलकीर्तिने अपने किसी भी ग्रन्थमे अपना कोई विस्तृत परिचय नहीं दिया है, न गुरु आदिका ही उल्लेख किया है, केवल अपने नामका ही निर्देश किया है। किन्तु आपके शिष्य ब्र जिनदामने अपने द्वारा रचित जम्बूस्वामीचरित्रमे आपका कुछ परिचय इस प्रकार दिया है—

श्रीकुन्दकुन्दान्वयमौलिरत्न श्रीपद्मनन्दिर्विदित पृथिव्याम् ।

सरस्वतीगच्छविभूषण च बभूव भव्यालिसरोजहस ॥२३॥

तत्राभवत्तस्य जगत्प्रसिद्धे पट्टे मनोज्ञे सकलादिकीर्ति ।

महाकवि शुद्धचरित्रधारी निर्ग्रन्थराजा जगति प्रसिद्ध ॥२४॥

अर्थात्—श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके अन्वयमे सरस्वतीगच्छके आभूषण भव्यालिसरोजहस, जगत्प्रसिद्ध श्रीपद्मनन्दि हुए। उनके जगत्प्रसिद्ध पट्टपर सकलकीर्ति विराजमान हुए, जो कि महाकवि, शुद्धचारित्रके धारक और जगत्मे प्रसिद्ध निर्ग्रन्थराज थे।

अपने ग्रन्थको समाप्त करते हुए ब्र जिनदासने लिखा है—

“इत्यार्षे श्रीजम्बूस्वामिचरित्रे भट्टारकश्रीसकलकीर्तितत्शिष्यब्रह्मचारिश्रीजिनदासविरचिते विद्युच्चर-महामुनिसर्वार्थसिद्धिगमनो नामैकादश सग ॥

उपसहार

इस प्रकार उक्त प्रशस्ति, सकलकीर्तिरास' और जैनसिद्धान्तभास्करके भाग १३वै के पृ ११३ पर प्रकाशित ऐतिहासिक पत्रसे आपके जीवन और समय आदिका परिचय प्राप्त हो जाता है। सकलकीर्तिकी दो-तीन रचनाओके सिवाय शेष सभी रचनाएँ अप्रकाशित हैं। उनके प्रकाशनका प्रयत्न किया जाना चाहिए।

८ प्रस्तुत वर्धमानचरित्रकी तुलना और विशेषता—

भगवान महावीरके चरित्र-चित्रण करनेवालोमे गुणभद्राचार्यका प्रथम स्थान है, यह प्रारम्भमे लिखा जा चुका है। उनके द्वारा वर्णित चरित्रको ही असग कविने एक महाकाव्यके रूपमे रचा है। यही कारण है कि उसमे चरित्र-चित्रणकी अपेक्षा घटनाचक्रोके वर्णनका आधिक्य दृष्टिगोचर होता है। असगने भ महावीरके पूर्व भवके त्रिपृष्ठका वर्णन पूरे पाँच सर्गोमे किया है। असगने समग्र चरित्रके १०० पत्रोमे-से केवल त्रिपृष्ठके वर्णनमे ४० पत्र लिखे हैं।

असगने भ महावीरके पाँचो कल्याणकोका वर्णन यद्यपि बहुत ही सक्षेपमे दिगम्बर-परम्पराके अनुसार ही किया है, तथापि दो-एक घटनाओके वर्णनपर श्वेताम्बर-परम्पराका भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यथा—

(१) जन्मकल्याणकके लिए आया हुआ सौधर्मेन्द्र माताके प्रसूतिगृहमे जाकर उन्हे मायामयी निद्रासे सुलाकर और मायामयी शिशुको रखकर भगवान्को बाहर लाता है और इन्द्राणीको सौपता है

मायार्भक प्रथमकल्पपतिर्विधाय मातु पुरोऽथ जननाभिषवक्रियायै ।

बाल जहार जिनमात्मरुचा स्फुरन्त कार्यान्तरान्नु बुधोऽपि करोत्यकार्यम् ॥

शच्या धृत करयुगे नतमब्जभासा निन्धे सुरैरनुगतो नभसा सुरेन्द्र ।
स्कन्धे निधाय शरदभ्रसमानमूर्तेरैरावतस्य मदगन्धहतालिपङ्क्ते ॥

(सग १७, श्लोक ७२-७३)

(२) जन्माभिषेकके समय श्वे परम्परानुसार सुमेरुपर्वतके कम्पित होनेका उल्लेख असगने किया है । यथा—

तस्मिस्तदा क्षुवति कल्पितशैलराजे
घोणाप्रविष्टसलिलात्पथुकेऽप्यजस्रम ।

इन्द्रा जरत्तृणमिवैकपदे निपेतु-

वींय निसगजमनन्तमहो जिनानाम् ॥

(सग १७, श्लो ८२)

दि परम्परामे पद्यचरितमे भी सुमेरुके कम्पित होनेका उल्लेख है, जो कि श्वे विमलसूरिकृत प्राकृत 'पउमचरिउ'का अनुकरण प्रतीत होता है । पीछे अपभ्रंश चरितकारोने भी इनका अनुसरण किया है ।

दि परम्पराके अनुसार भ महावीर अविवाहित ही रहे है, फिर भी रयधु कविने अपने 'महावीर-चरिउ' मे माता-पिताके द्वारा विवाहका प्रस्ताव भ महावीरके सम्मुख उपस्थित कराया है और भगवान्के द्वारा बहुत उत्तम ढंगसे उसे अस्वीकार कराया है, जो कि बिलकुल स्वाभाविक है । अपने पुत्रको सबप्रकारसे सुयोग्य और वयस्क देखकर प्रत्येक माता-पिताको उसके विवाहकी चिन्ता होती है । परन्तु सकलकीर्तिने इस अशपर कुछ भी नहीं लिखा है ।

भ महावीर जब दीक्षाथ वनको जा रहे थे, तब उनके वियोगसे विह्वल हुई त्रिशला माताका पीछे-पीछे जाते हुए जो उसके करुण विलापका चित्र खीचा है, वह एक बार पाठकके आँसोमे भी आँसू लाये बिना नहीं रहेगा । विलाप करती हुई माता वनके भयानक कष्टोका वणन कर महावीरको लौटानेके लिए जाती है, मगर, महत्तरजन उसे ही समझा बुझाकर वापस राजभवनमे भेज देते है ।

श्रीधरने अपभ्रंश भाषामें रचित अपने 'बड्ढमाणचरिउ' भ महावीरका चरित दि परम्परानुसार ही लिखा है, तो भी कुछ घटनाओका उन्होने विशिष्ट वर्णन किया है । जैसे—

त्रिपृष्ठनारायणके भवमे सिंहके उपद्रवसे पीडित प्रजा जब उनके पितासे जाकर कहती है, तब वे उसे मारनेको जानेके लिए उद्यत होते है । तब कुमार त्रिपृष्ठ उन्हे रोकते हुए कहते है—

जइ मह सतेवि असि वरु लेवि पसुणिग्गह कएण ।

अट्ठिउ करि कोउ वइरि विलोउ ता कि मइतणएण ॥

अर्थात्—यदि मेरे होते सन्ते भी आप खड्ग लेकर एक पशुका निग्रह करने जाते है तो फिर मुझ पुत्रसे क्या लाभ ?

ऐसा कहकर त्रिपृष्ठकुमार सिंहको मारनेके लिए स्वयं जगलमे जाता है और विकराल सिंहको दहाडते हुए सम्मुख आता देखकर उसके खुले हुए मुखमे अपना वाम हाथ देकर दाहिने हाथसे उसके मुखको फाड देता है और सिंहका काम तमाम कर देता है । इस घटनाका वणन कविने इस प्रकार किया है—

हरिणा करेण णियमिवि थिरेण, णिद्दमणेण पुणु तक्खणेण ।

दिहु इयरु हत्थु सगरे समत्थु, वयणतराले पेसिवि विकराले ॥

पीडियउ सीहु लोलत जीहु, लोयणजुएण लोहियजुएण ।

दावणिजाल अविरलविशाल, थुवमत भाइ कोवेण णाइ ॥

पवियारुओण हरि मारिऊण, तहो लोयहिएहि तणु णिसामएहि ॥

(व्यावर भवन, प्रतिपत्र ३५ B)

सिंहके मारनेकी इस घटनाका वर्णन श्वे ग्रन्थोमे भी पाया जाता है ।

जयमित्त हल्लने भी अपभ्रंश भाषामे 'वड्डमाणचरिउ' रचा है, जो कवित्वकी दृष्टिसे बहुत उत्तम है । इसमे जन्माभिषेकके समय मेरु-कम्पनकी घटनाका इस प्रकार वणन किया गया है—

लइवि करि कलसु सोहम्म तियसाहिणा,
 पेक्खि जिनदेहु सदेहु किउ गियमणा ।
 हिमगिरिदत्थ सरसरिसु गभीरओ ।
 गगमुह पमुह सुपवाह बहुणीरओ ॥
 खिवमि किम कुभु गयदतु कहि लब्भई,
 सूर विबुव्व आवरिउ णह अब्भई ।
 सक्कु सकतु तयणाणि सकप्पिओ,
 कणयगिरि मिहृ चरणगुलीचप्पिओ ॥
 टलिउ गिरिराउ खरहडिय सिलसचया,
 पडिय अमरिद थरहरिय सपवचया ।
 रडिय दक्करिण गुजरिय पचाणणा,
 तसिय किडि कुम्म उव्वसिय तरुकाणणा ॥
 भरिय सरि विवर झलहलिय जलणिहि सरा,
 हुवउ जग खोहु बहु मोक्खु मोहियधरा ।
 ताम तिय सिदु णिछतु अप्पउ घण,
 वीर जय वीर जपतु कयवदण ॥

धत्ता—जय जय जय वीर वीरिउ णाण अणतसुहा ।

महु खमहि भडारा तिहुअणसारा कवणु परमाणु तुहा ॥१८

भावाथ—जैसे ही सौधमेन्द्र कलशोको हाथोमे लेकरके अभिषेक करनेके लिए उद्यत हुआ, त्योही उसके मनमे यह शका उत्पन्न हुई कि भगवान् तो बिलकुल बालक है फिर इतने विशाल कलशोके जलप्रवाहको मस्तक पर कैसे सह सकेगे ? तभी तीन ज्ञानधारी भगवान्ने इन्द्रकी शकाके समाधानार्थ अपने चरणकी एक अगुलीसे सुमेरुको दबा दिया । उसे दबाते ही शिलाएँ गिरने लगी, वनोमे निर्द्वन्द्व बैठे गज चिग्घाड उठे, सिंह गर्जना करने लगे और सारे देवगण भयसे व्याकुल होकर इधर-उधर देखने लगे । सारा जगत् क्षोभित हो गया । तब इन्द्रको अपनी भूल ज्ञात हुई और अपनी निन्दा करता हुआ तथा भगवान्की जय-जयकार करता हुआ क्षमा माँगने लगा—हे अनन्त ज्ञान, सुख और वीरके भण्डार, मुझे क्षमा करो, तुम्हारे बलका प्रमाण कौन जान सकता है ?

जयमित्तहल्लने एक और भी नवीन बात कही है कि भगवान् केवलज्ञानके उत्पन्न होनेके पश्चात् इन्द्रभूति गौतमके समागम नहीं होने तक ६६ दिन दिव्यध्वनि नहीं खिरने पर भी भूतलपर विहार करते रहे । यथा—

णिग्गयाइय समेउ भरतह, केवलि किरणहो धर विरहतह ।
 गय छासट्ठि दिणतर जामहि, अमराहिउ मणि चितइ तामहि ॥
 इम सामग्गि सयल जिणणाहहो, पचमणाणुग्गम गयवाहहो ।
 किं कारणु ण उ वाणि पयासइ, जीवाइय तच्चाइ ण भासइ ॥

(व्यावर भवन, प्रति पत्र ८३ B)

भावाथ—केवलज्ञान रूपी सूर्यकी किरणोके धारण कर लेने पर निर्गुन मुनि आदिके साथ भारतवर्षमे विहार करते हुए छयासठ दिन बीत जानेपर भी जब भगवान्की दिव्य वाणी प्रकट नहीं हुई, तब अमरेश्वर इन्द्रके मनमे चिन्ता हुई कि सकल सामग्रीके होनेपर भी क्या कारण है कि भगवान् अपनी वाणीसे जीवादि तत्त्वोको नहीं कह रहे हैं ?

भ कुमुदचन्द्रने अपने महावीर रासकी रचना राजस्थानी हिन्दीमे की है और कथानक-वर्णनमे प्राय सकलकीर्तिके वधमानचरित्रका ही अनुसरण किया है। इसकी रचना स १६०९ मगसिर मासकी पचमी रविवारको पूर्ण हुई है।

कवि नवलशाहने अपने वधमानपुराणकी रचना हिन्दी भाषामे की है और कथानक-वर्णनमे भी सकलकीर्तिका अनुसरण किया है, फिर भी कुछ स्थलोपर कविने तात्त्विक विवेचनमे तत्त्वाथसूत्र आदिका आश्रय लिया है। कविने इसकी रचना वि स १८२५ के चेतसुदी १५ को पूरा की है। यह पुराण सूरत से मुद्रित हो चुका है।

सकलकीर्तिने इस प्रस्तुत चरित्रमे परम्परागत चरित्र-चित्रणके साथ मिथ्यात्वकी निन्दा, सम्यक्त्व की महिमा, पुण्य-पापके फल, जीवादि तत्त्वोका विवेचन, बारह तप, बारह भावना आदिका यथास्थान विस्तारके साथ वणन किया है। आ जिनसेनने भ ऋषभदेवके जन्म समय जिस प्रकार विस्तारसे ताण्डव-नृत्यका वणन किया है, ठीक उसी प्रकारसे और प्राय उन्ही शब्दोमे भ महावीरके जन्म-समय भी किया है।

भ महावीरके ज्ञानकल्याणकको मनानेके लिए जाते समय इन्द्रके आदेशसे बलाहक देवने जम्बूद्वीप प्रमाण एक लाख योजन विस्तारवाला विमान बनाया। (देखो-अधिकार १४, श्लोक १३-१४) इस प्रकारके पालक विमानके बनाने और उसपर बैठकर आनेका वणन श्वे हैमचन्द्र रचित त्रिषष्टिशालाका पुरुषचरितके पर्व १, सग २ श्लो ३५३-३५६ मे पाया जाता है।

श्वे शास्त्रके अनुसार सौधर्मेन्द्र उस विमानमे अपनी सभी सभाओके देव-देवियो और परिजनोके साथ बैठकर आता है। किन्तु सकलकीर्तिने इसका कुछ उल्लेख नहीं किया है। प्रत्युत कौन-सा इन्द्र किस वाहनपर बैठकर आता है, इसका विस्तृत वणन चौदहवे अधिकारमे किया है। इस स्थलपर जन्मकल्याणके समान ही ऐरावत हाथीका विस्तृत वणन किया गया है, और उसीपर बैठकर सौधर्मेन्द्र समवसरण मे आता है।

सकलकीर्तिने भ महावीरकी ६६ दिन तक दिव्यध्वनि प्रकट नहीं होनेका कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रत्युत लिखा है कि केवलज्ञान प्राप्तिके पश्चात समवसरणमे सभी लोगोके यथास्थान बैठे रहनेपर और दिनके तीन पहर बीत जानेपर भी भगवान्की दिव्यध्वनि प्रकट नहीं हुई, तब इन्द्र चिन्तित हुआ और अवधिज्ञानसे गणधरके अभावको जानकर तथा वृद्ध ब्राह्मणका रूप बनाकर गौतमको लानेके लिए गया।

(देखो, अधिकार १५, श्लो ७ आदि)

अन्य चरित्रकारोने तो यह लिखा है कि मानस्तम्भके देखते ही गौतमका मानभग हो गया और उन्होने भगवान्के पास पहुँचते ही दीक्षा ले ली और भगवान्की दिव्यध्वनि प्रकट होने लगी। किन्तु इस स्थलपर सकलकीर्तिने लिखा है कि इन्द्रके द्वारा पूछे गये जिस काव्यका अर्थ गौतमको प्रतिभासित नहीं हुआ था, उसमे वर्णित तीन काल, छह द्रव्य आदिके विषयमे उन्होने भगवान्से पूछा और भगवान्ने एक-एक प्रश्नका विस्तारसे उत्तर दिया, जिनसे सन्तुष्ट होकर गौतमने भगवान्की स्तुति कर अपने दोनो भाइयोके साथ जिन दीक्षा धारण की। (देखो, अधिकार १८, श्लो १४४-१५० आदि)

गौतम-समागमका उल्लेख प्रस्तुत चरित्रके १५वे अधिकारमे है और उनके दीक्षाका उल्लेख १८वे अधिकारके अन्तमे है। इस प्रकार १६, १७ और १८ इन तीन अधिकारोमे गौतमके प्रश्नोका ही उत्तर भगवान्के द्वारा विस्तारसे दिये जानेका वणन सकलकीर्तिने दिया है। उनका यह वर्णन बहुत कुछ स्वाभाविक प्रतीत होता है, क्योंकि जब इन्द्रोक्त पद्यमे वणन किये गये सभी तत्त्वोका उन्हे बोध हो गया, तभी उनका अज्ञान और मिथ्यात्व दूर हुआ और तभी उन्होने सम्यक्त्व और सयमको ग्रहण किया। सकलकीर्तिने इस स्थलपर बहुत स्पष्ट शब्दोमे लिखा है—

अद्याहमेव धन्योऽहो सफल जन्म मेऽखिलम् ।

यतो मयातिपुण्येन प्राप्तो देवो जगद्गुरु ॥१४४॥

अनध्यस्तत्प्रणीतोऽय मार्गो धम सुखाकर ।

नाशित दृष्टिमोहान्धतमश्चास्य वचोऽशुभि ॥१४५॥

इत्यादिचिन्तनात्प्राप्य परमानन्दमुल्बणम् ।
 धर्मे धमफलादौ च स वैदग्ध्यपुर सरम् ॥१४६॥
 मिथ्यात्वारातिसतान हन्तु मोहादिशत्रुभि ।
 साध विप्राग्रणीमुक्त्यै दीक्षामादातुमुद्ययौ ॥१४७॥
 ततस्त्यक्त्वान्तरे सङ्गाद् दश बाह्ये चतुर्दश ।
 त्रिशुद्ध्या परया भक्त्यार्हती मुद्रा जगन्नुताम् ॥१४८॥
 भ्रातृभ्या सह जग्राह तत्क्षण च द्विजोत्तम ।
 शतपञ्चप्रमैशछात्रै प्रबुद्धस्तत्त्वमञ्जसा ॥१४९॥

इन श्लोकोका भाव ऊपर दिया जा चुका है । श्वे शास्त्रोमे भी इसी प्रकारका वर्णन है कि गौतम और उनके भाइयोका तथा अन्य साथियोका जब जीवादि तत्त्व-विषयक अज्ञान भगवान्‌के सयुक्तिक वचनोसे दूर हो गया, तभी उन्होने जिनदीक्षा धारणकर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया ।

किन्तु तिलोयपण्णत्ती जैसे प्राचीन ग्रन्थमे कहा है कि इस अवसर्पिणीके चतुथ कालके अन्तिम भागमे तैतीस वष, आठ मास और पन्द्रह दिन शेष रहनेपर वषके प्रथम मास श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके दिन अभिजित् नक्षत्रके समय धमतीथकी उत्पत्ति हुई । यथा—

एत्थावसर्पिणीए चउत्थकालस्स चरिमभागम्मि ।
 तेत्तीस वास अडमासपण्णरसदिवससेसम्मि ॥
 वासस्स पढममासे सावणणामम्मि बहुलपडिवाए ।
 अभिजीणक्खत्तम्मि य उप्पत्ती धम्म तित्थस्स ॥
 सावण बहुले पाडिवरुद्दमुहुत्ते सुहोदये रविणो ।
 अभिजिस्स पढमजोए जुगस्स आदी इमस्स पुढ ।

(अधिकार १, गा ६८-७०)

इसी बातको कुछ पाठभेदके साथ श्री वीरसेनाचार्यने कसायपाहुडसुत्तकी जयधवला टीकामे इस प्रकार कहा है—

एदस्स भरहखेतस्स ओसर्पिणीए चउत्थे दुस्समसुसमकाले णवहि दिवसेहि छह मासेहि य अहिय तैतीसवासावसेसे तित्थुप्पत्ती जादा । (जयधवला, भा १, पृ ७४)

अर्थात्—इस भरत क्षेत्रमे अवसर्पिणीकालके चौथे दु षमा-सुषमा कालमे नौ दिन और छह माससे अधिक तेतीस वर्ष अवशेष रहनेपर धर्मतीर्थकी उत्पत्ति हुई ।

वीरसेनाचार्यने अपने कथनकी पुष्टिमे धवला टीकामे तीन प्राचीन गाथाएँ भी उद्धृत की है । जो इस प्रकार है—

इम्मिस्सेवसर्पिणीए चउत्थसमयस्स पच्छिमे भाए ।
 चोत्तीसवाससेसे किञ्चि विसेसूणए सते ॥१॥
 वासस्स पढममासे पढमे पक्खम्मि सावणे बहुले ।
 पादिवद पुव्वदिवसे तित्थुप्पत्ती हु अभिजिम्मि ॥२॥
 सावणबहुलपडिवदे रुद्दमुहुत्ते सुहोदए रविणो ।
 अभिजिस्स पढमजोए जत्थ जुगादी मुण्येव्वा ॥३॥

पाठक देखेगे कि ये तीन गाथाएँ वे ही है, जो कुछ शब्द व्यत्ययसे तिलोयपण्णत्तीकी ऊपर दी गयी है । अपने उक्त कथनको और भी स्पष्ट करते हुए वीरसेन आगे शका उठाकर उसका समाधान करते हुए लिखते हैं—

‘छासट्टि दिवसावणयण केवलकालम्मि किमट्टु कीरदे ? केवलणाणे समुप्पण्णे वि तत्थ तित्थाणुप्पत्तीदो । दिव्वज्झुणीए किमट्टु तत्थापउत्ती ? गणिदाभावादो । सोहम्मिदेण तक्खणे चैव गणिदो किण्ण ढोइदो ? ण,

काललद्धीए विणा असहेज्जस्स देविदस्स तद्धोयणसत्तीए अभावादो । सगपादमूलम्मि पडिवण्णमह्ववय मोत्तूण अण्णमुद्दिसिय दिव्वज्जुणी किण्ण पयट्टे ? साहावियादो । ण च सहावो परपज्जणिओगारुहो, अव्ववत्थापत्तीदो ।

शका—केवलकालमे-से छ्यासठ दिन किसलिए कम किये गये है ?

समाधान—भ महावीरको केवलज्ञानकी उत्पत्ति हो जानेपर भी छ्यासठ दिन तक धमतीथकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए केवलकालमे-से छ्यासठ दिन कम किये गये है ।

शका—केवलज्ञानकी उत्पत्तिके अनन्तर छ्यासठ दिन तक दिव्यध्वनिकी प्रवृत्ति क्यों नहीं हुई ?

समाधान—गणधर न होनेसे ?

शका—सौवर्मेन्द्रने तत्क्षण ही गणधरको क्यों नहीं ढूँढा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि काललब्धिके बिना असहाय सोधम इन्द्र भी गणधरको ढूँढनेमें असमथ रहा ।

शका—अपने पादमूलमे महाव्रत स्वीकार करनेवाले पुरुषको छोड़कर अन्यके निमित्तसे दिव्यध्वनि क्यों नहीं प्रकट होती है ?

समाधान—ऐसा ही स्वभाव है और स्वभाव दूसरोके द्वारा प्रश्न करनेके योग्य नहीं होता । यदि वस्तु-स्वभावमे ही प्रश्न होने लगे तो फिर किसी भी वस्तुकी कोई व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी ।

अतएव कुछ कम चौतीस वष प्रमाण कालके शेष रहनेपर भ महावीरके द्वारा धमतीथकी उत्पत्ति हुई ।

हरिवशपुराणकार आ जिनसेनने भी श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके प्रात काल अभिजित् नक्षत्रके समय भ महावीरकी दिव्यध्वनि प्रकट होनेका उल्लेख किया है । यथा—

स दिव्यध्वनिना विश्वसशयच्छेदिना जिन ।

दुन्दुभिध्वनिधीरेण योजनान्तरयायिना ॥

श्रावणस्यासिते पक्षे नक्षत्रेऽभिजिति प्रभु ।

प्रतिपदाह्नि पूर्वाह्नि शामनार्थमुदाहरत् ॥ (हरिवशपुराण, सग २, श्लो ९०-९१)

इस प्रकार तिलोयपण्णत्ती, धवला जयववला टीका और हरिवशपुराणमे श्रावणकृष्णा प्रतिपदाके प्रात काल अर्थात् केवलज्ञानकी वैशाखशुक्ला दशमीको उत्पत्ति हो जानेके ६६ दिन पश्चात् भगवान् महावीरके द्वारा धर्म-देशनाका स्पष्ट उल्लेख होनेपर भी सकलकीर्तिने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया, यह बात विचारणीय है ।

सकलकीर्तिने प्रत्येक कल्याणकके समय भगवान्की भरपूर स्तुति की है, इसके अतिरिक्त सगमकदेव और स्थाणु रुद्रके द्वारा उपसर्ग करनेपर भी भगवान्के निभय और अटल रहनेपर उनके द्वारा भी उत्तम शब्दोमे स्तुति करायी है । इन्द्रभूति गौतमकी सभी पृच्छाओका उत्तर दिये जानेपर उन्होने जो गम्भीर और मार्मिक शब्दोके द्वारा ४२ श्लोकोमे स्तुति की है, वह भी अत्यन्त भावपूर्ण है । दीक्षा लेते समय सकलकीर्तिने इन्द्र-द्वारा जो वीर जिनेश्वरकी व्याज स्तुति करायी है वह अनुपम एव पठनीय है । (देखो अधिकार १२, श्लो १०८ १३४) इस प्रकार प्रस्तुत चरितमे सब मिलाकर लगभग २०० श्लोक स्तुति-परक है । प्रत्येक अधिकारके प्रारम्भमे तो वीरनाथको वन्दन किया ही है, किन्तु सभी अधिकारोके अन्तमे सभी विभक्तियोंके द्वारा भगवान् महावीरकी स्तुतिवाले श्लोक भी उनकी अनुपम भक्तिके द्योतक है ।

प्रस्तुत चरितके पाचवे, छठे और तेरहवे अधिकारमे बारह तपोका वणन भी १३३ श्लोकोमे द्रष्टव्य है । वैराग्यका वणन यद्यपि स्थान-स्थानपर किया है, पर जब भगवान् महावीर ससारसे विरक्त हुए, तब उनके मनोगत वैराग्य-उदभूतिका चित्रण भी सकलकीर्तिने दशवे अधिकारमे बहुत सुन्दर किया है । भगवान्ने जिस प्रकार बारह भावनाओका चिन्तवन किया, उसके लिए तो सकलकीर्तिने पूरा एक बारहवाँ अधिकार रचा है । इसके अतिरिक्त छठे अधिकारमे षोडश कारण भावनाओका भी सुन्दर वणन किया है । तीसरे और चौथे अधिकारमे नरकके दु खोका वणन भी पठनीय है । पाँचवे अधिकारमे चक्रवर्तिके विशाल वैभवका वणन किया गया है ।

भगवान् महावीरके दीक्षाथ वन-गमनके समय उनके पिताका शोक और माता त्रिशलाका कर्ण विलाप तो पाठकके नेत्रोमे भी आँसू लाये बिना न रहेगा । सकलकीर्तिके इस वणनसे सिद्ध होता है कि भगवान्के

दीक्षा लेनेके समय उनके माता-पिता जीवित थे। किन्तु श्वेताम्बर शास्त्रोके अनुसार दोनोके स्वगवास होनेके दो वष पश्चात् भगवान् महावीरने दीक्षा ली है।

सकलकीर्तिने प्रत्येक अधिकारके अन्तमें जो पुष्पिका दी है उसके अनुसार प्रस्तुत ग्रन्थका नाम 'वीरवधमानचरित' है।

९ भगवान् महावीरके पूर्वभव—दिगम्बर परम्परामे पुरुरवा भीलसे लेकर महावीर होने तक भगवान्के गणनीय ३३ भवोका उल्लेख है जब कि श्वेताम्बर परम्परामे २७ ही भव मिलते हैं। उनमें प्रारम्भके २२ भव कुछ नाम-परिवतनादिके साथ वे ही हैं, जो कि दि परम्परामे बतलाये गये हैं। शेष भवोमेंसे कुछको नही माना है। उनकी स्पष्ट जानकारीके लिए यहाँ पर दोनो परम्पराओके अनुसार भगवान् महावीरके पूर्वभव दिये जाते हैं—

दिगम्बर मान्यतानुसार	श्वेताम्बर मान्यतानुसार
१ पुरुरवा भील	१ नयसार भिल्लराज
२ सौधर्म देव	२ सौधर्म देव
३ मरीचिकुमार	३ मरीचिकुमार
४ ब्रह्मस्वर्गका देव	४ ब्रह्मस्वर्गका देव
५ जटिल ब्राह्मण	५ कौशिक ब्राह्मण
६ सौधर्म स्वर्गका देव	६ ईशान स्वर्गका देव
७ पुष्यमित्र ब्राह्मण	७ पुष्यमित्र ब्राह्मण
८ सौधर्म देव	८ सौधर्म देव
९ अग्निसह ब्राह्मण	९ अग्न्युद्योत ब्राह्मण
१० सनत्कुमार देव	१० ईशान देव
११ अग्निमित्र ब्राह्मण	११ अग्निभूति ब्राह्मण
१२ माहेन्द्र देव	१२ सनत्कुमार देव
१३ भारद्वाज ब्राह्मण	१३ भारद्वाज ब्राह्मण
१४ माहेन्द्र देव	१४ माहेन्द्र देव
त्रस-स्थावर योनिके असख्यात भव	अन्य अनेक भव
१५ स्थावर ब्राह्मण	१५ स्थावर ब्राह्मण
१६ माहेन्द्र देव	१६ ब्रह्म स्वर्गका देव
१७ विश्वनन्दी (मुनिपदमे निदान)	१७ विश्वभूति (मुनिपदमे निदान)
१८ महाशुक्र स्वर्गका देव	१८ महाशुक्र स्वर्गका देव
१९ त्रिपृष्ठ नारायण	१९ त्रिपृष्ठ नारायण
२० सातवे नरकका नारकी	२० सातवे नरकका नारकी
२१ सिंह	२१ सिंह
२२ प्रथम नरकका नारकी	२२ प्रथम नरकका नारकी
२३ सिंह (मृग-भक्षणके समय चारणमुनि द्वारा सम्बोधन)	×
२४ सौधर्म स्वर्गका देव	×
२५ कनकोज्ज्वल राजा	×
२६ लान्तव स्वर्गका देव	×
२७ हरिषेण राजा	×

२८ महाशुक्र स्वर्गका देव	×
२९ प्रियमित्र चक्रवर्ती	२३ पोट्टिल या प्रियमित्र चक्रवर्ती
३० सहस्रार स्वर्गका देव	२४ महाशुक्र स्वर्गका देव
३१ नन्दराज (तीथकर प्रकृतिका बन्ध)	२५ नन्दन राजा (तीथकर प्रकृतिका बन्ध)
३२ अच्युत स्वर्गका इन्द्र	२६ प्राणत स्वर्गका इन्द्र
३३ भगवान् महावीर	२७ भगवान् महावीर

दोनो परम्पराओके अनुसार भगवान् महावीरके पूवभवोमे उक्त छह भवोका अन्तर कैसे पडा ? यह प्रश्न विद्वज्जनोके लिए विचारणीय है ।

१० गणधर-परिचय—सकलकीर्तिने प्रस्तुत चरित्रमे भगवान् महावीरके ११ गणधरोके केवल नामोका ही उल्लेख किया है, उनका परिचय कुछ भी नहीं दिया है । उन्होने गणधरोके जो नाम दिये हैं, वे यद्यपि उत्तरपुराणमे दिये गये नामोसे बहुत कुछ मिलते हैं, फिर भी कुछ नाम श्वेताम्बर शास्त्रोमे पाये जानेवालेसे मेल नहीं खाते हैं । उक्त तीनोंके अनुसार गणधरोके नाम इस प्रकार हैं—

उत्तरपुराणके अनुसार	प्रस्तुत चरित्रके अनुसार	श्वे परम्पराके अनुसार
१ इन्द्रभूति	इन्द्रभूति	इन्द्रभूति
२ अग्निभूति	अग्निभूति	अग्निभूति
३ वायुभूति	वायुभूति	वायुभूति
४ सुधम	सुधम	सुधर्मा
५ मौय	मौर्य	मौर्यपुत्र
६ मौन्द्रघ	मौण्डघ	मण्डित
७ पुत्र	पुत्र	आर्यव्यक्त
८ मैत्रेय	मैत्रेय	मेतार्य
९ अकम्पन	अकम्पन	अकम्पित
१० अन्धवेल	अन्धवेल	अचलभ्राता
११ प्रभास ^१	प्रभास ^२	प्रभास ^३

उक्त तीनों शास्त्रोमे प्रारम्भके चार और अन्तिम ये पाँच नाम तो समान ही हैं । मौय और मौय-पुत्रको एक माना जा सकता है । दि परम्पराके मैत्रेयके स्थानपर श्वे परम्परामे मेतार्य है, अकम्पनके स्थान पर अकम्पित है और मौन्द्रघ या मौण्डघके स्थानपर मण्डित है, जो कुछ भिन्नता रखते हुए भी सदृशताको ही सूचित करते हैं । दि परम्पराके अन्धवेलके स्थानपर श्वे परम्परामे अचलभ्राता नाम है जो समानता नहीं रखता है । इसी प्रकार दि परम्परामे आर्यव्यक्त नामका नहीं होना और उसके स्थानपर केवल 'पुत्र' नामका पाया जाना भी खटकता है । इन विचारणीय नामोके निर्णयार्थ यहाँपर उत्तरपुराण और प्रस्तुत महावीर चरित्रके गणधर नाम प्रतिपादक श्लोक दिये जाते हैं—

तत पर जिनेन्द्रस्य वायुभूत्यग्निभूतिकौ ।

सुधर्ममौर्यौ मौन्द्राख्य पुत्रमैत्रेयसज्ञकौ ॥३७३॥

अकम्पनोऽन्धवेलाख्य प्रभासश्च मया सह ।

एकादशेन्द्रसपूज्या समतेर्गणनायका ॥२७४॥ —उत्तरपु०, पर्व ७४ ।

१ उत्तर पु ७४, श्लो ३७३, ३७४ ।

२ प्रस्तुत चरित्र, अधि० १९, श्लो, २०६, २०७ ।

३ समवायांग, समवाय ११ ।

अथेन्द्रभूतिरेवाद्यो वायुभूत्याग्निभूतिकौ ।
सुधममौर्यमौण्डाख्यपुत्रमैत्रेयसज्ञका ॥२०६॥
अकम्पनोऽन्धवेलाख्य प्रभासोऽमी सुरार्चिता ।
एकादश चतुर्ज्ञाना समते स्युगणाधिपा ॥२०७॥

(प्रस्तुत चरित्र, अधि १९)

पाठक यदि दोनों पाठोको ध्यानसे देखेगे तो उन्हे यह बात स्पष्ट ज्ञात होगी कि सकलकीर्तिके सम्मुख उत्तरपुराणके उक्त श्लोक उपस्थित थे और उन्होंने गणधरोके नाम साधारण-सा परिवर्तन कर ज्योके त्यो रख दिये है । भारतीय ज्ञानपीठसे मुद्रित उत्तरपुराणमे 'अकम्पनोऽन्धवेलाख्य' पीठपर टिप्पणी नम्बर देकर 'अकम्पनोऽन्धचेलाख्य इति क्वचित्' के रूपमे पाठान्तर दिया गया है । यदि इस पाठके स्थानपर 'अकम्पनो-ज्वलभ्राता' इस पाठकी कल्पना कर ली जाये तो अन्धवेलेके स्थानपर अचलभ्राता नाम सहजमे प्राप्त हो जाता है । इसी प्रकार 'मौण्डाख्यपुत्र' पाठके स्थानपर 'मौण्डार्यव्यक्त' पाठकी कल्पना कर ली जाये, तो 'पुत्र' इस असगत-से नामके स्थानपर श्वेताम्बर-परम्परागत 'आयव्यक्त' यह नाम भी सहजमे उपलब्ध हो जाता है । और उक्त कल्पनाके करनेमे कोई असगति भी नहीं है, प्रत्युत श्वेताम्बर परम्पराके साथ सगति ठीक बैठ जाती है । श्वेताम्बर परम्परामे उक्त ग्यारहो ही गणधरोका विस्तृत परिचय-विवरण उपलब्ध है, जबकि दिगम्बर परम्परामे केवल उक्त नामोल्लेखके अतिरिक्त कुछ भी परिचय प्राप्त नहीं है ।

यहाँपर श्वेताम्बर शास्त्रोके आधारपर सर्व गणधरोका सक्षिप्त परिचय दिया जाता है, जिससे कि पाठकोको उनके विषयमे कुछ जानकारी मिल सकेगी ।

१ इन्द्रभूति—गौतमगोत्री ब्राह्मण थे । ये मगध देशके अन्तगत 'गोबर' ग्रामके निवासी थे । इनकी माताका नाम पृथ्वी और पिताका नाम वसुभूति था । ये वेद-वेदागके पाठी और अपने समयके सबसे बड़े वैदिक विद्वान् थे । इनको 'द्रष्टव्यो रज्यमात्मा' इत्यादि वेदमन्त्रमें आये 'आत्मा' के विषयमे ही सन्देह था । इन्द्रके द्वारा पूछे गये काव्यार्थको जब ये न बता सके, तब ये उसके साथ भगवान् महावीरके पास पहुँचे और जीव-विषयक अपनी शकाका समुचित समाधान पाकर अपने ५०० शिष्योके साथ उनके शिष्य बन गये । दीक्षाके समय इनकी अवस्था ५० वर्षकी थी । ये ३० वर्ष तक भगवान्के प्रधान गणधर रहे । जिस दिन भगवान् मोक्ष पधारे, उसी दिन इनको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई । १२ वर्ष तक केवली पर्यायमे रहकर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया ।

२ अग्निभूति—ये इन्द्रभूतिके सगे मझले भाई थे । इनको कमके विषयमे शका थी । ये भी इन्द्रभूतिके साथ गये थे और भगवान्के द्वारा अपनी शकाका सयुक्तिक समाधान पाकर अपने ५०० शिष्योके साथ दीक्षित हो गये । उस समय इनकी अवस्था ४६ वर्षकी थी । १२ वर्ष तक गणधरके पदपर रहकर केवलज्ञान प्राप्त किया । १६ वष तक केवलीपर्यायमे रहकर ये भगवान्के जीवन-कालमे ही मोक्ष पधारे ।

३ वायुभूति—ये इन्द्रभूतिके सबसे छोटे सगे भाई थे । इनको जीव और शरीरके विषयमे शका थी । ये भी इन्द्रभूतिके साथ भगवान्के पास गये थे और भगवान्से अपनी शकाका समाधान पाकर ५०० शिष्योके साथ दीक्षित होकर गणधर बने । दीक्षाके समय इनकी अवस्था ४२ वर्षकी थी । १० वष तक गणधरके पदपर रहकर इन्होंने केवलज्ञान प्राप्त किया और १८ वर्ष तक केवलीपर्यायमे रहकर भगवान् महावीरके निर्वाणसे दो वष पूर्व ही इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया ।

४ आर्यव्यक्त—ये कोल्लागसन्निवेशके भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनकी माताका नाम वाहणी और पिताका नाम धनमित्र था । ये पृथ्वी आदि पाँच भूतोसे जीवकी उत्पत्ति मानते थे । इन्हे जीवकी स्वतन्त्र सत्तामे शका थी । भगवान् महावीरसे अपनी शकाका समाधान पाकर इन्होंने अपने ५०० शिष्योके साथ दीक्षा ले ली । उस समय इनकी अवस्था ५० वर्षकी थी । १२ वर्ष तक गणधर पदपर रहकर केवल-ज्ञान प्राप्त किया और १८ वर्ष तक केवलीपर्यायमे रहकर भगवान्के जीवनकालमे ही मोक्ष पधारे ।

५ सुधर्मा—ये कोल्लागसन्निवेशके अग्निवेश्यायनगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनकी माताका नाम भद्रिला और पिताका नाम धम्मिल्ल था । इनका विश्वास था कि वलमानमे जो जीव जिस पर्यायमे है वह मरकर भी उसी पर्यायमें उत्पन्न होता है । पर आगम प्रमाण न मिलनेसे ये अपने मतमे सन्दिग्ध थे । भगवान्से सयुक्तिक समाधान पाकर ये अपने ५०० शिष्योके साथ दीक्षित हो गये । उस समय इनकी अवस्था ५० वर्षकी थी । ये ४२ वर्ष तक गणधर पदपर रहे और ८ वर्ष तक केवलीपर्यायमे रहकर १०० वर्षकी आयु पूर्ण कर भगवान्के निर्वाणके २० वर्ष बाद मोक्ष पधारे ।

६ मण्डित—ये मौयसन्निवेशके वशिष्ठगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनकी माताका नाम विजया और पिताका नाम धनदेव था । इन्हे बन्ध और मोक्षके विषयमे शका थी । भगवान्से शका-निवारण होनेपर ये अपने ३५० शिष्योके साथ दीक्षित हो गये । उस समय इनकी अवस्था ५३ वर्षकी थी । १४ वर्ष तक गणधरके पदपर रहकर इन्होंने केवलज्ञान प्राप्त किया । १६ वर्ष तक केवलीपर्यायमे रहकर ८३ वर्षकी अवस्थामे भगवान्से पूव ही इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया ।

७ मौयपुत्र—ये भी मौयसन्निवेशके काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनकी माताका नाम विजया और पिताका नाम मौय था, इसी कारणसे ये मौय-पुत्र कहलाते थे । इन्हे देवोके अस्तित्वके विषयमे शका थी । भगवान्से उसकी निवृत्ति होनेपर ६५ वर्षकी आयुमे इन्होंने भगवान्से ३५० शिष्योके साथ दीक्षा ग्रहण की । १४ वर्ष तक गणधर पदपर रहकर ७९ वर्षकी अवस्थामे इन्होंने केवलज्ञानको प्राप्त किया । १६ वर्ष तक केवलीपर्यायमे रहकर ९५ वर्षकी अवस्थामे भगवान्के सामने ही मोक्ष पधारे ।

८ अकम्पित—ये मिथिलाके रहनेवाले गौतमगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनकी माताका नाम जयन्ती और पिताका नाम देव था । इनको नरकगतिके विषयमे शका थी । भगवान्से शका निवृत्त होनेपर इन्होंने ४८ वर्षकी अवस्थामे अपने ३०० शिष्योके साथ दीक्षा ग्रहण की । ९ वर्ष तक गणधर पदपर रहकर इन्होंने केवलज्ञान प्राप्त किया । २१ वर्ष तक केवलीपर्यायमे रहकर भगवान्के जीवनके अन्तिम वर्षमें निर्वाण प्राप्त किया ।

९ अचलभ्राता—ये कोशल-निवासी हारीतगोत्रीय ब्राह्मण थे । माताका नाम नन्दा और पिताका नाम वसु था । इन्हे पुण्य-पापके विषयमें शका थी । भगवान्से शकाकी निवृत्ति होनेपर ४६ वर्षकी अवस्थामें इन्होंने ३०० शिष्योके साथ दीक्षा ग्रहण की । १२ वर्ष तक गणधरके पदपर रहकर केवलज्ञान प्राप्त किया और १४ वर्ष केवलीपर्यायमे रहकर भगवान्से ४ वर्ष पूर्व ही मोक्ष पधारे ।

१० मेतार्य—ये वत्सदेशान्तगत तुगिक सन्निवेशके निवासी कौडिन्य गोत्रीय ब्राह्मण थे । माताका नाम वारुणी और पिताका नाम दत्त था । इनको पुनर्जन्मके विषयमे शका थी । भगवान्से समाधान पाकर ३०० शिष्योके साथ इन्होंने दीक्षा ग्रहण की, उस समय आपकी अवस्था ३६ वर्षकी थी । १० वर्ष तक गणधरके पदपर रहकर ४६ वर्षकी अवस्थामे केवलज्ञान प्राप्त किया और १६ वर्ष तक केवली पर्यायमें रहकर भगवान्के जीवनकालमे ही ६२ वर्षकी आयुमे इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया ।

११ प्रभास—ये राजगृहके निवासी और कौडिन्य गोत्रीय ब्राह्मण थे । माताका नाम अतिभद्रा और पिताका नाम बल था । इन्हे मोक्षके विषयमे शका थी । वीरप्रभुके द्वारा शकाका समाधान होनेपर इन्होंने अपने ३०० शिष्योके साथ १६ वर्षकी आयुमे दीक्षा ग्रहण की । पुन ८ वर्ष तक गणधरके पदपर रहकर केवलज्ञान प्राप्त किया । १६ वर्ष तक केवली रहकर केवल ४० वर्षकी आयुमे इन्होंने भगवान्से ६ वर्ष पूर्व ही निर्वाण प्राप्त किया । ये सभी गणधरोमे सबसे छोटी आयुमे अर्थात् ४० वर्षकी अवस्थामे निर्वाणको गमन किये ।

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि उक्त सभी गणधर जन्मना ब्राह्मण थे और वेद-वेदांग आदि सभी विद्याओके ज्ञाता थे । इन सबका शिष्य-परिवार अलग-अलग था । इनके दीक्षा लेनेपर भगवान् प्रत्येकको उनके साथ दीक्षित होनेवाले शिष्य-मुनियोका गणधर बनाया, ऐसा श्वेताम्बर परम्परामे स्पष्ट उल्लेख है । इस उल्लेखसे प्राय पूछी जानेवाली इस शकाका भी समाधान हो जाता है कि प्रत्येक तीथकरके अनेक गणधर क्यों होते हैं

और उनकी कोई घटती या बढ़ती सख्या क्यों है ? श्वेताम्बर शास्त्रोके अनुसार जिस-किसी भी तीर्थकरके समयमें जो भी विशिष्ट व्यक्ति दीक्षित होता था, उसके साथ दीक्षा लेनेवाले साधु-समुदायका वह गणधर बना दिया जाता था । वह गणधर कुछ काल तक तीर्थकरके समीप अपने शिष्य-परिवारके साथ ज्ञानाजन और तपश्चरण करते हुए रहता था और योग्य ही जानेपर उन्हें स्वतन्त्र विहारकी अनुज्ञा दे दी जाती थी ।

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि उक्त ११ गणधर अपने ४४०० शिष्योके साथ एक ही दिन दीक्षित हुए ।

यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि दिगम्बर परम्परा जहाँ ६६ दिनके पश्चात् इन्द्रके द्वारा लाये गये इन्द्रभूति गौतमके प्रव्रजित होनेपर भगवान् महावीरकी प्रथम देशना श्रावणकृष्णा प्रतिपदाके प्रातः सूर्योदयके समय मानती है, वहाँ श्वेताम्बर परम्परामें इस प्रकारका कोई उल्लेख नहीं है । इसके विपरीत वहाँ बताया गया है कि वैशाखशुक्ला दशमीके दिन भगवान्को केवलज्ञान प्राप्त होनेपर समवशरणकी रचना हुई, फिर भी भगवान्ने कोई देशना नहीं दी, कारण कि गणधरपदके योग्य किसी विशिष्ट पुरुषका अभाव था ।

भगवान् महावीरको केवलज्ञान प्राप्त होनेके कुछ समय पूर्वसे ही मध्यम पावापुरीमें सोमिल नामके ब्राह्मणने अपनी यज्ञशालामें एक बहुत बड़े यज्ञका आयोजन कर रखा था और उसमें उक्त इन्द्रभूति गौतम आदि ग्यारह ही महापुरुष अपने-अपने शिष्य-समुदायके साथ सम्मिलित हुए थे । जब केवलज्ञानकी प्राप्ति जानकर देवगण भगवान्की वन्दनाथ आकाशमार्गसे उतरते हुए आ रहे थे, तब इन्द्रभूति आदि यज्ञ करानेवाले विद्वानोंने यज्ञमें उपस्थित जन-समुदायको लक्ष्य करके कहा—देखो, हमारे मन्त्रोके प्रभावसे देवगण भी यज्ञमें शामिल होकर अपना हव्य-अश लेनेके लिए आ रहे हैं । पर जब उन्होंने देखा कि ये देवगण तो उनके यज्ञ-स्थलपर न आकर दूसरी ही ओर जा रहे हैं तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । अनेक नगर-निवासियोंको भी जब उसी ओर जाते हुए देखा तो उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा और जाते हुए लोगोसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो ? लोगोंने बताया कि महावीर सर्वज्ञ तीर्थकर यहाँ आये हुए हैं, हम लोग उनका उपदेश सुननेके लिए जा रहे हैं । और हम ही क्या, ये देव लोग भी स्वर्गसे उतरकर उनका उपदेश सुननेके लिए जा रहे हैं । लोगोका यह उत्तर सुनकर इन्द्रभूति गौतम विचारने लगे—क्या वेदाथसे शून्य यह महावीर सबज्ञ हो सकता है ? जब मैं इतना बड़ा विद्वान् होनेपर भी आज तक सबज्ञ नहीं हो सका, तब यह वेदानभिज्ञ महावीर कैसे सर्वज्ञ हो सकता है ? चलकर इसकी परीक्षा करनी चाहिए और ऐसा सोचकर वे भी उसी ओर चल दिये जिस ओर कि नगर-निवासी जा रहे थे ।

जब इन्द्रभूति गौतम समवशरणके समीप पहुँचे और उसकी अलौकिक शोभा देखी तो विस्मित होकर विचारने लगे—महावीर तो बड़ा इन्द्रजालिया ज्ञात होता है । अच्छा, यदि ये मेरे मनकी शकाको जानकर उसका समाधान कर देगे तो मैं उन्हें सर्वज्ञ मान लूँगा । यह सोचते हुए गौतम जैसे ही भगवान् महावीरके सामने पहुँचे, वैसे ही भगवान्ने कहा—अहो गौतम, तुम चिरकालसे आत्माके विषयमें शकाशील हो ? भगवान्के द्वारा अपनेको नामोल्लेखपूर्वक सम्बोधित करते हुए हृदयस्थ शकाकी बात सुनकर गौतम अतिविस्मित हुए । उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान्को नमस्कार करते हुए कहा—हाँ भगवन्, मुझे आत्माके विषयमें शका है, क्योंकि—

“विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति, न प्रेत्यसज्जास्ति”

इस वेदवाक्यसे आत्माका अस्तित्व ज्ञात नहीं होता । तब भगवान्ने इसी वेदवाक्यसे, तथा ‘द्रष्टव्योऽरेऽयमात्मा’ आदि अन्य वेदवाक्योसे किस्तारपूर्वक आत्माके अस्तित्वकी सयुक्तिक सिद्धि की, जिसे सुनकर गौतमकी शका दूर हो गयी और उनके हृदयके पट खुल गये । भगवान्की स्तुति करते हुए उन्होंने उसी समय अपने पाँच सौ शिष्योके साथ भगवान्का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और जिन दीक्षा ग्रहण कर ली । भगवान्ने उन्हें उनके शिष्य-परिवारका गणधर बनाया । इस प्रकार भगवान्की देशना प्रारम्भ हुई ।

इन्द्रभूति गौतमकी प्रव्रज्याकी बात पवनवेगसे नगरमे पहुँची । जब उनके छोटे भाई अग्निभूति और बायुभूतिने यह सुना तो उन्हें विश्वास ही न हुआ और यथार्थ बातके निर्णयाथ वे दोनों भी अपने-अपने पाँच-पाच सौ शिष्योके साथ भगवान्के समीप पहुँचे । भगवान्ने उन्हें भी सम्बोधित करते हुए उनके मनकी शकाओको कहा और उन्हें भी सुयुक्तियोसे दूर किया । वे लोग भी अपने शिष्योके साथ दीक्षित हो गये ।

उक्त तीनों भाइयोके द्वारा शिष्यत्व स्वीकार करनेके समाचार पाकर यज्ञस्थलपर उपस्थित सुधर्मा आदि शेष विद्वान् भी अपने शिष्योके साथ भगवान्के समीप आये । भगवान्ने सबके नामोके साथ सम्बोधित करते हुए उनकी मनोगत शकाओको कहा और प्रबल युक्तियोसे उनका समाधान किया । जिससे प्रभावित होकर उन सभी विद्वानोने शिष्यत्व स्वीकार कर अपने शिष्योके साथ जिनदीक्षा ग्रहण की और भगवान्ने उनको अपने-अपने शिष्य-मुनियो का गणधर बनाया ।

११ विचारणीय स्थल

सकलकीर्तिने प्रस्तुत चरित्रमे 'गुणस्थान' शब्दको पुल्लिगमे प्रयोग किया है, (देखो, अधि १६, श्लो ६०) जबकि सवत्र अन्य आचार्योंने इसका प्रयोग नपुसक लिगमे ही किया है । इसी प्रकार 'तत्त्व' शब्दका भी पुल्लिगमे प्रयोग किया है । (देखो, अधि १७, श्लोक २) इसी प्रकार कारण आदि शब्दोका भी प्रयोग पुल्लिगमे किया है । कहीं कहींपर सन्धि-नियमको भी नहीं अपनाया गया है । यथा—'अभ्यर्णो अन्तर्वली' । (अधि ८, श्लो १४) आदि । प्रथम अधिकारके श्लोक ४१ मे 'जम्बूस्वामिरन्तिम', तथा उसी अधिकारके ५४वे श्लोकमे 'पूजामहानये' आदि वाक्य भी दृष्टिगोचर होते हैं । मेरे सम्मुख उपस्थित प्रतियोमे ये पाठ इसी प्रकारसे हैं । सम्भव है कि किन्ही प्राचीन प्रतियोमे इनके स्थानपर अन्य प्रकारके पाठ हो ।

कितने ही स्थलोपर भूतकालके स्थानपर विधिलकारका प्रयोग सकलकीर्तिने किया है । (देखो, अधिकार ६, श्लो ८०-९६)

१२ उपसहार

सकलकीर्तिने प्राय अपने सभी ग्रन्थोमे उसका परिमाण दिया है । तदनुसार प्रस्तुत चरित्र ३०३५ श्लोक प्रमाण है । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि ग्रन्थोका परिमाण ३२ अक्षरवाले अनुष्टुप् श्लोकसे गिना जाता है । प्रस्तुत ग्रन्थकी रचना जैसी सुगम और हृदयस्पर्शिनी है, वैसी ही उनके सभी ग्रन्थोकी है । वे अपने पाठकोको मानो सरल-सुबोध रचनाके द्वारा जैन सिद्धान्तोके गूढ एव गहन रहस्योसे अवगत करा देना चाहते थे । सकलकीर्तिके पश्चात् इतने अधिक ग्रन्थोका निर्माता अन्य कोई आचार्य, भट्टारक या विद्वान् नहीं हुआ है । ग्रन्थ-रचनाओके द्वारा उन्होने स्वोपकारके साथ पाठकोका भी असीम उपकार किया है । प्राय सभी ग्रन्थोके अन्तमे उन्होने यह कामना की है कि जबतक यहाँ भरतक्षेत्रमे आर्य जन रहे तबतक ग्रन्थका पठन-पाठन होता रहे । मैं भी उनके इन्ही शब्दोको दुहराता हुआ मगल-कामना करता हूँ कि जबतक ससारमे सूर्य-चन्द्र प्रकाश कर रहे हैं, तबतक उनके सभी ग्रन्थोका पठन-पाठन कर भव्य जीव स्व-पर कल्याण करते रहे ।

—हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री

विषय-सूची

प्रथम अधिकार

१-७

मंगलाचरण, चौबीस तीर्थकरोकी स्तुति, गौतमस्वामी, सुधर्मस्वामी और जम्बूस्वामीका स्मरण, तथा उनके पश्चात् होनेवाले पाँचो श्रुतकेवलियो, श्रुत-परम्परावाले और पश्चाद्-वर्ती कुन्दकुन्दादि आचार्योंका स्मरण, वक्ता और श्रोताओका वर्णन ।

द्वितीय अधिकार

८-१८

जम्बूद्वीप और उसके विदेह क्षेत्रका वणन, भगवान् महावीरके पुरुरवा भीलसे लेकर १४ प्रधान भवो और त्रस-स्थावर-सम्बन्धी असख्यात क्षुद्रभवोका वर्णन तथा मिथ्यात्वके महान् दुष्फलका वर्णन ।

तृतीय अधिकार

१९-२९

स्थावर ब्राह्मणके पन्द्रहवे गणनीय भवसे लेकर त्रिपृष्ठनारायण तकके चार गणनीय भवोका तथा नरकके दु खोका विस्तृत वणन ।

चतुर्थ अधिकार

३०-३९

त्रिपृष्ठनारायणके मरकर सातवे नरकमे उत्पन्न होनेवाले नारकीके बीसवे भवसे लेकर हरिषेण राजा तकके ७ भवोका वर्णन ।

पचम अधिकार

४०-५०

हरिषेणके मरण कर स्वर्गमे उत्पन्न होनेके अट्ठाईसवे भवसे लेकर नन्दराजा तकके इकतीसवे भवका निरूपण ।

षष्ठ अधिकार

५१-६३

नन्दराजाका प्रोष्ठिल मुनिके उपदेशसे जिनदीक्षा लेना, षोडश कारण भावनाओके द्वारा तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध करना और समाधिभरणकर सोलहवे स्वर्गमे उत्पन्न होना और वहाँके इन्द्र-विभूतिका विस्तृत वर्णन ।

सप्तम अधिकार

६४-७२

कुण्डलपुरका वर्णन, वहाँके राजा सिद्धार्थका और महारानी त्रिशला-प्रियकारिणीका वर्णन, भगवान् महावीरके गर्भावतरणसे छह मास पूर्व सिद्धार्थनरेशके यहाँ रत्न-वर्षा होना, त्रिशला देवीका सोलह स्वप्न देखना, सिद्धार्थनरेशसे उनका फल पूछना और उत्तर सुनकर आनन्दित होना, भगवान् महावीरका गभमें आना, इन्द्र द्वारा गर्भकल्याणक मनाना ।

अष्टम अधिकार

७३-८२

छप्पन कुमारिका देवियोके द्वारा जिनमाताकी नाना प्रकारकी परिचर्या द्वारा सेवा करना, देवियोके प्रश्न और जिनमाताके उत्तर, भगवान् महावीरका जन्म, सौधर्मेन्द्रका एव अन्य देवी-देवताओका आगमन और अभिषेकके लिए भगवान्को सुमेरुपर ले जाना ।

नवम अधिकार

८३-९३

भगवान् महावीरका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक, सौवर्मेन्द्र द्वारा भगवान्की स्तुति और नामकरण, इन्द्राणी द्वारा वीर भगवान्के श्रुगारका अद्भुत वर्णन, तत्पश्चात् इन्द्र द्वारा भगवान्को माता-पिताकी गोदमे सोपकर आनन्द नृत्य करना ।

दशम अधिकार

९४-१०१

देव-देवियोंके द्वारा बालरूप महावीरकी सेवा करना, भगवान्की बाल-क्रीडाओका वणन, जन्मके साथ प्राप्त हुए दश अतिशयोका वणन, उनके शरीर-गत शुभ लक्षण और व्यजनादिका वर्णन, तीस वर्षकी अवस्थामे अपने पूर्वभवोके स्मरण होनेसे भगवान्का ससारसे विरक्त होना ।

ग्यारहवाँ अधिकार

१०२-११२

वैराग्यको बढ़ानेवाली अनित्य, अशरण आदि बारह भावनाओका चिन्तवन ।

बारहवाँ अधिकार

११३-१२३

भगवान् महावीरके समीप लौकान्तिक देवोका आगमन और स्तुति करके उनके वैराग्यका समर्थन, भगवान्को विरक्त जानकर सौधर्मादि देवेन्द्रोका सपरिवार आगमन, भगवान्का उत्सवके साथ अभिषेक करके ज्ञातृखण्ड वनमे ले जाना और भगवान्का जिनदीक्षा धारण करना ।

तेरहवाँ अधिकार

१२४-१३३

भगवान्-द्वारा किये गये तपोका वणन, उज्जयिनीके महाकाल वनमे रुद्र-कृत उपसर्गाको सहना और अन्तमे हारकर भगवान्की स्तुति करते हुए 'अति महावीर' नाम रखना, चन्दना-सतीका भगवान्को आहार देना और बन्धन-विमुक्त होना, भगवान्का ध्यानमे तल्लीन होकर क्षपकश्रेणीपर आरोहण और कर्मोकी ६३ प्रकृतियोंका क्षय कर केवलज्ञानादि नव केवल-लब्धियोंकी प्राप्ति होना, भगवान्के केवलज्ञानकी प्राप्ति जानकर सौधर्मेन्द्रका कुबेरको समव-शरण रचनेके लिए आदेश देना ।

चौदहवाँ अधिकार

१३४-१४७

चतुर्निकायके देवोका अपने पूण वैभवके साथ ज्ञानकल्याणक मनानेके लिए आगमन और समवशरणका विस्तृत वर्णन ।

पन्द्रहवाँ अधिकार

१४८-१६०

समवशरण-स्थित वीरप्रभुकी महिमाका वणन, सौधर्मेन्द्र द्वारा भगवान्का स्तवन, दिव्य-ध्वनिके नही होनेपर सौधर्मेन्द्रका चिन्तित होना, गौतमके पास ब्राह्मण वेषमे जाना और एक गूढ काव्यका अर्थ पूछना, अर्थ ज्ञात न होनेपर उनका इन्द्रके साथ समवशरणमे आना, वहाँकी विभूति देखकर विस्मित होना और प्रणत होकर भगवानकी स्तुति करना ।

सोलहवाँ अधिकार

१६१-१७४

गौतम द्वारा अनेक प्रश्नोका पूछना और वीरप्रभु-द्वारा उत्तरमे पहले सात तत्त्वोका विस्तृत विवेचन ।

सत्रहवाँ अधिकार

१७५-१८९

भगवान्-द्वारा पुण्य-पापादिके फलोका विस्तृत व्याख्यान ।

अठारहवाँ अधिकार

१९०-२०१

भगवान्के द्वारा रत्नत्रय धमका उपदेश, श्रावक-मुनिधर्मका विवेचन, उत्सर्पिणी और अव-
सर्पिणीके छहो कालोका विस्तृत निरूपण ।

उन्नीसवाँ अधिकार

२०२-२१९

इन्द्रकी प्रार्थनापर भगवान्का नाना देशोमे विहार, देवकृत १४ अतिशयोका वर्णन, राजगृह-समीपस्थ विपुलाचलपर आगमन, अपने परिवारके साथ श्रेणिकका समवधारणमे आना, धर्मोपदेश सुनकर सम्यक्त्वको ग्रहण करना, अपने पूर्वभव पूलना, नरकायुका बन्ध हुआ जानकर चिन्तित होना, गौतम-द्वारा आगामी कालमे तीर्थकर होनेकी बातको सुनकर हर्षित होना, षोडश कारण भावनाओसे तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध करना, अभयकुमारका पूर्वभव सुनकर दीक्षित होना, भगवान्के चतुर्विध सघके प्रमाणका निरूपण, भगवान्का निर्वाण-गमन और इन्द्रादिकोके द्वारा निर्वाण कल्याणकका पूजन ।

ग्रन्थकार-द्वारा अन्तिम मगलकामना करते हुए अपनी लघुता प्रकट करना, ग्रन्थ-परिमाण ।

२१९-२२१

परिशिष्ट

२२३-२५५

१ श्लोकानुक्रमणिका । २ केवली और श्रुतधर-आचाय-नामसूची । ३ तिरैसठ शलाका-
पुरुष-नामसूची । ४ भ महावीरके पाचो कल्याणकोकी तिथि और नक्षत्र । ५ भ
महावीरके ५ नाम । ६ पौराणिक नामसूची । ७ गणधरोका जीवन-परिचय ।



श्री-सकलकीर्ति-विरचित
श्री-वीरवर्धमानचरितम्

प्रथमोऽधिकारः

जिनेशे विश्वनाथाय ह्यनन्तगुणसिन्धवे । धमचक्रभृते मूर्ध्ना श्रीवीरस्वामिने नम ॥ ॥
यस्यावतारत पूर्वं पित्रो सौधे धनाधिप । मासान् घणवसपूर्णांश्चक्रे रत्नादिवर्षणम् ॥२॥
यद्रूपतिशय वीक्ष्य मेरौ जन्ममहोत्सवे । तृप्तिमप्राप्य शक्रोऽभूत्सहस्राक्ष सविस्मय ॥३॥
वर्धमानश्रिया वर्धमानकीर्त्या जगत्त्रये । वर्धमानेन यो वर्धमान नामाप वासवै ॥४॥
यो बाल्येऽपि जगत्सारा श्रिय जीर्णतृणादिवत् । त्यक्त्वा हत्वाक्षकामारीस्तपसेऽयात्तपोवनम् ॥५॥
यस्यान्नदानमाहात्म्याच्चन्दनाख्या नृपात्मजा । आसीज्जगत्त्रये ख्याता पञ्चाश्रयैर्विबन्धना ॥६॥
जित्वा रुद्रकृतान् घोरानुपमर्गाननेकश । यो महातिमहावीरनामाप तत्कृत परम् ॥७॥
यो निहत्य महावीर्यं शुक्लध्यानासिनाचिरात् । घातिकर्मरिपूश्चापत्कवल नृसुरार्चनम् ॥८॥
येन प्रकाशितो धर्म स्वर्मुक्तिश्रीसुखप्रद । द्विधा प्रवर्ततेऽद्यापि स्थास्यत्यग्रे युगावधौ ॥९॥
इत्याद्यन्तातिगैर्विश्वैर्गुणैश्चातिशयै परै । सपूर्णो यो मुदा स्तौमि त वीर तद्गुणास्ये ॥१०॥

[हिन्दी अनुवाद]

समस्त विश्वके नाथ, अनन्त गुणोके सागर और धर्मचक्रके धारक ऐसे जिनराज श्री वीरस्वामीके लिए मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ ॥१॥ जिस प्रभुके अवतार लेनेके पूर्व ही माता-पिताके महलमे छह और नौ अर्थात् गर्भ मे आने के पहले छह मास और गर्भकालके नौ मास इस प्रकार पन्द्रह मास तक कुबेरने रत्न आदिकी वर्षा की ॥२॥ जन्म-महोत्सवके समय सुमेरुपर्वतपर जिनके अतिशय सुन्दर रूपको देखकर विस्मित हुए इन्द्रने तृप्तिको नहीं पाकर अपने एक हजार नेत्र बनाये ॥३॥ जिन्होंने निरन्तर वर्धमान लक्ष्मीसे, तीन जगत्मे वर्धमान कीर्तिसे और अपने वर्धमान गुणोसे 'वर्धमान' यह सार्थक नाम इन्द्रोसे प्राप्त किया । जो बाल-कालमे ही ससारकी सारभूत राज्यलक्ष्मीको जीर्ण तृणादिके समान छोड़कर और इन्द्रिय तथा कामरूपी शत्रुओका विनाश कर तपश्चरणके लिए तपोवनको चले गये । जिनको अन्नदान देनेके माहात्म्यसे चन्दना नामकी राजपुत्री बन्धनरहित होकर और पचाश्रय प्राप्त कर तीन लोकमे प्रसिद्ध हुई । जिन्होंने रुद्रकृत अनेक घोर उपसर्गोको जीतकर उसीके द्वारा 'महति महावीर' नामको प्राप्त किया । जिस महावीर्यशालीने ज्ञानावरणादि चार घातिकर्मोको शुक्लध्यानरूपी खड्गसे बहुत शीघ्र जीतकर मनुष्य और देवोसे पूजित केवल-ज्ञान प्राप्त किया । जिन्होंने स्वर्ग और मुक्ति लक्ष्मीके सुखोको देनेवाला धर्म प्रकाशित किया, जो आज भी श्रावक और मुनिधर्मके रूपमे दो प्रकारका प्रवर्त रहा है और आगे भी युगके अन्त तक स्थिर रहेगा । कर्मोके जीतनेसे जिन्होंने 'वीर' नाम प्राप्त किया, उपसर्गोको जीतनेसे जिन्होंने 'महावीर' नाम पाया और धर्मोपदेश देनेसे जिन्होंने 'सन्मति' नाम प्राप्त किया । इनको आदि लेकर परम अतिशयशाली समस्त अनन्त गुणोसे जो परिपूर्ण है, ऐसे श्री वीरप्रभुकी मैं उन गुणोकी प्राप्तिके लिए अति प्रमोदसे स्तुति करता हूँ ॥४-१०॥

वृषभं वृषचक्राङ्ग वृषतीर्थप्रवर्तकम् । वृषाय वृषद वन्दे वृषभ वृषभात्मनाम् ॥११॥
 योऽजितो मोहकामाक्षारातिजालै परीषहै । एकाकी मिलितै सर्वैरजित त स्तुवे मुदा ॥१२॥
 शभव भवहन्तार त्रिजगद्भव्यदेहिनाम् । कर्तार विश्वसौख्यानामीडे तद्गतयेऽनिशम् ॥१३॥
 चिदानन्दमय दिव्यवाण्यानन्दकर सताम् । अभिनन्दनमात्मोत्थानन्दाप्त्यै सस्तुवे सदा ॥१४॥
 नमामि सुमतिं देवदेव सन्मतिदायिनम् । भव्याना सन्मतिं मूर्ध्ना स्वच्छसन्मतिसिद्धये ॥१५॥
 पद्मप्रभमह नौमि द्विधा पद्माद्यलकृतम् । तत्पद्माप्त्यै सुजन्तूनां पद्माद पद्मकान्तिकम् ॥१६॥
 नम सुपार्श्वनाथाय सुधिया पार्श्वदायिने । अनन्तशर्मणेऽनन्तगुणायातीतकर्मणे ॥१७॥
 करोति जगदानन्द यो धर्माभृतबिन्दुभि । हत्वाज्ञानतम स्तुत्य सोऽस्तु मे चिखुखासये ॥१८॥
 सुविधिं विधिहन्तार भव्याना विधिदेशिनम् । स्वर्गमुक्तिसुखाद्याप्त्यै मुदेवे विधिहानये ॥१९॥
 शीतल भव्यजीवाना पापातापविनाशिनम् । दिव्यध्वनिसुधापूर्वैर्नैर्म्यघातापविच्छिदे ॥२०॥
 नमोऽस्तु श्रेयसे श्रेयोदायिने त्रिजगत्सताम् । विश्वश्रयोमयायैव श्रेयसेऽरिजितात्मने ॥२१॥
 पूजितस्त्रिजगन्नाथैर्यो मुद नैति जातुचित् । निन्दितो न मनाग् द्वेष वासुपूज्य तमाश्रये ॥२२॥
 अनादिकर्मजल्लादीन् यद्वचो हन्ति योगिनाम् । विमलो विमलात्मा स हन्तु मेऽघमल स्तुत ॥२३॥

धर्मचक्रसे अंकित, धर्मतीर्थके प्रवर्तक, वृषभ (बैल) चिह्नवाले और धर्मात्माजनोंको धर्मके दातार ऐसे श्री वृषभस्वामीको धर्मकी प्राप्तिके लिए मैं वन्दना करता हूँ ॥११॥ जो अकेले होनेपर भी मोह, काम और इन्द्रिय आदि शत्रु-समुदायसे और अनेको परीषहोंसे सम्मिलित होनेपर भी नहीं जीते जा सके, ऐसे श्री अजितनाथकी मैं हर्षसे स्तुति करता हूँ ॥१२॥ जो तीन जगत् के भव्य जीवोंके ससारके हरण करनेवाले है और सर्वसुखोंके करनेवाले है, ऐसे सम्भवनाथकी मैं उन जैसी गतिकी प्राप्तिके लिए निरन्तर पूजा करता हूँ ॥१३॥ जो ज्ञानानन्दमय है, अपनी दिव्य वाणीसे सज्जनको आनन्द करनेवाले है, ऐसे अभिनन्दन प्रभुकी मैं आत्मोत्पन्न आनन्दकी प्राप्तिके लिए सदा स्तुति करता हूँ ॥१४॥ जो भव्य जीवोंको सन्मतिके देनेवाले है और देवोंके भी देव है, ऐसे सुमति देवको मैं निर्मल सन्मतिकी सिद्धिके लिए मस्तकसे नमस्कार करता हूँ ॥१५॥ जो अनन्तचतुष्टयरूप अन्तरंगलक्ष्मी और प्रातिहार्यादिरूप बहिरंगलक्ष्मी से अलकृत हैं, जगत्के प्राणियोंको सर्व प्रकारकी लक्ष्मीके देनेवाले है और पद्मके समान कान्तिके धारक है, ऐसे पद्मप्रभ स्वामीको मैं उनकी लक्ष्मीके पानेके लिए नमस्कार करता हूँ ॥१६॥ जो सुबुद्धिके धारकजनोंको अपना सामीप्य देनेवाले हैं, सर्वकम रहित है, अनन्त सुखी और अनन्त गुणशाली हैं, ऐसे सुपार्श्वनाथके लिए नमस्कार है ॥१७॥ जो धर्मरूप अमृत-बिन्दुओसे जगत्को आनन्दित करते हैं और अपनी ज्ञान-किरणोंसे जगत्के अज्ञानान्धकारको दूर करते है, ऐसे चन्द्रप्रभ स्वामीका मैं आत्मिक सुखकी प्राप्तिके लिए स्तवन करता हूँ ॥१८॥ जो कर्मों के हन्ता हैं और भव्य जीवोंको मोक्षमार्गकी विधिके उपदेष्टा हैं, ऐसे सुविधिनाथकी मैं स्वर्ग-मुक्तिके सुख आदिकी प्राप्तिके लिए तथा कर्मों के विनाशके लिए सहर्ष पूजा करता हूँ ॥१९॥ जो अपनी दिव्यध्वनिरूप अमृतपूरके द्वारा भव्य जीवोंके पाप-आताप-के विनाशक हैं, ऐसे शीतलनाथको मैं अपने पाप सन्तापके दूर करनेके लिए नमस्कार करता हूँ ॥२०॥ जो तीन जगत्के सज्जनवृन्दको कल्याणके दाता हैं, कर्म-शत्रुओंके विजेता हैं और समस्त श्रेयोसे सयुक्त हैं, ऐसे श्रेयान्स जिनको मेरा श्रेय-प्राप्तिके लिए नमस्कार हो ॥२१॥ जो तीन जगत्के नाथ इन्द्रादिकोंके द्वारा पूजित होनेपर भी कभी हर्षित नहीं होते और निन्दा किये जानेपर भी कभी जरा-सा भी द्वेष मनमे नहीं लाते है ऐसे वासुपूज्य स्वामीका मैं आश्रय लेता हूँ ॥२२॥ जिनके निर्मल वचन योगियोंके अनादिकालीन कर्म-मलका नाश करते हैं वे निर्मलात्मा

यस्यानन्तगुणा लोक प्रपूर्य सचरन्त्यहो । सुरेशा हृदयेऽनन्तो बन्धो दद्याद् गुणान् स न ॥२४॥
 येन प्ररूपितो धर्मो द्विधा स्वर्मुक्तिशर्मणे । सुधिया धर्मचक्रेत् स धर्मो धर्मात्तयेऽस्तु मे ॥२५॥
 दु कर्मशत्रवोऽसख्या कषायाक्षाद्युपद्रवा । शाम्यन्ति यद्गिरा पुसा त शान्ति शान्तये स्तुवे ॥२६॥
 यद्विष्वध्वनिनात्रासीद्रक्षा कुन्ध्वादिदेहिनाम् । कुन्ध्वादौ सदय कुन्थु वन्दे कुन्थुकृपायतम् ॥२७॥
 यद्बचशस्त्रघातेन दुर्धरा कर्मशात्रवा । नश्यन्ति स्वेन्द्रियै सार्धं सोऽरो मेऽस्त्वरिहानये ॥२८॥
 कर्ममल्लविजेतार त्रातार शरणार्थिनाम् । भेत्तार मोहशत्रूणा मल्लि तच्छक्तये स्तुवे ॥२९॥
 मुन्यादिभ्यो व्रतादीनि यो ददाति निरन्तरम् । सद्-व्रताप्त्यै तमानौमि व्रताद्य मुनिसुव्रतम् ॥३०॥
 नमीश नमितारार्तिं त्रिजगन्नाथवन्दितम् । हतकर्मारिसतान तद्गुणाय स्तवीम्यहम् ॥३१॥
 मोहकर्माक्षशत्रूणा मुख भङ्क्त्वाशु योऽद्भुत । नेमिर्बाल्येऽपि जग्राह दीक्षा स्तौमि यमाय तम् ॥३२॥
 यस्माल्लब्ध्वा महामन्त्र नागो नागी च तत्फलात् । नागेन्द्रस्तद्विप्रयान्नाभूत् पार्श्वं सस्तुवेऽनिशम् ॥३३॥
 वीर कर्मजये वीर सन्मतिं धर्मदेशने । उपसर्गाग्निसपाते महावीर नमामि च ॥३४॥
 एते तीर्थकरा ख्याताश्रतुर्विंशतिरत्र हि । शास्त्रादौ सस्तुता सन्तु विश्वसत्कार्यसिद्धये ॥३५॥
 अतीता येऽपरेऽनन्तास्तीर्थनाथाश्च सप्रति । सार्धद्वीपद्वये सन्ति श्रीसीमन्धरमुख्यका ॥३६॥
 त्रिजगद्देवसघाच्या धर्मसाम्राज्यनायका । स्तुत्या बन्धा मयास्यादौ सन्तु मे विघ्नहानये ॥३७॥

विमलनाथ मेरे द्वारा स्तुत होकर मेरे पापमलका नाश करे ॥२३॥ जिसके अनन्त गुण समस्त लोकको पूरकर अहो देवेन्द्रोंके हृदयोमे सचरित हो रहे है ऐसे बन्ध अनन्त देव हमे अपने गुणोंको देवे ॥२४॥ जिनके द्वारा प्ररूपित मुनि-श्रावकरूप दोनो प्रकारका धर्म सुज्ञानी जनो-को स्वर्ग-मुक्तिके सुखका देनेवाला है, वे धर्मचक्रके स्वामी धर्मनाथ मेरे धर्मकी प्राप्तिके लिए हों ॥२५॥ जिनकी वाणीसे जीवोके असख्य दुष्कर्मरूप शत्रु और कषाय-इन्द्रियादिरूप उपद्रव शान्त हो जाते हैं, ऐसे शान्तिनाथकी मैं शान्ति-प्राप्तिके लिए स्तुति करता हूँ ॥२६॥ जिनकी दिव्य ध्वनिके द्वारा इस लोकमे कुन्थु आदि छोटे-छोटे जन्तुओकी भी रक्षा सम्भव हुई, जो उन क्षुद्र प्राणियोपर सदा सदय है, ऐसे कुन्थुकृपापरायण कुन्थुनाथकी मैं बन्दना करता हूँ ॥२७॥ जिनके वचनरूप शस्त्राघातसे दुर्धरकर्मरूप शत्रु अपनी इन्द्रियरूपी सेनाके साथ नष्ट हो जाते हैं, ऐसे अरनाथ मेरे अरियोके नाशके लिए सहायक हो ॥२८॥ कर्मरूप मल्लोके विजेता, शरणार्थियोके त्राता और मोहशत्रुके भेत्ता मल्लिनाथकी मैं उनकी शक्ति-प्राप्तिके लिए स्तुति करता हूँ ॥२९॥ जो मुनि आदि चतुर्विध सघके लिए निरन्तर व्रत आदि देते है, उन व्रत-परिपूर्ण मुनि सुव्रतनाथको मैं सद्-व्रतोकी प्राप्तिके लिए नमस्कार करता हूँ ॥३०॥ जिन्होंने शत्रुओको नमाया है, जो तीन जगत्के नाथोसे बन्दित है और कर्मशत्रुओकी सन्तानके विनाशक है ऐसे नमीश्वरकी मैं उनके गुणोकी प्राप्तिके लिए स्तुति करता हूँ ॥३१॥ जिन्होंने मोहकर्म और इन्द्रिय-शत्रुओके सुखका शीघ्र भजन कर बाल-कालमे ही दीक्षा ग्रहण की, ऐसे अद्भुत नेमिनाथकी मैं सयमकी प्राप्तिके लिए स्तुति करता हूँ ॥३२॥ जिनसे महामन्त्र पाकर नाग और नागिनी उसके फलसे धरणेन्द्र और पद्मावती हुए, उन पार्श्वनाथकी मैं अहर्निश स्तुति करता हूँ ॥३३॥ जो कर्मोंके जीतनेमे वीर है, धर्मका उपदेश देनेमे सन्मति-वाले है और उपसर्गरूप अग्नि-पातमे भी महावीर है, ऐसे श्री वर्धमान स्वामीको नमस्कार करता हूँ ॥३४॥ इस भरत क्षेत्रमे ये चौबीस तीर्थकर तीर्थ-प्रवर्तनसे प्रख्यात है, अतः शास्त्रा-रम्भमे सम्यक् प्रकारसे मेरे द्वारा स्तुति किये गये ये सभी तीर्थकर मेरे समस्त सत्कार्यकी सिद्धिके लिए सहायक होवे ॥३५॥

अतीत कालमे जितने अनन्त तीर्थकर हो गये है और वर्तमान कालमे श्रीसीमन्धर स्वामीको आदि लेकर अढ़ाई द्वीपमे जितने तीर्थकर विद्यमान है, जो तीन जगत्के देवसमूहसे

त्रलोक्यशिखरावासान् कर्मकायातिगान् परान् । सद्गुणाष्टमयान् सर्वाननन्तान् ज्ञानकायिकान् ॥३८॥
 अमृतान् मनसा ध्येयान् मुमुक्षुभिरनारतम् । स्मरामि सिद्धयं सिद्धास्तद्गुणाप्यै सुखाकरान् ॥३९॥
 कृत्स्नान् वृषभसेनादीश्रतुर्ज्ञानधरान् परान् । ससर्द्धिभूषितान् वन्दे कवीन्द्राश्च गणाधिपान् ॥४०॥
 श्रागौतम सुधर्माख्य श्राजम्बूस्वामिरन्तितम । मोक्ष गते महावीरे त्रय केवलिनोऽप्यमी ॥४१॥
 मध्ये द्वाषष्टिवर्षाणा जाता ये धर्मवर्तिन । शरण तत्कमाब्जाना तद्गुणार्थी व्रजाम्यहम् ॥४२॥
 नन्दा हि नन्दिमित्राख्योऽपराजितमुनीश्वर । गोवर्धनस्तता मद्रबाहुस्वामीति पञ्च ये ॥४३॥
 सर्वपूर्वाङ्गवेत्तारोऽत्रोत्पन्नास्त्रिजगद्धिता । अन्तरे शतवर्षाणा तेषामड् प्रोश्चिदे स्तुवे ॥४४॥
 विशाख प्रोष्ठलाचार्य क्षत्रियो जयसञ्जक । नाग सिद्धाथनामा जिनसेनो विजयस्तत ॥४५॥
 बुद्धिलो गड् गसज्ञोऽथ सुधर्ममुनिपुङ्गव । दशपूर्वधरा एव जाता एकादशात्र ये ॥४६॥
 त्र्यशतिशतवर्षाणा मध्ये धर्मप्रकाशका । इक्-चिद् वृत्तात्मना तेषा चरणाब्जान् नमाम्यहम् ॥४७॥
 नक्षत्रो जयपालाख्य पाण्डुश्च द्रुमसेनवाक् । कस इत्यत्र जाता ये श्लोकादशाङ्गवेदिन ॥४८॥
 द्विशताधिकविशत्यब्दाना मध्ये मुनीश्वरा । धर्मप्रवर्तिनस्तेषा स्तुवे पादसरोरुहान् ॥४९॥
 सुभद्राख्यो यशोभद्रो जयबाहुस्तपोधन । लोहाचार्य इतीहोत्पन्ना ये ह्याद्याङ्गधारिण ॥५०॥
 विनयादिधर श्रीदत्ताख्योऽथ शिवदत्तवाक् । अर्हद्दत्त इहोत्पन्ना इत्यमी येऽङ्गपूर्वयो ॥५१॥
 मध्ये दशधरा अष्टादशाधिकशतात्मनाम् । वर्षाणामन्तरे स्तामि तान्मुनोन् प्रन्थवर्जितान् ॥५२॥

पूजित है और धर्म साम्राज्यके नायक है, उन सबकी मैं इस ग्रन्थके आदिमे स्तुति और वन्दना करता हूँ । वे मेरे विघ्नोके दूर करनवाले होवे ॥३६-३७॥ जो तीन लोकके शिखरपर निवास करते हैं, कर्मरूप शरीरस रहित हैं, ज्ञानरूप शरीरके धारक हैं, उत्तम अष्ट सद्गुणोसे सयुक्त हैं, अमृत हैं, मुमुक्षुजनोके द्वारा निरन्तर मनसे ध्यान किये जाते हैं और सुखके भण्डार हैं, ऐसे उन समस्त अनन्त सिद्ध भगवन्तोको उनके गुणोकी प्राप्तिके लिए और सिद्धिके लिए मैं स्मरण करता हूँ ॥३८-३९॥

चार ज्ञानके धारक, सात ऋद्धियोसे विभूषित, परम कवीन्द्र वृषभसेन आदि समस्त गणधरोकी मैं वन्दना करता हूँ ॥४०॥ भगवान् महावीर स्वामीके मोक्ष चले जानेपर श्री गौतम, सुधर्मा और अन्तितम जम्बूस्वामी ये तीन केवली यहाँपर बासठ वर्ष तक धर्मका प्रवर्तन करते रहे, अतः उनके गुणोका इच्छुक मैं उनके चरण कमलोकी शरणको प्राप्त होता हूँ ॥४१-४२॥ नन्दी, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और मद्रबाहु स्वामी ये पाँच मुनीश्वर सर्व अग और पूर्वोके वेत्ता एव तीन जगत्के हितकर्ता सौ वर्षोके अन्तरकालमे हुए, मैं ज्ञान प्राप्तिके लिए उनके चरणोकी स्तुति करता हूँ ॥४३-४४॥ इनके पश्चात् विशाख, प्रोष्ठलाचार्य, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, जिनसेन, विजय, बुद्धिल, गग और सुधर्म ये ग्यारह मुनिपुगव एक सौ तेरासी वर्षके भीतर दश पूर्व और ग्यारह अगके धारक और धर्मके प्रकाशक हुए । मैं उन सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्रधारी मुनिराजोके चरण-कमलोको नमस्कार करता हूँ ॥४५-४७॥ इनके पश्चात् नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, द्रुमसेन और कस ये ग्यारह अगोके वेत्ता मुनीश्वर दो सौ बीस वर्ष तक धर्मके प्रवर्तक हुए । मैं उनके चरण कमलोकी स्तुति करता हूँ ॥४८-४९॥ इनके पश्चात् सुभद्र, यशोभद्र, जयबाहु और लोहाचार्य ये चार तपोधन आद्य आचार्याङ्गके धारक यहाँपर उत्पन्न हुए ॥५०॥ तत्पश्चात् विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त और अर्हद्दत्त ये अग-पूर्वोके एकदेशके ज्ञाता आचार्य एक सौ अठारह वर्षके भीतर यहाँ पर उत्पन्न हुए । उन सब निर्ग्रन्थ मुनिराजोकी मैं स्तुति करता हूँ ॥५०-५२॥

इत्यत्र कालदोषेण हीयमाने श्रुते सति । मुनिर्मूतबली नाम्ना पुष्पदन्तोऽपरो यति ॥५३॥
 श्रुतनाशभयात्ताभ्या शेष सस्थापित श्रुतम् । पुस्तकेषु सम सधै कृत्वा पूजामहानये ॥५४॥
 ज्येष्ठे धवलपञ्चम्या ह्यतोऽत्रैतौ मुनीश्वरौ । धर्मवृद्धिकरौ स्तुत्यौ वन्द्यौ मे स्ता श्रुतास्ये ॥५५॥
 अन्ये ये बहवो भूता कुन्दकुन्दादिसूरय । सुकवीन्द्राश्च निर्ग्रन्था सन्ति सर्वे महीतले ॥५६॥
 पञ्चाचारादिभूषा ये पाठका जिनवाग्रता । वन्द्या स्तुता मया मेऽत्र दद्यु स्वस्वगुणाश्च ते ॥५७॥
 त्रिकालयोगयुक्ता ये महातपोविधायिन । साधवस्ते जगत्पूज्या सन्तु तत्तपसे मम ॥५८॥
 या भारती जगन्मान्या जिनास्याम्बुजसमवा । कवित्वरचने दक्षा शुद्धा वृत्ते मति व्यधात् ॥५९॥
 मेऽत्र सैव मया वन्द्या जुता विश्वार्थदर्शिनोम् । करोतु परमा बुद्धि दृग्ज्ञानारब्धसिद्धये ॥६०॥
 इत्थ सदेवसिद्धान्तगुरुन् सदगुणशालिन । मदिष्टानिष्टसिद्धयर्थं नत्वा च मङ्गलास्ये ॥६१॥
 वक्तृ श्रोतृकथादीना लक्षण वच्मि सप्रति । यै प्रतिष्ठा परा याति ग्रन्थोऽत्र स्वपरार्थकृत ॥६२॥
 ये सर्वसगनिर्मुक्ता ख्यातिपूजापराङ्मुखा । अनेकान्तमतोपेता सर्वसिद्धान्तपारगा ॥६३॥
 अकारणजगद्बन्धवो भव्याङ्गिहितोद्यता । इक्चिद्वृत्ततपोभूषाः साम्यादिगुणभगरा ॥६४॥
 निर्लोभा निरहकारा गुणिधार्मिकवत्सला । जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशनपरायणा ॥६५॥
 महाधियो महाप्राज्ञा ग्रन्थादिरचने क्षमा । विख्यातकीर्तयो मान्या बुधै सत्यवचोऽङ्किता ॥६६॥
 इत्याद्यन्यैर्गुणै सारैर्भूषिता सूरयोऽत्र ये । ते वक्तारोऽथ शास्त्राणा बुधैर्ज्ञेया महोत्तमा ॥६७॥

तदनन्तर इस भरतक्षेत्रमे कालके दोषसे श्रुतज्ञानकी हीनता होनेपर भूतबली और पुष्पदन्त नामके दो मुनिराज हुए । उन्होंने श्रुत-विनाशके भयसे अवशिष्ट श्रुतको पुस्तकोमे लिखकर स्थापित किया और सर्व सधके साथ ज्येष्ठ शुक्ला पचमीके दिन उनकी महापूजा की । वे दोनो मुनीश्वर धर्मकी वृद्धि करनेवाले है, स्तुत्य है और वन्दनीय है, वे मुझे श्रुतकी प्राप्ति करे ॥५३-५५॥ इनके पश्चात् कुन्दकुन्द आदि अन्य बहुत-से आचार्य और निर्ग्रन्थ कवीश्वर इस महीतलपर हुए है और जो पच आचार आदिसे भूषित है, वे सब आचार्य, तथा जिनवाणीके पठन-पाठनमे निरत पाठक (उपाध्याय) मेरे द्वारा वन्दनीय और सस्तुत है, वे सब मुझे अपने-अपने गुणोको देवे ॥५६-५७॥ जो त्रिकालयोगसे सयुक्त है, महातपोके करनेवाले है और जगत्पूज्य है, वे सर्व साधुजन मेरे उन-उन तपोकी प्राप्तिके लिए सहायक होवे ॥५८॥ जो भारती (सरस्वती) जगन्मान्य है और जिनेन्द्रदेवके मुख-कमलसे निकली है, वह कविताके रचनेमे और चारित्रके बढानेमे मेरी बुद्धिको दक्ष और शुद्ध करे ॥५९॥ वह भारती ही मेरे लिए सदा वन्दनीय है और मेरे द्वारा नमस्कृत है, वह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और आरम्भ किये गये इस ग्रन्थकी सिद्धिके लिए मेरी बुद्धिको परम शुद्ध और समस्त अर्थको दिखानेवाली करे ॥६०॥

इस प्रकार सद्-गुणशाली सुदेव, शास्त्र और गुरुको अपने इष्ट कार्यमे आनेवाले अनिष्टोको दूर करनेके लिए तथा मंगलकी प्राप्तिके लिए नमस्कार करके अब वक्ता, श्रोता और कथा आदिका लक्षण कहता हूँ, जिससे कि स्व-परका उपकारक यह ग्रन्थ इस लोकमे परम प्रतिष्ठाको प्राप्त होवे ॥६१-६२॥

वक्ताका लक्षण—जो सर्व परिग्रहसे रहित हो, ख्याति और पूजासे पराङ्मुख हो, अनेकान्त मतके धारक हो, सर्व सिद्धान्तके पारगामी हो, जगत्के अकारण बन्धु हो, भव्य प्राणियोंके हितमे उद्यत रहते हो, सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपसे भूषित हो, साम्य-भाव आदि गुणोके सागर हो, लोभ-रहित हो, अहकार-विहीन हो, गुणी और धार्मिकजनोंके साथ वात्सल्यभावके धारक हो, जैनशासनके माहात्म्य-प्रकाशनमे सदा तत्पर रहते हो, महाबुद्धिशाली हो, महान् विद्वान् हो, ग्रन्थ आदिके रचनेमे समर्थ हो, प्रख्यात कीर्तिवाले

अमीषा वचसां दक्षा धर्मं गृह्णन्ति वा तप । तदाचरणसुप्रमाण्याञ्चान्यशिशिलाम्बनाम् ॥६८॥
 यद्यद्य वेत्ति सद्धर्मं कथं नाचरति स्वयम् । इत्युक्त्वा शिशिलोक्तं न धर्मं स्वीकुरुते जन ॥६९॥
 ज्ञानहीनो वदत्यत्र यो धर्मं चिल्लवोद्धत । सो किं वेत्स्यमित्युक्त्वोपहसति तमेव हि ॥७०॥
 अतोऽत्र शास्त्रकर्तृणां वक्तृणां धर्मदेशिनाम् । द्वौ गुणौ परमौ ज्ञेयौ ज्ञानवृत्तात्मकौ भुवि ॥७१॥
 दृक्चिच्छीलव्रतोपेता सिद्धान्तश्रवणोत्सुका । श्रुतावधारणे शक्ता जिनेन्द्रसमये रता ॥७२॥
 अर्हद्-भक्ता सदाचारा निर्ग्रन्थगुरुसेवका । विचारचतुरा दक्षा निकषप्रावसनिभा ॥७३॥
 आचार्योक्तं श्रुतं सम्यक् सारासारं विचार्यं ये । असारं प्राग्गृहीतं वा त्यक्त्वा गृह्णन्ति सूनुतम् ॥७४॥
 हसन्ति स्वल्पितं सुरैर्न मनाग्ं ये विवेकिन । शुक्रमृद्धसनीरादिगुणाढ्या दोषदूरगा ॥७५॥
 इत्याद्यपरसच्छ्रोतृगुणैर्युक्ता विदोऽत्र ये । श्रोतारं परमा ज्ञेयास्ते श्वास्त्राणां शुभाशया ॥७६॥
 यस्यां सम्यग्ं निरूप्यन्ते जीवतत्त्वाद्योऽखिला । तत्त्वार्थां मुख्यसवेगा भवभोगाङ्गधामसु ॥७७॥
 दानं पूजां तप शीलं व्रतादीनां फलानि च । बन्धमोक्षादयो व्यक्तास्तेषां च हेतवो घना ॥७८॥
 मुख्या प्राणिदया यत्र प्रोच्यते धर्ममातृका । सर्वसगपरित्यागास्त्वर्मांश्च यान्ति धीघना ॥७९॥

हो, ज्ञानियोके द्वारा मान्य हो, सत्यवचनोसे अलंकृत हो, तथा इसी प्रकारके अन्य अनेक सारभूत गुणोसे जो विभूषित हो, ऐसे जो आचार्य है, वे ही विद्वानोंके द्वारा महान् उत्तम शास्त्रोंके वक्ता माने गये जानना चाहिए। कारण ऐसे ही वक्ताओंके वचनोसे दक्ष पुरुष धर्मको और तपको ग्रहण करते हैं क्योंकि उनके आचरणकी प्रमाणतासे वचनोसे प्रमाणता मानी जाती है। अन्य शिशिलाचारी पुरुषोंके वचन कोई नहीं मानता है। क्योंकि उनके विषयमे लोग ऐसा कहते हैं कि यदि यह सत्य धर्मको जानता है, तो फिर स्वयं उसका आचरण क्यों नहीं करता है। ऐसा कहकर लोग शिशिलाचारीके कहे हुए धर्मको स्वीकार नहीं करते हैं। जो ज्ञानहीन वक्ता यहाँपर ज्ञानका लवमात्र पाकर उद्धत हुआ धर्मका प्रतिपादन करता है, उसके लिए लोग 'अरे, यह क्या जानता है', ऐसा कहकर उसकी हँसी उड़ाते हैं ॥६३-७०॥ अतएव यहाँपर शास्त्रकर्ताओं और धर्मोपदेश करनेवाले वक्ताओंके ज्ञान और चारित्रात्मक दो परम गुण जानना चाहिए ॥७१॥

श्रोताका लक्षण—जो सम्यग्दर्शन, शील और व्रतसे संयुक्त हों, सिद्धान्तके सुननेके लिए उत्सुक हो, सुनकर उसके अवधारण करनेमे समर्थ हो, जिनदेवके शासनमे निरत हों, अर्हन्तदेवके भक्त हो, सदाचारी हो, निर्ग्रन्थ गुरुओंके सेवक हों, विचार करनेमे चतुर हों, तत्त्वके स्वरूप-निर्णयमे कसौटीके पाषाणके सदृश चतुर परीक्षक हों, और जो आचार्यके द्वारा कहे गये श्रुतका सम्यक् प्रकारसे सार-असार विचार करके असारको तथा पहलेसे ग्रहण किये गये अतत्त्वको छोड़कर सारभूत सत्यको ग्रहण करनेवाले हों, और जो विवेकी जन आचार्यके स्वल्पन (चूक) पर जरा भी नहीं हँसते हो, जो तोता, मिट्टी और हंसके क्षीर-नीर विवेक समान गुणोसे युक्त हों और सर्व प्रकारके दोषोसे दूर हो, इनको आदि लेकर अन्य अनेक उत्तम गुणोसे युक्त जो ज्ञानी श्रोता होते हैं, वे ही शुभाशयवाले शास्त्रोंके परम श्रोता जानना चाहिए ॥७२-७६॥

उत्तम कथाका स्वरूप—जिस कथामे जीव आदि समस्त तत्त्व सम्यक् प्रकारसे निरूपण किये गये हो, जिसमे परमार्थका वर्णन हो, ससार, भोग और शरीर गृहादिमे मुख्य रूपसे सवेग (वैराग्य)का निरूपण हो, जिसमे दान, पूजा, तप, शील और व्रतादिकोंका स्वरूप तथा उनके फलोंका वर्णन हो, जिसमे बन्ध और मोक्ष आदिका तथा उनके कारणोंका व्यक्त एवं विस्तृत वर्णन हो, जिस कथामे धर्मकी मातास्वरूप प्राणिदया मुख्य रूपसे कही गयी हो, सर्व प्रकारके परिग्रहके परित्यागसे स्वर्ग और मोक्षको जानेवाले बुद्धिमान पुरुष

त्रिषष्टिपुरुषादीना महतां च महर्षयः । यत्रोच्यन्ते पुराणानि भवान्तराणि सपद ॥८०॥
 अन्यानि शुभपाकानि कथ्यन्ते यत्र कोविदैः । सा सर्वा सूनृता भर्मकथा सारा शुभप्रदा ॥८१॥
 पूर्वापरविरुद्धा च श्रोतव्या जिनसूत्रजा । शृङ्गारादिमवा नान्या जातुचित्पापकारिणी ॥८२॥
 इत्थं सद्रक्तृ-सच्छ्रोतृ-कथाना लक्षणं पृथक् । सम्यक् निरूप्य वक्ष्येऽहं चरित्रं पावनं परम् ॥८३॥
 श्रोवीरस्वामिनो रम्य महापुण्यनिबन्धनम् । वक्तु-श्रोतृजनादीना हितमुद्दिश्य पापहत् ॥८४॥
 येन श्रुतेन सभ्याना पुण्यं सचयिते तराम् । पूर्वपापं क्षयं याति सवेगो वर्धते महान् ॥८५॥
 इति सकलसुयुक्त्या स्वेष्टदेवान् प्रणम्य परमगुणयुतान् वक्त्रादिसर्वाङ्गिरूप्य ।
 जिनवरमुखजाता सत्कथा धर्मखानि चरमजिनपतेर्वर्चमीह कर्मारिशान्त्यै ॥८६॥
 वीरो वीरनराग्रणीगुणनिधिर्वीरा हि वीर श्रिता वीरेणेह भवेत्सुवीरविवम वीराय नित्यं नमः ।
 वीराद् वीरगुणा भवन्ति सुधिया वीरस्य वीराश्वरा वीरे भक्तिसुकुर्वतो मम गुणान् हे वीर देह्यद्भुतान् ॥८७॥

इति भट्टारकश्रीसकलकीर्तिदेवविरचिते श्रीवीरवर्धमानचरिते इष्टदेवनमस्कार-
 वक्त्रादिलक्षणप्ररूपको नाम प्रथमोऽधिकारः ॥१॥

जिसमें वर्णित हो, जिसमें तिरैसठ शलाका महापुरुषोकी महान्द्रुद्धि, उनके चरित, भवान्तर और सम्पदाका वर्णन किया गया हो, जिसमें विद्वानोंके द्वारा अन्य अनेक पुण्य-विपाक कहे गये हो, ऐसी सभी सारभूत पुण्यदायिनी सच्ची धर्मकथाएँ जाननी चाहिए ॥७७-८१॥ जो पूर्वापर विरोधसे रहित है, ऐसी जिनसूत्रसे उत्पन्न हुई सत्कथाएँ ही श्रोताओंको सुननी चाहिए । किन्तु शृंगार आदिका वर्णन करनेवाली पापकारिणी अन्य कोई भी कथा कभी नहीं सुननी चाहिए ॥८२॥

इस प्रकार उत्तम वक्ता, श्रोता और कथाका लक्षण पृथक्-पृथक् सम्यक् प्रकारसे निरूपण करके अब मैं श्री वीरस्वामीका परम पावन, रमणीक और महापुण्यका कारणभूत पापका नाशक चरित्र वक्ता और श्रोता आदि जनोके हितका उद्देश्य करके कहूँगा । जिसके सुनने से सभ्यजनोके अत्यन्त पुण्यका सचय होता है और पूर्वभवके पाप क्षयको प्राप्त होते हैं तथा महान् सवेग बढ़ता है ॥८३-८५॥

इस प्रकार सकल सुयुक्तियोंसे परम गुणयुक्त अपने इष्ट देवोको प्रणाम करके और वक्ता आदि सभीका स्वरूप कहके, जिनेन्द्रदेवके मुखकमलसे उत्पन्न हुई, धर्मकी खानि-स्वरूप अन्तिम जिनपति महावीर स्वामीकी सत्कथाको अपने कर्म-शत्रुओके शान्त करनेके लिए कहता हूँ ॥८६॥

वीरजिनेन्द्र वीर मनुष्योंमें अग्रणी हैं, गुणोंके निधान हैं, वीर पुरुष ही वीर जिनके आश्रयको प्राप्त हुए हैं, वीरके द्वारा ही इस लोकमें उत्तम वीर-वैभव प्राप्त होता है, ऐसे श्री वीरस्वामीको मेरा नमस्कार हो । वीरसे सुबुद्धिशालियोंके वीर-गुण प्राप्त होते हैं, वीर जिनेन्द्रके अनुचर भी वीर ही होते हैं, ऐसे वीरजिनेन्द्रमें भक्तिको करनेवाले मेरे हे वीर, तू मुझे अपने अद्भुत गुणोंको दे ॥८७॥

इस प्रकार भट्टारक श्री सकलकीर्तिविरचित श्रीवीर-वर्धमान-चरितमें इष्टदेवको नमस्कार और वक्ता आदिके लक्षणोका वर्णन करनेवाला प्रथम अधिकार समाप्त हुआ ॥१॥

द्वितीयोऽधिकारः

वीर वीराग्रिम वीर कर्ममल्लनिपातने । परीषहोपसर्गादिजये धैर्याय नौमि च ॥१॥
 अथ-जम्बूद्वीपेते जम्बूद्वीपो विराजते । मध्ये द्वीपाधि सर्वेषा चक्रवर्तीव भूभुजाम् ॥२॥
 तन्मध्ये मेरुराभाति सुदर्शनो महोन्नत । मध्ये विश्वाचलाना च देवानामिव तीर्थकृत ॥३॥
 तस्मात्पूर्वदिशो भागे भ्राजते क्षेत्रमुत्तमम् । रम्य पूर्वविदेहाख्य धार्मिकै श्रीजिनादिभि ॥४॥
 यतोऽत्र तपसानन्ता विदेहा मुनयश्चिदा । भवन्त्यत इद क्षेत्र विधत्ते सार्थनाम हि ॥५॥
 तन्मध्यस्थितसीताया नद्या उत्तरदिक्कटे । विषय पुष्कलावत्यभिधो भाति महान् श्रिया ॥६॥
 शोभन्ते यत्र तीर्थेनाप्रासादास्तुङ्गकेतुभि । पुर-ग्राम वनादौ सर्वत्र नान्यसुरालया ॥७॥
 विहरन्ति गणेशाद्याश्चतु सधविभूषिता । धर्मप्रवृत्तये यत्र नैव पावण्डिलिङ्गिन ॥८॥
 अहिसालक्षणो धर्मो वर्ततेऽर्हन्मुखोद्गत । यतिभि श्रावकैर्नित्यो नापर सत्त्वबाधक ॥९॥
 पठन्ति चाङ्गपूर्वाणि यत्रत्या सुविद् सदा । ज्ञानायाज्ञाननाशाय न कुशास्त्राणि जातुचित् ॥१०॥
 प्रजा वर्णत्रयोपेता यत्र सन्ति सुखान्विता । शश्वद्धर्मरता दक्षा बहुश्रयाख्या न च द्विजा ॥११॥
 जायन्ते गणनातीतास्तीर्थनाथा गणाधिपा । चक्रिणो वासुदेवाद्या यत्र मर्त्यसुरार्चिता ॥१२॥
 शतपञ्चधनुस्तुङ्ग विद्यते यत्र सद्गु । पूर्वकोटिप्रमाणायु कालश्रुतुर्थ एव च ॥१३॥

कर्मरूपी मल्लको गिरानेमे वीराग्रणी और परीषह—उपसर्गोंके जीतनेवाले श्री वीरप्रमु-
 को मै धैर्य-प्राप्तिके लिए नमस्कार करता हूँ ॥१॥ असख्यात द्वीप-समुद्रोंवाले इस मध्यलोकके
 मध्यमे राजाओमे चक्रवर्तीके समान जम्बूद्वीपसे सयुक्त जम्बूद्वीप शोभित है ॥२॥ उस जम्बू-
 द्वीपके मध्यमे महान् उन्नत सुदर्शन नामका मेरुपर्वत देवोंके मध्यमे तीर्थकरके समान सर्व
 पर्वतोमे शिरोमणि रूपसे शोभित है ॥३॥ उस मेरुपर्वतके पूर्व दिशा-भागमें पूर्व विदेह
 नामका एक उत्तम क्षेत्र श्री जिनेन्द्रदेवोंसे और धार्मिकजनोंसे रमणीय शोभित है ॥४॥ यत-
 उस क्षेत्रसे अनन्त मुनिगण तप करके देह-रहित हो गये है, अतः वह क्षेत्र 'विदेह' इस
 सार्थक नामको धारण करता है ॥५॥ उस पूर्वविदेह क्षेत्रके मध्यमे स्थित सीता नदीके उत्तर
 दिशावर्ती तटपर लक्ष्मीसे शोभायमान एक पुष्कलावती नामका देश है ॥६॥ उस देशमे पुर,
 ग्राम और वनादिमे सर्वत्र उन्नत ध्वजाओसे युक्त तीर्थकरोंके मन्दिर शोभायमान हैं, वैसे
 सुन्दर देवोंके भवन भी नहीं है ॥७॥ उस देशमे सर्वत्र चतुर्विध सधसे विभूषित तीर्थकर
 और गणधर देवादिक धर्म-प्रवर्तनके लिए बिहार करते रहते है । उस देशमे कोई भी पाखण्डी
 वेषधारी नहीं है ॥८॥ उस देशमे अर्हन्त भगवन्तके मुखारविन्दसे प्रकट हुआ अहिंसा
 लक्षण धर्म ही मुनि और श्रावकजनोंके द्वारा नित्य प्रवर्तमान रहता है । इसके अतिरिक्त
 जीवोंको बाधा पहुँचानेवाला और कोई धर्म वहाँ नहीं है ॥९॥ जहाँ के ज्ञानीजन नित्य ही
 ज्ञानकी प्राप्ति और अज्ञानके नाशके लिए अग और पूर्वगत शास्त्रोंको पढते हैं । वहाँपर
 कुशास्त्रोंको कभी भी कोई व्यक्ति नहीं पढता है ॥१०॥ वहाँकी सर्व प्रजा क्षत्रिय, वैश्य और
 शूद्र इन तीन वर्णवाली ही है । सारी प्रजा सुख सयुक्त, निरन्तर धर्म-पालनमे निरत और
 बहुत लक्ष्मीसे सम्पन्न है । वहाँपर ब्राह्मण वर्ण नहीं है ॥११॥ उस देशमे मनुष्य और देवोंसे
 पूजित असख्य तीर्थकर, गणधर, चक्रवर्ती और वासुदेव आदि महापुरुष उत्पन्न होते
 है ॥१२॥ जिस विदेह क्षेत्रमे उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंके शरीर पाँच सौ धनुष उन्नत है,

यत्रोत्पन्नैर्महद्भिश्च तपसा साध्यते यदि । स्वर्गो मोक्षोऽहमिन्द्रत्व तत्र का वर्णना परा ॥१४॥
द्विषष्टयोजनायामा नवयोजनविस्तृता । चतुःपथसहस्राख्या सहस्रद्वारभूषिता ॥१५॥
शतपञ्चलघु द्वारा द्विषट्सहस्रसत्पथा । सद्धार्मिकजनै पूर्णा महापुण्यनिबन्धना ॥१६॥
तन्मध्ये नाभिवद् भाति नगरी पुण्डरीकिणी । आह्वयन्तीव नाकेश चैत्यगेहस्थकेतुभि ॥१७॥
तस्या बाह्ये भवेद्रम्य मधुकाख्य वन महत् । शीतल सफल द्वेवा ध्यानस्थमुनिभूषितम् ॥१८॥
वसेद् व्याधाधिपस्तत्र पुरुरवाभिधानक । भद्रो भद्रा प्रिया तस्य कालिकाख्याभवच्छुभा ॥१९॥
कदाचित्कानने तस्मिन् वन्दनायै जिनेशिन । मुनि सागरसेनाख्य आयात सत्पथे व्रजन् ॥२०॥
सार्थवाहेन धर्मस्य स्वामिना सह सोऽशुभात् । सार्थो भिल्लैर्गृहीतोऽखिलोऽशुभात् किं न जायते ॥२१॥
अतस्तत्र मुनान्द्र तमीर्यापथविलोचनम् । दिञ्जोहाद्धर्मसलीन पर्यटन्तमितस्तत ॥२२॥
दूराद्वीक्ष्य मृग मत्वा हन्तुकाम पुरुरवा । निषिद्धो द्रुतमित्युक्त्वा शुभान्तकान्तया गिरा ॥२३॥
वनदेवाश्ररन्तीमे विश्वानुग्रहकारिण । न कर्तव्यमिदं नाथ त्वया कर्माघकारणम् ॥२४॥
तद्वच श्रवणाकाललब्ध्या भूत्वा प्रसन्नधी । उपैत्यासौ मुनीश त ननाम शिरसा मुदा ॥२५॥
यति स्वकृपयेत्याह त भव्य प्रति धर्मघो । भद्रेदं मद्रच सार शृणु सद्धर्मसूचकम् ॥२६॥
लभ्यते येन धर्मेण लक्ष्मीर्लोकत्रयोद्भवा । राज्य क्षीणारिचक्र च सुखमिन्द्रादिगोचरम् ॥२७॥

उनकी आयु एक पूर्वकोटी वर्ष प्रमाण है और वहाँपर सदा चौथा काल ही रहता है ॥१३॥ जहाँपर उत्पन्न हुए महामनुष्य तपके द्वारा स्वर्ग, मोक्ष और अहमिन्द्रपना ही सिद्ध करते हैं, वहाँका और क्या अधिक वर्णन किया जा सकता है ॥१४॥ उस पुष्कलावती देशमें एक पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है, जो कि बारह योजन लम्बी है, नौ योजन चौड़ी है, एक हजार चतुःपथो (चौराहो)से सयुक्त है, एक हजार द्वारोंसे विभूषित है, पाँच सौ छोटे द्वारोंवाली है, बारह हजार राजमार्गोंसे युक्त है, धार्मिक जनोंसे परिपूर्ण है और महापुण्यकी कारणभूत है ॥१५-१६॥ यह पुण्डरीकिणी नगरी उस देशके मध्यमें इस प्रकारसे शोभित है, जैसे कि शरीरके मध्यमें नाभि शोभती है। वह नगरी चैत्यालयोंके ऊपर उड़नेवाली ध्वजाओंसे मानो स्वर्गलोकको बुलाती हुई-सी जान पड़ती है ॥१७॥

उस नगरीके बाहर मधुक नामका एक रमणीक महावन है, जो शीतल छायावाले और फले फूले हुए वृक्षोंसे युक्त तथा ध्यानस्थ मुनियोंसे भूषित है ॥१८॥ उस वनमें पुरुरवा नामका भद्र प्रकृतिका एक भीलका स्वामी रहता था। उसकी कालिका नामकी एक भद्र और कल्याणकारिणी प्रिया थी ॥१९॥ किसी समय जिनदेवकी वन्दनाके लिए जाते हुए सागरसेन नामक एक मुनिराज उस वनमें आये। वे मुनिराज धर्मके स्वामी किसी सार्थवाहके साथ आ रहे थे कि मार्गमें उस सार्थवाहको पापोदयसे भीलोंने पकड़ लिया। अशुभ कर्मके उदयसे क्या नहीं हो जाता है ॥२०-२१॥ सार्थवाहके साथसे बिलुडकर और दिशा भूल जानेसे ईर्ष्यासमितिसे इधर-उधर घूमते हुए धर्ममें सलग्न उन मुनिराजको पुरुरवा भीलने दूरसे देखा और उन्हे मृग समझकर बाण द्वारा मारनेके लिए उद्यत हुआ। तमी पुण्योदयसे उसकी स्त्रीने शीघ्र ही यह कहकर उसे मारनेसे रोका कि 'अरे, ये तो ससारका अनुग्रह करनेवाले वनदेव विचर रहे हैं। हे नाथ, तुम्हें महापाप कर्मका कारणभूत यह निन्द्य कार्य नहीं करना चाहिए' ॥२२-२४॥ अपनी स्त्रीके ये वचन सुननेसे, और काललब्धिके योगसे प्रसन्नचित्त होकर वह उन मुनिराजके पास गया और अति हर्षके साथ मस्तकसे उन्हें नमस्कार किया ॥२५॥ धर्मबुद्धि उन मुनिराजने अपनी दयालुतासे उस भव्यसे कहा— 'हे भद्र, मेरे उत्तम धर्मके प्रकट करनेवाले सारभूत वचनको सुनो ॥२६॥ जिस धर्मके द्वारा तीनों लोकोंमें उत्पन्न होनेवाली लक्ष्मी प्राप्त होती है, जिसके द्वारा शत्रुचक्रका नाश करने-

भोगोपभोगवस्तूनि मनोऽभीष्टसुसपद । धर्मप्राप्त्या किलाप्यन्ते स्वजनाद्याश्च शर्मदा ॥२८॥
 स धर्मो मद्यमासादिपञ्चोदुम्बरवर्जने । सम्यक्त्वेन ह्यहिसाद्यणुव्रतै पञ्चभिस्त्वया ॥२९॥
 गुणव्रतत्रिकै सारै शिक्षाव्रतचतुष्टयै । साध्यते गृहिभिश्चैकदेश स्वर्गसुखप्रद ॥३०॥
 इति तद्वचसा त्यक्त्वा मद्यमासवधादिकान् । नत्वा मुनीन्द्रपादाब्जौ श्रद्धया परया समम् ॥३१॥
 जग्राह दृष्टिना सार्धं भिल्लाधिप शुभाशय । द्वादशैव व्रतान्याशु श्रावकस्य वृषासये ॥३२॥
 निदाघे तृषितो यद्वत्प्राप्य पूर्णं सरोवरम् । ससारदुःखमीरुर्वा सत्य जैनेश्वर मतम् ॥३३॥
 शास्त्राभ्यसनशीलो वा विद्वद्भूत गुरो कुलम् । रोगी वा रोगनिर्नाश निधान वा दरिद्रवान् ॥३४॥
 लभते परमानन्द तथा सन्तोषमूर्जितम् । अत्यन्तदुर्लभेनात्र धर्मलाभेन सोऽगमत् ॥३५॥
 ततो यते स पुण्यात्मा दर्शयित्वा पथोत्तमम् । नमस्कार मुहु कृत्वा जगाम स्वाश्रय मुदा ॥३६॥
 आजन्मान्त प्रपाल्योच्चै सर्वं व्रतकदम्बकम् । अन्ते समाधिना मृत्वा व्रतजातशुभोदयात् ॥३७॥
 सौधर्माख्ये महाकल्पेऽनेकशर्माकरेऽभवत् । महर्द्धिकोऽमरो भिल्ल एकसागरजीवित ॥३८॥
 शिलासपुटगर्भे स तत्राप्य नवयौवनम् । मुहूर्तेन विलोक्याशु विमानादिश्रिय पराम् ॥३९॥
 समस्त प्राग्भव ज्ञात्वा व्रतादिजनित फलम् । तत्क्षणात्सावधिज्ञानाद्धर्मेऽधास्त्वमर्ति दृढाम् ॥४०॥
 ततश्चैत्यालय गत्वा मुदा धर्मादिसिद्धये । चक्रेऽसौ परमा पूजा प्रतिमाना जिनेशिनम् ॥४१॥

वाला राज्य प्राप्त होता है और इन्द्रादिके सुख प्राप्त होते हैं, मनोवाञ्छित भोगोपभोगकी वस्तुएँ प्राप्त होती हैं और सभी अभीष्ट सम्पदाएँ मिलती हैं, तथा जिस धर्मकी प्राप्तिसे सुखके देनेवाले स्वजन-परिजन आदि मिलते हैं, वह धर्म मद्य, मास आदिके तथा पंच उदुम्बर फलोके भक्षणके त्यागसे प्राप्त होता है। अतः हे भव्य, तू सम्यक्त्वके साथ, तथा अहिंसादि पाँच अणुव्रतो, सारभूत तीन गुणव्रतो और चार शिक्षाव्रतोके साथ उस धर्मको धारण कर। यह स्वर्गके सुखोको देनेवाला एकदेशरूप धर्म गृहस्थोके द्वारा साधा जाता है ॥२७-३०॥ मुनिराजके इन वचनोसे उस भिल्लराजने मद्य-मासादिका भक्षण और जीवघात आदिका त्याग कर और परम श्रद्धाके साथ मुनिराजके चरण-कमलोको नमस्कार कर शुभ हृदयवाला होकर सम्यग्दर्शनके साथ श्रावकके बारह ही व्रतोको धर्म-प्राप्तिके लिए शीघ्र ग्रहण कर लिया ॥३१-३२॥ जैसे ग्रीष्मऋतुमे प्यासा मनुष्य जलसे परिपूर्ण सरोवरको पाकर अति प्रसन्न होता है, उसी प्रकार वह भील भी ससारके दुःखोंसे डरकर और जिनेश्वरो-पदिष्ट सत्य धर्मको प्राप्त कर अतिहर्षित हुआ। जैसे शास्त्राभ्यासका इच्छुक मनुष्य विद्वानोंसे भरे हुए गुरुकुलको पाकर हर्षित होता है, अथवा जैसे रोगी मनुष्य रोग-नाशक औषधिको पाकर प्रमुदित होता है, अथवा जैसे दरिद्री पुरुष निधानको पाकर परमानन्दको प्राप्त होता है, उसी प्रकार अत्यन्त दुर्लभ धर्मके लाभसे वह भिल्लराज भी अत्यन्त सन्तोषको प्राप्त हुआ ॥३३-३५॥ तत्पश्चात् वह पुण्यात्मा भिल्लराज मुनिराजको उत्तम मार्ग दिखलाकर और उन्हे बार-बार नमस्कार करके हर्षित होता हुआ अपने स्थानको चला गया ॥३६॥ उसने अपने जीवन-पर्यन्त उस सब व्रत-समुदायको उत्तम प्रकारसे पालन किया और अन्तमे समाधिके साथ मरण कर व्रत-पालनसे उत्पन्न हुए पुण्यके उदयसे अनेक सुखोंके भण्डार ऐसे सौधर्म नामके महाकल्पमे एक सागरोपमकी आयुका धारक महर्द्धिक देव उत्पन्न हुआ ॥३७-३८॥ उपपादशय्याके शिलासम्पुटगर्भमे अन्तर्मुहूर्तके भीतर ही नवयौवन अवस्थाको प्राप्त कर और तत्क्षण प्राप्त हुए अवधिज्ञानसे पूर्वभवमे किये गये व्रतादिका फल जानकर और स्वर्ग-विमानादिकी उत्कृष्ट लक्ष्मीको देखकर उसने धर्ममे अपनी मतिको और भी दृढ़ किया ॥३९-४०॥

तदनन्तर धर्म आदिकी सिद्धिके लिए हर्षित होकर उसने अपने परिवारके साथ

सार्धं स्वपरिवारेण चाष्टभेदैर्महार्चनै । जलादिफलपर्यन्तैर्गीतनृत्यस्तवादिभि ॥४२॥
 पुन प्रपूज्य तीर्थेशमूर्तींश्चैत्यद्रुमे स्थिता । मेरुनन्दीश्वरादौ च गत्वारूढ स्ववाहनम् ॥४३॥
 जिनेन्द्रकेवलज्ञानिगणेशादिमहात्मनाम् । महामह विधायोच्चैर्भक्त्या मूर्ध्ना ननाम स ॥४४॥
 तेभ्य श्रुत्वा द्विधा धर्मं विश्वतत्त्वादिगर्भिनम् । उपाज्यं बहुधा पुण्य सोऽगमस्त्वालय तत ॥४५॥
 इत्यसौ विविध पुण्य कुर्वाण शुभचेष्टया । क्रीडा कुर्वन् स्वदेवाभि सौधमेरुवनादिषु ॥४६॥
 शृण्वन् मनोहर गीत क्वचित्पश्यश्च नर्तनम् । शृङ्गार रूपसौन्दर्यं विलास दिव्ययोषिताम् ॥४७॥
 इत्यादिपरमान् भोगान् भुञ्जान प्राक्शुभार्जितान् । सप्तहस्ततनूत्सेध सप्तधात्वतिगाङ्गाभाक् ॥४८॥
 त्रिज्ञानाष्टर्द्धिभूषाढ्यो नेत्रस्पन्दादिदूरग । दिव्यदेहधरस्तत्र तिष्ठेच्छर्माब्धिधमध्यग ॥४९॥
 अथेह भारते क्षेत्रे देशोऽस्ति कोशलाभिध । आर्यखण्डस्य मध्यस्थ आर्याणा मुक्तिकारण ॥५०॥
 यत्रोत्पन्नाश्च भव्यार्या वृत्तेन यान्ति निर्वृतिम् । केचिद् ग्रैवेयकादि च केचित्स्वर्गं नरान्तिमम् ॥५१॥
 केचिच्छ्रावकधर्मेण गच्छन्ति जिनभाक्तिका । सौधर्माद्यच्युतान्त वा लभन्ते शक्रसत्पदम् ॥५२॥
 अन्ये सुपात्रदानेन भोगभूमिं व्रजन्ति च । केचित्पूर्वविदेहादौ प्राप्नुवन्ति नृपश्रियम् ॥५३॥
 ऋषिकेवलियत्याद्या यत्र धर्मादिहेतवे । विहरन्ति जगत्पूज्या सार्धं सवैश्चतुर्विधै ॥५४॥
 ग्रामपत्तनपुर्याद्या भान्ति तुङ्गजिनालयै । वनानि सफलान्यत्र ध्यानारूढैश्च योगिभि ॥५५॥

चैत्यालयमे जाकर जिनेन्द्र देवोकी प्रतिमाओकी जलको आदि लेकर फल पर्यन्त आठ भेदरूप-
 उत्तम द्रव्योसे गीत, नृत्य, स्तवन आदिके साथ महापूजा की। पुनः चैत्यद्रुमोमे स्थित
 तीर्थकरोकी मूर्तियोका पूजन करके वह अपने वाहनपर आरूढ होकर मेरुपर्वत और
 नन्दीश्वर आदिमे गया और वहाँकी प्रतिमाओका पूजन करके तथा विदेहादि क्षेत्रोमे स्थित
 जिनेन्द्रदेव, केवलज्ञानी और गणधरादि महात्माओका उच्च भक्तिके साथ महापूजन करके
 उसने उन सबको मस्तकसे नमस्कार किया। तथा उनसे समस्त तत्त्व आदिसे गर्भित मुनि
 और श्रावकोके धर्मको सुनकर और बहुत-सा पुण्य उपाजन करके वह अपने देवालयको
 चला गया ॥४१-४५॥

इस प्रकार वह अनेक प्रकारसे पुण्यको उपाजन करता हुआ और अपनी शुभ चेष्टासे
 अपनी देवियोके साथ देव-भवनोमे तथा मेरुगिरिके वनो आदिमे क्रीडा करता हुआ, उनके
 मनोहर गीत सुनता हुआ और दिव्य नारियोके नृत्य-शृंगार, रूप-सौन्दर्य और विलासको
 देखता हुआ तथा पूर्व पुण्योपार्जित नाना प्रकारके परम भोगोको भोगता हुआ वह स्वर्गीय
 सुख भोगने लगा। उसका शरीर सात हाथ उन्नत था, सप्त धातुओसे रहित और नेत्र-स्पन्दन
 आदिसे रहित था। वह तीन ज्ञानका धारक, और अणिमादि आठ ऋद्धियोसे विभूषित
 था। दिव्य देहका धारक था। इस प्रकार वह सुख-सागरमे निमग्न रहता हुआ अपना काल
 बिताने लगा ॥४६-४९॥

इस भरतक्षेत्रके आर्यखण्डके मध्यमे कोशल नामका एक देश है, जो आर्यपुरुषोकी
 मुक्तिका कारण है ॥५०॥ जहाँपर उत्पन्न हुए कितने ही भव्य आर्य पुरुष सकल चारित्रिके द्वारा
 मोक्षको जाते हैं, कितने ही ग्रैवेयक आदि विमानोमे और स्वर्गो मे उत्पन्न होते हैं और
 कितने ही जिनभक्त लोग श्रावक धर्मके द्वारा सौधर्मको आदि लेकर अच्युत स्वर्ग तक
 उत्पन्न होते हैं और इन्द्र-सम्पदाको प्राप्त करते हैं ॥५१-५२॥ कितने ही लोग सुपात्रदानके
 द्वारा भोगभूमिको जाते हैं और कितने ही पूर्व-विदेहादिमे उत्पन्न होकर राज्यलक्ष्मीको प्राप्त
 करते हैं ॥५३॥ जिस आर्य क्षेत्रमे केवली, ऋषि और मुनिजनादिक जगत्पूज्य पुरुष चतुर्विध
 सधके साथ वर्म आदिकी प्रवृत्तिके लिए सदा विहार करते रहते हैं ॥५४॥ जहाँपर ग्राम,
 पत्तन और पुरी आदिक उन्नत जिनालयोसे शोभायमान हैं और जहाँके वन फल-सयुक्त हैं

इत्यादिवर्णनोपेतस्यास्य देशस्य मध्यगा । विनीतास्ति पुरी रम्या विनीतजनसभृता ॥५६॥
 आदितीर्थकरोत्पत्तौ निमिता यात्र नाकिभि । हेमरत्नमयेनामा तुङ्गचैत्यालयेन च ॥५७॥
 तन्मध्यस्थेन दिव्येन तुङ्गशालादिगोपुरै । दीर्घखातिकयालङ्घ्या शत्रुभिर्धामपङ्क्तिभि ॥५८॥
 योजनाना नव व्यासायामा द्वादशयोजनै । प्रीतिकरा सुरादीना तरा कि वर्ण्यते हि सा ॥५९॥
 दानिनो मार्दवा दक्षा धर्मशीला शुभाशया । आर्जवादिगुणोपेता रूपलावण्यभूषिता ॥६०॥
 धामिका उत्तमाचारा सुखिनो जिनभाक्तिका । प्रागर्जितमहापुण्या अतीव धनिन शुभा ॥६१॥
 वसन्ति तुङ्गसौधेषु विमानेषु सुरा इव । तादृग्गुणशतक्रान्ता देव्याभा यत्र योषित ॥६२॥
 इच्छन्ति नाकिनो यस्यामवतार शिवासये । तस्या स्वमुक्तिसन्मातुर्वर्णन क्रियतेऽत्र किम् ॥६३॥
 बभूवास्या पति श्रीमान् प्रथमश्चक्रवर्तिनाम् । आदिसृष्टिविधातुस्तुग्येष्ठो हि मरताभिध ॥६४॥
 अकम्पनादयो भूपा नमिमुख्या खगेश्वरा । मागधाद्या सुरा यस्य नमन्ति चरणाम्बुजौ ॥६५॥
 षट्खण्डस्वामिनस्तस्य चरमाङ्गस्य धर्मिण । निधिरत्नमहादेव्यादिसच्छ्रयलकृतात्मन ॥६६॥
 त्रिज्ञानसुकलाविद्याविवेकादिगुणाम्बुधे । कोऽत्र वर्णयितु शक्तो रूपादिगुणसपद ॥६७॥
 तस्य पुण्यवतो देवी पुण्यादासीत्सुखाकरा । पुण्याढ्या धारिणासज्ञा दिव्यलक्षणलक्षिता ॥६८॥
 तयो स स्वर्गतदृश्यत्वा पुरुरवाचरोऽमर । सूनुर्मरीचिनामाभूद् रूपादिगुणमण्डित ॥६९॥
 स क्रमाद् वृद्धिमासाद्य स्वयोग्यान्नादिभूषणै । पठित्वानेकशास्त्राणि प्राप्य स्वयोग्यसपद ॥७०॥

और ध्यानारूढ योगिजनोसे शोभित है ॥५५॥ इत्यादि वर्णनसे युक्त उस कोशल देशके मध्यमे विनीता नामकी एक रमणीक पुरी है, जो विनीत जनोसे परिपूर्ण है ॥५६॥ जिस पुरीको आदि तीर्थकर ऋषभदेवकी उत्पत्तिके समय देवोने बनाया था । और जो उसके मध्यमे स्थित दिव्य, स्वर्ण-रत्नमयी उत्तुग चैत्यालयसे शोभित है । तथा ऊँचे शाल आदिसे, गोपुरसे और शत्रुओके द्वारा अलक्ष्य लम्बी खाई एव भवनोकी पक्तियोसे शोभित है ॥५७-५८॥ वह पुरी नौ योजन चौडी है, और बारह योजन लम्बी है । अधिक क्या वर्णन करे, वह नगरी देवादिको को भी अत्यन्त आनन्द करनेवाली है ॥५९॥ वहाँके निवासी लोग दानी, शृदुस्वभावी, दक्ष, पुण्यशील, शुभाशयी, आर्जव आदि गुण सम्पन्न, रूप-लावण्यसे भूषित, धार्मिक, उत्तम आचारवान्, सुखी, जिनभक्त, पूर्वोपार्जित महापुण्यशाली, अत्यधिक धनी और शुभ परिणामोके धारक है, वे वहाँके ऊँचे-ऊँचे भवनोमे इस प्रकार आनन्दसे रहते हैं, जिस प्रकार कि देव लोग अपने विमानोमे रहते हैं । वहाँकी स्त्रियाँ भी पुरुषोंके समान ही सैकड़ो गुणोसे युक्त और देवियोके समान आभाकी धारक है ॥६०-६२॥ मोक्षकी प्राप्तिके लिए देव लोग भी जिस नगरीमे अवतार लेनेकी इच्छा करते हैं, उस स्वर्ग और मुक्तिकी जननीस्वरूपा नगरीका और अधिक क्या वर्णन किया जावे ॥६३॥

उस विनीता नगरीका अधिपति श्रीमान् भरत नरेश हुआ, जो चक्रवर्तियोमे प्रथम था और आदि सृष्टि-विधाता वृषभदेवका ज्येष्ठ पुत्र था ॥६४॥ जिस भरत चक्रवर्तिके चरण-कमलोको अकम्पन आदि राजा लोग, नमि आदिक विद्याधर और मागध आदि देवगण नमस्कार करते हैं ॥६५॥ षट्खण्डके स्वामी, चरमशरीरी, धर्मात्मा, नवनिधि, चौदह रत्न और महादेवी आदि उत्तम लक्ष्मी से अलङ्कृत, तीन ज्ञान, बहत्तर कला, सर्व विद्याओं और विवेक आदि गुणोके सागर तथा रूपादि गुणसम्पदावाले उस भरत चक्रवर्तिके गुणोंका वर्णन करनेके लिए कौन पुरुष समर्थ है ॥६६-६७॥ उस पुण्यात्मा भरतके पुण्योदयसे सुखकी खानि, पुण्य-विभूषित और दिव्य लक्षणोंवाली धारिणी नामकी रानी थी ॥६८॥ उन दोनोंके वह पुरुरवा भीलका जीव देव स्वर्गसे चयकर रूपादि गुणोसे मण्डित मरीचि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥६९॥ वह क्रमसे अपने योग्य अन्न-पानादिसे और भूषणोसे वृद्धिको प्राप्त होकर, अनेक

सार्धं पितामहेनैव स्वस्य पूर्वशुभार्जितान् । अन्वभूद् विविधान् भोगान् वनक्रीडादिभि सहै ॥७१॥
 कदाचिद् वृषभ स्वामा देवीनर्तनदर्शनात् । विश्वभोगाङ्गराज्यादौ लम्ब्या सवेगमूर्जितम् ॥७२॥
 आरुह्य शिबिका गत्वा वन शक्रादिभि समम् । जग्राह सयम त्यक्त्वा द्विधा सगान् स्वमुक्तये ॥७३॥
 तदा कच्छादिभूपालै स्वामिभक्तिपरायणै । चतु सहस्रसख्यानै केवल स्वामिभक्तये ॥७४॥
 सम मरीचिरप्याशु द्रव्यसयममाददे । नग्नवेष विधायान्ने स्वामिवन्मुग्धधीस्तत ॥७५॥
 त्यक्त्वा देहममत्वादीन् भूत्वा मेरुसमोऽचल । हन्तु कर्मारिसतान कर्मारतिनिकन्दनम् ॥७६॥
 दधे योग पर मुक्त्यै षण्मासावधिमात्मवान् । प्रलम्बितभुजादण्डो ध्यानपूर्वं जगद्गुरु ॥७७॥
 ततस्ते क्षुत्पिपासादीन् सर्वान् घोरपरीषहन् । तेन सार्धं चिर सोढ्वा पश्चात्सोढु किलाक्षमा ॥७८॥
 तप क्लेशमराक्रान्ता दीनास्था धृतिदूरगा । जजल्पुरित्थमन्योन्य सुष्ठु दीनतया गिरा ॥७९॥
 अहो एष जगद्भर्ता वज्रकाय स्थिराशय । न ज्ञायते कियत्कालमेव स्थास्यति विश्वराट् ॥८०॥
 अस्माक प्राणसदेहो वर्ततेऽस्मत्समानकै । यतोऽनेन सम स्पर्धा कृत्वा मर्तव्यमेव किम् ॥८१॥
 इत्युक्त्वा लिङ्गिन सर्वे ते नत्वा तत्कामम्बुजौ । भरतेशमयाद् गन्तुमशक्ता स्वालय तत ॥८२॥
 तत्रैव कानने पापास्वेच्छया फलभक्षणम् । कर्तुं पातु जल दीना स्वय प्रारंभिरे शठा ॥८३॥

शास्त्रोको पढकर और अपने योग्य सम्पदाको प्राप्त करके पूर्वोपाजित पुण्यकर्मके उदयसे अपने पितामहके साथ ही वनक्रीडा आदिके द्वारा नाना प्रकारके भोगोको भोगता रहा ॥७०-७१॥ किसी समय नीलाजना देवीके नृत्य देखनेसे वृषभदेव स्वामीने समस्त भोगोमे, देहमे और राज्य आदिमे उत्कृष्ट वैराग्यको प्राप्त होकर और पालकीपर बैठकर इन्द्रादिके साथ वनमे जाकर और अन्तरग-बहिरग दोनो प्रकारके परिग्रहको अपनी मुक्तिके लिए छोडकर सयमको ग्रहण कर लिया ॥७२-७३॥

उस समय केवल स्वामि-भक्तिके लिए स्वामिभक्ति-परायण कच्छ आदि चार हजार राजाओके साथ मरीचिने भी शीघ्र द्रव्य सयमको ग्रहण कर लिया और नग्नवेष धारण करके वह मुग्ध बुद्धि शरीरमे वृषभ स्वामीके समान हो गया । (किन्तु अन्तरगमे इस दीक्षाका कुछ भी रहस्य नहीं जानता था ।) ॥७४-७५॥ भगवान् वृषभदेवने देहसे ममता आदि छोडकर और मेरुके समान अचल होकर कर्मशत्रुओकी सन्तानका नाश करनेके लिए कर्मवैरीका घातक छह मासकी अवधिवाला प्रतिमायोग मुक्तिप्राप्तिके लिए धारण कर लिया और आत्मसामर्थ्यवान् वे जगद्गुरु अपने भुजादण्डोको लम्बा करके ध्यानमे अवस्थित हो गये ॥७६-७७॥ भगवान् वृषभदेवके साथ जो चार हजार राजा लोग दीक्षित हुए थे, वे कुछ दिन तक तो भगवान् के समान ही कायोत्सर्गसे खड़े रहे और भूख-प्यास आदि सभी घोर परीषहोको सहन करते रहे । किन्तु आगे दीर्घकाल तक भगवान्के साथ उन्हे सहनेमे असमर्थ हो गये ॥७८॥ वे सब तपके क्लेशभारसे आक्रान्त हो गये, उनके मुख दीनतासे परिपूर्ण हो गये, उनका धैर्य चला गया, तब वे अत्यन्त दीन वाणीसे परस्परमे इस प्रकार वार्तालाप करने लगे—‘अहो, यह जगद्-भर्ता वज्रकाय और स्थिर चित्तवाला है, हम नहीं जानते है कि यह विश्वका स्वामी कितने समय तक इसी प्रकारसे खडा रहेगा ? अब तो हमारे प्राणोके रहनेमे सन्देह है ? अपने समान लोगोको इस प्रभुके साथ स्पर्धा करके क्या मरना है ?’ इस प्रकार कहकर वे सब वेषधारी साधु भगवान्के चरण-कमलोको नमस्कार करके वहाँसे चले । किन्तु भरतेशके भयसे अपने घर जानेमे असमर्थ होकर वही वनमे ही पापसे स्वेच्छाचारी होकर वे दीन शठ फलोका भक्षण करने लगे और नदी आदिका जल

मरीचिरपि तै सार्धं पीडितोऽतिपरीषहै । तत्समानक्रिया कर्तुं प्रवृत्तोऽवविपाकत ॥८४॥
 तन्निन्द्यकर्मकर्तृस्तान् विलोक्य वनदेवता । इत्याह रे शठा यूय शृणुतास्मद्वच शुभम् ॥८५॥
 वेषणानेन ये मूढा कर्मद कुर्वतेऽशुभम् । निन्द्य सत्त्वक्षय कर्तृश्वभ्राब्धौ ते पतन्त्यघात ॥८६॥
 गृहिलिङ्गकृत पापमर्हल्लिङ्गेन मुच्यते । अर्हल्लिङ्गकृत पाप वज्रलेपोऽत्र जायते ॥८७॥
 अतोऽत्रेद जगत्पूज्य वेष मुक्त्वा जिनेशिनाम् । गृह्णीध्वमपर नो चेद्द करिष्यामि निग्रहम् ॥८८॥
 इति तद्वचसा भीता मुक्त्वा वेष बुधार्चितम् । जटादिधारणैर्नानावेष ते जगृहुस्तदा ॥८९॥
 मरीचिरपि तीव्रात्तमिथ्यात्वोदयत स्वयम् । परिव्राजकदीक्षा स हत्वा वेष निज व्यधात् ॥९०॥
 तच्छास्त्ररचनेऽस्याशु दीर्घससारिण स्वयम् । शक्तिरासीदहो यस्य यन्नावि तत्किमन्यथा ॥९१॥
 अधासौ त्रिजगत्स्वामी ह्यंकाकी सिंहवन्महीम् । विहृत्याब्दसहस्रा त मौनेन प्राक्तने वने ॥९२॥
 हत्वा घातिरिपून् शुक्लध्यानखड्गने तीर्थराट् । केवलज्ञानसाम्राज्य स्वीचकार जगद्धितम् ॥९३॥
 तत्क्षण यक्षराडस्य दिव्यमास्थानमण्डलम् । स्फुरद्भक्तसुवर्णाद्यैश्चक्रे विश्वाङ्घ्रिपूरितम् ॥९४॥
 इन्द्राद्या परया भूत्या सकलत्रा सवाहना । चक्रिरेऽष्टविधा पूजा भक्त्या दिव्याचर्चनैर्विभो ॥९५॥
 कच्छाद्या प्राक्तनास्तेऽस्मादाकर्ण्य बन्धमोक्षयो । स्वरूप परमार्थेन निर्गन्था बहवोऽभवन् ॥९६॥
 मरीचिस्त्रिजगद्भर्तुं श्रुत्वापि सत्पथ परम् । मुक्तेर्न स्वमत दुर्भीश्रात्यजद् भवकारणम् ॥९७॥

पीना उन्होने प्रारम्भ कर दिया ॥७९-८३॥ पापके उदयसे अति घोर परीषहोके द्वारा पीडित हुआ मरीचि भी उन लोगोके साथ उनके समान ही क्रियाएँ करनेके लिए प्रवृत्त हो गया ॥८४॥ इन भ्रष्ट साधुओको निन्द्य कर्म करते हुए देखकर वनदेवताने कहा—‘अरे मूर्खों, तुम लोग हमारे शुभ वचन सुनो ॥८५॥ इन नग्नवेषको धारण कर जो मूढजन ऐसा निन्द्य अशुभ और जीव-घातक कार्य करते है, वे उस पापके फलसे घोर नरक सागरमे पडते है ॥८६॥ अरे वेषधारियो, गृहस्थ वेषमे किया गया पाप तो जिनलिंगके धारण करनेसे छूट जाता है । किन्तु इस जिनलिंगमे किया गया पाप वज्रलेप हो जाता है । (उसका छूटना बहुत कठिन है) ॥८७॥ अतः जिनेश्वरदेवके इस जगत्पूज्य वेषको छोडकर तुम लोग कोई अन्य वेष धारण करो । अन्यथा मै तुम लोगोका निग्रह करूँगा’ ॥८८॥ इस प्रकार वनदेवताके वचनसे भयभीत होकर विद्वत्पूज्य जिनवेषको छोडकर तब उन लोगोने जटा आदिको धारण करके नाना प्रकारके वेष ग्रहण कर लिये ॥८९॥ मरीचिने भी तीव्र मिथ्यात्व कर्मके उदयसे जिन-वेषको छोडकर स्वय ही परिव्राजक दीक्षाको धारण कर लिया ॥९०॥ दीर्घ ससारी इस मरीचिके उस परिव्राजक दीक्षाके अनुरूप शास्त्रकी रचना करनेमे शीघ्र ही शक्ति प्रकट हो गयी । अहो, जिसका जैसा भवितव्य होता है, वह क्या अन्यथा हो सकता है ॥९१॥

अथानन्तर वे त्रिजगत्स्वामी ऋषभदेव (छह मासके योग पूर्ण होनेके पश्चात्) एक हजार वर्ष तक मौनसे सिंहके समान पृथ्वीपर विहार करके जिसमे दीक्षा ली थी, उसी पूर्व वनमे आये और वहाँपर उन्होने शुक्लध्यानरूप खड्गसे घातिकर्म रूप शत्रुओंका घात करके जगत्का हितकारक केवलज्ञानरूप साम्राज्य प्राप्त किया और तीर्थराट् बन गये ॥९२-९३॥ उसी समय यक्षराजने स्फुरायमान रत्न सुवर्णादिसे उनके दिव्य आस्थानमण्डल (समवसरणसभा) की रचना की, जिसमे सर्व प्राणी यथास्थान बैठ सके ॥९४॥ इन्द्रादिक भी उत्कृष्ट विभूति, अपनी देवागनाओ और वाहनोके साथ आये और दिव्य पूजन-सामग्रीसे उन्होने प्रभुकी भक्तिके साथ आठ प्रकारकी पूजा की ॥९५॥ भगवान्के मुखसे बन्ध और मोक्षका स्वरूप सुनकर उन पुरातन कच्छादिक भ्रष्ट साधुओमेसे बहुत-से साधु पुनः परमार्थ रूपसे निर्गन्थ बन गये ॥९६॥ दुर्बुद्धि मरीचिने त्रिजगत्प्रभुसे मुक्तिका परम सन्मार्ग रूप

यथैष तीर्थनाथोऽत्रात्मना सगादिवर्जनात् । त्रिजगज्जनसक्षोभकारि सामर्थ्यमाप्तवान् ॥९८॥
 मदुपज्ञ तथा लोके व्यवस्थाप्य मतान्तरम् । तन्निमित्तोरुसामर्थ्याज्जगत्त्रयगुरोरहम् ॥९९॥
 प्रतीक्षा प्राप्तुमिच्छामि तमेवञ्च भविष्यति । इति मानादयाद्दुष्टो न व्यरसोस्वदुर्मतात् ॥१००॥
 त्रिदण्डसयुत वेष तमेवादाय पापधी । कायक्लेशपरो मूर्ख कमण्डलुकराङ्कित ॥१०१॥
 प्रात शीतजलस्नानात्कन्दमूलादिभक्षणात् । बाह्योपधिपरित्यागात् कुर्वन् विख्यातिमात्मन ॥१०२॥
 कपिलादिस्वशिष्याणा स्वकल्पितमतान्तरम् । इन्द्रजालनिम निन्द्य यथार्थं प्रतिपादयन् ॥१०३॥
 मुदा भ्रान्त्वा चिर भूमौ मिथ्यामार्गाग्रणी खल । कालेन मरण प्राप तनूजो भरतेशिन ॥१०४॥
 अज्ञानतपसाथासौ ब्रह्मकल्पेऽमरोऽजनि । दशसागरजीवी स्वयोन्यसपत्सुखान्वित ॥१०५॥
 अहो ईदृक् तप कर्ताय यद्याप सुरालयम् । अतो ये सुतप कुर्युस्तेषा किं कथ्यते फलम् ॥१०६॥
 अथेह भारते पुर्या साकेताया द्विजो वसेत् । कपिलाख्य प्रिया तस्य कालीनाम्ना बभूव हि ॥१०७॥
 तयो स निर्जर स्वर्गादेत्याभूज्जदिलाभिध । सुतो दुर्मतसलीनो वेदस्मृत्यादिशास्त्रवित् ॥१०८॥
 पूर्वसंस्कारयोगेन परिव्राजक एव स । भूत्वा मूढजनैर्वन्द्य स्वकुमार्गं प्रशशयन् ॥१०९॥
 पूर्ववत्सुचिर लोके मृत्वा स्वस्यायुष क्षये । तत्कष्टादमरो जज्ञे कल्पे सौधर्मनामनि ॥११०॥
 द्विसागरोपमायुष्क स्वल्पार्धिसुखसयुत । अहो न नि फल जातु कुधिया कुतपो भुवि ॥१११॥

उपदेश सुन करके भी ससारके कारणभूत अपने खोटे मतको नहीं छोडा ॥९७॥ प्रत्युत मनमे सोचने लगा कि जैसे इन पूज्य तीर्थनाथ ऋषभदेवने परिग्रहादिको त्यागनेसे तीन जगत्के जीवोको क्षोभित करनेवाली सामर्थ्य प्राप्त की है, उसी प्रकार मै भी अपने द्वारा प्ररूपित इस अन्य मतको लोकमे व्यवस्थित करके उसके निमित्तसे महान् सामर्थ्यवाला होकर त्रिजगत्का गुरु हो सकता हूँ । मै उस अवसरको पानेके लिए प्रतीक्षा करता हूँ । वह सामर्थ्य मुझे अवश्य प्राप्त होगी । इस प्रकारके मानकषायके उदयसे वह दुष्ट अपने खोटे मतसे विरक्त नहीं हुआ ॥९८-१००॥ वह पापबुद्धि मूर्ख उसी तीन दण्डयुक्त वेषको धारण कर और हाथमे कमण्डलु लेकर कायक्लेश सहनेमे तत्पर रहने लगा ॥१०१॥ वह प्रात काल शीतल जलसे स्नान करके कन्दमूलादि फलोंको खा करके और बाहरी परिग्रहके त्यागसे अपनी प्रख्याति करने लगा, तथा कपिल आदि अपने शिष्योको इन्द्रजालके समान अपने कल्पित निन्द्य मतान्तरको यथार्थ प्रतिपादन करता हुआ मिथ्या मार्गके प्रवर्तनका अग्रणी बनकर चिरकाल तक भारतभूमिमे परिभ्रमण करता रहा । अन्तमे भरतेशका वह पुत्र मरीचि यथाकाल मरणको प्राप्त होकर अज्ञान तपके प्रभावसे ब्रह्मकल्पमे दश सागरोपमकी आयुका धारक और अपने पुण्यके योग्य सुख-सम्पत्तिसे युक्त देव हुआ ॥१०२-१०५॥ अहो, इस प्रकारके कुतपको करनेवाला व्यक्ति यदि स्वर्गलोकको प्राप्त हुआ, तो जो लोग सुतपको करेंगे, उनके तपका क्या फल कहा जाये ? अर्थात् वे तो और भी अधिक उत्तम फलको प्राप्त करेंगे ॥१०६॥

अथानन्तर इस भारतवर्षमे साकेतापुरीके भीतर कपिल नामका एक ब्राह्मण रहता था । उसकी काली नामकी स्त्री थी ॥१०७॥ उन दोनोंके वह देव स्वर्गसे चयकर जटिल नामका पुत्र हुआ । वह कुमतमे सलीन रहता था और वेद, स्मृति आदि शास्त्रोका विद्वान् था ॥१०८॥ पूर्व संस्कारके योगसे वह पुन परिव्राजक होकर कुमार्गका प्रकाशन करता हुआ मूढजनोसे वन्दनीय हुआ ॥१०९॥ पूर्वभवके समान इस भवमे भी वह चिरकाल तक अपने मतका प्रचार करता और उसे पालन करता हुआ आयुके क्षय हो जानेपर मरकर उस अज्ञान तपके कष्ट-सहनके प्रभावसे पुनः सौधर्म नामक कल्पमे देव उत्पन्न हुआ ॥११०॥ वहाँ वह दो सागरोपमकी आयुका धारक और अल्प ऋद्धिसे सयुक्त हुआ । अहो, कुबुद्धियोका कुतप भी ससारमे कभी निष्फल नहीं होता है ॥१११॥

अथैवात्र पुरे रम्ये स्थूणागारसमाह्वये । भारद्वाजद्विजोऽभ्यासीत्पुष्पदन्ता च वल्लभा ॥११२॥
 तयो स कल्पतश्च्युत्वा पुष्पमित्राह्वयोऽभवत् । तनूजो दुर्मतोऽपन्नकुशास्त्राभ्यासतत्पर ॥११३॥
 पुनमिथ्याघपाकेन मिथ्यामतविमोहित । स्वीकृत्य प्राक्तन वेष प्रकृत्यादिप्ररूपितान् ॥११४॥
 पञ्चविंशतिदुस्तत्त्वान् दुधियामभिमानयन् । बद्ध्वा मन्दकषायेण देवायु सोऽभवद् व्यसु ॥११५॥
 तेन सौधर्मकल्पेऽभूदेकसागरजीवित । स देव स्वतपोयोग्यसुखलक्ष्म्यादिमण्डित ॥११६॥
 अथेह भारते क्षेत्रे श्वेतिकाख्ये पुरे शुभे । ब्राह्मणोऽस्त्यग्निभूत्याख्यो ब्राह्मणी (तस्य) गौतमी ॥११७॥
 स्वर्गाच्च्युत्वा तयोरासीत्सोऽमर कर्मपाकत । पुत्रोऽग्निसहनामा निजैकान्तमतशास्त्रवित् ॥११८॥
 पुन प्राक्कर्मणा भूत्वा परिव्राजकदीक्षित । काल स पूर्ववन्नीत्वा स्वायुषोऽन्ते मृतिं व्यगात् ॥११९॥
 तदज्ञानतपक्लेशाद् बभूवासौ सुरो दिवि । सनत्कुमारसज्ञे सप्ताब्ध्यायुष्क सुखान्वित ॥१२०॥
 अथास्मिन् भारते रम्ये मन्दिराख्येपुरे वरे । विप्रो गौतमनामास्य कौशिकी ब्राह्मणी प्रिया ॥१२१॥
 तयोर्देवो दिवश्च्युत्वा सोऽग्निमित्राभिधोऽजनि । तनूद्भवो महामिथ्यादृष्टिर्दुःश्रुतिपारग ॥१२२॥
 पुन पूर्वभवाभ्यासान्नीत्वा दीक्षा पुरातनीम् । विधाय वपुष क्लेश मृत स स्वायुष क्षये ॥१२३॥
 तेनाज्ञतपसा जज्ञे कल्पे माहेन्द्रसज्ञके । गीर्वाण स्वतपोजातायु श्रीदेव्यादिमण्डित ॥१२४॥
 अथेह प्राक्तने रम्ये पुरे मन्दिरनामके । सालकायनविप्रोऽस्ति मन्दिरा तस्य वल्लभा ॥१२५॥
 तयोर्द्विजचरो देवश्च्युत्वा माहेन्द्रत स तुक् । भारद्वाजाह्वयो जात कुशास्त्राभ्यासतत्पर ॥१२६॥

इसके पश्चात् इसी भारतवर्षके स्थूणागार नामके रमणीक नगरमे एक भारद्वाज नामका द्विज रहता था । उसकी पुष्पदन्ता नामकी स्त्री थी ॥११२॥ स्वर्गसे चयकर वह देव उन दोनोके पुष्पमित्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । वह कुमतसे उत्पन्न कुशास्त्रोके अभ्यासमे तत्पर रहता था ॥११३॥ मिथ्यात्व कर्मके विपाकसे वह पुनः मिथ्यामतसे विमोहित होकर और उसी पुराने परिव्राजक वेषको स्वीकार करके प्रकृति आदि पूर्व प्ररूपित पचीस कुतत्त्वो-को कुबुद्धिजनोके लिए स्वीकार कराता हुआ मन्द कषायके योगसे देवायुको बाँधकर मरा और सौधर्म कल्पमे एक सागरोपमकी आयुका धारक एव अपने तपके योग्य सुख और लक्ष्मी आदिसे मण्डित देव उत्पन्न हुआ ॥११४-११६॥

अनन्तर इसी भारत क्षेत्रमे श्वेतिका नामके उत्तम नगरमे अग्निभूति नामका ब्राह्मण रहता था । उसकी ब्राह्मणीका नाम गौतमी था ॥११७॥ स्वर्गसे चयकर वह देव उन दोनोके अग्निसह नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । वह पूर्वकृत मिथ्यात्व कर्मके उदयसे अपने ही पूर्व प्रचारित एकान्त मतके शास्त्रोका ज्ञाता हुआ और पुनः पुरातन कर्मसे परिव्राजक दीक्षासे दीक्षित होकर और पूर्वके समान ही काल बितकर और अपनी आयुके अन्तमे मरकर उस अज्ञान तपःक्लेशके प्रभावसे सनत्कुमार नामके स्वर्गमे सात सागरोपम आयुका वारक सुख-सम्पन्न देव हुआ ॥११८-१२०॥

तत्पश्चात् इसी भारतवर्षमे रमणीक मन्दिर नामके उत्तम पुरमे गौतम नामका एक विप्र रहता था । उसकी कौशिकी नामकी ब्राह्मणी प्रिया थी ॥१२१॥ उन दोनोके स्वर्गसे च्युत होकर वह देव अग्निमित्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । वह महा मिथ्यादृष्टि और कुशास्त्रोका पारगामी था । वह पुनः पूर्व भवके अभ्याससे पूर्व भववाली परिव्राजक दीक्षाको लेकर और शारीरिक क्लेशो को सहनकर अपनी आयुके क्षय होनेपर मरा और उस अज्ञान तपसे माहेन्द्र नामके स्वर्गमे अपने तपके अनुसार आयु, लक्ष्मी और देवी आदिसे मण्डित देव उत्पन्न हुआ ॥१२२-१२४॥

तदनन्तर इसी भारतवर्षके उसी पुरातन मन्दिर नामके रमणीक नगरमे सालकायन नामका एक ब्राह्मण रहता था । उसकी स्त्रीका नाम मन्दिरा था । उन दोनोके वह देव माहेन्द्र

तत्कुञ्जानजसवेगाद्दीक्षां त्रिदण्डमण्डिताम् । गृहीत्वा तपसा बद्ध्वा देवायु स मूर्तिं ययौ ॥१२७॥
 तत्फलेन बभूवासौ दिवि माहेन्द्रनामनि । धृत्वा ससाब्धिमानायु स्वतपोऽर्जितशर्मभाक् ॥१२८॥
 तत प्रच्युत्य दुर्मार्गप्रकटीकृतजेनस । महापापविपाकेन निन्द्या सर्वा भोगती ॥१२९॥
 प्रविश्यासख्यवर्षाणि चिर भ्रान्त्वा सुखातिग । दु कर्मशृङ्खलाबद्धसस्थावरयोनिषु ॥१३०॥
 सर्वदु खनिधानेषु नानादु खातिपीडित । वचोऽतिग महादु ख मिथ्यात्वफलतोऽन्वभूत् ॥१३१॥
 वरं हुताशने पातो वर हाळाहलाशानम् । अबधौ वा मजन श्रेष्ठ मिथ्यात्वाच्च च जीवितम् ॥१३२॥
 वर व्याघ्रारिचौराहिवृश्रिकादिखलात्मनाम् । प्राणापहारिणा सगो न च मिथ्यादशा क्वचित् ॥१३३॥
 एकत सकल पाप मिथ्यात्वमेकतस्तयो । वदन्त्यत्रान्तर दक्षा मेरुसर्षपयोरिव ॥१३४॥
 इति मत्वा न कर्तव्य प्राणान्तेऽपि कदाचन । विश्वदु खाकरीभूत मिथ्यात्व दु खभीरुभि ॥१३५॥

इति कुपथविपाकाच्छर्मबिन्द्वाममाप्य

जलनिधिसमदु ख चान्वभूत् स त्रिदण्डी ।

त्रिजगति सुखकामा हीति मत्वा त्रिष्टुब्धा

त्यजत निखिलमिथ्यामार्गमादाय इष्टिम् ॥१३६॥

स्वर्गसे चयकर भारद्वाज नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । वह सदा कुशास्त्रोके अभ्यासमे तत्पर रहता था । पुन उस कुञ्जानसे उत्पन्न सवेगसे उसने तीन दण्डोंसे मण्डित त्रिदण्डी दीक्षा ग्रहण कर और तपसे देवायुको बाँधकर मरा और उसके फलसे माहेन्द्र नामके स्वर्गमे सात सागरोपम आयुका धारक और अपने तपसे उपाजित पुण्यके अनुसार सुखको भोगनेवाला देव उत्पन्न हुआ ॥१२५-१२८॥

तत्पश्चात् वहाँसे च्युत होकर और कुमारके प्रकट करनेसे उपाजित महा पापकर्मके विपाकसे निन्द्य सभी अधोगतियोमे प्रवेश करके असख्यात वर्ष प्रमाण चिरकालतक सुखोसे दूर और दुःखोसे भरपूर होकर परिभ्रमण करता हुआ दुष्कर्मोंकी शृंखलासे वह सर्वदुःखोके निधानभूत त्रस-स्थावरयोनियोंमे वचनोके अगोचर नाना दुःखोसे पीडित हो मिथ्यात्वके फलसे महादुःखको भोगता रहा ॥१२९-१३१॥

आचार्य कहते हैं कि अग्निमें गिरना उत्तम है, हालाहल विषका पीना अच्छा है और समुद्रमें डूबना श्रेष्ठ है, किन्तु मिथ्यात्वसे युक्त जीवन अच्छा नहीं है ॥१३२॥ व्याघ्र, शत्रु, चोर, सर्प और विच्छू आदि प्राणापहारी दुष्ट प्राणियोंका सगम उत्तम है, किन्तु मिथ्यादृष्टियोंका सग कभी भी अच्छा नहीं है ॥१३३॥

यदि एक ओर सर्वपाप एकत्रित किये जावे और दूसरी ओर अकेला मिथ्यात्व रखा जाये, तो ज्ञानीजन उनका अन्तर मेरु और सरसोके दाने-जैसा कहते है । अर्थात् अकेला मिथ्यात्व पाप सुमेरुके समान भारी है और सर्व पाप सरसोके समान तुच्छ है ॥१३४॥ इसलिए दुःखोसे डरनेवाले मनुष्योको समस्त दुःखोके खानिस्वरूप मिथ्यात्वका सेवन प्राणान्त होनेपर भी कभी नहीं करना चाहिए ॥१३५॥

इस प्रकार मरीचिका जीव वह त्रिदण्डी कुपथ-(मिथ्यामार्ग-) प्रचारके विपाकसे बिन्दुके समान अत्यल्प सुखको पाकर समुद्रके समान महान् दुःखोको असख्यकाल तक कुयोनियोंमे भोगता रहा । ऐसा समझकर जो जीव तीन लोकमे सुखके इच्छुक हैं, उन्हें मान, वचन, कायकी त्रियोग शुद्धिपूर्वक सम्यग्दर्शन को ग्रहण करके समस्त मिथ्यामार्गको छोड़ देना चाहिए ॥१३६॥

वीरोऽनन्तसुखप्रदोऽसुखहरो वीर श्रिता धीधना
 वीरेणाश्रु विनाश्यते भवभय वीराय भक्त्या नम ।
 वीरान्मुक्तिवधूर्भवेद् बुधसता वीरस्य नित्या गुणा
 वीरे मे दधतो मनोऽरिविजये हे वीर शक्तिं कुरु ॥१३७॥

इति भट्टारक-श्रीसकलकीर्तिविरचिते श्रीवीर-वर्धमानचरिते पुरुरवादि-
 बहुभववर्णनो नाम द्वितीयोऽधिकार ॥२॥

वीर भगवान् अनन्त सुखके देनेवाले है और दुःखको हरण करते हैं, अतः ज्ञानीजन वीर प्रभुका आश्रय लेते हैं। वीर प्रभुके द्वारा भवभय शीघ्र विनष्ट हो जाता है, इसलिए भक्तिके साथ वीरनाथको नमस्कार हो। वीर भगवान् के प्रसादसे ज्ञानी सन्तजनको मुक्ति-वधू प्राप्त होती है, वीरनाथके गुण अक्षय हैं, अतः मैं वीरप्रभुमे अपने मनको धारण करता हूँ। हे वीरनाथ, कर्म-शत्रुओको जीतनेके लिए मुझे शक्ति दो ॥१३७॥

इस प्रकार भट्टारक श्री सकलकीर्ति-विरचित इस वीर वर्धमान चरित्रमे पुरु रवा आदि अनेक भवोका वर्णन करनेवाला यह दूसरा अधिकार समाप्त हुआ ॥२॥

तृतीयोऽधिकारः

यस्यानन्तगुणा व्याप्य त्रैलोक्य हि निरर्गला । चरन्ति हृदि देवेशा गुणाप्यै स स्तुतोऽस्तु मे ॥१॥
 अथेह मागधे देशे पुरे राजगृहामिधे । ब्राह्मण शाण्डिलिर्नाम्ना तस्य पाराशरी प्रिया ॥२॥
 भवभ्रमणत श्रान्त सोऽतिदु खी ततस्तयो । स्थावराख्य सुतो जातो वेदवेदाङ्गपारग ॥३॥
 तत्रापि प्राक् स्वमिथ्यात्वसस्कारेण मुदाददे । परिव्राजकदीक्षा स कायक्लेशपरायण ॥४॥
 तेनाङ्गक्लेशपाकेन मृत्वासीदमरो दिवि । माहेन्द्रे सप्तवार्यायु सोऽल्पश्रीसुखभोगभाक् ॥५॥
 अथास्मिन् मागधे देशे पुरे राजगृहाह्वये । विश्वभूतिर्महीपोऽभूजैनी नाम्नास्य वल्लभा ॥६॥
 तयो स्वर्गात्स आगत्य विश्वनन्दी सुतोऽजनि । विख्यातपौरुषो दक्ष पुण्यलक्षणभूषित ॥७॥
 विश्वभूतिमहीभर्तुं सस्नेहोऽस्यानुजो महान् । विशाखभूतिनामास्य लक्ष्मणाख्या प्रियामवत् ॥८॥
 तयो पुत्र कुधीर्जातो विशाखनन्दसञ्जक । ते सर्वे पूर्वंपुण्येन तिष्ठन्ति शर्मणा मुदा ॥९॥
 अन्येषु शरदभ्रस्य विनाश वीक्ष्य शुभ्रधी । विश्वभूतिनृपो भूत्वा निर्विण्णो हीत्यचिन्तयत् ॥१०॥
 अहो यथेदमभ्र हि विनाशमगमत्क्षणात् । तथायुयौवनादीनि मे यास्यन्ति न सशय ॥११॥
 अतो न क्षीयते यावत्सामग्री मुक्तिसाधने । यौवनायुर्बलाक्षाद्या तावत्कार्यं तपोऽनघम् ॥१२॥

जिस प्रभुके अनन्त गुण विना किसी रुकावटके तीनों लोकोमे व्याप्त होकर देवेन्द्रोके हृदयमे विचर रहे है, वे मेरे द्वारा स्तुति किये गये वीतरागदेव मेरे गुणोकी प्राप्तिके लिए हो ॥१॥

अथानन्तर इस भारतवर्षके मगधदेशमे राजगृह नामके नगरमे शाण्डिलि नामका एक ब्राह्मण रहता था । उसकी प्रियाका नाम पाराशरी था । उन दोनोके ससार-परिभ्रमणसे थका हुआ वह मरीचिका अतिदुःखी जीव स्थावर नामका पुत्र हुआ । बड़े होनेपर वह वेद-वेदाङ्गका पारगामी हो गया ॥२-३॥ वहाँ पर भी अपने पूर्व मिथ्यात्वके सस्कारसे उसने सहर्ष परिव्राजक दीक्षा ग्रहण कर ली और कायक्लेशमे परायण होकर नाना प्रकारके खोटे तप करने लगा । उस कायक्लेशके परिपाकसे आयुके अन्तमे मरकर वह माहेन्द्र स्वर्गमे सात सागरोपम आयुका धारक और अल्प लक्ष्मीके सुखका भोगनेवाला देव हुआ ॥४-५॥

तत्पश्चात् इसी मगध देशमे और इसी राजगृहनगरमे विश्वभूति नामका राजा राज्य करता था । उसकी जैनी नामकी वल्लभा रानी थी । उन दोनोके वह देवस्वर्गसे आकर विश्वनन्दी नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । वह प्रसिद्ध पुरुषार्थवाला, दक्ष एव पवित्र लक्षणोसे भूषित था ॥६-७॥ विश्वभूति महीपतिके अतिप्यारा विशाखभूति नामका छोटा भाई था । उसकी लक्ष्मणा नामकी प्रिया थी ॥८॥ उन दोनोके कुबुद्धिवाला विशाखनन्द नामका एक पुत्र हुआ । ये सब पूर्व पुण्यके उदयसे सुखपूर्वक रहते थे ॥९॥ किसी अन्य दिन शरदऋतुके मेघका विनाश देखकर वह निर्मल बुद्धिवाला विश्वभूति राजा ससार, देह और भोगोसे विरक्त होकर इस प्रकार विचारने लगा—अहो, जैसे यह मेघ एक क्षणमे देखते-देखते विनष्ट हो गया, उसी प्रकार मेरे यह यौवन, और आयु आदिक भी विनाशको प्राप्त हो जायेंगे, इसमे कोई सन्देह नहीं है ॥१०-११॥ अतः जबतक यह यौवन, आयु, बल और इन्द्रियादिक सामग्री क्षीण नहीं होती है, तबतक मुक्तिके साधनमे निर्मल तपश्चरण करना चाहिए ॥१२॥

इत्यादिचिन्तनादाप्य सवेग द्विगुण नृप । भवभोगाङ्गलक्ष्म्यादौ दीक्षां गृहीतुमुद्ययौ ॥१३॥
 तत्क्षण विधिना राज्य स्वानुजाय ददौ पुन । यौवराज्य स्वपुत्राय स्नेहाच्च नृपसत्तम ॥१४॥
 ततो गत्वा जगद्वन्द्य श्रीधराख्य मुनीश्वरम् । प्रगम्य शिरसा त्यक्त्वा बाह्यान्तरपरिग्रहान् ॥१५॥
 त्रिशुद्ध्या सयम भूपो जग्राह देवदुर्लभम् । मुक्तये भूमिपै सार्धं त्रिशतै रागदूरगै ॥१६॥
 ततो हत्वाक्षमोहादीन् ध्यानखड्गेन सयमी । उग्रोऽग्र स तप कर्तुमुद्ययौ कर्मघातकम् ॥१७॥
 अथान्यदा निजोद्याने विश्वनन्दी मनोहरे । क्रीडां कुर्वन् स्वदेवीभि समं स्वलीलया स्थित ॥१८॥
 त रम्य च तदुद्यान दृष्ट्वा तन्मोहमोहित । विशाखनन्द आसाद्येत्यवादीत् पितर निजम् ॥१९॥
 विश्वनन्दिन उद्यान तात मङ्ग प्रदीयताम् । अन्यथाह करिष्यामि विदेशगमन ध्रुवम् ॥२०॥
 तदाकर्ण्य नृपो मोहादित्याह सुत तेऽचिरात् । उपायेन वन तस्य दास्यामि तिष्ठ साम्प्रतम् ॥२१॥
 प्रपञ्चेमान्यदा भूप आहूय विश्वनन्दिनम् । इत्याख्यद् राज्यभारोऽय त्वया भद्राद्य गृह्यताम् ॥२२॥
 अह चोपरि गच्छामि प्रत्यन्तवामिभूभृत । तज्जातक्षोभशान्त्यर्थं स्वदेशस्य सुखाप्तये ॥२३॥
 तच्छ्रुत्वा कुमारोऽवोचत् पूज्य त्व तिष्ठ शर्मणा । अह गत्वा भवत्प्रेष्य करोमीत्थ त्वदाज्ञया ॥२४॥
 इति प्रार्थ्यं तदादेश स्वसैन्येन सम रिपून् । विजेतु निर्ययौ तस्माद्-विश्वनन्दी महाबला ॥२५॥
 गते तस्मिन्स्तदुद्यान ददौ राजा स्वसूनवे । अहो धिगस्तु मोहोऽय यदर्थं क्रियतेऽशुभम् ॥२६॥
 ज्ञात्वा तद्वञ्चना तद्वनपाठप्रोषिताच्चरात् । विश्वनन्दी महाधारो हृदि स्वस्येत्यचिन्तयत् ॥२७॥

इत्यादि चिन्तनसे राजा ससार, शरीर, भोग और लक्ष्मी आदिके विषयमे दुगुने सवेगको प्राप्त होकर दीक्षा ग्रहण करनेके लिए उद्यत हो गया ॥१३॥ उस उत्तम राजाने उसी समय अपने छोटे भाईको अतिस्नेहसे विधिपूर्वक राज्य दिया और अपने पुत्रको युवराज पद दिया ॥१४॥ पुनः जगद्-वन्द्य श्री श्रीधर नामके मुनिराजके समीप जाकर और उन्हें मस्तकसे नमस्कार कर राजाने बाहरी और भीतरी सर्व परिग्रहको छोड़कर मन-वचन-कायकी शुद्धिपूर्वक देव-दुर्लभ सयम, मुक्तिके लिए रागको दूर करनेवाले तीनसौ राजाओंके साथ, धारण कर लिया ॥१४-१६॥ तत्पश्चात् वह सयमी ध्यानरूपी खड्गसे मोह, इन्द्रिय आदि शत्रुओका विनाश कर कर्म-घातक उग्र-महाउग्र तपश्चरण करनेके लिए उद्यत हुआ ॥१७॥

इधर किसी समय विश्वनन्दी अपने मनोहर उद्यानमें अपनी स्त्रियोंके साथ लीलापूर्वक क्रीडा करता हुआ स्थित था ॥१८॥ उसे और उसके रमणीक उद्यानको देखकर उस उद्यानके मोहसे मोहित होकर विशाखनन्दने अपने पिताके पास जाकर यह कहा—हे तात, विश्वनन्दी का उद्यान मुझे दो । अन्यथा मैं निश्चयसे विदेश गमन कर जाऊँगा ॥१९-२०॥ उसकी यह बात सुनकर राजा विशाखभूतिने मोहसे प्रेरित होकर कहा—हे पुत्र, मैं शीघ्र ही किसी उपायसे यह उद्यान तुम्हें दूँगा । अभी तू ठहर जा ॥२१॥ इसके पश्चात् किसी दूसरे दिन राजाने किसी छल-प्रपञ्चसे विश्वनन्दीको बुलाकर कहा—हे भद्र, तुम यह राज्यभार ग्रहण करो, मैं सीमा-वर्ती राजाके ऊपर उससे उत्पन्न हुए क्षोभकी शान्तिके लिए तथा अपने देशकी सुख-प्राप्तिके लिए जाता हूँ ॥२२-२३॥ अपने काकाकी यह बात सुनकर विश्वनन्दी कुमारने कहा—हे पूज्य, आप सुखसे रहिए । मैं आपकी आज्ञासे जाकर उस शत्रुको आपका दास बनाता हूँ ॥२४॥ इस प्रकारसे प्रार्थना कर और उसकी आज्ञा लेकर अपनी सेनाके साथ शत्रुको जीतनेके लिए महाबली विश्वनन्दी वहाँसे चला गया ॥२५॥ उसके चले जानेपर राजा विशाखभूतिने वह उद्यान अपने विशाखनन्द पुत्रके लिए दे दिया । आचार्य कहते हैं कि ऐसे मोहको धिक्कार है कि जिससे प्रेरित होकर मनुष्य ऐसे पाप कार्यको करता है ॥२६॥

तत्पश्चात् वनपालके द्वारा भेजे गये गुप्तचरसे राजाकी यह प्रवचना जानकर महाधीर विश्वनन्दी अपने हृदयमे इस प्रकार सोचने लगा—अहो, देखो इस मेरे काकाने मुझे शत्रुओं-

अहो पश्य पितृव्योऽय मा प्रहित्य रिपून् प्रति । कौटिल्यमीदृश चक्रे स्नेहराज्याङ्गनाशकृत् ॥२८॥
 अथवा मोहिनां तर्किकं यदकृत्य जगत्त्रये । यत् कुर्वन्ति मोहान्धा कर्मात्रामुत्र नाशदम् ॥२९॥
 वितर्क्येति प्रसाध्यारीन् हन्तु स्ववनहारिणम् । शीघ्रं रुषात्कुमारोऽतिबली स्ववनमाययो ॥३०॥
 तद्भयात्सोऽतिभीतात्मा सुकपित्थमहीरुहम् । स्फीत वृत्त्या समावेष्ट्य तन्मध्यभागमाश्रित ॥३१॥
 महीरुहं तमुन्मूल्य कुमारोऽद्भुतविक्रम । तेन हन्तु निजं शत्रुमधावत्तद्भयप्रदं ॥३२॥
 ततोऽसावसृत्याशु शिलास्तम्भस्य कातर । अन्तर्धानं गतं काहो जयोऽन्त्यायकारिणाम् ॥३३॥
 बली-मुष्टिप्रहारेण स्तम्भमाहत्य तत्क्षणम् । शतखण्डं व्यधाद् भो किमशक्यं सबलात्मनाम् ॥३४॥
 तस्मात्पलायमानं तं दीनास्य स्वापकारिणम् । निरीक्ष्य करुणाक्रान्तमना भूवेति सोऽस्मरत् ॥३५॥
 अहो भ्रिगस्तु मोहोऽयं यदर्थं कातराङ्गिनाम् । बन्धूनां क्रियते दण्डो बध्वन्धादिगोचरं ॥३६॥
 भुक्तैर्वैविधैर्भोगैर्दुःखजैर्दुःखहेतुभिः । एति तृप्तिं न जात्वात्मा तैः किं साध्यं खलैः सताम् ॥३७॥
 स्वस्त्यङ्गमथनोद्भूता ये भोगा माननाशिनः । विश्वाशमार्करीभूतान् किं तानिच्छन्ति मानिनः ॥३८॥
 विचिन्त्येति समाहूय तस्मै दत्त्वाशु तद्वनम् । त्यक्त्वा राज्यश्रियं सोऽगात्सम्भूतगुरुवनिधिम् ॥३९॥
 मूर्ध्नां नत्वा यतोन्मूढा हि त्वा सर्वपरिग्रहान् । सर्वत्राससुसवेगो विश्वनन्दी तपोऽग्रहीत् ॥४०॥
 अपकारोऽप्यहो लोके क्वचिन्नोचैः कृतो महान् । जायते प्रापकाराय सतां शस्त्रात्तवैद्यवत् ॥४१॥

के प्रति भेजकर स्नेह, राज्य और शरीरकी नाश करनेवाली ऐसी कुटिलता मेरे साथ की है ॥२७-२८॥ अथवा मोही जनोके लिए तीन लोकमे ऐसा कौनसा अकृत्य है जिसे वे न करे । मोहान्ध होकर मनुष्य इस लोक और परलोकमे विनाशकारी कर्मको करता है ॥२९॥ ऐसा विचार कर और शत्रुओको जीतकर अपने वनका अपहरण करनेवालेको मारनेके लिए वह अतिबली विश्वनन्दी कुमार रोषसे शीघ्र ही अपने वनमे आया ॥३०॥ उसके भयसे डरकर वह विशाखनन्द एक विशाल कपित्थ (कैथ) के वृक्षको काँटोंकी वारीसे घेरकर उसके मध्य भागमें जाकर अवस्थित हो गया ॥३१॥ तब अद्भुत पराक्रमी उस विश्वनन्दी कुमारने उस वृक्षको जड़मूलसे उखाडकर उससे अपने शत्रुको मारनेके लिए उसे भयभीत करता हुआ उसके पीछे दौड़ा ॥३२॥ तब वह कायर विशाखनन्द शीघ्र वहाँसे भागकर एक शिलास्तम्भकी आड़मे जाकर छिप गया । अहो, इस संसारमे अन्यायकारियोकी जीत कहाँ सम्भव है ॥३३॥ तब उस बली विश्वनन्दीने अपने मुष्टि-प्रहारसे उस स्तम्भको तत्क्षण शतखण्ड कर दिया । अरे, बलवान् आत्माओके लिए क्या अशक्य है ॥३४॥ तब वहाँसे भागते हुए दीनमुख अपने अपकारीको देखकर और करुणा-पूरित चित्त होकर वह विश्वनन्दी इस प्रकारसे विचारने लगा—अहो, इस मोहको धिक्कार हो, जिससे प्रेरित होकर यह जीव कायरताको प्राप्त अपने ही बन्धुओंको बध-बन्धनादिरूप दण्ड देता है ॥३५-३६॥ दुःखोसे उत्पन्न होनेवाले और आगामी भवमे दुःखोके कारणभूत इन भोगे गये नाना प्रकारके भोगोसे यह आत्मा कभी भी तृप्तिको नहीं प्राप्त होता है । अतः ऐसे इन दुष्ट भोगोसे सन्त जनोका क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ॥३७॥ स्त्रीके शरीर मन्थनसे उत्पन्न हुए ये भोग मनस्वीजनोके मानका नाश करनेवाले हैं और संसारके समस्त दुःखोके निधानभूत है, इनकी क्या मानी जन इच्छा करते हैं ॥३८॥ ऐसा विचार कर और उसे बुलाकर वह उद्यान उसे ही देकर और सब राज्यलक्ष्मी छोड़कर वह शीघ्र ही सम्भूतगुरुके समीप गया और मुनिराजके चरणोको मस्तकसे नमस्कार कर तथा सर्व परिग्रहोको छोड़कर एव देह, भोग, संसार आदि सभीमे वैराग्यको प्राप्त होकर विश्वनन्दीने तपको ग्रहण कर लिया ॥३९-४०॥ ग्रन्थकार कहते हैं कि अहो, लोकमे नीच पुरुषोंके द्वारा किया गया महान् अपकार भी कभी सज्जनोके भारी उपकारके लिए हो जाता है । जैसे कि वैद्यके द्वारा शस्त्रचिकित्सासे रोगीका उपकार होता है ॥४१॥

विशाखभूतिरप्याप्य पश्चात्ताप दुरुत्तरम् । विनिन्द्य बहुधात्मान लब्ध्वा सवेगमञ्जसा ॥४२॥
 भवलक्ष्म्यङ्गभोगादौ तमभ्येत्य मुनीश्वरम् । त्यक्त्वा सगास्त्रिधा दीक्षा प्रायश्चित्तमिवाद्दौ ॥४३॥
 ततस्तपोऽतिनि पाप कृत्वा घोरतर चिरम् । स्वशक्त्या विधिना कृत्वा मृत्यौ सन्यासमूर्जितम् ॥४४॥
 तत्फलेनामवकल्पे महाशुक्राभिप्रेसर । महर्द्विकोऽतिधर्मात्मा विशाखभूतिसयमी ॥४५॥
 विश्वनन्दी भ्रमन्तानादेशग्रामवनादिकान् । तपसातिक्रशाम्त पक्षमासादिनावल ॥४६॥
 क्वचित्स्वतनुसस्थित्यै स्वीर्यापथात्तलोचन । शुष्कौष्ठवदनाङ्गोऽसौ प्राविशन्मथुरा पुरीम् ॥४७॥
 तदा दुर्व्यनान्निन्द्याद् भ्रष्टराज्यो महापते । कस्यचिद्दूतभावेनागत्य ता स पुरी शठ ॥४८॥
 विशाखनन्द एवाधीर्ष्यासौधाग्रसस्थित । सद्य प्रसूतगोशृङ्गघातात्त दुर्बल मुनिम् ॥४९॥
 प्रस्खलन्त समाक्षयातिक्षीणदेहपराक्रमम् । इत्यवादीत् प्रहासेन दुर्वच स्वस्य घातकम् ॥५०॥
 मुने पराक्रमस्तेऽद्य शिलास्तम्भादिभङ्गकृत् । क्व गत प्राक्तनो दर्प शौर्य क्व च ममादिश ॥५१॥
 यतस्त्व दृश्यतेऽतीव दुर्बल शक्तिदूरग । जल्लात्ताङ्गोऽतिशताद्यैर्दग्धकाय शवादिचत् ॥५२॥
 इति तद्दुर्वच श्रुत्वा क्रोधमानोदयाद्यति । भूत्वा कोपेन रक्ताक्ष इत्यन्तर्गतमाह स ॥५३॥
 रे दुष्ट मत्तपोमाहात्म्यात्प्रहासफल महत् । प्राप्यसि त्व न सदेह कटुक मूलनाशकृत् ॥५४॥
 ईदृश स तदुच्छिद्यै निदान बुधनिन्दितम् । कृत्वा स्वतपसा प्रान्ते सन्यासेनामवद्व्यसु ॥५५॥
 ततस्तप फलेनासौ तत्रैवामूसुरो दिवि । यत्रास्ति सुखसलीनो विशाखभूतिसन्मुनि ॥५६॥

इस घटनाके पश्चात् विशाखभूतिने भी भारी पश्चात्तापको प्राप्त होकर, अपनी अनेक प्रकारसे निन्दा करके शीघ्र ससार, राज्यलक्ष्मी, और शरीर-भोग आदिमे वैराग्यको प्राप्त होकर उक्त मुनीश्वरके समीप जाकर मन-वचन-कायसे सर्व परिग्रहोको छोड़कर प्रायश्चित्तके समान दीक्षाको ग्रहण कर लिया ॥४२-४३॥

इसके पश्चात् चिरकाल तक अपनी शक्तिके अनुसार अतिनिर्मल घोरतर तप कर और मरण समय विधिपूर्वक उच्छिष्ट सन्यासको धारण करके उसके फलसे वह अति धर्मात्मा विशाखभूति सयमी महाशुक्र नामके कल्पमे महर्द्विक देव उत्पन्न हुआ ॥४४-४५॥

इधर विश्वनन्दी मुनि भी पक्ष-मास आदिके तपोके करनेसे अतिक्रश शरीर एव निर्बल होकर नानादेश, ग्राम, वनादिकमे विहार करते ओठ, मुख और शरीरके सूख जानेपर भी ईर्यापथपर दृष्टि रखे हुए अपने शरीरकी स्थितिके लिए मथुरापुरीमे प्रविष्ट हुए । उस समय निन्द्य दुर्व्यसनोके सेवनसे राज्यभ्रष्ट हुआ और किसी अन्य राजाका दूत बनकर मथुरापुरीमे आकर किसी वैश्याके भवनके अग्रभागपर बैठा हुआ वह कुबुद्धि विशाखनन्द सद्यःप्रसूता गायके सीगके आघातसे अतिक्रशदेह और क्षीणपराक्रम दुर्बल उन विश्वनन्दी मुनिको गिरता हुआ देखकर हास्यपूर्वक अपना घात करनेवाले दुर्वचन इस प्रकार बोला ॥४६-५०॥

हे मुने, शिलास्तम्भ आदिको भग्न करनेवाला तुम्हारा वह पराक्रम कहाँ गया ? तुम्हारा वह पहलेवाला दर्प और शौर्य कहाँ गया ? सो मुझे बताओ । आज तो तुम शक्तिसे अतिदूर और अत्यन्त दुर्बल दिखते हो ? तुम्हारा यह शरीर मलसे व्याप्त और अतिशीतसे दग्ध मुर्दे आदिके समान दिखाई दे रहा है ॥५१-५२॥

इस प्रकारके उसके दुर्वचन सुनकर क्रोध और मान कपायके उदयसे यह मुनि कोपसे रक्तनेत्र होकर मनमे बोला—अरे दुष्ट, मेरे तपके माहात्म्यसे तू इस प्रहास्यका स्वमूल-नाशक महान् कटुक फल पायेगा, इसमे कोई सन्देह नहीं है । इस प्रकार ज्ञानियों द्वारा निन्दित निदान उसके विनाशके लिए वह मुनि करके अपने तपसे अन्तमे सन्यासके साथ मरा और उस तपके फलसे वह उसी स्वर्गमे देव उत्पन्न हुआ, जहाँपर

तत्र षोडश वाराशिप्रमायुष्कौ सुरोत्तमौ । दिव्यदेहधरौ दीप्तौ सप्तधातुविवर्जितौ ॥५७॥
विमानमेरुनन्दीश्वरादिषु श्रीजिनेशानाम् । अर्चाचंनपरौ पञ्चकल्याणकरणोद्यतौ ॥५८॥
सहजाम्बरभूषास्त्रिविक्रियद्वर्चदिभूषितौ । सर्वासातातिगौ कान्तौ स्वतपश्चरणार्जितान् ॥५९॥
भुञ्जानौ विविधान् भोगान् स्वदेवाभि सम मुदा । शर्माब्धिमध्यगौ पुण्यपाकान्तौ तिष्ठत सदा ॥६०॥
अथास्मिन्नादिमे द्वीपे सुरम्यविषये शुभे । पोदनाख्ये पुरे भूप प्रजापतिरभूच्छुभात् ॥६१॥
देवी जयावती तस्य तयोश्च्युत्वा दिवोऽजनि । विशाखभूतिराजाचरोऽमरो विजयाख्यतुक् ॥६२॥
विश्वनन्दिचरो देव स्वर्गादेत्याभवत्सुत । तस्य राज्ञो मृगावत्या त्रिपृष्ठाख्यो महाबली ॥६३॥
चन्द्रेन्द्रनीलवर्णाङ्गौ दीप्तिकान्तिकलाङ्कितौ । न्यायमार्गरतौ दक्षौ सप्रतापौ श्रुतान्वितौ ॥६४॥
खभूचरसुरार्थीशौ सेव्यमानपदाम्बुजौ । महाविभवसपन्नौ दिव्यामरणमण्डितौ ॥६५॥
क्रमात्सद्यौवन प्राप्य लक्ष्मीक्रीडागृहोपमौ । प्राङ्महापुण्यपाकेन सप्राप्तपरमोदयौ ॥६६॥
दिव्यभोगोपभोगाढ्यौ दानादिगुणशालिनौ । इन्द्रादित्याविवाभातस्तावाद्यौ रामकेशवौ ॥६७॥
अथेह विजयार्धोत्तरश्रेण्यामलक्रापुरे । मयूरग्रीवराजामूद् राज्ञी नीलाङ्गनास्य च ॥६८॥
तयोर्विशाखनन्द स चिर आन्त्या भवान्नेवे । स्वर्गादेत्य सुतो जात क्वचित्पुण्यविपाकत ॥६९॥
अश्वग्रीवाभिधो धीमास्त्रिखण्डश्रीविमण्डित । अर्धचक्री सुरै सेव्य प्रतापो भोगतत्पर ॥७०॥

किं विशाखभूति सन्मुनिराजका जीव सुखमे मग्न देव था ॥५३-५६॥ वहाँपर उन उत्तम दोनो देवोकी आयु सोलह सागर प्रमाण थी, दोनो सप्तधातु-रहित दीप्त दिव्य देहके धारक थे और दोनो ही सदा विमानस्थ तथा मेरुपर्वत, नन्दीश्वरद्वीप आदिमे स्थित श्रीजिनेन्द्र देवोकी प्रतिमाओके पूजनमे तत्पर एव तीर्थकरोक पचकल्याणकोके करनेमे उद्यत रहते थे । वे सहजात दिव्य वस्त्र, आभूषण, माला और विक्रिया ऋद्धि आदिसे भूषित, सर्व प्रकारकी असातासे रहित और सौन्दर्ययुक्त थे । तथा अपने पूर्वभवके तपश्चरणसे उपार्जित नाना प्रकारके भोगोको आनन्दपूर्वक अपनी देवियोके साथ भोगते हुए पुण्यकर्मके विपाकसे सदा सुख-सागरमे मग्न रहने लगे ॥५७-६०॥

अथानन्तर इस आदिम जम्बूद्वीपमे शुभ सुरम्य देशके पोदनपुर नामके नगरमे प्रजापति नामका राजा राज्य करता था । पुण्योदयसे उसकी जयावती नामकी एक सुन्दर रानी थी । उनके विशाखभूति राजाका जीव वह देव स्वर्गसे चय कर विजय नामका पुत्र हुआ ॥६१-६२॥ उसी राजाकी दूसरी रानी मृगावतीके विश्वनन्दीका जीव वह देव चय कर त्रिपृष्ठ नामका महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ ॥६३॥ इनमे-से विजयका शरीर चन्द्रवर्ण और त्रिपृष्ठका शरीर नीलवर्णका था । दोनो दीप्ति, कान्ति और कलासे सयुक्त थे । दोनो न्यायमार्गमे निरत, दक्ष, प्रतापयुक्त, शास्त्रज्ञानवाले थे । खेचर, भूचर और देवोके स्वामियो द्वारा उनके चरण-कमलोकी सेवा की जाती थी । दोनो महाविभवसे सम्पन्न, दिव्य आभरणोसे मण्डित क्रमसे यौवन अवस्थाको प्राप्त होकर लक्ष्मीके क्रीडागृहकी उपमाको धारण करते थे । पूर्वोपार्जित महापुण्यके परिपाकसे परम उदयको प्राप्त, दिव्य भोगोपभोगोसे युक्त, दानादिगुणशाली वे दोनो भाई चन्द्रमा और सूर्यके समान मालूम पडते थे । वे दोनो इस अवसर्पिणीकालके आद्य बलभद्र और वासुदेव थे । अर्थात् विजय प्रथम बलभद्र और त्रिपृष्ठ प्रथम नारायण थे ॥६४-६७॥

अथानन्तर इस भारतवर्षके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीमे अलकापुर नामके नगरमे मयूरग्रीव नामका राजा राज्य करता था । उसकी रानी नीलाङ्गना थी । वह विशाखनन्द चिरकाल तक ससार-सागरमे परिभ्रमण कर पुण्यके विपाकसे स्वर्गमे गया और फिर वहाँसे चय कर उक्त राजा रानीके अश्वग्रीव नामका बुद्धिमान्, त्रिखण्डकी लक्ष्मीसे मण्डित, देवोसे

अथ तस्मिन् खगाद्रावुत्तरश्रेण्या प्रविद्यते । रथनूपुरशब्दादिचक्रवालपुरी परा ॥७१॥
 ज्वलनादिजटी तस्या पतिरासीच्छुभोदयात् । चरमाङ्गोऽतिपुण्यात्मानेकविद्याविभूषित ॥७२॥
 तत्रैवाद्रौ महारम्ये पुरे द्युतिलकाभिधे । चन्द्राभाख्य खगेशोऽभूत्सुभद्रास्य प्रियाजनि ॥७३॥
 वायुवेगा तयोर्जाता पुत्री रूपादिशालिनी । यौवने परिणीता ज्वलनादिजटिनापि सा ॥७४॥
 अर्ककीर्तिस्तयो सूनुर्बभूवार्कनिभो गुणै । सुता स्वयप्रभाख्या च दिव्यरूपा शुभाशया ॥७५॥
 खगाधीशोऽन्यदा वीक्ष्य पुत्री सर्वाङ्गयौवनाम् । ददती जिनगन्धोदकमालां धर्मतत्पराम् ॥७६॥
 नैमित्तिक समाहूय सभिन्नश्रोतृसञ्जकम् । अस्या को भविता मर्ता पप्रच्छेतिस पुण्यवान् ॥७७॥
 तत्प्रश्नात्स उवाचेद राजन्नाद्यार्धचक्रिण । त्रिपृष्ठस्य महादेवी त्वत्सुतेय भविष्यति ॥७८॥
 खगाद्रेरुभयश्रेण्योस्तद्दत्ता चक्रवर्तिताम् । त्वमाप्स्यसि खगेशाना नान्यथैतच्छ्रुतोदितम् ॥७९॥
 इति तेनोक्तसद्-वाक्ये विधाय निश्चय नृप । अमात्यमिन्द्रनामान मात्तिक सुश्रुताङ्कितम् ॥८०॥
 सलेख प्राभृतेनामा प्राहिणोत्पौदन प्रति । न्योम्नास्मादाशु स प्राप वन पुष्पकरण्डकम् ॥८१॥
 त्रिपृष्ठ प्राक् परिज्ञाय नैमित्तिकमुखात्स्वयम् । तदागमनमेवाशु गत्वा तत्सन्मुख मुदा ॥८२॥
 बहुमानेन दूत त नृपास्थान समानयत् । परार्घ्यमणिनिर्माणमनेकनृपवेष्टितम् ॥८३॥
 पौदनाधिपतिं सोऽपि मूर्त्नां नत्वा सपत्रकम् । प्रदाय प्राभृत तस्मै यथास्थानमुपाविशत् ॥८४॥
 वीक्ष्य मुद्रा समुद्भिद्य तदन्त स्थितपत्रकम् । प्रसार्य वाचयामास स हीत्यसौ कार्यसूचकम् ॥८५॥

सेन्य, प्रतापी, भोगमे तत्पर अर्धचक्री (प्रतिनारायण) पुत्र उत्पन्न हुआ ॥६८-७०॥ उसी विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीमे रथनूपुरचक्रवाल नामकी उत्तम नगरी थी । उसका स्वामी पुण्योदयसे ज्वलनजटी नामका अनेक विद्याओसे विभूषित, अति पुण्यात्मा और चरमशरीरी विद्याधर था ॥७१-७२॥ उसी ही विजयार्धपर्वतपर द्युतिलक नामके महारमणीकपुरमे चन्द्राभ नामका एक विद्याधरोका स्वामी रहता था । उसकी सुभद्रा नामकी प्रिया थी । उनके वायु-वेगा नामकी रूप कान्तिशालिनी पुत्री हुई । यौवनको प्राप्त होनेपर ज्वलनजटीने उसके साथ विवाह किया । उनके गुणोंसे सूर्यके समान अर्ककीर्ति नामका पुत्र उत्पन्न हुआ और स्वयप्रभा नामकी दिव्यरूपवाली शुभलक्षणा पुत्री भी उत्पन्न हुई ॥७३-७५॥ एक बार धर्ममें तत्पर वह स्वयंप्रभा जब अपने पिताको गन्धोदक और पुष्पमाला दे रही थी, तब सर्वाङ्गयौवनवती अपनी पुत्रीको देख कर उस विद्याधरोंके स्वामी ज्वलनजटीने संभिन्नश्रोता नामवाले ज्योतिषीको बुलाकर पूछा कि कौन पुण्यवान् मेरी इस पुत्रीका स्वामी होगा ? उसके प्रश्नके उत्तरमे उसने कहा—हे राजन्, आपकी पुत्री प्रथम अर्धचक्री त्रिपृष्ठ नारायणकी यह महादेवी (पट्टरानी) होगी और उसके द्वारा दिये गये इस विजयार्ध पर्वतकी दोनों श्रेणियोंके विद्याधरोंके चक्रवर्तीपनेको तुम प्राप्त करोगे । मेरी यह शास्त्रोक्त बात अन्यथा नहीं हो सकती है ॥७६-७९॥ इस प्रकार उस ज्योतिषीके द्वारा कहे गये वाक्यपर निश्चय करके ज्वलनजटी राजाने उत्तम शास्त्रज्ञानसे युक्त भक्ति-तत्पर इन्द्र नामके मन्त्रीको बुलाकर पत्र-सहित भेटके साथ उसे पोदनपुर भेजा । वह आकाशमार्गसे शीघ्र ही वहाँके पुष्पकरण्डक वनमे पहुँचा ॥८०-८१॥ त्रिपृष्ठ ज्योतिषीके मुखसे पहले ही उसके आगमनको जानकर स्वय ही हर्षसे उसके सम्मुख जाकर बहुत सम्मानके साथ उस दूतको राजसभामे लिवा लाया । वह दूत भी श्रेष्ठ बहुमूल्य मणिनिर्मित, अनेक नृपवेष्टित सिंहासन पर बैठे हुए पोदनाधिपतिको मस्तकसे नमस्कार करके और पत्र-सहित भेट उन्हें देकर यथास्थान बैठ गया ॥८२-८४॥ पोदनेश्वरने लिफाफेके ऊपर की मोहरको खोलकर उसके भीतर रखे हुए पत्रको पसारकर बाँचा, जिसमे कि इस प्रकार कार्यकी सूचना थी ॥८५॥

श्रीमानित खगाधीश पुण्यधीर्विनयाङ्कित । न्यायमार्गरतो दक्षो नगराद् रथनूपुरात् ॥१५॥
 ज्वलनादिजटी ख्यातो नमिवशनभोऽशुमान् । पौदनाख्यपुराधीश प्रजापतिमहीपतिम् ॥१७॥
 आदितीर्थकरोत्पन्नबाहुबल्यन्वयोद्भवम् । शिरसा स्नेहतो नत्वा कुशलप्रश्नपूर्वकम् ॥१८॥
 सप्रश्रय प्रजानाथमित्थ विज्ञापयत्यसौ । वैवाहिक सुसबन्धो विधेयो नाधुना मया ॥१९॥
 त्वया वास्त्यात्रयो किंतु पारम्पर्यागतोऽत्र स । विशुद्धवशथोरद्य नैव कार्यं परीक्षणम् ॥२०॥
 मद्भागिनेयपूज्यस्य त्रिपृष्ठस्य स्वयम्प्रभा । मत्सुता श्रीरिवान्याहो आतनोतु रतिं पराम् ॥२१॥
 तद्बन्धुभाषित श्रुत्वा प्रजापतिनृपो मुदा । तस्येष्ट यन्ममेष्ट तदित्यमात्थमतोषयत् ॥२२॥
 सोऽपि सन्मानदानादीन् प्राप्तो राज्ञा विसर्जित । सद्य स्वस्वामिन प्राप्य कार्यसिद्धिं न्यवेदयत् ॥२३॥
 ततो हुत मुदानीय सार्ककीर्तिं खगाधिप । स्वयम्प्रभा महाभूत्या विवाहविधिना स्वयम् ॥२४॥
 त्रिपृष्ठाय ददौ प्रीत्या भाविनीमिव सच्छ्रयम् । अहो पुण्योदयात्पुसा दुर्लभ किं न जायते ॥२५॥
 जामात्रेऽदात्पुन सिंहवाहिनी खगनायक । यथोक्तविधिना चान्या विद्या गरुडवाहिनीम् ॥२६॥
 तयो सपद्धिवाहादिवार्ताश्रवणवह्नि । चरास्याच्च ज्वलिताशु सोऽश्वग्रीवो नराधिप ॥२७॥
 बहुभि खगपै सैन्येनावृत सङ्गराय च । रथावर्ताचल प्राप चक्ररत्नाद्यलकृत ॥२८॥
 तदागमनमाकर्ण्य चतुरङ्गबलान्वित । प्रागेवागत्य तत्रास्थास्त्रिपृष्ठं अह बन्धुना ॥२९॥
 ततोऽनुत्तरणे तत्र निर्जितो भाविचक्रिणा । मायेतरादिसग्रामैर्हयग्रीवोऽतिविक्रमात् ॥३०॥

यहाँ रथनूपुर नामक नगरसे विद्याधरोका स्वामी, पुण्यबुद्धि, विनयावन्त, न्यायमार्गरत, दक्ष, नमिवशरूप गगनका सूर्य श्रीमान् ज्वलनजटी नामका राजा आदि तीर्थकर ऋषभदेवसे उत्पन्न बाहुबलीके वशमे पैदा हुए पोदनापुरके स्वामी श्री प्रजापति महीपालको स्नेहसे मस्तक द्वारा नमस्कार कर वह प्रजानाथसे इस प्रकार सविनय निवेदन करता है कि हम लोगों का वैवाहिक सम्बन्ध (आपका हमारे साथ) अथवा हमारा आपके साथ अभी तक नहीं हुआ है, किन्तु हमारा आपका परम्परागत सम्बन्ध है। हम दोनोंका वश विशुद्ध है, अतः इस विषयमे कोई परीक्षण नहीं करना चाहिए। मेरी पुत्री स्वयम्प्रभा जो मानो साक्षात् दूसरी लक्ष्मीके समान है, वह मेरे पूज्य भागिनेय (भानेज) त्रिपृष्ठकी परम रतिको विस्तारित करे। अर्थात् मेरी पुत्री आपके पुत्रकी प्रिया होवे ॥८६-९१॥

प्रजापति राजा अपने उस बन्धुकी इस कही गयी बातको सुनकर हर्षसे बोला—‘जो बात उन्हें इष्ट है, वह मुझे भी इष्ट है।’ ऐसा कहकर उस समागत मन्त्रीको सन्तुष्ट किया ॥२२॥ तथा सम्मान दानादिके द्वारा राजासे विदा पाकर वह मन्त्री (दूत) शीघ्र ही अपने स्वामीके पास पहुँचा और कार्यकी सिद्धिको निवेदन किया ॥२३॥ तत्पश्चात् अर्ककीर्ति पुत्रके साथ विद्याधरोके स्वामी ज्वलनजटीने शीघ्र ही स्वयम्प्रभा पुत्रीको लाकर हर्षसे विवाहविधिके साथ स्वय ही प्रीतिपूर्वक त्रिपृष्ठके लिए दी। वह कन्या मानो आगे होनेवाली उत्तम राज्य-लक्ष्मीके ही समान थी। अहो, पुण्यके उदयसे मनुष्योंको कौन सी दुर्लभ वस्तु नहीं प्राप्त होती है ॥२४-२५॥ पुनः विद्याधरेश ज्वलनजटीने अपने जामाताके लिए सिंहवाहिनी और गरुड-वाहिनी ये दो विद्याएँ यथोक्त विधिसे दी ॥२६॥ गुप्तचरके मुखसे उन दोनोंके सम्पन्न हुए विवाह आदिकी बातके श्रवणरूप अग्निसे प्रज्वलित हुआ वह नरपति अश्वग्रीव शीघ्र ही विद्याधरोसे और सेनासे सयुक्त होकर तथा चक्ररत्न आदिसे अलकृत होकर युद्धके लिए रथनूपुरके पर्वतपर आया ॥२७-२८॥ उसके आगमनको सुनकर चतुरगिणी सेनासे युक्त हो अपने भाई विजयके साथ त्रिपृष्ठ पहलेसे ही वहाँपर आकर ठहर गया ॥२९॥ तत्पश्चात् उस

चक्ररत्न क्रुधादायासन्नमृत्युर्व्यधोदयात् । परीत्य प्रेषयामास त्रिपुष्ट प्रति निष्ठुरम् ॥१०१॥
 तत्त प्रदक्षिणीकृत्य तस्यौ तदक्षिणे भुजे । तस्य पुण्यविपाकेन त्रिखण्डश्रीवशीकरम् ॥१०२॥
 त्रिपुष्टो हुतमादाय चक्र शत्रुभयकरम् । उद्दिश्य स्वरिपु कोपादक्षिपन्निष्ठुराशय ॥१०३॥
 अश्वग्रीवोऽपि तेनाप्य मृतिं रौद्राशयोऽशुभात् । बह्वारम्भधनाद्यै प्राग्बद्धश्रयुरेव च ॥१०४॥
 कृत्स्नदु खाकरीभूत शर्मदूर घृणास्पदम् । महापापोदयेनागात्सप्तम नरक कुधी ॥१०५॥
 त्रिपुष्टोऽथ जगत्ख्याति लब्ध्वा तन्निर्जयाद्यश । प्रसाध्य चक्ररत्नेन त्रिखण्डस्थान्नराधिपान् ॥१०६॥
 खगोशान्मागधादीश्र व्यन्तराधिपतीन् बलात् । तेभ्य आदाय सारार्थान् कन्यारत्नादिगोचरान् ॥१०७॥
 श्रेणीद्वयाधिपत्येन रथनूपुरभूपतिम् । नियोज्य परया भूत्या षडङ्गबलवेष्टित ॥१०८॥
 सिद्धदिग्विजय श्रीमान् साग्रजो बहुपुण्यवान् । लीलया प्राविशद्विव्य स्वपुर श्रयादिमण्डितम् ॥१०९॥
 प्रागजितायपाकेन सप्तरत्नाद्यलकृत । अमरै खेचरै षोडशसहस्रनूपैर्नुत ॥११०॥
 सहस्रद्वचष्टसख्याभि भूपुत्रीमिरन्वहम् । केवल विविधान् भोगानन्वभूदादिकेशव ॥१११॥
 मृत्युपर्यन्तमेवातिगृह्या वृत्ताशदूरग । धर्मदानार्चनादीना नाममात्र विहाय च ॥११२॥
 तत श्रयुरेवासौ बह्वारम्भपरिग्रहै । अतीवविषयासक्त्या बध्वा दुर्ध्यानलेश्यया ॥११३॥
 रौद्रध्यानेन मुक्त्वासून् पापभारेण पापधी । धर्मादिते पपातान्ते सप्तमे नरकार्णवे ॥११४॥
 तत्रोपपाददेशे स बीभत्सेऽतिघृणास्पदे । अधोमुखो हि पूर्णाङ्ग सप्राप्य घटिकाद्वयात् ॥११५॥

अद्भुत युद्धमे भावी चक्रवर्ती त्रिपुष्टने विद्योपनत मायावी एव अन्य शस्त्रास्त्रोके द्वारा अति-
 पराक्रमसे अश्वग्रीव को जीत लिया । तब आसन्नमृत्यु उस अश्वग्रीवने पापके उदयसे क्रोधित
 हो चक्ररत्नको निष्ठुरतापूर्वक त्रिपुष्टके ऊपर चलाया । वह चक्ररत्न त्रिपुष्ट की प्रदक्षिणा
 देकर उसके पुण्योदयसे उसकी दाहिनी भुजापर आकर विराजमान हो गया । तब त्रिपुष्टने
 तीनखण्डकी लक्ष्मीको वशमे करनेवाले और शत्रुओके लिए भयकर उस चक्रको शीघ्र लेकर
 निष्ठुर हृदय होके क्रोधसे अपने शत्रुको लक्ष्य करके फेका । रौद्रपरिणामी कुबुद्धि अश्वग्रीव
 भी उस चक्रके द्वारा मरणको प्राप्त होकर तथा बहुत आरम्भ-परिग्रहादिके द्वारा पूर्वमे
 नरकायुके बाँधनेके महा अशुभ पापोदयसे समस्त दुःखोकी खानिभूत, सुखसे दूर, घृणास्पद,
 सातवे नरकको प्राप्त हुआ ॥१००-१०५॥

इसके पश्चात् उस अश्वग्रीवके जीतनेसे जगद्-व्याप्त यश और ख्यातिको प्राप्त कर
 चक्ररत्नके द्वारा तीनखण्डोमे रहनेवाले सर्व राजाओको, विद्याधरेशोको और न्यन्तरोके
 अधिपति मागध आदि देवोको अपने बलसे वशमे करके और उनसे कन्यारत्न आदि विषयक
 सार पदार्थोको लेकर, तथा विजयार्थ पर्वतकी दोनो श्रेणियोके आधिपत्यपर रथनूपुरके
 नरेशको नियुक्त कर, षडङ्गसेनासे वेष्टित, बडे भाई विजयके साथ दिग्विजय सिद्ध करके वह
 बहुपुण्यशाली श्रीमान् त्रिपुष्टनारायण लीलापूर्वक लक्ष्मी शोभा आदिसे मण्डित अपने दिव्य-
 पुरमे प्रविष्ट हुआ ॥१०६-१०९॥ पूर्वोपाजित पुण्यके परिपाकसे सुदर्शनचक्र आदि सप्त रत्नोसे
 अलकृत, देव, विद्याधर और सोलह हजार राजाओसे नमस्कृत, और सोलह हजार राज-
 पुत्रियोके साथ निरन्तर एकमात्र नाना प्रकारके भोगोको वह आदि वासुदेव त्रिपुष्ट भोगने
 लगा ॥११०-१११॥ मरण पर्यन्त वह अतिगृद्धिसे भोगोको भोगता हुआ, चारित्रके अशसे भी
 दूर रहता हुआ, और धर्म, दान, पूजनादिके नाममात्रको भी छोडकर विषयोमे अति आसक्त
 रहा । इस कारण और बहुत आरम्भ परिग्रहसे, तथा खोटी लेश्यासे नरकायुको बाँधकर वह
 पापबुद्धि रौद्रध्यानसे प्राणोको छोडकर धर्मके बिना पापके भारसे सातवे नरक-सागरमे
 गया ॥११२-११४॥ वहाँ अति बीभत्स, अति घृणास्पद उत्पत्तिस्थानमे अधोमुख हुए उसका
 जन्म हुआ । दो घड़ीमे ही पूर्ण शरीरको प्राप्त कर एक हजार बिन्दुओके काटनेसे भी अधिक

वृश्चिकैरुसहस्राधिकवेदनविधायिनि । राव पर प्रकुर्वाणो न्यपतच्छ्वभ्रभृतले ॥११६॥
 उत्पत्त्याशु पुनस्तस्माद् गव्यूतिशतविशतिम् । वज्रकण्टकसकीर्णं महापीठे पपात स ॥११७॥
 ततो वीक्ष्य स दीनात्मा नारकान् मारणोद्धतान् । क्लृप्तासाताकरीभूत तत्क्षेत्रमित्यचिन्तयत् ॥११८॥
 अहो केय धरा निन्द्या सर्वदु खनिबन्धना । केऽत्रामी नारका रौद्रा वेदनादानपण्डिता ॥११९॥
 कोऽह कस्मादिहायात एकाकी सुखदूरग । केन दु कर्मणा वाहमार्गीतोऽत्र मयास्पदे ॥१२०॥
 इत्यादिचिन्तनादाप्य विमङ्गावधिमाश्रत । श्वभ्रे स्वपतित ज्ञा वा विलापमिति सोऽकरोत् ॥१२१॥
 अहो मया पुरा जीवराशयोऽनेकशो हता । असत्यकटुकादीनि भाषितानि वचासि च ॥१२२॥
 परश्रीःस्यादिवस्तूनि सेवितानि हठान्मया । मेलितानि धनादीनि लाभग्रस्तेन पापिना १२३॥
 खादितान्यखाद्यानि चासेव्यसेवितानि वै । अपेयान्यपि पीतानि पञ्चेन्द्रियवशात्मना ॥१२४॥
 किमत्र बहुनोक्तेन मया सर्वं खलात्मना । पापमेक कृत घोर प्राग्भवे स्वस्य घातकम् ॥१२५॥
 न कृत परमो धर्मं स्वर्गमुक्तिनिबन्धन । न मनाक् पालितान्येव व्रतानि शुभदानि च ॥१२६॥
 नानुष्ठित तप ऋचित्पात्रदान न जातुचित् । पूजन वा जिनादीना शुभकर्म न चापरम् ॥१२७॥
 अत्र तेषा समस्ताना महाघाचरणात्मनाम् । विपाकन महार्ताव्रा वेदना मे पुर स्थिता ॥१२८॥
 अतोऽह च क्व गच्छामि क पृच्छामि वदामि कम् । कस्य वा शरण यामि कच्छता मे भविष्यति ॥१२९॥
 इत्यादिचिन्तनोत्पन्नै पश्चात्तापैर्दुःखैर् । दृष्टमानमना यावद्द्वर्तते सोऽतिदु खमाक् ॥१३०॥
 तावत्ते प्राक्तना पापा नारका एव तत्क्षणम् । मुद्गरादिप्रहारेस्त घ्नन्ति नूतननारकम् ॥१३१॥

वेदना देनेवाली नरक भूमिपर दारुण शब्द करता हुआ गिरा । पुनः वहाँ से एक सौ बीस कोश ऊपर उठलकर वज्रमय कटकसे व्याप्त नरककी महा दुःखदायी भूमिपर वह गिरा ॥११५-११७॥ तब वहाँ वह दीनात्मा त्रिपृष्ठका जीव मारनेके लिए उद्धत नारकियोको तथा समस्त असाताकी खानिरूप उस क्षेत्रको देखकर इस प्रकार चिन्तवन करने लगा ॥११८॥
 अहो, सर्वदुःखकी कारणभूत यह कौन-सी निन्द्य भूमि है ? यहाँपर वेदना देनेमे अतिकुशल महाभयानक ये रौद्रस्वभावी नारकी कौन हे ? मैं कौन हूँ ? सुखसे दूर, अकेला मैं यहाँ कहाँसे आ गया हूँ ? अथवा किस दुष्कर्मसे मैं इस अतिभयावने स्थानपर लाया गया हूँ ? इत्यादि चिन्तवन करनेसे शीघ्र प्राप्त हुए विभगावधिज्ञानसे अपनेको नरकमे पतित हुआ जानकर वह इस प्रकारसे विलाप करने लगा ॥११९-१२१॥ अहो, मैंने पूर्वभवमे अनेक बार जीवराशियोका सहार किया, असत्य और कटु-निन्द्य आदि वचन बोले, परायी लक्ष्मी, स्त्री और अन्य वस्तुओको मैंने बलात्कारसे सेवन किया, लोभग्रस्त होकर मुझ पापीने धनादिका संग्रह किया, अखाद्य वस्तुओको खाया, असेवनीय पदार्थोंका सेवन किया और निश्चयसे पाँचो इन्द्रियोके वश होकर मैंने अपेय मदिरा आदिका पान किया ॥१२२-१२४॥ इस विषयमे अधिक कहनेसे क्या, मुझ पापात्माने पूर्व भवमे अपना ही घात करनेवाले सर्व पापोको किया । किन्तु स्वर्ग और मुक्तिको देनेवाला परम धर्म नहीं किया और न सुखदायी व्रतोको ही रचमात्र पालन किया । न तपका अनुष्ठान ही किया और न कभी पात्रोको दान ही दिया । न जिनदेवादिकी पूजा ही की और न कोई दूसरा शुभ काम ही किया । इसलिए यहाँपर उन महा पापाचरणवाले समस्त कार्योके विपाकसे यह महातीव्र वेदना मेरे सामने उपस्थित हुई है ॥१२५-१२८॥ अतएव अब मैं कहाँ जाऊँ, किसे पूछूँ और किससे कहूँ ? मैं किसकी शरण जाऊँ ? यहाँपर कौन मेरा रक्षक होगा ? इत्यादि विचारसे उत्पन्न हुए दुरुत्तर पश्चात्तापोसे जिसका हृदय झल रहा है ऐसा वह त्रिपृष्ठका जीव अति दुःख भोगता हुआ अवस्थित था, तभी पूर्वमे उत्पन्न हुए पापी नारकी लोग उसके समीप तत्क्षण आकर इस नवीन नारकीको मुद्गर आदिके प्रहारोसे मारने लगे ॥१२९-१३१॥

उत्पाटयन्ति केचिच्च तस्य नेत्रे परे खला । विदारयन्ति सर्वाङ्ग त्रोटयन्त्यन्त्रमालिकाम् ॥१३२॥
 निर्घृणा क्वाथयन्त्यन्ये कृत्वास्याङ्ग तिलोपमम् । केचिच्छस्त्रेण कृन्तन्त्यङ्गोपाङ्गान्यखिलानि च ॥१३३॥
 आगत्योक्षिप्य त केचित्तप्ततैलकटाहके । प्रपूर्कार प्रकुर्वाण न्यक्षिपन् दाहहेतवे ॥१३४॥
 तेन सर्वाङ्गदग्धोऽस्मात्सोऽनीवदाहपीडित । नैनरण्या जले गत्वा न्यमज्जत्तप्रशान्तये ॥१३५॥
 तत्रातिक्षारदुर्गन्धतोयोर्म्याद्यै कदधित । असिपत्रवन सोऽगाद्विश्रामायातिदु करम् ॥१३६॥
 तस्य वायुवशात्क्षणैरसिपत्रमर्दुच्युतै । छिन्नभिन्नमभूत्तस्य बीभत्स गात्रमज्जसा ॥१३७॥
 ततोऽतिखण्डिताङ्गोऽसौ दीन कृत्स्नासुखाब्धिग । तद्दु खशान्तये गत्वा प्राविशत्यर्बतान्तरम् ॥१३८॥
 तत्रापि पापिभि क्रूरैर्नारकैर्विक्रियावलात् । न्याग्रसिहादिरूपाद्यै प्रारब्ध खादितु च स ॥१३९॥
 इत्यादिविविध घोर कविवाचामगोचरम् । भुङ्क्ते त्यक्तोपम दु ख पापपाकेन सोऽन्वहम् ॥१४०॥
 सर्वाब्धिसलिलासाध्यावृषामिस्तृषितोऽपि स । बिन्दुमात्र जल पातु लभते न कदाचन ॥१४१॥
 विश्वान्नभक्षणशाश्वत्या क्षुधया स बुभुक्षित । तिलमात्रसमाहार प्राप्नोति नाशितु क्वचित् ॥१४२॥
 लक्ष्योजनमानोऽथ पिण्ड क्षिप्तोऽत्र केनचित् । द्रुत शीततुषारेण शतखण्ड प्रयात्यहो ॥१४३॥
 इत्याद्यन्यन्महादु ख कायवाञ्छानसोऽभवम् । पर परस्परोदीरित क्षेत्रोत्पन्नमज्जसा ॥१४४॥
 भुङ्क्ते सोऽन्वहमत्यन्त पापपाकेन रौद्रधी । त्रयस्त्रिंशत्समुद्रायु कृष्णलेश्य सुखातिग ॥१४५॥

कितने ही दुष्ट नारकी उसके नेत्र उखाडने लगे, कितने ही उसके सर्व अंगका विदारण करने लगे और कितने ही उसकी आँतों की आवलीको बाहर निकालने लगे। कितने ही निर्दयी नारकी उसका क्वाथ (काढा) बनाने लगे, कितने ही शस्त्रोंके द्वारा उसके शरीरको तिल समान खण्ड-खण्ड करने लगे। कितने ही नारकी उसके सर्व अंग और उपागोंको काटने लगे। कितनोने आकर चिल्लाते हुए उसे उठाकर तप्त तेलके कडाहमे पकानेके लिए डाल दिया। इससे उसका सर्वांग जल गया और वह अत्यन्त दाहसे पीडित होकर वहाँसे निकल कर शान्ति पानेके लिए वैतरणीके जलमे जाकर डूबा। उसके अत्यन्त खारे, दुर्गन्धित पानी की लहरो आदि से पीडित होकर विश्राम पानेके लिए वह अतिदुष्कर असिपत्रवनमे गया ॥१३२-१३६॥ वायुके वेगसे गिरे हुए उस वनके वृक्षोंके तलवारकी धारके समान तीक्ष्ण पत्तोंसे उसका शरीर छिन्न-भिन्न होकर निश्चयतः अति भयानक हो गया ॥१३७॥ तब अति खण्डित शरीरवाला वह दीन नारकी सर्व दुःखोंके समुद्रमे डुबकी लगाता हुआ उस दुःखकी शान्तिके लिए पर्वतके मध्यभाग-मे प्रविष्ट हुआ। वहाँपर भी पापी क्रूर नारकी विक्रियाके बलसे व्याग्र, सिंह, रीछ आदिके रूप बनाकर उसे खाने लगे। इनको आदि लेकरके अनेक प्रकारके कविके वचन-अगोचर, उपमा-रहित दुःखोंको वह नारकी पापके विपाकसे निरन्तर भोगने लगा ॥१३८-१४०॥ सभी समुद्रोंके जल-पानसे भी नहीं शान्त होनेवाली प्याससे पीडित रहते हुए भी उसे कभी एक बिन्दु जल पीनेके लिए नहीं मिला। ससारके समस्त अन्नके भक्षणसे भी नहीं शान्त होनेवाली भूखसे पीडित होनेपर भी कभी तिल-प्रमाण भी आहार खानेके लिए नहीं मिला ॥१४१-१४२॥

उन नरकोमे शीत वेदना इतनी अधिक है कि यदि एक लाख योजनके प्रमाणवाला लोहेका गोला किसीके द्वारा वहाँ डाल दिया जाये तो वह वहाँके अति शीत तुषारसे अहो शीघ्र ही शतधा खण्ड-खण्ड हो जाये ॥१४३॥ इन दुःखोंको आदि लेकर उन नारकीयोंके परस्परमे दिये गये शारीरिक, वाचनिक और मानसिक दुःखोंको तथा क्षेत्र-जनित असह्य महादुःखोंको वह रौद्रबुद्धि नारकी पापकर्मके विपाकसे निरन्तर भोगने लगा। वहाँपर त्रिपृष्ठ-के जीव उस नारकी की आयु तेतीस सागरोपम थी, कृष्ण लेश्या थी और वह सदा दुःखोंसे सन्तप्त रहता था ॥१४४-१४५॥

अथैतस्य वियोगेन बलभद्रोऽतिपुण्यधी । विश्वाङ्गभोगराज्यादौ विरक्ति प्राप्य सोऽञ्जसा ॥१४९॥
 कृत्वा घोरतर द्वेधा तपो ध्यानासिना तत । कृत्स्नकर्मरिपून् हत्वा लब्धवानन्तचतुष्टयम् ॥१४७॥
 देवार्चनीय निर्वाणमनन्तसुखसागरम् । निरौपम्य निराबाध जगाम विश्ववन्दितम् ॥१४८॥
 इति सुचरणयोगाद् भुक्तभोगोऽपि चैकोऽगमदिह जगदङ्ग सत्पद बन्धुरन्य ।
 कुचरणविधिपाकादान्त्यपातालरन्ध्र चरत चरणसार भो विदित्वेति दक्षा ॥१४९॥
 एतद्दु खनिवारक शिवकर कर्मारिविध्वसक ह्यन्तातीतगुणार्णव भवहर स्वमुक्तिशर्माकरम् ।
 विश्वेश शरण जगत्त्रयसतां वन्द्य च पूज्य वर वन्दे तद्गुणसिद्धयेऽन्तिमजिन श्रीधर्मतीर्थङ्करम् ॥१५०॥

इति श्रीभट्टारकसकलकीर्तिविरचिते वीरवर्धमानचरिते
 स्थूलभवचतुष्टयवर्णनो नाम तृतीयोऽधिकारः ॥३॥

त्रिपृष्ठ नारायणके वियोगसे समस्त देह, भोग और राज्यादिसे विरक्त होकर उस पुण्यबुद्धि विजय बलभद्रने मुनिदीक्षा ले ली और अतिघोर बहिरग-अन्तरग दोनो प्रकारका तप करके पुन ध्यानरूपी खड्गसे समस्त कर्मरूपी शत्रुओको नष्ट कर और अनन्तचतुष्टयको प्राप्त कर तथा देवोके द्वारा पूजाको पाकर अनन्तसुखके सागर, निरुपम, निराबाध एव विश्व-वन्दित निर्वाणको प्राप्त हुआ ॥१४६-१४८॥

इस प्रकार उत्तम चारित्रके भोगसे एक भाई सर्वसासारिक सुखोको भोगकर जगत्के अग्रभागपर स्थित मोक्षरूप सत्पदको प्राप्त हुआ । और दूसरा भाई खोटे आचरणसे उपाजित पापके विपाकसे अन्तिम पातालके लिद्र स्वरूप सप्तम नरकको प्राप्त हुआ । ऐसा जानकर हे चतुर मनुष्यो, सारभूत चारित्रिका आचरण करो ॥१४९॥

यह धर्मरूपी तीर्थ सर्वदु खोका निवारक है, शिव-कारक है, कर्मरूप शत्रुओका विध्वसक है, अनन्त गुणोंका सागर है, ससारका सहारक है, स्वर्ग-मुक्तिके सुखका भण्डार है । ऐसे धर्मरूप तीर्थके प्रवर्तक जगत्के ईश, तीन लोकको शरण देनेवाले सन्त जनोसे वन्दनीय, उत्तम और पूज्य अन्तिम तीर्थकर श्री वर्धमान जिनको मैं उनके गुणोकी सिद्धिके लिए वन्दना करता हूँ ॥१५०॥

इस प्रकार भट्टारक श्री सकलकीर्ति-विरचित इस वीर वर्धमानचरितमे उनके स्थूल चार भवोका वर्णन करनेवाला तीसरा अधिकार समाप्त हुआ ॥३॥

चतुर्थोऽधिकारः

श्रीमते मुक्तिनाथाय स्वानन्तगुणशालिने । महावीराय तीर्थेशे त्रिजगत्स्वामिने नम ॥१॥
 अथैष नारक श्रमन्ननिर्गत्य स्वायुष क्षये । वनिसिंहगिरौ सिंहो बभूवाशुभपाकत ॥२॥
 तत्राप्येन उपाज्योच्चैर्हिंसादिक्रमकर्मभि । तस्योदयेन स प्राप निन्द्या रत्नप्रभावनम् ॥३॥
 अनुभूय महादुःखमेकाब्ध्यन्त ततो हि स । च्युत्वा दुःकर्मबद्धात्मा द्वीपऽस्मिन्नादिमे शुभे ॥४॥
 भारते सिद्धकूटस्य प्राग्भागे हिमवद्गिरे । सानावभून्मृगाधीशस्तीक्ष्णदृष्टो मृगान्तक ॥५॥
 कदाचित् मृगैकस्य भक्षयन्त ददर्श खे । गच्छन् भव्यहितोद्युक्तो यमी नाम्नाजितजय ॥६॥
 चारणद्विपरिप्राप्तो ह्यनेकगुणसागर । सहामितगुणाख्येन मुनिना व्योमगामिना ॥७॥
 स्मृत्वा तीर्थकरोक्त सोऽवतीर्थं नभसो महीम् । उपविश्य शिलापीठे कृपया चारणाग्रणी ॥८॥
 मृगाधिप समासाद्य तद्वितायेत्युवाच वै । भो भो भव्य मृगाधीश शृणु पथ्य मयोदितम् ॥९॥
 त्रिपृष्ठेशभवे पूर्व त्वया भुक्ता शुभोदयात् । भोगा मनोहरा सर्वेन्द्रियवृत्तिकरा परा ॥१०॥
 दिव्यस्त्रीभि सम प्राप्य त्रिखण्डस्वामिजा श्रियम् । अतीवविषयासक्त्या मृत्यन्त सद् वृषाद्विना ॥११॥
 तेभ्यो जातमहापापपाकेन विषयान्धधो । मृत्वा त्व सप्तम श्वश्रु गतो दुःकर्मचेष्टित ॥१२॥
 तत्र वैतरणी भीमा क्षारपूयपकुर्दमाम् । प्रवेशितोऽतिपापिष्ठैस्त्व प्राग्मज्जनजाघत ॥१३॥
 तस्माद्य पिण्डनिर्घातैश्चूर्णितो नारकैर्बलात् । सतसलोहनारीभि प्राप्तश्चालिङ्गन मुहु ॥१४॥

मुक्तिके नाथ, आत्मीय, अनन्तगुणशाली, त्रिजगत्स्वामी, तीर्थेश श्रीमान् महावीर भगवान्को नमस्कार हो ॥१॥

अथानन्तर वह त्रिपृष्ठ नारायणका नारकी जीव आयुके क्षय होनेपर वहाँसे निकलकर वनिसिंह नामक पर्वतपर पापके उदयसे सिंह हुआ ॥२॥ वहाँपर भी हिंसादि महाक्रूर कर्मोंसे पापका उपार्जन कर उनके उदयसे वह निन्दनीय रत्नप्रभा नामकी प्रथम नरकभूमिको प्राप्त हुआ ॥३॥ वहाँपर एक सागरोपम काल तक महादुःखको भोगकर खोटे कर्मोंसे बँधा हुआ वह नारकी वहाँसे निकलकर इसी प्रथम शुभ जम्बूद्वीपमे भरत क्षेत्रके सिद्धकूटके पूर्व-भागमे शिखरपर तीक्ष्ण दाढोवाला, मृगोका यमरूप मृगाधीश सिंह हुआ ॥४॥ किसी समय भव्योके हितमे तत्पर, अनेक गुणोंके सागर, चारणऋद्धिके धारक अमितगुण नामक आकाशगामी मुनिके साथ आकाशमे जाते हुए अजितजय नामके मुनिराजने उसे एक मृगको खाते हुए देखा ॥६-७॥ तीर्थकरदेवभाषित वचनका स्मरण कर वे चारण-ऋद्धिधारियोंमे अग्रणी मुनिराज दयासे प्रेरित होकर पृथ्वीपर उतरकर और एक शिलापीठपर उस सिंहके समीप बैठकर उसके हितार्थ इस प्रकार बोले—भो भो भव्य मृगराज, मेरे हितकारी वचन सुन ॥८-९॥ तूने पहले त्रिपृष्ठ नारायणके भवमे पुण्यके उदयसे सर्व इन्द्रियोंको तृप्त करने-वाले, तीन खण्डकी साम्राज्यलक्ष्मीको पाकर दिव्य स्त्रियोंके साथ धर्मके विना परम मनोहर भोगोको विषयान्ध बुद्धि होकर भोगा है ॥१०-११॥ उन भोगोके सेवनसे उत्पन्न हुए महापापके परिपाकसे मरकर तू सातवे नरकमे गया । वहाँपर दुष्कर्मकी चेष्टावाले तुझे पापी नारकियोंने पूर्व जन्ममे स्नान करनेसे उत्पन्न हुए पापके फल स्वरूप खारे, पीब और कीचडमय जलसे भरी हुई भयानक वैतरणीमे प्रवेश कराया ॥१२-१३॥ उसी भवमे किये गये परस्त्रीसगके पापसे

परस्त्रीसगपापेन बद्धो नानातिबन्धनै । कर्णौष्ठनासिकादीना छेदनैस्त्व कदथित ॥१५॥
 जीवहिंसोऽन्वाघेन सूक्ष्मखण्डैस्तिलोपमै । खण्डितोऽतीवदीनात्मा शूलीमारोपितो भवान् ॥१६॥
 इत्याद्योर्विधैर्वोरै कदर्थनादिभोटिभि । पीडित शरण नित्य प्रार्थयस्त्व न चासवान् ॥१७॥
 निर्गत्य नरकादायु क्षये कर्मारिभिर्वृत । जात सिंह पराधीनस्त्वमिहैवातिपापधी ॥१८॥
 क्षुत्पिपासातपातीवशीतवर्षादिभिर्भवान् । बाध्यमान पुन कृत्वा क्रूरकर्माशुभारम् ॥१९॥
 प्राणिहिंसादिना तस्य विपाकेनातिदु खमाक् । प्रथमा पृथिवी प्राप्तो विश्वाशर्मखनी खल ॥२०॥
 एत्य तस्मादिहोत्पन्नस्त्वमद्यापि समुद्रहन् । क्रूरता परमा कि ते विस्मृता श्चभ्रवेदना ॥२१॥
 अतो दुर्गतिनाशाय त्यक्त्वा क्रौर्यं त्वमङ्गसा । गृहाणानशन सार व्रतपूर्वं शुभार्णवम् ॥२२॥
 तदुक्तमिति स श्रुत्वा लब्ध्वा जातिस्मृतिं तदा । घोरससारदु सौवमयास्त्वर्वाङ्गकम्पित ॥२३॥
 गलद्वाष्पजलोऽतीवशान्तचित्तोऽभवत्तराम् । अश्रुपात शुचा कुर्वन् पश्चात्तापभवेन च ॥२४॥
 पुनर्मुनिर्हरेरि वीक्ष्य स्वस्मिन् बद्धनिराक्षणम् । शान्तान्तरङ्गमभ्येत्य कृपयैवमभाषत ॥२५॥
 पुरा पुरुरवा भिक्षो भूत्वा त्व धर्मलेशत । सौधर्मं निर्जरो जातस्तस्मान्च्युत्वा शुभोदयात् ॥२६॥
 अभूर्मर्याचिनामेह भरतेशसुतो महान् । वृषभस्य स्वामिना सार्धं कृतदीक्षापरिग्रह ॥२७॥
 परीषहभयात्यक्त्वा सन्मार्गं पापपाकत । गृहीत्वा दुर्गतेर्हेतु वेष पाखण्डिना भवान् ॥२८॥
 सन्मार्गदूषण कृत्वा कुमार्गमभिवर्धयन् । पितामहस्य सद्वाक्यमनादृत्यादिदुष्टधी ॥२९॥
 तन्मिथ्योद्धवपापेन जन्ममृत्यादिपीडित । भवारण्ये भ्रमन् प्राप्तो दु ख दु कर्मसमयम् ॥३०॥

उन नारकियोने अति सन्तप्त लोहेकी पुतलियोसे बलात् बार-बार आलिंगन कराया, और तपे हुए लोहेके पिण्डोसे मार मारकर तेरा चूर्ण कर दिया । उस भवमे की गयी जीव-हिंसाके पापसे उन नारकियोने नाना प्रकारके बन्धनोसे बाँधकर, कान, ओठ और नाक आदि अगो को छेदन कर और शस्त्रोसे तिल-तिल समान सूक्ष्म खण्ड कर-करके तुझे खूब दु ख दिये है और अतिदीन बने हुए तुझे शूलीपर चढाया है ॥१४-१६॥ इनको आदि लेकर नाना प्रकारकी घोर कोटि-कोटि यातनाओसे तुझे नित्य खूब पीडित किया है और तेरे प्रार्थना करनेपर भी तुझे किसी ने शरण नहीं दी ॥१७॥ आयुके क्षय होनेपर नरकसे निकलकर कर्म वैरियोसे घिरा पराधीन हुआ तू यहाँ पर सिंह हुआ । तब भी तुझ पापबुद्धिने जीवोकी हिंसा कर-करके महापापोंका उपार्जन किया, तथा भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी और वर्षा आदिके महादु खोसे पीडित हो अति दु ख भोगता हुआ वहाँपर उपार्जित पाप कर्मके विपाकसे दुष्ट तू समस्त दु खोकी खानिरूप प्रथम पृथ्वीको प्राप्त हुआ ॥१८-२०॥ वहाँ से निकलकर तू पुन यहाँपर सिंह हुआ है और आज भी परम क्रूरताको धारण कर इस दीन हरिणको खा रहा है ? क्या तुझे नरककी वे सब वेदनाएँ विस्मृत हो गयी है ॥२१॥ अत अब तू शीघ्र ही दुर्गतिके नाशके लिए क्रूरताको छोड़कर व्रतपूर्वक पुण्यके सागरस्वरूप अनशनको ग्रहण कर ॥२२॥ मुनिराजके इस प्रकारके वचन सुनकर और जातिस्मरण ज्ञानको प्राप्त कर उसी समय घोर ससारके दु ख-समुदायके भयसे सर्वांगमे कम्पित होकर आँखोसे आँसुओको बहाता हुआ वह सिंह अत्यन्त शान्तचित्त हो गया । पश्चात्तापसे उत्पन्न हुए शोकसे अश्रुपात करते हुए और अपनी ओर एकटक दृष्टिसे देखते हुए उस सिंहको देखकर और उसे अन्तरगमे शान्तचित्त हुआ जानकर मुनिने दयासे प्रेरित होकर इस प्रकार कहा ॥२३-२५॥

हे मृगराज, आजसे कितने ही भव पूर्व तू पुरुरवा भील था । वहाँ धर्मका लेश पाकर उसके फलसे सौधर्म स्वर्गमे देव हुआ । वहाँसे न्युत होकर पुण्यके उदयसे तू भरतनरेशका महान् पुत्र मरीचि हुआ । तब तूने यहाँपर ऋषभदेव स्वामीके साथ दीक्षा धारण कर ली ॥२६-२७॥ पुन परीषहोके भयसे सन्मार्गको छोड़कर पापके उदयसे दुर्गतिके कारणभूत

वियोगैरिष्टवस्तूना सयोगैश्च खलात्मनाम् । स्वानिष्टकारिणा रोगक्लेशाद्यै प्रचुरै परै ॥३१॥
 अपर च महद्दुःखं बृहत्पापोदयार्पितम् । भ्रमता सुचिरं कालं त्रसस्थावरयोनिषु ॥३२॥
 सकलासातपूर्णासु पराधीनतया त्वया । लब्धं घोरतरं निन्द्यमसख्यातसमावधि ॥३३॥
 केनापि हेतुनावाप्य विश्वनन्दित्वमाप्तवान् । सयमं तन्निदानेन त्रिपृष्ठोऽभूद्भवान् नृप ॥३४॥
 इतोऽस्मिन् भारते क्षेत्रे दशमे भाविजन्मनि । तीर्थं कृतं नितमो नूनं भविष्यसि जगद्धित ॥३५॥
 जम्बूद्वीपस्थपूर्वाख्यविदेहे श्रीधराह्वय । तीर्थं कर्तते सपृष्ठं केनचित्सदसि स्थित ॥३६॥
 भगवन्नादिमे द्वीपे भरते यो भविष्यति । चरमस्तीर्थं कृतस्य जीव काद्यं प्रवर्तते ॥३७॥
 इति तत्प्रश्नतोऽवादीजिनेन्द्रं स्वगणान् प्रति । त्रिकालगोचरा सर्वा त्वदीयां सुकथामिमाम् ॥३८॥
 जिनेशाश्रीमुखदेवतच्छ्रुत्वा दिव्यं कथानकम् । भूतं भावि मया कृतं ते हिताय निरूपितम् ॥३९॥
 इदानीं त्वं चिरायात् मिथ्यात्वं भवकारणम् । हालाहलमिवोज्जित्वा सम्यक्त्वं शुद्धिकारणम् ॥४०॥
 धर्मकल्पतरोर्मूलं शङ्कादिदोषवर्जितम् । सोपानं प्रथमं मुक्तिर्सौधस्य स्वीकुरु द्रुतम् ॥४१॥
 तेन ते जायते नूनं विश्वाभ्युदयमञ्जसा । जगत्त्रयं भव सौख्यं चार्हद्भक्त्यादिसत्पदम् ॥४२॥
 यतोऽप्यनं दर्शनेनैव समो धर्मो जगत्त्रये । न भूतो न भविता नास्ति सर्वभ्युदयसाधक ॥४३॥
 मिथ्यात्वेन समं पापं न भूतं न भविष्यति । न विद्यते त्रिलोकेऽपि विश्वानर्थनिबन्धनम् ॥४४॥
 श्रद्धानं सप्त तत्त्वानां चार्हदागमयोगिनाम् । नि सदेहं जिनं प्राहुर्दर्शनं ज्ञानवृत्तदम् ॥४५॥

पाखण्डियोका वेष ग्रहण कर, सन्मार्गमे दूषण लगाकर और कुमार्गको बढ़ाते हुए अपने पितामह ऋषभदेवके उत्तम वचनोका अनादर करके अत्यन्त दुष्टबुद्धि होकर मिथ्यात्वका उपार्जन किया । पुनः उस मिथ्यात्व कर्मसे उत्पन्न हुए पापसे जन्म-मरणादि से पीड़ित होते हुए तुम इस ससार-काननमे परिभ्रमण करते हुए दुष्कर्मसे उत्पन्न महादुःखोको प्राप्त हुए हो ॥२८-३०॥ इष्ट-वस्तुओके वियोगसे, दुर्जन मनुष्योंके और अपने अनिष्टकारी वस्तुओके सयोग से और भारी रोग-क्लेशादिके दुःखसे तुम पीड़ित रहे हो । इसके पश्चात् भारी पापके उदयसे अति दीर्घकालतक तुमने सर्वप्रकारकी असाताओसे परिपूर्ण त्रस-स्थावर योनियोंमे पराधीन होकर घूमते हुए महानिन्द्य, अतिघोर दुःखोको असख्यात कालतक भोगा ॥३१-३३॥ पुनः किसी पुण्यके निमित्तसे तुम विश्वनन्दीके भवको प्राप्त हुए और वहाँपर सयमका पालन कर तथा निदानका बन्ध कर उसके फलसे तुम त्रिपृष्ठ राजा हुए ॥३४॥ अब इससे आगे दसवें भवमें तुम इसी भारतवर्षमे जगत्का हित करनेवाले अन्तिम तीर्थंकर नियमसे होओगे ॥३४-३५॥ जम्बूद्वीपस्थ पूर्वविदेह नामके क्षेत्रमे श्रीधर नामक तीर्थंकर समवशरणमें विराजमान है । उनसे किसीने पूछा—हे भगवन्, इस जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमे जो अन्तिम तीर्थंकर होगा, वह आज कहाँपर है । इस प्रकारके प्रश्न करनेपर जिनेन्द्रदेवने अपने गणोंके प्रति तुम्हारी यह त्रिकाल विषयक शुभ कथा कही ॥३६-३८॥ जिनेन्द्रदेवके श्रीमुखसे सुनकर मैंने तेरे हितके लिए यह भूत और भावी सर्व दिव्य कथानक तुझे कहा है ॥३९॥ अब तू चिरकालसे आये हुए, ससारके कारणभूत इस मिथ्यात्वको हालाहल विषके समान समझके छोड़ और पवित्रताका कारणभूत, धर्मरूप कल्पवृक्षका मूल, मुक्तिरूप प्रासादका प्रथम सोपान यह सम्यक्त्व शकादि दोषोंसे रहित होकर के शीघ्र स्वीकार कर ॥४०-४१॥ इस सम्यक्त्वके प्रभावसे तेरे निश्चयसे शीघ्र विश्वके समस्त अभ्युदय, तीन जगत्के सुख और तीर्थंकरादिके उत्तम पद प्राप्त होंगे । क्योंकि तीन जगत्मे सम्यग्दर्शनके समान सर्वअभ्युदयोका साधक धर्म न हुआ न है और न होगा ॥४२-४३॥ तथा समस्त अनर्थोंका कारण मिथ्यात्व-जैसा पाप तीन लोकमे न हुआ, न है और न होगा ॥४४॥ जिनेन्द्रदेवने सात तत्त्वोंके, और सत्यार्थ देव-शास्त्र-गुरुओके सन्देह-रहित श्रद्धानको ज्ञान-चारित्रका देनेवाला सम्यग्दर्शन कहा है ॥४५॥

सन्यासेन सम चेद गृहाण त्व वृषासये । त्यक्त्वा मासाङ्गिघातादीन् स्वर्मुक्त्यादिसुखावहम् ॥४६॥
 उत्कृष्टश्रावकाणा सद्ब्रतै सर्वैर्जगद्धितै । त्यक्तदोषै सहातीव शुद्धिदै श्रीजिनोदितै ॥४७॥
 अद्य प्रभृति तेनास्ति ससारभ्रमणाद् भयम् । रुचिं विधेहि सन्मार्गे दुर्मागे विरमाञ्जसा ॥४८॥
 हृत्थ योगिमुखेन्दूद्भव सद्भर्मसुधारसम् । पीत्वा मिथ्याविष चोर वमित्वाशु चिरागतम् ॥४९॥
 सुदु प्रदक्षिणीकृत्य मुनियुग्म सुरार्चितम् । प्रणम्य शिरसाधाय श्रद्धान हृदये परम् ॥५०॥
 तत्त्वार्थश्रोजिनादीनां सम्यक्त्व सकलैर्ब्रतै । सन्यासेन सम सिंह स्वीचक्रे काललब्धित ॥५१॥
 निराहार विना जातु ब्रतमस्य न जायते । यत क्वचिन्मृगारीणामाहारो न पलात्पर ॥५२॥
 अतोऽस्य परम धैर्यं व्रताचरणमूर्जितम् । अथवा काललब्ध्यात्र किं न जायेत दुर्घटम् ॥५३॥
 तदा प्रभृति सिंहोऽभूत् सयमी च प्रशान्तधी । चित्रस्थ इव शान्ताङ्ग सर्वसावद्यवर्जित ॥५४॥
 दु स्थितिं समुतेरित्य मनसा भावयन् सुदु । क्षुत्तृषादिभवा सर्वा सहन् बाधा वनोद्भवाम् ॥५५॥
 धैर्यत्वेन दया कुर्वन् विश्वसत्त्वेष्वनारतम् । अप्रशस्त द्विधा ध्यान हत्वा स्वैकाग्रचेतसा ॥५६॥
 धर्मध्यानदृगादीनि चिन्तयन् सोऽघहानये । निश्चलाङ्ग विधायाञ्चै सयमीव स्थिरोऽभवत् ॥५७॥
 यावज्जीव प्रपाल्योच्चैरिथ व्रतकदम्बकम् । सन्याससहित प्रान्ते त्यक्त्वा प्राणान् समाधिना ॥५८॥
 व्रतादिजफलेनाभूत्कल्पे सौधर्मनामनि । सिंहो महर्दिक सिंहकेतुनामामरो महान् ॥५९॥
 सपूर्णं वपुरासाद्य नवयौवनमण्डितम् । उपपादशिलागर्भे घटिकाद्वयमध्यत ॥६०॥
 विज्ञायावधिबोधेन प्राग्भव व्रतज फलम् । प्रशस्यधर्ममाहात्म्य सोऽधाद्भर्मे मति दृढाम् ॥६१॥

इसलिए तू धर्मकी प्राप्तिके लिए मास भक्षण एव प्राणिघात आदिको छोडकर स्वर्ग-मुक्ति आदिके सुख देनेवाल इस सम्यग्दर्शनको तथा श्री जिनदेव-कथित, जगत्-हितकारी अतीव शुद्धि-प्रदाता सभी निर्दोष सद्ब्रतको सन्यासके साथ ग्रहण कर ॥४६-४७॥ यदि तुझे ससारके परिभ्रमणसे दुःख है, तो आजसे ही सन्मार्गमे रुचिको धारण कर और दुर्मागसे शीघ्र विराम ले ॥४८॥

इस प्रकार योगिराजके मुखचन्द्रसे प्रकट हुए उत्तम धर्मरूपी अमृत रसको पीकर और चिरकालसे आये हुए घोर मिथ्यात्वको शीघ्र वमन कर, देव पूजित मुनि-युगलकी बार-बार प्रदक्षिणा और मस्तकसे नमस्कार करके काललब्धिके बलसे उस सिंहने श्रावकके सर्वव्रतको और सन्यासके साथ तत्त्वार्थका एव देव-शास्त्र गुरुका परम श्रद्धान हृदयमे धारण करके सम्यग्दर्शनको स्वीकार किया ॥४९-५१॥ निराहार रहनेके विना सिंहके व्रत कभी सम्भव नहीं है, क्योंकि मृगारि-सिंहोका मासके सिवाय कही भी और कोई दूसरा आहार नहीं है ॥५२॥ अतः उस सिंहाका यह परम धैर्य है कि उसने इस प्रकारका उत्तम व्रतका आचरण करना स्वीकार किया । अथवा काललब्धिसे इस ससारमे क्या दुर्घट बात सुघट नहीं हो जाती है ॥५३॥ इसके पश्चात् वह सयमी सिंह एकदम शान्त बुद्धिवाला हो गया । वह चित्रमे लिखित सिंहके समान शान्त शरीर और सर्व सावद्यसे रहित होकर ससारकी खोटी स्थितिका मन-से नित्य बार बार भावना करता हुआ, भूख-प्यास आदिसे उत्पन्न तथा वन-जनित सभी बाधाओका धैर्यके साथ सहन करता हुआ, सर्व प्राणियोपर निरन्तर दया धारण करता हुआ, आर्त-रौद्र इन दोनों प्रकारके अप्रशस्त ध्यानको दूर कर अपने एकाग्रचित्तसे पापोकी हानिके लिए धर्मध्यान और सम्यग्दर्शनादिका चिन्तन करता हुआ निश्चल अग करके उच्च सयमी मुनिके समान स्थिर हो गया ॥५४-५७॥ यावज्जीवन इस प्रकार उत्कृष्ट रीतिसे सभी व्रत समूहका सन्याससहित पालन कर और अन्तमे समाधिके साथ प्राणोका त्याग कर वह सिंह व्रतादि पालन करनेसे उत्पन्न हुए पुण्यके फलसे सौधर्म नामके कल्पमे सिंहकेतु नामका महा-ऋद्धिवाला महान् देव हुआ ॥५८-५९॥ उपपाद शिलाके भीतर दो घड़ी कालमे ही नवयौवन

ततश्चैत्यालये गत्वा दिव्याष्टविधपूजनै । सोऽहता मणिमूर्तीना भक्त्या चक्रे महामहम् ॥६२॥
 पुन श्रीप्रतिमाना नृलोकनन्दीश्वरप्रदिषु । सर्वाभ्युदयसिद्धिर्धर्म कृत्वा पूजा जिनेशिनाम् ॥६३॥
 गणेशादिमुनीन्द्राणा प्रणाम च मुदामर । श्रुत्वा तेभ्य सुतत्त्वादीनुपार्ज्य बहुधावृषम् ॥६४॥
 आसाद्यानु निज स्थान स्वपुण्यजनिता श्रियम् । स्वीचकार महादेवी विमानादिकगोचराम् ॥६५॥
 हृत्यादिविविध पुण्य सदाज्यन् सुचेष्टया । सप्तहस्तोरुदिव्याङ्गो नेत्रोन्मेषादिवर्जित ॥६६॥
 आद्य क्षमान्तावधिज्ञानविक्रियद्विबलान्वित । अतीतैर्द्विसहस्राब्दै सुधाहार हृदाहरन् ॥६७॥
 त्रिशद्विचैरतिक्रान्तैर्मनागुच्छ्वासामभजन् । पश्यन् रूप विलास च नर्तन दिव्ययोषिताम् ॥६८॥
 कुर्वन् क्रीडा स्वदेवीभि सौधोद्यानाचलादिषु । स्वेच्छया विहरन् भूत्यासख्यद्वीपादिषु स्वयम् ॥६९॥
 सर्वदु खतिगो विश्वशर्माश्रिताब्धिमध्यग । द्विसागरोपमायुष्क स्वेदधातुमलातिग ॥७०॥
 भुञ्जानो विविधान् भोगान् पुरा सुचरणार्जितान् । न जानानो गत काल मुदास्ते तत्र सोऽमर ॥७१॥
 अथ प्राग्घातकीखण्डे विदेहे पूर्वसञ्ज्ञके । देशोऽस्ति मङ्गलावत्याख्येयमाङ्गल्यकारक ॥७२॥
 तन्मध्ये विजयार्धाद्विर्गव्यूत्येकशतोन्नत । भाति कूटजिनागारवनश्रेणिपुरादिषु ॥७३॥
 तस्याद्रेरुत्तरश्रेण्या नगर कनकप्रभम् । राजते कनकप्राकारप्रतोलोजिनालयै ॥७४॥
 पति कनकपुङ्खाख्यस्तस्यासीत् खेचराधिप । प्रिया कनकमालाख्यास्याभवत् कनकोज्ज्वला ॥७५॥
 तयोश्च्युत्वा स सौधर्मात् सिंहकेतुसुर शुभात् । कनकोज्ज्वलनाभाभूत् सनु कनककान्तिमान् ॥७६॥

मण्डित सम्पूर्ण शरीरको प्राप्त कर और अवधिज्ञानसे पूर्व भवमे पालन किये गये व्रत-जनित फलको और प्रशंसनीय धर्मके माहात्म्यको जानकर उस देवने धर्ममे अपनी बुद्धिको और भी दृढ किया ॥६०-६१॥

तत्पश्चात् चैत्यालयमे जाकर उसने अर्हन्तोकी मणिमयी मूर्तियोकी दिव्य अष्टविध द्रव्योसे भक्तिके साथ महापूजन किया ॥६२॥ पुन, सर्व अभ्युदयकी सिद्धिके लिए उसने मनुष्य लोक और नन्दीश्वर आदि द्वीपोमे स्थित श्री प्रतिमाओका और श्री जिनेन्द्रों तथा गणधरादि मुनीन्द्रोका पूजन करके, प्रणाम करके और हर्षके साथ उनसे जीवादि सुतत्त्वोका उपदेश सुनकर और अनेक प्रकारसे पुण्यका उपार्जन कर वापस अपने स्थानपर आकर अपने पुण्यसे उत्पन्न हुई महादेवियोकी और विमान आदि सम्बन्धी सर्व लक्ष्मीको उसने स्वीकार किया ॥६३-६५॥ इस प्रकार वह देव अपनी उत्तम चेष्टासे जिनप्रतिमापूजन, धर्मश्रवण आदिके द्वारा नाना प्रकारके पुण्यका उपार्जन करता हुआ स्वर्गमे समय विताने लगा । उसका दिव्य शरीर सात हाथ उन्नत था, उसके नेत्र निमेष-उन्मेष आदिसे रहित थे, पहली रत्नप्रभा पृथिवीके अन्ततकके अवधिज्ञान और तत्प्रमाण विक्रिया करनेकी शक्तिसे युक्त था, दो हजार वर्ष बीतनेपर मन से अमृत-आहार करता था, तीस दिन बीतनेपर कुछ थोड़ी-सी श्वास लेता था और दिव्याङ्गनाओके रूप, विलास और नृत्यको देखता हुआ, देव-भवन, उद्यान और पर्वतादिपर अपनी देवियोके साथ क्रीडा करता, असख्य द्वीपो और पर्वतोपर स्वयं अपनी इच्छानुसार विभूतिके साथ विहार करता रहता था । वह सर्व दु खोसे रहित और प्रस्वेद, रक्त-मासादि सर्व धातुओसे रहित शरीरवाला था, समस्त सुखरूप अमृत-सागरमे निमग्न रहता था, और वह दो सागरोपमकी आयुका धारक था । इस प्रकार पूर्व आचरित चारित्रसे उपार्जित नाना प्रकारके भोगोको भोगता हुआ वह देव बीतते हुए कालको नहीं जानता हुआ आनन्दसे स्वर्गमे रहने लगा ॥६६-७१॥

अथानन्तर पूर्वघातकीखण्डमे पूर्व विदेहमे मंगलावती नामका मंगलकारक देश है, उसके मध्यमे एक सौ कोश ऊँचा विजयार्धपर्वत है, वह कूट, जिनालय, वनश्रेणी और नगर आदिसे शोभायमान है । उस पर्वतकी उत्तरश्रेणीमे कनकप्रभ नामका एक नगर है, जो

पितास्यादौ जिनागारे कृत्वा कल्याणवर्धकान् । महाभिषेकपूजादीन् पञ्चकल्याणभागिनाम् ॥७७॥
 तर्पयित्वा सुदानार्थैर्बन्धुदीनादिवन्दिन । गीतनर्तनवाद्याद्यैश्चक्रे जातमहोत्सवम् ॥७८॥
 बालचन्द्र इवासाद्य क्रमाद् वृद्धि स सुन्दर । पय पानान्ननेपथ्यै स्वयोर्यै सकलप्रिय ॥७९॥
 पठित्वानेकशास्त्राणि ह्यभ्यस्य निखिला कला । रूपलावण्यकान्त्यादिगुणैर्नाकीव राजते ॥८०॥
 ततोऽस्मै यौवने तातो विवाहविधिना मुदा । कन्या कनकवत्याख्या ददौ गृहिवृषासये ॥८१॥
 अन्येद्युर्भार्यया सार्धं कुमार काडितु ययौ । महामेरु जिनार्चादीन् वन्दितु च शुभाय स ॥८२॥
 तत्र वीक्ष्यावधिज्ञानवीक्षण मुनिपुङ्गवम् । नभोगाम्याद्यनेकर्द्धिभूषित त्रि परीत्य स ॥८३॥
 प्रणम्य शिरसाप्राक्षीदधर्माधीति तदासये । भगवन्मेऽनघ धर्मं ब्रूहि येनाप्यते शिवम् ॥८४॥
 आकर्ण्य तद्वचो योगी जगावित्थ तदीप्सितम् । दक्ष त्वमेकचित्तेन शृणु धर्मं दिशाम्यहम् ॥८५॥
 भवाब्धौ पतनाद् भव्यान् य उद्गत्य शिवालये । धत्ते वा त्रिजगद्राज्ये त धर्मं विद्धि तत्त्वत ॥८६॥
 येनात्राभ्युदय पुसा मनोरथशतागम । विलीयन्तेऽघदु खाद्या भ्रमेन् कीर्तिर्जगत्त्रये ॥८७॥
 अमुत्र येन जायन्ते देवराजादिभूतय । सर्वार्थसिद्धितीर्थेशबलचक्रिपदानि च ॥८८॥
 त धर्मं केवलिप्रोक्त जानीहि त्व सुखाकरम् । अहिसालक्षण सार नि पाप नापर क्वचित् ॥८९॥
 अहिसा सत्यमस्तेय ब्रह्म सगविवर्जनम् । ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गसञ्ज्ञका ॥९०॥

सुवर्णमय प्राकार, प्रतोली और जिनालयोसे शोभित है । उसका स्वामी कनकपुख नामका एक विद्याधरेश था । उसकी सुवर्णके समान उज्ज्वल देहकान्तिको धारण करनेवाली कनकमाला नामकी प्रिया थी । उन दोनोंके वह सिंहकेतुदेव सौवर्म स्वर्गसे च्युत होकर पुण्यसे स्वर्णकान्तिका धारक कनकोज्ज्वल नामका पुत्र हुआ ॥७९-७८॥ उसके जन्म होनेपर उसके पिताने सर्व-प्रथम जिनालयमे पचकल्याणकोके भाक्ता तीर्थकरदेवोका कल्याण-वर्धक महाभिषेकपूर्वक महापूजन करके, उत्तम दान-मानादिसे बन्धुओ, दीनजनो और वन्दीगणोको तृप्त कर गीत, नृत्य, वादित्रादिसे उसका जन्म महोत्सव किया ॥७७-७८॥ सकल जनोको प्रिय वह सुन्दर बालक अपने योग्य दुग्ध पान, अन्नाहार और वस्त्राभूषणादिको प्राप्त कर बालचन्द्रके समान क्रमसे वृद्धिको प्राप्त होकर, अनेक शास्त्रोको पढकर, और समस्त कलाएँ सीखकर रूप, लावण्य और कान्ति आदि गुणोके द्वारा देवके समान शोभाको प्राप्त हुआ ॥७९-८०॥ तदनन्तर यौवन अवस्थामे उसके पिताने गृहस्थ धर्मकी प्राप्तिके लिए हर्षसे विधिपूर्वक कनकवती नामकी कन्याके साथ उसका विवाह कर दिया ॥८१॥ किसी एक दिन वह अपनी भार्याके साथ क्रीडा करने और जिनप्रतिमाओका पूजन-वन्दन करनेके लिए महामेरु पर्वतपर गया ॥८२॥ वहाँ पर अवधिज्ञानरूप नेत्रके धारक, आकाशगामी आदि अनेक ऋद्धियोसे भूषित उत्तम मुनिराजको देखकर उसने तीन प्रदक्षिणाएँ देकर और मस्तकसे नमस्कार करके धर्म-प्राप्तिके लिए धर्म के इच्छुक उसने धर्मका स्वरूप पूछा—हे भगवन्, मुझे धर्मका स्वरूप कहिए, जिससे कि शिवपदकी प्राप्ति होती है ॥८३-८४॥ उसके वचन सुनकर योगीश्वरने उसको अभीष्ट वचन इस प्रकार कहे—हे चतुर, मैं धर्मका स्वरूप कहता हूँ, तू एकाग्र चित्तसे सुन ॥८५॥ जो ससार-समुद्रमे पतनसे भव्योका उद्धार कर तीन जगत्के राज्य स्वरूप शिवालयमे रखता है, उसे परमार्थसे धर्म जानो ॥८६॥ जिसके द्वारा इस लोकमे प्राणियोंके सैकड़ो मनोरथोका आगमनरूप अभ्युदय प्राप्त होता है, पाप-जनित दुःख आदि विलीन हो जाते हैं और तीन लोकमे कीर्ति फैलती है, तथा परलोकमे जिसके द्वारा देवेन्द्र आदिकी विभूतियाँ, सर्वार्थसिद्धि-कारक तीर्थकर, चक्रवर्ती और बलदेव आदि पद प्राप्त होते हैं, उसे तुम सर्व सुखोका भण्डार केवलि-भाषित धर्म जानो । वह धर्म अहिसा लक्षणवाला है, सार है और निष्पाप है । इसके अतिरिक्त और कोई धर्म सत्य नहीं है ॥८७-८९॥ वह

मनोगुप्तिर्वचोगुप्ति कायगुप्तिर्वधैरिमै । त्रयोदशप्रकारै स साध्यते रागद्वारगै ॥९१॥
 तथा मूलगुणै सर्वै क्षमादिदशलक्षणै । अर्ज्यते परमो धर्मो जितमोहाक्षतस्करै ॥९२॥
 धीमस्त्वयाप्यनुष्ठेयो धर्मोऽय यतिगोचर । बाल्येऽपि भो प्रहत्याशु स्मराद्यारीस्तपोऽसिना ॥९३॥
 धर्मं विधेहि चित्ते स्व धर्मेणालकुरु स्वयम् । धर्माय त्यज गेहादीन् धर्मान्नान्य त्वमाचर ॥९४॥
 धर्मस्य शरण याहि तिष्ठ धर्मे निरन्तरम् । त कृत्वा सर्वथा धर्मं पाहि मामिति चार्थय ॥९५॥
 किमत्र बहुनोक्तेन हत्वा मोहमहामटम् । सर्वयत्नेन सद्धर्मं मुक्तये स्वीकुरु द्रुतम् ॥९६॥
 इति तद्वाक्यमाकर्ण्य तथ्य सद्धर्मसूचकम् । आसाद्याङ्गमवस्थ्यादौ निर्वेदमिति चिन्तयन् ॥९७॥ -
 अहो परहितार्थेष वक्ति मे हितकारणम् । अतोऽह त्वरित सार तपो गृह्णामि मुक्तये ॥९८॥
 यतो न ज्ञायते नृणा कदा मृत्युर्भविष्यति । गर्भस्थानद्यजातान् वा मारयेदन्तकोऽर्मकान् ॥९९॥
 अहमिन्द्रसुरेशादीन् कालेन पातयेद् यम । यदि तर्ह्यस्मदादाना कात्राशा जीवितादिषु ॥१००॥
 कार्या धर्मोऽत्र बृद्धत्वे मत्वेति त न कुर्वते । ये शठास्ते क्षणाद् यान्ति यमस्य ग्रासतामघात् ॥१०१॥
 अतो विचक्षणै कार्यं सर्वावस्थासु सोऽनिशम् । आशङ्क्य मरण स्वस्य न कार्यं काललङ्घनम् ॥१०२॥
 विचिन्त्येति हृदा धीमास्त्यक्त्वा बाह्याभ्यन्तरोपधीन् । पिशाचीमिव ता कान्तां चाराध्य यतिसत्कर्मौ ॥
 मनोवाक्कायसञ्चुद्धया प्रव्रज्या त्रिजगन्नुताम् । जग्राह मुक्तये सारा स्वर्मुक्तिसुखमातरम् ॥१०४॥

धर्म अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रहत्यागरूप हे, ईर्या, भाषा, एषणा, आदान, निक्षेपण और उत्सर्गसमितिरूप है, तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्तिस्वरूप ह । ज्ञानी जन रागसे दूर रहते हुए इन तेरह प्रकारोसे उस धर्मकी साधना करते है । तथा सर्व मूल-गुणोसे क्षमादिदश लक्षणोसे मोह और इन्द्रिय-चोरोको जीतकर वह परम धर्म अर्जित किया जाता है ॥९०-९२॥ हे धीमन्, तुम्हे इस मुनि-विषयक धर्मका अनुष्ठान करना चाहिए । हे भव्य, बाल्यकाल होनेपर भी तुम काम आदि शत्रुओको तपरूपी खड्गसे शीघ्र नाश कर अपने चित्तमे उक्त धर्मको धारण करो और अपनेको धर्मसे अलकृत करो । धर्मके लिए तुम घर आदिको छोडो, धर्मके सिवाय तुम अन्य कुछ भी आचरण मत करो, धर्मकी शरण जाओ, धर्म मे ही निरन्तर सलग्न रहो और यह करके सदा यही प्रार्थना करो कि हे धर्म, तू मेरी रक्षा कर ॥९३-९५॥ इस विषयमे अधिक कहनेसे क्या हे, तू मोहमहाभटको मारकर सर्व प्रयत्नसे मुक्ति प्राप्तिके लिए शीघ्र उत्तम धर्मको स्वीकार कर ॥९६॥

इस प्रकार उन मुनिराजके तथ्यपूर्ण, सद् धर्मसूचक वाक्य सुनकर ससार, शरीर और स्त्री आदिमे वैराग्यको प्राप्त होकर वह इस प्रकार सोचने लगा—अहो, पर-हितके इच्छुक ये मुनिराज, मेरे हितके कारणभूत इन वचनोको कह रहे है, अतः मै मुक्तिके लिए शीघ्र ही सारभूत तपको ग्रहण करता हूँ ॥९७-९८॥ क्योकि यह ज्ञात नहीं होता ह कि मनुष्यो-की कब मृत्यु होगी ? यह यमराज गर्भस्थोको और आज ही उत्पन्न हुए बच्चोको मार डालता है ॥९९॥ जब यह यम अहमिन्द्र और देवेन्द्र आदिको भी कालसे—समय आने पर—मार गिराता है, तब हमारे जैसे दीन पुरुषो की तो इस जीवन आदिमे क्या आशा की जा सकती है ॥१००॥ 'हम धर्म बुढापा आनेपर करेगे ।' ऐसा मानकर जो शठ पुरुष यथासमय धर्म नहीं करते है, वे पापोदयसे क्षणभरमे यमके ग्रासपनेको प्राप्त होते है ॥१०१॥ इसलिए चतुरजनोंको अपने मरणकी प्रतिसमय आशका करके सभी अवस्थाओमे निरन्तर धर्म करना चाहिए और कालका उल्लघन नहीं करना चाहिए । अर्थात् धर्म-सेवनमे प्रमाद नहीं करना चाहिए ॥१०२॥ ऐसा हृदयमे विचारकर और अपनी कान्ताको पिशाची समझकर उस बुद्धिमान् कनकोज्ज्वल विद्याधरने बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहको छोडकर एव साधुके चरणोकी आराधना कर मन, वचन, कायकी शुद्धिपूर्वक तीन लोकसे पूजनीय स्वर्ग

ततोऽसावार्तरौद्रध्यानदुर्लभ्या विहाय च । प्रयत्नेन शुभा धर्मशुक्लेश्या भजन् सदा ॥१०५॥
 विकथालापवार्तादीस्त्यक्त्वा धर्मकथा परा । सिद्धान्तपठन कुर्वन् सता धर्मोपदेशनम् ॥१०६॥
 सरागस्थानलोकादीनुत्सृज्य ध्यानसिद्धये । गुहावनश्मशानाद्रिनिर्जनेषु वसन् सुधी ॥१०७॥
 अटवीग्रामदेशादीन् विहरन्निरममाशय । द्विषद्भेद तपोऽत्यर्थमाचरन् कर्महानये ॥१०८॥
 हृत्याद्यन्यत्प्रशस्त च सर्वान् मूलगुणान् परान् । यत्याचारोक्तमार्गेण प्रतिपाल्य च सयमम् ॥१०९॥
 अनघ मृत्युपर्यन्त चान्ते सन्यासमाददौ । हित्वा चतुर्विधाहारान् स्वाङ्गादौ ममता मुनि ॥११०॥
 ततो जित्वातिथैर्येण क्षुत्तृषादिपरीषहान् । स्ववीर्यं प्रकटीकृत्य मुक्तिश्रीसाधनोद्यत ॥१११॥
 आराध्याराधना सर्वा प्रयत्नेन समाधिना । धर्मध्यानेन मुक्त्वाप्तुन् निर्विकल्पमना यति ॥११२॥
 तपोव्रताजिता येन स्वर्गे लान्तवनामनि । महर्द्धिकोऽमरो जातोऽनेककल्याणमूर्तिभाक् ॥११३॥
 तत्स्वाधिना ज्ञात्वा प्राग्भव तपसा फलम् । मत्वा दृढमना धर्मं पुन श्रीधर्मसिद्धये ॥११४॥
 त्रिलोकस्था जिनेन्द्रार्चा अर्हतो गणिना मुनीन् । चार्चयन् प्रणमन्निन्त्य स्वर्जयन् पुण्यमूर्जितम् ॥११५॥
 त्रयोदशसमुद्रायु पञ्चहस्तोच्छ्रिताङ्गदत् । त्रयोदशसहस्राब्दै सुधाहार हृदा भजन् ॥११६॥
 नि क्रान्तै सार्धषण्मासै सुगन्धिवपुरुच्छ्वसन् । तृतीयाधोधराव्यासावधिचिद्विक्रियान्वित ॥११७॥
 सप्तधातुमलस्वेदातिगदिव्यशरीरभाक् । सम्यग्दृष्टि श्चमध्यानजिनपूजारतो महान् ॥११८॥
 नर्तनैर्गीतवाद्याद्यैर्मथुरै शर्मकारकै । भुञ्जानो महतो भोगान् दिव्यदेवाभिरन्वहम् ॥११९॥
 भावना भावयन् वृत्ते दृष्टिचिद्रत्नमण्डित । मुदास्ते सोऽमरै सेव्यो मज्जन् शर्माभृताम्बुधौ ॥१२०॥

और मुक्तिके सुखोकी जननी ऐसी सारभूत जिनदीक्षाको मुक्तिके लिए ग्रहण कर लिये ॥१०३-१०४॥

तत्पश्चात् वे सुज्ञानी कनकोज्ज्वल मुनि आर्त-रौद्रध्यान और दुर्लेश्याको छोडकर, प्रयत्नके साथ शुभ धर्मध्यान और शुक्लेश्या सदा धारण करते हुए, विकथालाप और निरर्थक बातचीतको छोडकर उत्तम धर्मकथा करते, सिद्धान्तशास्त्रोको पढते, सज्जनोको धर्मका उपदेश देते, सराग स्थान और सरागी पुरुषोका सगम छोडते, ध्यानकी सिद्धिके लिए गुफा, वन, श्मशान, पर्वत आदि निर्जन स्थानोमे बसते, अटवी, ग्राम, देशादिकमे ममत्व-रहित चित्त होकर विहार करते हुए कर्मोका नाश करनेके लिए अत्यन्त उग्र बारह प्रकारका तपश्चरण करने लगे ॥१०५-१०८॥ इनको आदि लेकर अन्य प्रशस्त कर्तव्योको तथा सभी उत्तम मूलगुणोको यति-आचारोक्त मार्गसे पालकर, और मरण-पर्यन्त निर्दोष सयमको पालकर जीवनके अन्तमे उन्होने सन्यासको धारण कर लिया । चारो प्रकारके आहारोका और अपने शरीर आदिमे ममताका त्याग कर उन मुनिराज ने अतिथैर्यके साथ भूख, प्यास आदि परीषहोको जीतकर एव मुक्ति लक्ष्मीके साधनमे उद्यत हो अपने वीर्यको प्रकट कर सभी आराधनाओंकी प्रयत्नसे समाधिद्वारा आराधना कर, निर्विकल्पमन हो उन यतिराजने धर्म-ध्यानसे प्राणोंको छोडा और तपश्चरण एव व्रत-पालनसे उपार्जित पुण्यके द्वारा वह लान्तव नामके स्वर्गमे अनेक कल्याणयुक्त विभूतिका धारक महर्द्धिक देव हुआ ॥१०९-११३॥ वहाँ पर तत्काल उत्पन्न हुए अपने अवधिज्ञानसे पूर्व भवमे किये गये तपका फल जानकर वह देव धर्ममे दृढचित्त हो और भी श्रीधर्मकी सिद्धिके लिए तीन लोकमे स्थित जिनेन्द्रोकी प्रतिमाओंकी तथा अर्हन्तो, गणधरो और मुनिजनोका नित्य पूजन-नमन करते हुए उत्कृष्ट पुण्यका उपार्जन करने लगा ॥११४-११५॥ वहाँ पर उसकी तेरह सागरोपम आयु थी, पाँच हाथ उन्नत शरीर था, तेरह हजार वर्षोसे हृदय द्वारा अमृत-आहारको सेवन करता था, साढे छह मास बीतनेपर इवासोच्छ्वास लेता था, सुगन्धित शरीर था, नीचे तीसरी पृथिवीतक व्याप्त अवधिज्ञान और इतनी ही विक्रिया करनेकी शक्तिसे सम्पन्न था, सप्तधातु, मल-मूत्र,

अथ जम्बूमति द्वापे विषये कोशलाह्वये । अयोध्या नगरी रम्या विद्यते सजनैर्भृता ॥१२१॥
 वज्रमेनो नृपस्तस्या पतिरासीच्छुभोदयात् । शीलवत्याह्वया तस्या कान्ताभूच्छीलशाङ्गिनी ॥१२२॥
 सोऽमरो नाकतश्च्युत्वा हरिषेणाभिध सुत । दिव्यलक्षणपूर्णाङ्गस्तयो पुण्यादजायत ॥१२३॥
 सबन्धुभि कृत भूत्या कृत्स्न जातमहोत्सवम् । प्राप्य भोगोपभोगैश्च कौमारत्व धियान्वितम् ॥१२४॥
 अधीत्य जैनसिद्धान्तसारार्थान्स्त्रविद्यया । सम धर्मादिनिःपत्यै जनतानन्दकारक ॥१२५॥
 रूपलावण्यतेजोऽङ्गकान्तिदीप्यादिसद्गुणै । दिव्याशुकादिनेपथ्यैर्भूषितोऽमरवद् बभौ ॥१२६॥
 ततोऽसौ यौवने वाप्य बह्वी राजसुता शुभात् । पितु पद श्रियामाप्य भुनक्ति सुखमुल्बणम् ॥१२७॥
 सार्धं सदृग्विशुद्ध्या सद्भ्रतानि गृहमेधिनाम् । गार्हस्थ्यधर्मसिद्धयर्थं नि प्रमादेन पालयन् ॥१२८॥
 अष्टम्या च चतुर्दश्या त्यक्त्वा सावधमञ्जसा । भूत्वा मुनिसमो धीमान् मुक्त्यै प्रोषधमाचरन् ॥१२९॥
 उत्थाय शयनात्प्रात सामायिकस्तवादिकान् । प्रयत्नेन विधत्ते स आदो धर्मप्रवृद्धये ॥१३०॥
 पश्चाद्देवार्चनं भूत्या स्वगृहे जिनधामनि । धौताम्बरधरो मक्त्या त्रिवर्गसिद्धिद मजन् ॥१३१॥
 योग्यकाले सुपात्राय दत्ते दान यथाविधि । प्रासुक मधुर दक्ष साक्षाद्भावनया यथा ॥१३२॥
 अपराह्णे स्वयोग्यानि सत्कर्माणि शुभासये । सामायिकादिसर्वाणि करोति जितमानस ॥१३३॥

प्रस्वेदादिसे रहित दिव्य शरीरका धारक था, महान् सम्यग्दृष्टि, शुभध्यान और जिनपूजनमे निरत रहता था । मख-कारक नृत्य, गीत और मधुर वादित्रोके द्वारा दिव्य देवियोके साथ निरन्तर महान् भोगोको भोगता हुआ, चारित्र्यमे भावना करता हुआ, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानरूप रत्नसे मण्डित तथा देवोसे सेव्य, वह देवराज सुखरूप अमृतसागरमे मग्न रहता हुआ आनन्दसे रहने लगा ॥११६-१२०॥

अथानन्तर इसी जम्बूद्वीपके कोशल नामक देशमे अयोध्या नामकी रमणीक नगरी है, जो सज्जनो से भरी हुई है । पुण्योदयसे उस नगरीका स्वामी वज्रसेन राजा था और शीलको धारण करनेवाली शीलवती नामकी उसकी रानी थी ॥१२१-१२२॥ उन दोनोके स्वर्गसे च्युत होकर वह देव पुण्यसे दिव्य लक्षण-परिपूर्ण देहवाला हरिषेण नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥१२३॥ राजाने अपने बन्धुजनोके साथ बड़ी विभूतिसे उसका जन्ममहोत्सव एव अन्य सभी मागलिक विधि-विधान किये । क्रमशः भोगोपभोगोके द्वारा बुद्धिमत्तासे युक्त उसने कुमारावस्थाको प्राप्त कर धर्मादि पुरुषार्थोकी सिद्धिके लिए शस्त्रविद्याके साथ जैन सिद्धान्तके सारभूत तत्त्वार्थको पढकर, रूप, लावण्य, तेज, शरीर कान्ति और दीप्ति आदि सद्-गुणोके द्वारा जनताको आनन्दित करता हुआ वह दिव्य वस्त्राभरण आदि वेष-भूषासे देवके समान शोभाको प्राप्त हुआ ॥१२४-१२६॥

तत्पश्चात् यौवनावस्थामे पुण्योदयसे बहुत-सी राजकुमारियोको प्राप्त कर और पिताकी राज्यलक्ष्मीके पढको पाकर वह उत्तम सुखको भोगने लगा ॥१२७॥ पुनः सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके साथ गृहस्थोके धर्मकी सिद्धिके लिए श्रावकोके सद्-व्रतोको प्रमादरहित होकर पालन करता, अष्टमी और चतुर्दशीको सर्व पापभोगोका त्याग करके मुनि समान होकर वह बुद्धिमान् मुक्ति-प्राप्तिके लिए प्रोपवोपवासको पालता और प्रातःकाल शयनसे उठकर सर्वप्रथम सामायिक, तीर्थकरस्तवन आदि आवश्यकोको प्रयत्नके साथ करता था । पश्चात् धर्मकी वृद्धिके लिए स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर भक्तिके साथ अपने घरके जिनालयमे जाकर विभूतिके साथ देव-पूजन करके योग्यकालमे योग्य सुपात्रके लिए त्रिवर्गकी सिद्धि करनेवाले प्रासुक मधुर दानको वह चतुर यथाविधि नवधा भक्तिके साथ साक्षात् स्वय दान देता था ॥१२८-१३२॥ अपराह्णकालमे स्वयोग्य कार्योको करके पुनः मनको जीतनेवाला वह हरिषेण राजा पुण्यकी प्राप्तिके लिए सायकालके समय सामायिक आदि सर्व धर्म कार्योको

यात्रा व्रजति सोऽर्हत्केवलियोगोन्द्रयोगिनाम् । सधेन महता साक धर्मतीर्थप्रवृत्तये ॥१३४॥
 तेभ्य शृणोति सद्धर्मं तत्त्वाचारादिमिश्रितम् । रागहान्यै विदे मूषुखिशुद्ध्या शर्मवारिधिम ॥१३५॥
 वात्सल्य कुरुते धर्मी धर्माय धर्मशालिनाम् । तद्योग्यदानसन्मानै प्रीत्या तद्गुणरञ्जित ॥१३६॥
 जिनचैत्यालयोद्धारै प्रतिष्ठाचादिकोटिभि । जैनशासनमाहात्म्य व्यनक्त्येष सदा सुधी ॥१३७॥
 यच्छक्रोति स पुण्यात्मा सर्वशक्त्या तदाचरन् । यन्न शक्नोत्यनुष्ठातु विधत्ते तस्य भावनाम् ॥१३८॥
 इत्यादिविधिचारै कुर्वन् धर्मं गिरा हृदा । वपुषा कारयश्चान्यैर्मव्यै सदुपदेशनै ॥१३९॥
 त्रिवर्गवृद्धिऋद्राज्य पालयन् न्यायवर्त्मना । सोऽन्वभूत्परमान् भोगान् स्वपुण्योदयजान् सुधी ॥१४०॥
 इति सुकृतविपाकात् प्राप्य सद्राज्यलक्ष्मी निरुपमसुखसारान् सोऽत्र भुङ्क्ते नरेश ।
 जगति विदितकीर्तिश्चेति मत्वा शिवाय मजत परमयत्नाच्छर्मकामा सुधर्मम् ॥१४१॥
 धर्मं प्राचरितो मया सुविधिना धर्मं भजे प्रत्यह धर्मेणानुचरामि वृत्तममल धर्माय नित्य नम ।
 धर्माज्ञापराश्रयामि शरण धर्मस्य गच्छाम्यघाद् धर्मे लीनमना अह भवभयान्मा पाहि धर्माघत ॥१४२॥
 इति श्रीभट्टारकसकलकीर्तिविरचिते श्रीवीर-वर्धमानचरिते सिहादिभवसप्त-
 धर्मप्राप्तिवर्णनो नाम चतुर्थोऽधिकार ॥४॥

करता था ॥१३३॥ धर्मतीर्थकी प्रवृत्तिके लिए वह बड़े भारी सघके साथ अर्हन्त, केवली, योगीन्द्र और साधुओके दर्शन-वन्दनके लिए यात्राएँ करता था, उनसे तत्त्व और आचारादि-से मिश्रित अर्थात् द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग आदि सर्व अनुयोगयुक्त सुखके सागर उत्तमधर्म-को रागकी हानि और ज्ञानकी वृद्धिके लिए त्रियोगशुद्धिपूर्वक सुनता था ॥१३४-१३५॥ यात्राओसे लौटकर वह हरिषेण राजा धर्मके लिए धर्म-शालियोका उनके गुणोसे अनुरजित होकर प्रीतिसे यथायोग्य दान-सम्मानके द्वारा साधर्मी-वात्सल्य करता था । अर्थात् प्रीतिभोज देकर वस्त्राभूषणादिसे साधर्मी जनोका यथोचित सम्मान करता था ॥१३६॥ वह बुद्धिमान् राजा प्राचीन जिन चैत्यालयोका उद्धार करके तथा नाना प्रकारकी प्रतिष्ठा, पूजनाविके द्वारा सदा ही जैनशासनके माहात्म्यको जगत्मे व्यक्त करता रहता था ॥१३७॥ वह पुण्यात्मा जिस कार्यको कर सकता था, उस धर्मकार्यको सर्वशक्तिसे सदा आचरण करता और जिसे करनेके लिए समर्थ नहीं होता, उस करने की भावना करता रहता था ॥१३८॥ इत्यादि अनेक प्रकारके आचरणोसे वह स्वयं धर्म करता, तथा मन, वचन और कायसे सदुपदेशोके द्वारा अन्य भव्य जीवोंसे कराता हुआ त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) की वृद्धि करनेवाले राज्यको न्यायमार्गसे पालन करता हुआ वह बुद्धिमान् राजा अपने पुण्योदयसे प्राप्त परम भोगोको भोगने लगा ॥१३९-१४०॥

इस प्रकार पुण्यके परिपाकसे उत्तम राज्य-लक्ष्मीको पाकर ससारमे सर्व ओर जिसकी कीर्ति फैल रही है, ऐसा वह हरिषेण नरेश वहाँ पर सारभूत अनुपम सुखोको भोगता हुआ समय व्यतीत करने लगा । ऐसा जानकर सुखके इच्छुक पुरुषोको शिवपदकी प्राप्तिके लिए परम यत्नसे उत्तम धर्मका सेवन करना चाहिए ॥१४१॥

मैने उत्तम विधिके साथ पहले धर्म आचरण किया है । मै अब भी प्रतिदिन धर्मको सेवन करता हूँ, धर्मके द्वारा निर्मल चारित्रको पालता हूँ, ऐसे धर्मको मेरा नित्य नमस्कार है । धर्मसे अन्य किसी का मै आश्रय नहीं लेता हूँ, किन्तु पापसे दूर रहकर धर्मकी शरण जाता हूँ । भव-भयसे डरकर मै धर्ममे मनको सलग्न करता हूँ । हे धर्म, मुझे पाप से बचाओ ॥१४२॥

इस प्रकार भट्टारक सकलकीर्ति-विरचित श्री वीर-वर्धमानचरितमे सिंह आदि सात भवोका और उनमे धर्मकी प्राप्तिका वर्णन करनेवाला चतुर्थ अधिकार समाप्त हुआ ॥४॥

पञ्चमोऽधिकारः

कर्मारतिविजेतारं वीरं वीरगणाग्रिमम् । वन्दे रुद्रकृतानेकपरीषहमरक्षमम् ॥१॥
 अथान्येद्युः स कालाप्या हरिषेणमहीपतिः । मिथो वितर्कयेदेवं विवेकाज्ज्वलमानसे ॥२॥
 किलक्षणोऽहमेवात्मा कीदृशा वपुरादयः । अमी कीदृग्विधं चैतत्कुटुम्बं बन्धकारणम् ॥३॥
 कुतो मे शाश्वतं शर्म कथमाशा विनश्यति । किं हितं चाहितं लोके किं कृत्यं किं किलेतरम् ॥४॥
 अहो दृग्ज्ञानवृत्तादिगुणरूपोऽहमात्मवान् । एतेऽत्राचेतनाः पूतिगन्धयोऽङ्गादिपुद्गलाः ॥५॥
 यथात्र मिलितं पक्षिवर्गं तुङ्गे तरौ निशि । कुले तथा कुटुम्बं च स्वस्वकार्यपरायणम् ॥६॥
 निर्वाणान्नापरं किञ्चिच्छाश्वतं शर्म दृश्यते । विना संगपरित्यागाज्जात्वाशा न प्रणश्यति ॥७॥
 तपो रत्नत्रयेभ्योऽन्यद्वितं जातु न विद्यते । मोहाक्षविषयेभ्योऽन्यज्जाहितं चाशुभाकरम् ॥८॥
 अतो वैषयिकं सौख्यं विषवद्देयमञ्जसा । तपो रत्नत्रयं सारमादेयं हितकांक्षिणा ॥९॥
 तत्कृत्यं धीमतां येन हीहामुत्र सुखं यशः । तदकृत्यं तरां येन निन्दा दुःखं पराभवम् ॥१०॥
 इत्यादिचिन्तनादाप्य संवेगं कर्मनाशकृत् । जगद्भोगशरीरादौ हितायाधात्स उद्यमम् ॥११॥
 ततो निक्षिप्य राज्यस्य दुर्भारं लोष्टवत्तुजि । आदातुं स तपोभारं सुगमं निर्ययौ गृहात् ॥१२॥

कर्म शत्रुओंके विजेता, वीर पुरुषोंमें अग्रणी और रुद्रकृत अनेक उपसर्गों एवं परीषहों-
 के सहन करने में समर्थ श्री वीर जिनेन्द्रकी मैं वन्दना करता हूँ ॥१॥

अथानन्तर किसी समय वह हरिषेण राजा काललब्धिकी प्राप्तिसे अपने विवेकसे
 निर्मल चित्तमें इस प्रकार विचारने लगा कि मेरा यह आत्मा किस स्वरूपवाला है और ये
 शरीर आदि किस प्रकारके स्वरूपवाले हैं ? बन्धका कारण यह कुटुम्ब किस प्रकारका है ?
 नित्य सुखकी प्राप्ति मुझे कैसे होगी और कैसे मेरी यह आशा विनष्ट होगी ? लोकमें मेरा हित
 और अहित क्या है ? यहाँ मेरा क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है ॥२-४॥ अहो, मैं दर्शन
 ज्ञान चारित्र्यरूप आत्मावाला हूँ और ये शरीरादिके पुद्गल अपवित्र, दुर्गन्धि और अचेतन
 हैं ॥५॥ जैसे यहाँ पर रात्रिके समय ऊँचे वृक्षपर पक्षियोंका समूह मिल जाता है उसी प्रकार
 मनुष्यकुलमें भी ये स्त्री-पुत्रादिका कुटुम्ब मिल रहा है, किन्तु सब अपने-अपने कार्यमें
 परायण हैं ॥६॥

यहाँ पर मोक्षके सिवाय और कहींपर भी नित्य सुख नहीं दिखता है और परिग्रहके
 त्यागके बिना कभी भी यह आशा-तृष्णा नहीं नष्ट हो सकती है ॥७॥ यहाँपर तप और रत्न-
 त्रयके सिवाय अन्य कोई वस्तु हित करनेवाली नहीं है । तथा मोह और इन्द्रिय-विषयोंके
 सिवाय अन्य कोई अहित और अशुभ करनेवाला नहीं है ॥८॥ यह इन्द्रियोंके विषयोंसे
 उत्पन्न हुआ सुख विषके समान निश्चयसे हेय है । अतः हितके चाहनेवाले पुरुषको सारभूत
 तप और रत्नत्रय ग्रहण करना चाहिए ॥९॥ बुद्धिमानोंको वही कार्य करना योग्य है, जिससे
 इस लोक और परलोकमें सुख और यश हो । और वही कार्य अकृत्य है जिससे निन्दा, दुःख
 और पराभव हो ॥१०॥ इस प्रकारके चिन्तनसे संसार, शरीर और भोग आदिमें कर्मोंका
 नाश करनेवाले संवेगको प्राप्त कर उसने अपने हितके लिए उद्यम किया ॥११॥ तदनन्तर
 लोष्टके समान राज्यके दुर्भारको पुत्रपर डालकर और सुगम तपोभारको ग्रहण करनेके लिए

श्रुतसागरनामान योगीन्द्र श्रुतपारगम् । आसाद्य शिरसा नत्वा त्रि परीत्य जगद्भूतम् ॥१३॥
 बाह्यान्त स्थाखिलान् सगास्त्रिशुद्ध्या प्रविहाय स । मुमुक्षुर्मुक्तये जैनी दीक्षा भूपो मुदाददौ ॥१४॥
 तत कर्माद्रिघाताय तपोवज्रायुध दधे । दुष्टाभारिमनोरोधि प्रशस्त ध्यानमाचरत् ॥१५॥
 एकाकी सिंहवन्नित्य धर्मशुक्लप्रसिद्धये । कन्दराद्रिगुहारण्यश्मशानादिषु सवसेत् ॥१६॥
 अटवीग्रामखेटादीन् विहरन् यत्र चाशुमान् । अस्त याति स तत्रैव तिष्ठेद् रात्रौ दयार्द्रधी ॥१७॥
 सर्पादिसकुले झञ्जावातवृष्ट्यादिदु करे । प्रावृट्काले हुमूले स विधत्ते योगमूर्जितम् ॥१८॥
 हेमन्ते चत्वरे वासौ नदीतीरे हिमाकुले । ध्यानोष्मणा हताशेषशीतबाधा स्थितिं भजेत् ॥१९॥
 ग्रीष्मे सूर्याशुसतसे पर्वताग्रे शिलातले । कुर्याद् व्युत्सर्गमाहृत्योष्णबाधा ज्ञानपानत ॥२०॥
 इत्याद्यन्यतर घोर कायक्लेश सदा भजन् । बाह्य सोऽभ्यन्तरे दक्षो ध्यानाध्ययनहेतवे ॥२१॥
 गुणान् मूलोत्तरान् सर्वान् प्रतिपाल्य सुसयमम् । आददेऽनशन चान्ते त्यक्त्वाहारवपूषि वै ॥२२॥
 ततो दृग्ज्ञानचारित्रतपसा मुक्तिदायिनाम् । आराधना विधायोच्चै शोषयित्वा निज वपु ॥२३॥
 तपोऽग्निना परित्यज्य प्रागान् सर्वसमाधिना । तत्फलेन महाशुक्ले सोऽमूनमहर्द्धिकोऽमर ॥२४॥
 तत्राप्यान्तर्मुहूर्तेन सहजाम्बरभूषणे । भूषित यौवनाढ्य स काय धातुमलातिगम् ॥२५॥
 महती स्व श्रिय वीक्ष्यासाद्यावधि स तत्क्षणम् । ज्ञात्वा प्राग्वृत्तक तेन सर्वं धर्मपरोऽजनि ॥२६॥

वह हरिषेण राजा घरसे निकला ॥१२॥ और श्रुत-पारगामी श्रुतसागर नामके योगीन्द्रके पास जाकर जगत्से नमस्कृत उन्हे शिरसे नमस्कार कर और तीन प्रदक्षिणा देकर, बाह्य और आभ्यन्तर समस्त परिग्रहोको त्रिकरण-शुद्धिसे त्याग कर उस मुमुक्षु राजाने मुक्तिकी प्राप्तिके लिए हर्षके साथ दीक्षा ग्रहण कर ली ॥१३-१४॥

तत्पश्चात् कर्मरूपी पर्वतके विघातके लिए तपरूप वज्रायुधको उसने धारण किया । और दुष्ट इन्द्रिय और मनरूप शत्रुओको रोकनेवाले उत्तम ध्यानको धारण किया ॥१५॥ वह धर्म और शुक्लध्यानकी सिद्धिके लिए पर्वतोकी कन्दराओं, गुफाओमे तथा वन-श्मशान आदिमे नित्य एकाकी सिंहके समान निर्भय होकर बसने लगा ॥१६॥ अटवी, ग्राम, खेट आदिमे विहार करते हुए जहाँपर सूर्य अस्त हो जाता, वहीपर वह दयार्द्र चित्त रात्रिमे ठहर जाता । वह वर्षाकालमे सर्प आदिसे व्याप्त, झञ्जावात और वर्षा आदिसे भयकर वृक्षके मूलमे उत्कृष्ट योगको धारण करता, हेमन्त ऋतुमे हिमसे व्याप्त चतुष्पथपर अथवा नदीके किनारे ध्यानकी गरमीसे सर्व प्रकारकी शीतबाधाको दूर करता हुआ रहने लगा ॥१७-१९॥ ग्रीष्मकालमे सूर्यकी किरणोसे सन्तप्त पर्वतके ऊपर शिलातलपर ज्ञानामृतके पानसे उष्ण-बाधाको दूर करता हुआ कायोत्सर्ग करता था ॥२०॥ इनको आदि लेकर अन्य अनेक बाह्य तपरूप कायक्लेशको वह चतुर मुनि आभ्यन्तर ध्यान और स्वाध्यायरूप तपोकी सिद्धिके लिए सदा सहने लगा ॥२१॥ इस प्रकार जीवन-भर सभी मूलगुणो, उत्तरगुणो और सयमको पालन कर अन्तमे आहार और शरीरको छोडकर हरिषेणमुनि अनशनको ग्रहण कर लिया ॥२२॥

तत्पश्चात् मुक्तिकी देनेवाली दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन चारो आराधनाओकी भली भाँतिसे आराधना कर और तपरूपी अग्निसे अपने शरीरको सुखा करके सर्व प्रकारकी समाधिके साथ हरिषेण मुनिने प्राणोको छोडकर उसके फलसे महाशुक्ल नामके स्वर्गमे महार्धिक वैवपद पाया ॥२३-२४॥

वहाँपर अन्तर्मुहूर्त मात्रसे ही सर्व धातुओसे रहित, यौवन अवस्थासे युक्त और सहज वस्त्राभूषणोंसे भूषित दिव्य देह पाकर, तथा स्वर्गकी महती विभूतिको देखकर, तत्क्षण उत्पन्न हुए अवधिज्ञानसे पूर्व भव-सम्बन्धी सर्व वृत्तान्तको जानकर वह देव धर्ममे तत्पर हो

तत सद्धर्मसिद्धयर्थं गत्वा श्रीजिनमन्दिरे । चकार परमा पूजा विश्वाभ्युदयकारिणीम् ॥२७॥
जलाद्यष्टविधैर्द्रव्यैस्तत्रोत्पन्नैश्च्युतोपमै । सम तूर्यत्रिकैर्मक्त्या स्तुतिस्तवनमस्कृतै ॥२८॥
पुनस्तिर्यङ्मृत्लोके च जिनमूर्तीर्जिनेशिन । नत्वा प्रपूज्य तद्वाणी श्रुत्वा सत्पुण्यमार्जयत् ॥२९॥
इति धर्मात्तचित्तोऽसौ चतु करोन्नताङ्गमाक् । षोडशाब्धिप्रमायुष्क शुभलेश्या शुभाशय ॥३०॥
चतुर्थावनिपर्यन्त मूर्तिवस्तुचराचरम् । जानन् स्वावधिना युक्तो विक्रियर्द्धिं च तत्समाम् ॥३१॥
गतैर्गृह्णन् सुधाह्वर सहस्रवर्षषोडशै । भजन् सुगन्धिमुच्छ्वास पक्षै षोडशभिर्गतै ॥३२॥
प्राक्तपश्चरणोत्पन्नान् दिव्यान् भोगाननारतम् । स्वदेवीभिर्महाभूत्या भुञ्जानोऽनल्पशर्मदान् ॥३३॥
निरौपम्यान् नृलोकेऽस्मिन् धर्मध्यानपरायण । मुदास्ते निर्जरस्तत्र निमग्न सुखसागरे ॥३४॥
अथ सद्भातकीखण्डे द्वीपे पूर्वाभिधानके । विदेहे पूर्वसन्नेऽस्ति विषय पुष्कलावती ॥३५॥
प्रागुक्तवर्णना तत्र नगरी पुण्डरीकिणी । महती शाश्वता दिव्या चक्रिभोग्या हि विद्यते ॥३६॥
पतिस्तस्या सुमित्राख्यो नरेशोऽभूत् सुपुण्यवान् । राज्ञी तस्याभवद्रम्या सुव्रताख्या व्रताङ्किता ॥३७॥
महाशुक्रात्स आगत्य देवोऽतिदिव्यलक्षण । प्रियमित्रामिधो जातस्तयो पुत्रो जगत्प्रिय ॥३८॥
तत्पितास्य विभूत्यादौ कृत्वाहंता जिनालये । महाभिषेकसंपूजा विश्वाभ्युदयशर्मदाम् ॥३९॥
दत्त्वा दानानि बन्धुभ्योऽनाथवन्दिभ्य एव च । सुतूर्यत्रिकैस्त्वाद्यैर्व्यधाजातमहोत्सवम् ॥४०॥
द्वितीयाचन्द्रवद्विश्वजनतानन्दवर्धक । सुरुपातिशयैर्योग्यै पय पानान्नवस्तुभि ॥४१॥

गया ॥२५-२६॥ तत्पश्चात् उत्तम धर्मकी सिद्धिके लिए श्री जिनमन्दिरमे जाकर समस्त लौकिक सुखोकी सिद्ध करनेवाली परमपूजा, स्वर्गमे उत्पन्न हुए अनुपम जलादि अष्टविध द्रव्योसे भक्ति-द्वारा तीनो प्रकार के बाजो के साथ, स्तुति, स्तवन और नमस्कार पूर्वक की ॥२७-२८॥ पुनः तिर्यङ्गलोक और मनुष्यलोकमे जिनेन्द्रोकी जिनप्रतिमाओंकी पूजा करके नमस्कार कर और जिनराजोकी वाणीको सुनकर ब्रह्मदेवने उत्तम पुण्यको उपार्जन किया ॥२९॥ इस प्रकार वह देव सदा धर्ममे चित्त लगाकर अपना समय व्यतीत करने लगा । उसका शरीर चार हाथ उन्नत था, सोलह सागरोपम आयु थी, शुभलेश्या और शुभमनोवृत्ति थी ॥३०॥ चौथी पृथिवीतक अपने अवधिज्ञानसे सभी मूर्तिके चराचर वस्तुओको जानता हुआ वहाँ तककी विक्रिया ऋद्धिकी शक्तिसे युक्त था । सोलह हजार वर्ष बीतने पर वह अमृत-आहारको ग्रहण करता था, और सोलहपक्ष बीतनेपर सुगन्धित उच्छ्वास लेता था ॥३१-३२॥ पूर्वभवमे किये गये तपश्चरणसे उत्पन्न हुए, भारी सुख देनेवाले दिव्य भोगोको महाविभूतिसे अपनी देवियोके साथ निरन्तर भोगने लगा । वहाँके अनुपम भोगोकी इस मनुष्य लोकमे कोई उपमा नहीं है । इस प्रकार वह देव आनन्दसे सुख-सागरमे निमग्न रहने लगा ॥३३-३४॥

अथानन्तर उत्तम धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वभागवर्ती पूर्व विदेहमे पुष्कलावती नामका देश है । वहाँ पर पूर्वोक्त वर्णनवाली पुण्डरीकिणी नगरी है जो विशाल, शाश्वती, दिव्य और चक्रवर्ती द्वारा भोग्य है ॥३५-३६॥ उस नगरीका स्वामी सुमित्र नामका अतिपुण्यवान् राजा था । उसकी व्रत भूषित सुव्रता नामकी सुन्दरी रानी थी । उन दोनोके महाशुक्र विमानसे आकर वह देव दिव्यलक्षणवाला, जगत्प्रिय, प्रियमित्र नामका पुत्र हुआ । जन्म होनेपर उसके पिताने भारी विभूतिके साथ सर्वप्रथम जिनालयमे जाकर समस्त अभ्युदय सुखोको देनेवाली महाभिषेक पूर्वक उत्तम पूजा की ॥३७-३९॥ पुनः बन्धुजनोको, अनाथो और बन्दी लोगोको दान देकर तीन प्रकारके बाजोके साथ ध्वजा आदि फहराकर पुत्रका जन्ममहोत्सव मनाया ॥४०॥ वह बालक समस्त जनताके आनन्दको बढ़ाता हुआ, अतिशय सुन्दर रूपसे, योग्य दुग्ध पान, अन्नाहार आदि वस्तुओसे, कीर्ति, कान्ति और शरीरके भूषणोसे द्वितीयाके चन्द्रमाके समान वृद्धिको प्राप्त होकर दिक्कुमार या देवकुमारके समान अत्यन्त शोभाको

क्रमतो वृद्धिमासाद्य कीर्तिकान्त्यङ्गभूषणै । महान् भाति कुमारोऽसौ 'दिकुमार इवोर्जित ॥४२॥
 तत सोऽध्यापक जैन प्राण्य धर्मार्थसिद्धये । पपाठ सुधिया सारा विद्या धर्मार्थसूचिनीम् ॥४३॥
 यौवने तु महामण्डलेश्वरश्रीसमन्वितम् । पितु पद समाप्यैष मुनक्ति सुखमुल्वणम् ॥४४॥
 तदास्याद्भुतपुण्येन प्रादुरासन् स्वय क्रमात् । चक्रादिसर्वरत्नानि निधयो नव चोर्जिता ॥४५॥
 ततोऽसौ परया भूत्या षडङ्गबलवेष्टित । भ्रान्त्वा षट्खण्डभूभाग नरखेचरनायकान् ॥४६॥
 आक्रम्य मागधादीश्च व्यन्तेशान् सुहेलया । महिर्नैव वशे स्वस्य चक्रे चक्रादिसाधनै ॥४७॥
 तेभ्य कन्यादिरत्नानि सारवस्तूनि चक्रभृत् । आदाय परया लक्ष्म्यालकृत सुरराजवत् ॥४८॥
 निवृत्त्य लीलया स्वस्य पुरी सुरपुरीमिव । प्राविशत् खगमत्येन्द्रैर्व्यन्तेशै सम मुदा ॥४९॥
 अस्यासन् परपुण्येन खभूचरनृपात्मजा । षण्णवति सहस्राणि रूपलावण्यखानय ॥५०॥
 राजानो मौलिबद्धा द्वात्रिंशत्सहस्रसख्यका । नमन्त्यस्य पदद्वन्द्व स्वमूर्त्तान्नाविधायिन ॥५१॥
 चतुरशीतिलक्षा स्युर्गजास्तुङ्गमनोहरा । तावन्तश्च रथा अष्टादशकोटितुरङ्गमा ॥५२॥
 चतुरशीतिकोव्यश्च शीघ्रगामिपदातय । गणबद्धामरास्तस्य सहस्रषोडशप्रमा ॥५३॥
 अष्टादशसहस्रप्रमाम्लेच्छवसुधाभुज । सेवन्ते तस्य पादाब्जौ नृविद्येशामराचितौ ॥५४॥
 सेनापति स्थपत्याख्य स्त्री हर्म्यपतिरेव हि । पुरोहितो गजोऽश्वो दण्डश्चक्र चर्म काकिणी ॥५५॥
 मणिश्छत्रमसिश्चेति रत्नानि स्युश्चतुर्दश । राज्यभोगाङ्गकर्तृणि रक्षितान्यमरै प्रभो ॥५६॥
 पञ्च कालो महाकाल सर्वरत्नो हि पाण्डुक । नैसर्षो माणव शङ्ख पिङ्गलोऽमी शुभोदयार् ॥५७॥
 निधयो नव सरक्ष्या देवैश्चक्रभृतो गृहे । भोगोपभोगवस्तूनि पूरयन्ति क्षयोऽज्जिता ॥५८॥

प्राप्त हुआ ॥४१-४२॥ पुन जैन अध्यापकको प्राप्त होकर उसने धर्म और अर्थकी सिद्धिके लिए धर्म और अर्थको प्रकट करनेवाली सारभूत विद्याको उत्तम बुद्धि से पढा ॥४३॥ यौवन अवस्थामे महामण्डलेश्वरकी राज्यलक्ष्मीसे युक्त पिताके पदको पाकर यह उत्तम सुखको भोगने लगा ॥४४॥ तत्पश्चात् उसके अद्भुत पुण्यसे स्वय ही चक्र आदि सभी चौदह रत्न और उत्कृष्ट नवो निधियाँ क्रमसे प्रकट हुई ॥४५॥ पुन षडग सेनासे वेष्टित उसने भारी विभूतिके साथ षट्खण्ड भूभागपर परिभ्रमण करके मनुष्य और विद्याधरोके स्वामियोपर आक्रमण कर चक्र आदि साधनोके द्वारा उन्हें जीता । तथा मागधादिक व्यन्तर देवोको अपनी महिमासे ही क्रीडापूर्वक अपने वशमे कर लिया ॥४६-४७॥ इस प्रकार उस चक्रवर्तीने उन राजा लोगोसे कन्या आदि रत्नोको और अन्य सारभूत वस्तुओको लेकर उत्कृष्ट लक्ष्मीसे अलकृत हो देवेन्द्रके समान लौटकर लीलासे स्वर्गपुरीके तुल्य अपनी पुरीमे विद्याधरेन्द्रो और व्यन्तरेन्द्रोके साथ प्रवेश किया ॥४८-४९॥ इस प्रियमित्र चक्रवर्तीके परम पुण्यसे विद्याधर और भूमिगोचरी राजाओंसे उत्पन्न हुई, रूप और लावण्यकी खानि ऐसी छियानवे हजार रानियाँ थीं । बत्तीस हजार आज्ञाकारी मुकुटबद्ध राजा लोग अपने मस्तकोसे इसके दोनो चरणोको नमस्कार करते थे ॥५०-५१॥ उन्नत एव मनोहर चौरासी लाख हाथी थे, चौरासी लाख ही रथ थे और अठारह करोड घोडे थे ॥५२॥ चौरासी करोड शीघ्रगामी पैदल चलनेवाले सैनिक थे । सोलह हजार गणबद्ध देव, तथा अठारह हजार म्लेच्छ राजा लोग मनुष्य, विद्याधर और देवोसे पूजित उसके चरणोकी सेवा करते थे ॥५३-५४॥ उस चक्रवर्ती सेनापति, स्थपति, गृहपति, पट्टरानी, पुरोहित, गज, अश्व, दण्ड, चक्र, चर्म, काकिणी, मणि, छत्र और खड्ग ये चौदह रत्न थे जो कि राज्य-सुख और भोगके करनेवाले थे, तथा देवोंसे रक्षित थे ॥५५-५६॥ पुण्यके उदयसे उस चक्रवर्तीके घरमे देवोके द्वारा

कोटीषण्वति ग्रामा देशखेटपुरादय । सौधायुधाङ्गभोगाद्याश्चक्रियोग्या विभूतय ॥५९॥
 नि शेषा अस्य विज्ञेया आगमोक्ता सुखाकरा । जाता पुण्यप्रभावेण षट्खण्डप्रभवा परा ॥६०॥
 इमामन्यां परा लक्ष्मी चासाद्य नुसुरार्चित । दशाङ्गभोगवस्तूनि मुदुक्तेऽसौ सुखसुल्वणम् ॥६१॥
 धर्मास्त्वर्थार्थसिद्धिरर्थात्कामसुख महत् । तत्यागात्परधर्मेण मुक्तिश्च जायते सताम् ॥६२॥
 मत्वेत्येष सुधीर्नित्य मनोवाक्कायकर्मभि । कृताद्यै प्रेरणैश्चैक विधत्ते धर्ममुत्तमम् ॥६३॥
 ततोऽतिदृग्विशुद्धिं स नि शङ्कादिगुणोत्करै । पाळयेन्निरतिचाराणि व्रतानि ह्यगारिणाम् ॥६४॥
 चतु पर्वसु पापघ्नान् कुरुते प्रोषधान् सदा । निरारम्भ शुभध्यानपरो मुक्त्यै यमीव स ॥६५॥
 कारयित्वा बहून् तुङ्गान् हेमरत्नैर्जिनालयान् । बह्वीजिनेन्द्रमूर्ती प्रतिष्ठां तासा च भक्तित ॥६६॥
 स्वालये चैत्यगोहेषु सामग्र्या परयान्वहम् । अर्चयेदहंता दिव्या प्रतिमास्तद्गुणाय स ॥६७॥
 ददाति मुनये दान प्रासुक विधिपूर्वकम् । कीर्तिपुण्यमहाभोगप्रद भक्त्या हितास्ये ॥६८॥
 निर्वाणभूमितीर्थेशतद्विम्बगणियोगिनाम् । वन्दनार्चनभक्त्यर्थं व्रजेद्यात्रा स धर्मधी ॥६९॥
 शृणोति स्वजनै सार्धं चाङ्गपूर्वाणि धीधन । वैराग्याय द्विधा धर्मं जिनेशगणभृद्भुवने ॥७०॥
 स सामायिकमापन्नो ह्यहोरात्रकृताशुभम् । विवेकी क्षपयेन्नित्य स्वनिन्दागर्हणादिकै ॥७१॥
 इत्याद्यै स शुभाचारै कुर्याद्धर्मं स्वय सदा । कारयेदुपदेशेन श्रुत्यस्वजनभूश्रुताम् ॥७२॥

सरक्षित पद्म, काल, महाकाल, सर्वरत्न, पाण्डुक, नैसर्प, माणव, शख और पिंगल ये नौ निधियाँ थीं, जो कि सदा अक्षयरूप से भोग-उपभोगकी वस्तुओको पूरती रहती थी ॥५७-५८॥ उस चक्रवर्तीके छियानवे करोड ग्राम, देश, खेट और नगर आदि थे । तथा चक्रवर्तीके योग्य ही राजप्रासाद, आयुध और शरीरके भोग आदि विभूतियाँ थीं ॥५९॥ इस प्रकार पुण्यके प्रभावसे षट्खण्डोमे उत्पन्न हुई, सुखोकी खानिरूप सभी आगमोक्त उत्कृष्ट विभूति उस चक्रवर्तीकी जानना चाहिए ॥६०॥ इस उपर्युक्त तथा अन्य भी उत्तम लक्ष्मीको पाकर देव और, मनुष्योसे पूजित वह चक्रवर्ती दशागभोग वस्तुओको और उत्कृष्ट सुखको भोगता था ॥६१॥

धर्मसे सर्व अर्थकी भले प्रकार सिद्धि होती है, अर्थसे महान् कामसुख प्राप्त होता है और उसके त्यागसे सज्जनोको मुक्ति प्राप्त होती है । ऐसा समझकर वह बुद्धिमान् चक्रवर्ती मन, वचन, कायसे स्वय ही नित्य उत्तम धर्म करता था, तथा प्रेरणा करके दूसरोसे उत्तम धर्मका आचरण कराता था ॥६२-६३॥ इसके पश्चात् वह चक्रवर्ती अपने सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिको नि शक्ति आदि गुणोके समुदायसे बढ़ाने लगा, श्रावकोके व्रतोको निरतिचार पालने लगा, मासके चारो पर्वोमे पापके बिनाशक प्रोषधोपवासोको सदा आरम्भ रहित और शुभध्यानमे तत्पर होकर मुक्ति-प्राप्तिके लिए साधुके समान करने लगा ॥६४-६५॥ स्वर्ण-रत्नोसे बहुत-से ऊँचे जिनालयोको बनवा करके, तथा बहुत-सी जिनमूर्तियोका निर्माण कराके और भक्तिसे उनकी प्रतिष्ठा कराके अपने घरमे तथा जिनालयोमे विराजमान करके प्रतिदिन उत्कृष्ट सामग्रीसे उनके गुण प्राप्त करने के लिए वह चक्रवर्ती उन दिव्य प्रतिमाओका पूजन करता था ॥६६-६७॥ मुनियोके लिए आत्म-हितार्थ, भक्तिसे विधिपूर्वक कीर्ति, पुण्य और महाभोगप्रद प्रासुक दान देता था ॥६८॥ वह धर्मबुद्धिवाला चक्रवर्ती निर्वाणभूमियोकी, तीर्थकरोकी उनके प्रतिबिम्बोकी, गणधर और योगिजनोकी वन्दना, पूजन और भक्ति करनेके लिए यात्राको जाता था ॥६९॥ वह बुद्धिमान् तीर्थकर देव और गणधरोकी दिव्यध्वनिसे स्वजनोके साथ अग और पूर्वोको तथा वैराग्यके लिए मुनि-श्रावकके धर्मको सुनता था ॥७०॥ वह विवेकी सामायिकको प्राप्त होकर दिन-रातमे किये गये अशुभ कार्योंको अपनी निन्दा गर्हणा आदि करके नित्य क्षपित करता था ॥७१॥ इत्यादि शुभ आचारोंके

ततोऽसौ धर्ममूर्तिर्वा बभौ विश्वमहीभुजाम् । मध्ये श्रीजिनदेवो वामराणा पुण्यचेष्टितै ॥७३॥
 अथैकदा नरेशोऽसौ क्षेमकरजिनेश्वरम् । वन्दितु परिवारेण विभूत्यामा ययौ मुदा ॥७४॥
 त्रि परीत्य जिनेन्द्र त नत्वा मूर्ध्ना प्रपूज्य स । भक्त्या दिव्यार्चनाद्रव्यैर्नृकोष्ठे स उपाविशत् ॥७५॥
 तद्विताय जिनाधीशोऽसौ दिव्यध्वजिनानघम् । गणान् प्रतीत्यनुप्रेक्षापूर्वकं धर्ममादिशत् ॥७६॥
 आयुर्विश्ववपुर्भोगराज्यश्रीखसुखादिकान् । शम्पा इव चलान् ज्ञात्वा राध्यो मोक्षोऽचलो बुधै ॥७७॥
 मृत्युरूक्लेशदुःखादेर्न जन्तो शरणं क्वचित् । धर्मं विनेति मत्वाहो कर्तव्यस्तत्क्षयाय स ॥७८॥
 विश्वदुःखाकरोभूत् घोर ससारसागरम् । विज्ञायात्र तदन्ताप्यै सेव्यं रत्नत्रय महत् ॥७९॥
 एकाकिन विदित्वा स्व जन्ममृत्युजरादिषु । ध्येयो ह्येको जिनेन्द्रो वा स्वात्मैकत्वपदास्ये ॥८०॥
 अन्यत्वं स्वात्मनो ज्ञात्वा वपुरादेश्च निश्चयात् । मरणादौ स्वसिद्धार्थं त्यक्त्वा ज्ञादीन् हितं चर ॥८१॥
 सप्तधातुमयं निन्द्य पूतिगन्धिं क्लेशवरम् । यमागारं सुधीर्वीक्ष्य कथं न धर्ममाचरेत् ॥८२॥
 कर्मास्त्रवेण जीवानां सपातोऽत्र भवान्नेव । मत्वेति सुधियां ब्राह्म्या दीक्षाद्यास्त्रवहानये ॥८३॥
 सवरेण सता नूनं मुक्तिश्रीर्जायते तराम् । ज्ञात्वेति स विधेयोऽत्र मुक्त्यै मुक्त्वा गृहाश्रमम् ॥८४॥
 यदात्र निर्जरा कृत्स्नकर्मणा तपसा सताम् । तदैव मुक्तिरामेति ज्ञात्वा कार्यं तपोऽनघम् ॥८५॥
 परमार्थेन विज्ञाय दुःखैः पूर्णं जगत्त्रयम् । चानन्तशर्मदं मोक्षं तदाप्यै सयमं मज ॥८६॥

द्वारा वह सदा स्वयं धर्म करता था और उपदेश देकरके अपने भृत्यो, स्वजनो एवं राजाओसे कराता था ॥७२॥ इस प्रकार वह समस्त राजाओके मध्यमे अपनी पुण्य चेष्टाओसे धर्ममूर्तिके समान शोभाको प्राप्त हुआ, जैसे कि देवोके मध्यमे जिनदेव शोभाको प्राप्त होते है ॥७३॥

इसके पश्चात् एक दिन वह चक्रवर्ती अपने परिवारके साथ बड़ी विभूतिसे हर्षित होता हुआ क्षेमकर जिनेश्वरकी वन्दना करनेके लिए गया ॥७४॥ वहाँपर उन जिनेन्द्रदेवको तीन प्रदक्षिणा देकर, मस्तकसे नमस्कार करके और भक्तिसे दिव्य पूजन-द्रव्यो द्वारा पूजा करके मनुष्योके कोठेमे जा बैठा ॥७५॥ तब जिनेश्वरदेवने उसके हितके लिए दिव्यध्वनि द्वारा सर्वगणोको लक्ष्य करते हुए प्रतीति (श्रद्धा) और अनुप्रेक्षापूर्वक धर्मका उपदेश दिया ॥७६॥ भगवान्ने कहा—आयु, शरीर, भोग, राज्यलक्ष्मी और इन्द्रियोके सुख आदिक सभी ससारकी वस्तुओंको बिजलीके समान चंचल अनित्य जानकर ज्ञानियोको अचल मोक्षकी आराधना करनी चाहिए ॥७७॥ मृत्यु, रोग, क्लेश और दुःखादिसे प्राणीको शरण देनेवाला धर्मके बिना कहीं पर भी और कोई नहीं है, अतः ऐसा समझकर दुःखोके क्षय करनेके लिए अहो भव्यजीवो, तुम्हे धर्म करना चाहिए ॥७८॥ यह घोर ससार-सागर सर्व दुःखोंका भण्डार है, ऐसा समझकर उसके अन्त करनेके लिए महान् रत्नत्रय धर्मका सेवन करना चाहिए ॥७९॥ जन्म, मरण और जरा आदि अवस्थाओसे अपने को अकेला समझकर एकत्वकी प्राप्तिके लिए एकमात्र जिनेन्द्रदेवका अथवा अपनी शुद्ध आत्माका ध्यान करना चाहिए ॥८०॥ अपने आत्माको शरीरादिसे भिन्न जानकर निश्चयसे आत्मसिद्धिके लिए मरणादिके समय शरीरादिको छोड़कर हितका आचरण करना चाहिए ॥८१॥ यह शरीर सप्तधातुमय है, निन्द्य है, पूति गन्धवाला है और यमका घर है, ऐसा देखकर ज्ञानी जन क्यो नहीं धर्मका आचरण करे ॥८२॥ कर्मोके आस्रवसे जीवोका ससार-समुद्रमे पतन होता है, ऐसा मानकर आस्रवकी हानिके लिए ज्ञानी जनोको दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए ॥८३॥ सवरके द्वारा सन्त जनोको नियमसे मुक्तिश्री शीघ्र प्राप्त होती है, ऐसा जानकर गृहाश्रम छोड़के मुक्तिके लिए प्रयत्न करना चाहिए ॥८४॥ जब तपके द्वारा सर्व कर्मों की निर्जरा हो जाती है, तभी सज्जनोंको मुक्तिरामा प्राप्त होती है, ऐसा जानकर सबको निर्दोष तप करना चाहिए ॥८५॥ परमार्थसे इस जगत्त्रयको दुःखोसे भरा हुआ जानकर और

मर्त्यजन्मकुलारोग्यायुर्धीदक्चिद्यमादिकान् । विबुध्य दुर्लभान् सुष्ठु यतध्व स्वहिते बुधा ॥८७॥
 धर्मं श्राक्रेवलप्रोक्तस्त्रिजगच्छ्रीसुखाकर । हन्ता भवाद्यदु खाना कर्तव्य सर्वयत्नत ॥८८॥
 दृक्चिद्वृत्ततपोयोगै श्रान्त्याद्यैर्दशलक्षणै । निहत्य मोहसतान मुमुक्षुभि शिवाप्तये ॥८९॥
 सुखिना विधिना धर्मं कार्यं स्वसुखवृद्धये । दु खिना दु खघाताय सर्वथा चेतरैर्जनै ॥९०॥
 स एव पण्डितो धीमान् स एव सुखभाग्भवेत् । स एव जगता पूज्य स एव महता गुरु ॥९१॥
 यो विहायान्यकर्माणि स्वात्मबनशतानि च । करोति निर्मलाचारैर्धर्ममेक प्रयत्नत ॥९२॥
 मत्वेति सुधिया स्वायुर्भङ्गुर च जगत्त्रयम् । त्यक्त्वाहिविलवद् गेह धर्मं कार्योऽत्र निस्तुष ॥९३॥
 हृत्यस्य ध्वनिना चक्री ज्ञात्वानित्य जगत्त्रयम् । निर्विण्ण स्वाङ्गराज्यादौ भूत्वा हृदीत्यचिन्तयत् ॥९४॥
 अहो भुक्ता जगत्सारा मया भोगा जडात्मना । तथापि न मनाग् जाता तृप्तिस्तैर्म खशर्मणि ॥९५॥
 अतो ये विषयासक्ता ईहन्ते भोगसेवनै । तृष्णानाश च तैलेन तेऽग्निशान्ति जडाशया ॥९६॥
 यथा यथा नरान् प्रार्थ्या आयान्ति भोगसपद । तथा तथा निरुद्धाशा विसर्पति जगत्त्रयम् ॥९७॥
 येन कायेन भुज्यन्ते भोगा साक्षात् स दृश्यते । पूतिगन्धोऽतिनि सारो विष्टाकृमिमलालय ॥९८॥
 शरीर् गृह्यते यस्मिन् ससारे स विलोक्यते । कृत्स्नाशर्माकरीभूत पराधीनो दुराशय ॥९९॥
 राज्य रजोनिभ नून सर्वपापनिबन्धनम् । कामिन्य एतसा खन्यो बन्धवो बन्धनोपमा ॥१००॥

मोक्षको अनन्त सुखका देनेवाला समझकर उसकी प्राप्तिके लिए हे भव्यो, सयमको धारण करो ॥८६॥ इस ससारमे मनुष्य जन्म, उत्तम कुल, आरोग्य, पूर्ण आयु, उत्तम बुद्धि, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सयम आदिको उत्तरोत्तर दुर्लभ जानकरके ज्ञानियोको आत्म-हितमे सम्यक् प्रकार प्रयत्न करना चाहिए ॥८७॥ श्री केवल प्रणीत धर्म ही जगत्मे श्री और सुखका भण्डार है और ससारके दुःखोका विनाशक है, इसलिए सर्व प्रयत्नसे धर्म करना चाहिए ॥८८॥

वह धर्म सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपके योगसे, तथा क्षमा आदि दश लक्षणोसे प्राप्त होता है । अतः मुमुक्षु जनोको शिवप्राप्तिके लिए मोह-सन्तानका नाश कर उस धर्मका सेवन करना चाहिए ॥८९॥ सुखी जनोको अपने सुखकी वृद्धिके लिए, तथा दुःखी जनोको अपने दुःखोके नाशके लिए तथा सर्व साधारण लोगोको दोनो कार्योंके लिए सर्व प्रकारसे धर्म करना चाहिए ॥९०॥ ससारमे वही पुरुष पण्डित है, वही बुद्धिमान् है, वही जगत्का पूज्य है, वही महापुरुषोका माननीय है और वही सुखका भागी होता है जो अपने आश्रित सैकड़ो अन्य कार्योंको छोडकर प्रयत्नपूर्वक निर्मल आचरणोके द्वारा एकमात्र धर्म को करता है ॥९१-९२॥ ऐसा समझकर अपनी आयु और तीन जगत् को क्षण-भगुर मानकर तथा शरीरको सर्पके विल समान छोडकर निर्द्वन्द्व हो धर्म करना चाहिए ॥९३॥

इस प्रकार क्षेमकर तीर्थकरकी दिव्यध्वनिसे चक्रवर्तीने तीन जगत्को अनित्य जानकर और अपने शरीर, राज्यादिसे विरक्त होकर हृदयमे यह विचारने लगा—अहो, मुझ जडात्माने जगत्मे सारभूत सभी भोगोको भोगा हे, तथापि उनसे मेरे इन्द्रिय-सुखमे जरा-सी भी वृत्ति नहीं हुई है, अतः जो विषयासक्त जन भोगोके सेवनसे तृष्णाके नाशकी इच्छा करते है, जडाशय (मूर्ख) तेलसे अग्निको शान्त करना चाहते है ॥९४-९६॥ जैसे जैसे इच्छित भोग सम्पदाएँ मनुष्योके समीप आती है वैसे-वैसे ही उसकी आशाएँ तीन जगत्मे फैलती जाती है ॥९७॥ जिस शरीरसे ये भोग भोगे जाते है, वह साक्षात् पूति गन्धवाला, नि सार और विष्टा, कृमि एव मलका घर दिखाई देता है ॥९८॥ जिस ससारमे यह शरीर ग्रहण किया जाता है, वह समस्त दुःखोकी खानिरूप, पराधीन और दुर्विपाकरूप दिखाई देता है ॥९९॥ यह राज्य निश्चयसे धूलिके समान है और सर्व पापोका कारण है । ये

वेश्येव श्रीर्बुधैर्निन्द्या सुख वैषयिक कटु । हालाहलसम सर्वं मङ्गुर विश्वसभवम् ॥१०१॥
 बहुनोक्तेन किं साध्य विना रत्नत्रय नृप । न किंचिद् विद्यते सार हित वा त्रिजगत्स्वपि ॥१०२॥
 अतोऽहमधुना छित्वा मोहजाल शुभातिगम् । ज्ञानासिना जगत्पूज्या दीक्षा गृह्णामि मुक्तये ॥१०३॥
 इयन्ति मे दिनान्यत्र सयमेन विना वृथा । गतानि विषयासक्तस्यात् किं काललङ्घनम् ॥१०४॥
 विचिन्त्येति पद दत्त्वा सर्वमित्राख्यसूनवे । निधिरत्नादिभि साधं श्रिय हत्वा तृणादिवत् ॥१०५॥
 मिथ्यात्वाद्युपधीन् सर्वानन्तरे च नराधिप । जग्राहाश्चार्हती मुद्रा मुक्तये मुक्तिकारिणीम् ॥१०६॥
 दुर्लभा त्रिजगल्लोके देवतिर्यङ्कुजन्मनाम् । सहस्रभूमिपै साक सवेगादिगुणान्वितै ॥१०७॥
 ततोऽसौ महतीशक्त्या कुर्वन् घोर द्विधा तप । ध्यानाध्ययनसाराणि नि प्रमादश्च सन्मुनि ॥१०८॥
 मूलोत्तरगुणान् सम्यक् पालयन्नर्जिताशय । त्रिकालयोगमापन्नस्त्रिगुप्यात्मा निरास्रव ॥१०९॥
 स्थिति मजन् जनातीताटवीगिरिगुहादिषु । नानादेशपुरग्रामवनादीन् विहरन् सदा ॥११०॥
 पक्षमासोपवासादीना पारणकवासरे । कृतादिदूरग गृह्या विनाहार चिदाहरन् ॥१११॥
 तन्वन् प्रभावना जैन शासने नृसुरार्चिते । तप सिद्धान्तधर्मोपदेशै सद्भव्यवत्सल ॥११२॥
 इत्याद्यै परमाचारै सयम दोषदूरगम् । कालान्त प्रतिपाल्योच्चै प्रान्ते समाधिसिद्धये ॥११३॥
 त्यक्त्वा चतुर्विधाहारान् परमार्थात्मानस । सन्यासमाददे योगी कृत्वा योगस्य निग्रहम् ॥११४॥
 ततो व्यक्त विधायोच्चै स्ववीर्यं तपसे महत् । सोढ्वा क्षुधापिपासादीन् द्वाविंशतिपरीषहान् ॥११५॥
 चतुराराधना सम्यगाराध्य मुक्तिमातृका । प्रागान् मुक्त्वातियत्नेन जिनध्यानपरायण ॥११६॥
 प्रियमित्रमुनीन्द्रोऽसौ तदर्जितशुभोदयात् । सहस्रारैऽभवद्देवो महासूर्यप्रभासिध ॥११७॥

सुन्दर स्त्रियाँ पापोकी खानि है, ये सर्व बन्धुजन बन्धनोके समान है ॥१००॥ यह लक्ष्मी वेश्याके समान ज्ञानियोके द्वारा निन्द्य है, यह वैषयिक सुख हालाहल विषके समान कटुक है और ससारमे उत्पन्न हुई सभी वस्तुएँ क्षणभंगुर है ॥१०१॥ अधिक कहनेसे क्या साध्य है, रत्नत्रयधर्मके बिना तीनों ही जगत्मे सार और हितकर कुछ भी नहीं है ॥१०२॥ इसलिए अब मैं दु खमय इस मोहजालको ज्ञानरूपी खड्गसे काटकर अपनी मुक्तिके लिए जगत्पूज्य जिनदीक्षाको ग्रहण करता हूँ ॥१०३॥ मुझ विषयासक्तके इतने दिन यहाँपर सयमके बिना व्यर्थ चले गये है । अत अब समय बितानेसे क्या लाभ है ? ऐसा विचारकर और सर्वमित्र नामके पुत्रके लिए राज्यपद देकर नौ निधि और चौदह रत्नोके साथ सारी राज्यलक्ष्मीको तृण आदिके समान छोडकर तथा मिथ्यात्व आदि सभी आन्तरिक परिग्रहोको भी छोडकर उस नरेशने मुक्ति-प्राप्तिके लिए मुक्तिकारिणी, तीन लोकमे देव, तिर्यच एव कुजन्मवाले नारकियोको दुर्लभ ऐसी आर्हती जिनमुद्राको सवेग-वैराग्य आदि गुणोसे मुक्त एक हजार राजाओके साथ उस नराधिप प्रियमित्र चक्रवर्तीने शीघ्र ग्रहण कर लिया ॥१०४-१०७॥

तत्पश्चात् वे प्रियमित्र मुनिराज प्रमादरहित होकर भारी शक्तिसे दोनो प्रकारका घोर तप और सारभूत ध्यान अध्ययन करते, मूल और उत्तर गुणोको सम्यक् पालन करते, मनको जीतकर त्रिकाल योगको प्राप्त होकर, तीन गुप्तियोसे सुगुप्त और निरास्रव होकर निर्जन अटवी गिरि गुफा आदिमे निवास करते, सदा नाना देश, पुर, ग्राम और वनादिकमे विहार करते पक्ष-मासोपवास आदिको करके उनके पारणाकालमे कृत, उद्दिष्ट आदि दोषोके बिना शुद्ध आहारको सयमकी रक्षाके लिए लेते, देव-मनुष्य-पूजित जैनशासनकी प्रभावना तप, सिद्धान्त और धर्मके उपदेशसे करते हुए वे सद्-भव्यवत्सल मुनिचर्याका पालन करते विचरने लगे ॥१०८-११२॥ इत्यादि परम आचारोंके द्वारा निर्दोष सयमको मरणान्त उत्तम प्रकारसे पालन कर अन्तमे समाधिकी सिद्धिके लिए चारो प्रकारका आहार त्याग कर परमार्थमे मनको लगाकर प्रियमित्र योगिराजने योगका निग्रह करके, तपके लिए अपने

तत्रोपपादशय्याया प्राप्य यौवनमूजितम् । तत्कालजावधिज्ञानेन ज्ञात्वा प्राक्तप फलम् ॥११८॥
भूत्वा धर्मे रतोऽत्यन्त साक्षात्फलदर्शनात् । तदाप्यै श्रीजिनागार ययौ रत्नमय सुर ॥११९॥
तत्र श्रीजिनविम्बाना पूजन परम मुदा । सार्धं स्वपरिवारेण चक्रेऽनिष्टविनाशनम् ॥१२०॥
सकल्पमात्रसजातैर्दिव्यैरर्चनवस्तुभि । सोऽष्टभेदैर्नम स्तोत्रैस्तूर्यत्रिकमहोत्सवै ॥१२१॥
पुनश्चैत्यद्रुमाद्य स्था प्रतिमा अर्हता शुभा । अभ्यर्च्य मध्यलोकाद्रिमेरुनन्दीश्वरादिषु ॥१२२॥
गत्वाचर्या जिनार्चाश्च समस्ता कृत्रिमेतरा । भूयो नत्वा जगज्ज्येष्ठास्तीर्थेशमुनिपुङ्गवान् ॥१२३॥
बहूनि धर्मतत्त्वानि श्रुत्वा तच्छ्रीमुखाम्बुजात् । श्रेयोऽल समुमाज्यासावाययौ निजमाश्रयम् ॥१२४॥
स्वपुण्यजनिता लक्ष्मीमप्सर स्वर्विमानगाम् । स्वीकृत्येति परान् भोगान् भुनक्त्येषोऽक्षतृप्तिदान् ॥१२५॥
अष्टादशसमुद्रायुश्चक्षुर्गुण्मेषवर्जित । सप्तधातुमलातीतसार्धत्रिकरदेहवान् ॥१२६॥
अष्टादशसहस्राब्दैर्गते सर्वाङ्गशर्मदम् । अमृताहारमादत्ते मनसा स च्युतोपमम् ॥१२७॥
नवमासैर्व्यतीते स उच्छ्वास लभते मनाक् । चतुथक्षितिपर्यन्त वेत्ति द्रव्याश्वराचरान् ॥१२८॥
मूर्तान् स्वावधिना यातायात कर्तुं क्षमोऽमर । विक्रियद्विप्रभावेण क्षेत्रेऽवधिप्रमेऽनिशम् ॥१२९॥
सौधोद्यानाद्रिदेशेष्वसख्यद्वीपाद्रिषु स्वयम् । स्वेच्छया विहरन् कुर्यात् क्रीडा देवीभिरन्वहम् ॥१३०॥
क्वचिद्वीणादिवादित्रै क्वचिद् गीतैर्मनोहरै । क्वचिद्दिव्याङ्गनाना सच्छृङ्गाररूपदर्शनै ॥१३१॥
अन्यदा धर्मगोष्ठीभि क्वचित्केवलपूजनै । अन्येद्युरर्हता पञ्चकल्याणपरमोत्सवै ॥१३२॥
इत्याद्यन्यायकर्मौषैर्धर्मैर्ण शर्मणामर । नयन् काल सुरै सेव्यस्तस्यौ सौख्याधिमध्यग ॥१३३॥

महान् पराक्रमको उत्तम प्रकारसे व्यक्त कर क्षुधा, पिपासा आदि बाईस परीषहोको सहन कर और मुक्तिकी मातास्वरूप चारो आराधनाओकी सम्यक् प्रकारसे आराधना कर जिनध्यानमे तत्पर वे प्रियमित्र नामके मुनीन्द्र अति प्रयत्नके साथ प्राणोको छोडकर उस तपश्चरणादिसे उपार्जित पुण्यके उदयसे सहस्रार स्वर्गमे महासूर्यप्रभ नामके देव हुए ॥११३-११७॥

वहाँ उपपादशय्यापर पूर्ण यौवन अवस्थाको प्राप्त कर, तत्काल उत्पन्न हुए अवधि-ज्ञानसे पूर्वजन्मकृत तपका फल जानकर साक्षात् उसका फल देखनेसे और भी अधिक धर्मकी प्राप्तिके लिए धर्ममे अत्यन्त निरत होकर वह देव अपने विमानके रत्नमय श्री जिनालयमे गया ॥११८-११९॥ वहाँपर हर्षसे अपने परिवारके साथ श्री जिनविम्बोका अनिष्ट-विनाशक परम पूजन सकल्पमात्रसे उत्पन्न हुए अष्टभेदरूप दिव्य पूजन-द्रव्योसे तथा नमस्कार, स्तोत्र, तीन प्रकारके वाद्यो द्वारा महोत्सव-पूर्वक करके, पुन, चैत्य वृक्षोके नीचे अवस्थित अर्हन्तोकी शुभ प्रतिमाओको पूजकर, मध्यलोकमे जाकर वहाँके मेरु पर्वत नन्दीश्वर द्वीप आदिमे स्थित समस्त कृत्रिम अकृत्रिम जिनप्रतिमाओका पूजन करके, उन्हें नमस्कार कर पुनः जगत्-शिरोमणि तीर्थकरो और श्रेष्ठ मुनिजनोको नमस्कार कर उनके श्री-मुखकमलसे बहुत प्रकारसे धर्म और तत्त्वोका स्वरूप सुनकर और पुण्यका उपार्जन कर वह देव अपने स्थानको वापस आया ॥१२०-१२४॥ वहाँपर अपने पुण्यसे उत्पन्न अप्सराओं एव स्वर्ग-विमान-गत अन्य लक्ष्मीको स्वीकार करके इन्द्रियोको तृप्त करनेवाले परम भोगोको वह देव भोगने लगा ॥१२५॥ वह अठारह सागरोपम आयुका धारक, नेत्रोके उन्मेषसे रहित और सप्त धातु-वर्जित साढे तीन हाथ प्रमाण शरीरवाला था ॥१२६॥ अठारह हजार वर्ष बीतनेपर सर्वाङ्गको सुखदायी, उपमा-रहित अमृत-आहारको मनसे ग्रहण करता था ॥१२७॥ नौ मास बीतनेपर वह कुछ उच्छ्वास लेता था । चौथी पृथिवीतकके चर-अचर मूर्त द्रव्योको अपने अवधिज्ञानसे जानता था, और विक्रिया ऋद्धिके प्रभावसे अवधिज्ञान-प्रमाण-क्षेत्रमे निरन्तर गमनागम करनेमे वह देव समर्थ था ॥१२८-१२९॥ भवन, उद्यान, पर्वत-प्रदेश, असख्यात द्वीप-समुद्र और पर्वतादिपर स्वयं स्वेच्छासे विहार करते हुए देवियोके साथ

अथ जम्बवाह्वये द्वीपे क्षेत्रे भरतसज्जके । छत्राकारपुर रम्यमस्ति धर्मसुखाकरम् ॥१३४॥
 तस्य स्वामी शुभादासीन्नन्दिवर्धनभूपति । राज्ञी वीरमती तस्य बभूव पुण्यशालिनी ॥१३५॥
 च्युत्वा स निर्जरो नाकात्तयो सूनु रजायत । नन्दनामा सुरूपाद्यैर्जगदानन्दकारक ॥१३६॥
 स बन्धुविहिता पुत्रजातोत्सवादिसपद । योग्यै पयोऽन्नभूषाद्यैर्वृद्धि प्राप्य गुणै समम् ॥१३७॥
 क्रमादधोत्य शास्त्रास्त्रविद्याश्चाध्यापकाद्धिया । कलाविवेकरूपाद्यैर्नाकीवामाति पुण्यवान् ॥१३८॥
 ततोऽसौ यौवने लब्ध्वा राज्य पितु श्रिया सह । दिव्यान् भोगान् हि मुञ्जान इति धर्म सुदाचरेत् ॥१३९॥
 नि शङ्कादिगुणोत्कर्षैर्विधत्ते दृग्विशुद्धिताम् । द्वादशव्रतपूर्णानि यत्नेन प्रतिपालयेत् ॥१४०॥
 उपवासान्निहारम्भान् कुर्यात्स सर्वपर्वसु । दान सन्मुनये भक्त्या ददाति विधिनान्वहम् ॥१४१॥
 कराति महती पूजा जिनेशा स्वजिनालये । यात्रा व्रजेद् गणेन्द्रार्हयोगिना धर्मवृद्धये ॥१४२॥
 धर्मादिद्वार्यसप्राप्तिरर्थात् समीहित सुखम् । सुखत्यागाद्धि निर्वाणस्तत्र शर्म क्षयतिगम् ॥१४३॥
 इत्येव धर्ममूल स विदित्वा सकल सुखम् । इहासुत्र तदाप्यथै सद्धर्ममेक भजेत् सदा ॥१४४॥
 स्वय शुभशताचारैर्वचोभि प्रेरकै सताम् । धर्मानुमतिसकल्पै सर्वावस्थासु धर्मधी ॥१४५॥
 तत्कलोत्थपहामोगान् मुञ्जानो राज्यसपद । अनयच्छर्मणा काल महान्त सोऽसुखातिग ॥१४६॥

निरन्तर कही क्रीडा करते, कही वीणा आदि वादित्रोसे, कही मनोहर गीतोसे, कहीपर देवागनाओके सुन्दर शृंगार युक्त रूपोको देखनेसे, कहीपर धर्म-गोष्ठियोसे, कहीपर केवलियो-के पूजनसे और कभी तीर्थकरोके पचकल्याणकोके परम उत्सवोसे, तथा इसी प्रकारके अन्य पुण्यकार्योंको करते हुए धर्म और सुखके साथ वह देव समयको बिताता हुआ अन्य देवोसे सेवित होकर सुख-सागरमे निमग्न रहने लगा ॥१३०-१३३॥

अथानन्तर इसी जम्बू नामक द्वीपके भरतनामक क्षेत्रमे छत्रके आकारवाला, धर्म और सुखका भण्डार एक रमणीक छत्रपुर नामका नगर है ॥१३४॥ पुण्योदयसे उसका स्वामी नन्दिवर्धन नामका राजा था । उसकी पुण्यशालिनी वीरमती नामकी रानी थी ॥१३५॥ उन दोनोंके वह देव स्वर्गसे च्युत होकर नन्द नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । वह अपने सुन्दर रूप आदिके द्वारा जगत्को आनन्द करनेवाला था ॥१३६॥ बन्धुजनोके द्वारा किये गये पुत्र-जन्मोत्सव आदिकी सम्पदाको पाकर, तथा योग्य दुग्ध, अन्न, वेष-भूषा (आदिसे) और गुणोके साथ वृद्धिको प्राप्त होकर, क्रमशः अपनी बुद्धिके द्वारा अध्यापकसे शास्त्र और शस्त्र विद्याओको पढकर, कला, विवेक और रूप आदिके द्वारा वह पुण्यवान् नन्दकुमार देवके समान शोभित होने लगा ॥१३७-१३८॥ तत्पश्चात् यौवन-अवस्थामे लक्ष्मीके साथ पिताके राज्यको पाकर (और अपनी स्त्रियोंके साथ) दिव्य भोगोको हर्षसे भोगता हुआ धर्मका आचरण करने लगा ॥१३९॥ वह निःशकित आदि गुणोके द्वारा सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि करने लगा, यत्नके साथ निरतिचार पूरे श्रावक व्रतोको पालने लगा ॥१४०॥ सर्वपर्वोमे आरम्भ-रहित होकर उपवासोको करने लगा, भक्तिसे विधिपूर्वक प्रतिदिन उत्तम मुनियोको दान देने लगा ॥१४१॥ अपने जिनालयमे जिनेन्द्रदेवोकी महापूजाको करने लगा और धर्मकी वृद्धिके लिए तीर्थकर, गणधर और योगियोकी यात्राको जाने लगा ॥१४२॥

धर्मसे इष्ट अर्थकी प्राप्ति होती है, अर्थसे मनोवाञ्छित सुख मिलता है और सुखके त्यागसे निर्वाण और वहाँका अक्षय अनन्त सुख प्राप्त होता है, इस प्रकार सर्वसुखोका मूल धर्मको समझकर वह नन्द राजा इस लोक और परलोकमे उसकी प्राप्तिके लिए एकमात्र धर्मको सदा सेवन करने लगा ॥१४३-१४४॥ स्वय सैकड़ो उत्तम आचरणोसे प्रेरक वचनोसे और सज्जनोके धर्म-कार्योंकी अनुमतिरूप संकल्पो से वह सर्व अवस्थाओमे

इति शुभपरिपाकानन्दनामा नरेशो निरुपमसुखसारानाप भोगाश्च दिव्यान् ।
 विमलचरणयोगैर्यत्नतोऽत्रेति मत्वा भजत जिनसुधर्मं शर्मकामा शिवाय ॥१४७॥
 धर्मैक क्रियता ह्यनन्तसुखद धर्मं कुरुध्व बुधा धर्मेण व्रजताद्भुत गुणगण धर्माय मूर्ध्ना नुति ।
 धर्मान्माश्रयता पर सुगतये धर्मस्य धत्ताश्रय धर्मे तिष्ठत धर्म एव भवता कुर्याच्छिव चाशु मे ॥१४८॥

इति भट्टारकश्रीसकलकीर्तिविरचिते श्रीवीरवर्धमानचरिते देवादिशुभ-
 भवचतुष्टयप्ररूपको नाम पञ्चमोऽधिकारः ॥५॥

धर्म-बुद्धिवाला राजा धर्मके फलसे उत्पन्न हुए महाभोगोको और राज्य-सम्पदाको भोगता हुआ दुःखोसे रहित होकर दीर्घकाल तक सुखसे समय बिताने लगा ॥१४५-१४६॥

इस प्रकार पुण्यके परिपाकसे वह नन्दनामक राजा दिव्य, अनुपम सुखके सारभूत भोगोको प्राप्त हुआ । ऐसा जानकर सुखके इच्छुक भव्यजन शिव-प्राप्तिके लिए निर्मल आचरण-योगोसे यत्न पूर्वक उत्तम जिनधर्मको सेवन करे ॥१४७॥

एक मात्र धर्म करना चाहिए, हे ज्ञानी जनो, तुम लोग अनन्त सुखको देनेवाले धर्मको करो, धर्मके द्वारा ही तुम लोग अद्भुत गुण-समूहको प्राप्त होओ, धर्मके लिए मस्तक झुकाकर नमस्कार है, धर्मसे अतिरिक्त अन्य किसीका आश्रय मत लो, सुगतिके लिए धर्मका आश्रय धारण करो और धर्ममे सदा स्थित रहो । धर्म ही आप लोगोका और मेरा शीघ्र कल्याण करे । हे धर्म, हम सबको शीघ्र शिवपद दो ॥१४८॥

इस प्रकार भट्टारक श्रीसकलकीर्ति-विरचित श्रीवीरवर्धमानचरितमे
 देवादि उत्तम चार भवोका वर्णन करनेवाला यह
 पंचम अधिकार समाप्त हुआ ॥५॥

षष्ठोऽधिकारः

हन्ता मोहाक्षशत्रूणा त्राता भव्याङ्गिना भवात् । कर्ता चिद्धर्मतीर्थाना वीरोऽस्तु तद्गुणाय मे ॥१॥
 अथैकदा स धर्मार्थं प्रोष्ठिल योगिसत्तमम् । वन्दितु मतिमान् भक्त्या यथौ भव्यगणावृत ॥२॥
 तत्राभ्यर्च्याष्टभिर्द्रव्यैर्द्वैर्भक्त्या मुनीश्वरम् । मूर्त्तां नत्वा स धर्माय तत्पादान्तमुपाविशत् ॥३॥
 तद्विताय परार्थी सोऽनघ धर्मं नृप प्रति । इत्युक्तु सुगिरारेभे लक्षणैर्दशभि परै ॥४॥
 धीमन् धर्मं पर कार्यं क्षमयोत्तमया त्वया । उपद्रवे कृते दुष्टैर्जातु कोपो न धर्महृत् ॥५॥
 कर्तव्य मार्दव दक्षैर्मनोवाक्कायकोमलै । धर्मार्थं न च काठिन्य योगाना धर्मनाशकृत् ॥६॥
 धर्माङ्गमार्जव धार्यमवक्रैर्योगकर्मभि । न वरुता विधेयात्र क्वचिद्धर्मविनाशिनी ॥७॥
 वक्तव्य वचन सत्य धर्मसवेगकारणम् । धर्मिभिर्धर्मसिद्धयर्थं नासत्य धर्मनाशकम् ॥८॥
 इन्द्रियार्थादिवस्त्वौघे लोलुप लोभशान्नवम् । हत्वा निर्लोभधर्माङ्ग शौच कार्यं न नीरकृत् ॥९॥
 षडङ्गिना दया कृत्वा निग्रह चाक्षचेतसाम् । सयमो धर्मसिद्धयर्थमनुप्लेयो न चेतः ॥१०॥
 विधेयानि तपास्येव धर्मसिद्धिकराण्यपि । बुधैर्द्वादशभेदानि स्वशक्त्या धर्मसिद्धये ॥११॥
 परिग्रहपरित्याग दान श्रुतदयोद्भवम् । धर्महेतोर्विधातव्य धर्मदं च गुणाकरम् ॥१२॥

मोह और इन्द्रियरूप शत्रुओके हन्ता, ससारसे भव्य प्राणियोके त्राता, और ज्ञान एव धर्मतीर्थके कर्ता श्रीवीर भगवान् इन गुणोकी प्राप्तिके लिए मेरे सहायक हो ॥१॥

अथानन्तर एक बार भव्यजनोसे घिरा हुआ वह बुद्धिमान् नन्द राजा धर्म-प्राप्तिके निमित्तसे प्रोष्ठिल नामक योगिराजकी वन्दनाके लिए भक्तिके साथ गया ॥२॥ वहाँ पर दिव्य अष्ट द्रव्योसे भक्ति पूर्वक मुनीश्वरकी पूजा करके और मस्तकसे नमस्कार करके धर्म-श्रवण करनेके लिए उनके चरणोके समीप बैठ गया ॥३॥ तब परोपकारी उन मुनिराजने राजाके हितार्थ दश लक्षण रूप उत्तम भेदोके द्वारा निर्दोष धर्मको उत्तम वाणीसे इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया ॥४॥

हे धीमन् राजन्, दुष्टजनोके द्वारा उपद्रव करने पर भी धर्मका नाश करनेवाला क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और उत्तम क्षमासे युक्त धर्म धारण करना चाहिए ॥५॥ चतुर जनोको धर्मके लिए मन वचन कायकी कोमलतासे मार्दव भाव रखना चाहिए और धर्मके नाशक भोगोकी कठोरता नहीं रखना चाहिए ॥६॥ सरल मन वचन कायसे धर्मका अग आर्जव भाव धारण करना चाहिए और धर्मविनाशिनी कुटिलता यहाँ कभी भी नहीं करनी चाहिए ॥७॥ धर्माँजनोको धर्मकी सिद्धिके लिए धर्म और वैराग्यके कारणभूत सत्य वचन बोलना चाहिए और धर्मनाशक असत्य नहीं बोलना चाहिए ॥८॥ इन्द्रियोके विषयादि वस्तु-समुदायमे लोलुपता रूप लोभ-शत्रुको नाश कर निर्लोभरूप धर्मका अग शौचधर्म धारण करना चाहिए । जलकी शुद्धि शौचधर्म नहीं है ॥९॥ छह कायके जीवोकी दया करके और इन्द्रिय-मनका निग्रह करके धर्मकी सिद्धिके लिए सयम धारण करना चाहिए और असयमसे बचना चाहिए ॥१०॥ ज्ञानीजनोको धर्मकी सिद्धि करनेवाले बारह भेदरूप तप अपनी शक्तिके अनुसार धर्म-सिद्धिके लिए करना चाहिए ॥११॥ परिग्रहका परित्याग कर ज्ञान और सयमको उत्पन्न करनेवाला धर्मप्रद और गुणोका भण्डार ऐसा पवित्र दान धर्मके

आकिञ्चन्यमनुष्ठेय योगैर्व्युत्सर्गपूर्वकम् । धर्मबीज सुधर्माय चिन्तातीतसुखाकरम् ॥१३॥
 ब्रह्मचर्यं मुदा सेव्य परम धर्मकारणम् । धर्मार्थिभिर्विधाय स्वाम्बावमा सफला स्त्रिय ॥१४॥
 अमीभिलक्षणे सारैर्दशभिर्ये मुमुक्षव । कुर्वते परम धर्मं मुक्तिद यतिगोचरम् ॥१५॥
 विश्वाभ्युदयशर्माणि ते समाप्य जगत्त्रये । तत्फलेनाचिराद्भून् भवन्ति मुक्तिवल्लभा ॥१६॥
 साक्षादस्याप्यनुष्ठान दूरे तिष्ठन्तु धीमताम् । धत्ते तन्नाममात्र य सोऽपि न स्यात् सुखातिग ॥१७॥
 इत्येव धर्ममाहात्म्य विचार्य क्षणमद्भुतम् । सवभोगाङ्गवस्तूना नि सार च विवेकिमि ॥१८॥
 त्यक्त्वा भोगाङ्गससारान् हत्वा मोहाक्षशात्रवान् । त्वरित सर्वशक्त्यात्र धर्मं साध्य शिवाप्तये ॥१९॥
 इति तस्योक्तमाकर्ण्य निर्वेद त्रिविध नृप । आसाद्य निर्मले चित्ते चिन्तयेदित्यमात्मवान् ॥२०॥
 अनन्तदु खसतानप्रदोऽहोचान्तवजित । ससारोऽनादिरेवाय कथ स्यात् प्रीतये सताम् ॥२१॥
 भवो यदि खलो नास्ति चाखिलाशर्मपूरित । तर्हि त्यक्त कथ मुक्त्यै जिनाद्यै शर्मशालिमि ॥२२॥
 क्षुत्तृद्रुकामकोपाद्या प्रज्वलन्त्यग्नयोऽनिशम् । यत्र कायकुटीरेऽस्मिन् धीमता तत्र का रति ॥२३॥
 यत्राक्षतस्करा सर्वे धर्माद्यर्थापहारिण । वसन्ति तत्र काये क सुधीर्वसितुमीहते ॥२४॥
 दु खपूर्वास्तदन्तेऽतिदु खदाहादिवर्धिन । पराधीनाश्चला भोगा ये तान् क सेवते बुध ॥२५॥
 ये भोगा दु करा जाता रामास्वाङ्गरुदर्थनै । त्याज्या महद्गिरासेव्या क्षुद्रैस्ते कि सुखावहा ॥२६॥
 यद्यद् विचार्यते वस्तु भोगाङ्गेषु सुखेषु च । तत्तत्परा घृणा दत्ते माधुबुद्ध्या शुभ न च ॥२७॥

हेतु देना चाहिए ॥१२॥ कायोत्सर्गपूर्वक शरीरसे ममता त्याग कर त्रियोगीसे अचिन्त्य सुखा-
 कर और धर्मका बीज आकिञ्चन्य उत्तम धर्मकी प्राप्तिके लिए अनुष्ठान करना चाहिए ॥१३॥
 धर्मार्थीजनको सर्व स्त्रियाँ अपनी माताके समान समझकर धर्मके कारणभूत परम ब्रह्मचर्य
 हर्षसे सेवन करना चाहिए ॥१४॥ जो मोक्षाभिलाषी लोग इन सारभूत दश लक्षणोंके द्वारा
 मुनि-सम्बन्धी और मुक्तिदाता इस परम धर्मको करते हैं, वे इस तीन जगत्में उसके फलसे
 समस्त अभ्युदय-सुखोंको प्राप्त कर शीघ्र ही नियमतः मुक्तिके वल्लभ होते हैं ॥१५-१६॥

बुद्धिमानोंके इस धर्मका साक्षात् आचरण तो दूर रहे, किन्तु जो धर्मके नाम मात्रको
 भी धारण करता है, वह भी कभी दुःखी नहीं होता ॥१७॥ इस प्रकारसे धर्मका साहात्म्य विचार
 कर, तथा ससार, शरीर-भोग आदि वस्तुओंको क्षणभंगुर और निःसार जानकर विवेकियोंको
 चाहिए कि वे ससार, शरीर और भोगोंको छोड़कर, तथा मोह और इन्द्रियरूप शत्रुओंका
 नाश कर, शिव-प्राप्तिके लिए पूर्ण शक्तिसे शीघ्र धर्म साधन करें ॥१८-१९॥ इस प्रकार मुनि-
 राज-भाषित धर्मको सुनकर और ससार-शरीर भोगोंसे निर्वेदको प्राप्त होकर वह आत्महितैषी
 राजा अपने निर्मल चित्तमें इस प्रकार विचारने लगा ॥२०॥ अहो, अनन्त दुःखोंकी सन्तानको
 देनेवाला यह अनादि अनन्त ससार सज्जन पुरुषोंकी प्रीतिके लिए कैसे हो सकता है ॥२१॥
 यदि यह ससार दुष्ट और समस्त दुःखोंसे भरपूर न होता, तो सुखशाली तीर्थकरादि महा-
 पुरुषोंने मुक्ति-प्राप्तिके लिए इसे कैसे छोड़ा ॥२२॥ जिस शरीर रूपी कुटीरमें क्षुधा, तृषा,
 काम-क्रोध आदि अग्नियों निरन्तर प्रज्वलित रहती हैं, उस शरीरमें बुद्धिमानोंकी प्रीति कैसे
 सम्भव है ॥२३॥ जिस शरीरमें धर्मादिरूप धनको चुरानेवाले सभी इन्द्रियचोर रहते हैं उस
 शरीरमें कौन बुद्धिमान् रहनेकी इच्छा करता है ॥२४॥ जो भोग दु खपूर्वक उत्पन्न होते हैं,
 अन्तमें अतिदुःख एव दाहको बढ़ाते हैं, पराधीन हैं और चंचल हैं, उन्हें कौन ज्ञानी पुरुष
 सेवन करता है ॥२५॥ जो भोग स्त्री और अपने शरीरके सघटनसे उत्पन्न होते हैं, दुःखकारक
 हैं और महापुरुषोंके द्वारा त्याज्य हैं, वे क्या क्षुद्रजनको द्वारा सेव्य और सुखकारक हो सकते
 हैं ? कभी नहीं ॥२६॥ भोगोंके कारणोंमें और उनके सुखोंमें निर्मल बुद्धिसे जिस-जिस वस्तुका
 विचार करते हैं, वह-वह वस्तु अत्यन्त घृणा पैदा करती है, कोई भी शुभ प्रतीत नहीं होती

इत्यादि चिन्तनादाप्य वैराग्य द्विगुण नृप । तमेव योगिन कृत्वा हत्वा द्विविधोपधीन् ॥२८॥
 अनन्तजन्मसतानघातक मुनिसयमम् । आददे परया शुद्ध्या सिद्धये सिद्धिकारणम् ॥२९॥
 गुरुपदेशपोतेनाश्वेकादशाङ्गवारिधे । पार जगाम नन्दोऽसौ नि प्रमादेन सद्धिया ॥३०॥
 स्ववीर्यं प्रकटीकृत्य द्विषड्भेद तप परम् । प्रारंभे सर्वशक्त्या सकतुं कर्मज्ञमित्यसौ ॥३१॥
 पक्षमासादिषण्मासावधि सोऽनशन तप । शोषक सकलाक्षाणा कर्माद्रिवज्रमाचरेत् ॥३२॥
 एकप्रासादिनानेकभेदभिन्न तपो भजेत् । आत्मवानवमोदर्यं क्वचिन्नद्राघहानये ॥३३॥
 आशाक्षयकर वृत्तिपरिसख्याभिध तप । चतुरेकगृहाद्यैश्च सो लाभयान्यदा चरेत् ॥३४॥
 तपो रसपरित्याग भजतेऽसौ जितेन्द्रिय । निर्विकृत्या क्वचिन्काञ्जिकान्नेनात्यक्षशर्मणे ॥३५॥
 स्त्रीपण्डकादिनि क्रान्ते गुहागिरिवनादिके । ध्यानाध्ययनकृद् धत्ते विविक्त शयनासनम् ॥३६॥
 झञ्जावातमहावृष्ट्या व्याप्ते मूले तरोरसौ । प्रावृटकाले स्थिति कुर्याद् धैर्यकम्बलसवृत ॥३७॥
 चत्वरे वा सरिचोरे तुषाराक्तेऽतिदु सहे । कायोत्सर्गं विधत्ते हेमन्ते दग्धद्रुमोपम ॥३८॥
 भानुरश्म्यौघसतसेऽद्रिमूर्धस्थशिलातले । ग्रीष्मे ध्यानामृतास्वादी स तिष्ठेत् सूर्यसम्मुख ॥३९॥
 इत्याद्यैर्विधैर्यौगै कायक्लेशाभिध तप । कायाक्षशर्महान्यै स धीरधी कुरुतेऽनिशम् ॥४०॥
 एव बाह्य स षड्भेद तपोऽभ्यन्तरवृद्धिदम् । प्रत्यक्ष च नृणा कुर्याद् वृद्धयेऽन्तस्तपश्चिद्राम् ॥४१॥
 प्रायश्चित्त तपो वृत्तशुद्धिद सोऽनिश चरेत् । दशधालोचनाद्यैश्च नि प्रमाद स्वशुद्धये ॥४२॥

है ॥२७॥ इत्यादि चिन्तनसे दुगुने वैराग्यको प्राप्त होकर राजा ने उन्ही योगिराजको गुरु बनाकर, दोनो प्रकारके परिग्रहको छोडकर अनन्त ससार-सन्तानके नाशक सिद्धिका कारण ऐसा मुनियोका सकल सयम परम शुद्धिसे ग्रहण कर लिया ॥२८-२९॥ गुरुके उपदेश रूप जहाजसे वह नन्द मुनि निःप्रमाद और उत्तम बुद्धिके द्वारा शीघ्र ही ग्यारह अगरूप श्रुतसागर के पारको प्राप्त हो गया ॥३०॥

पुन. उसने अपने पराक्रमको प्रकट करके कर्मोका नाशक बारह प्रकारका परम तप अपनी शक्तिके अनुसार करना प्रारम्भ किया ॥३१॥ वे नन्दमुनि सर्व इन्द्रियोका शोषक, कर्म-पर्वतके भेदनके लिए वज्रतुल्य, ऐसे अनशन तपको पक्ष, मास आदिसे लेकर छह मास तककी मर्यादापूर्वक करने लगे ॥३२॥ कभी निद्राके पापनाश करनेके लिए एक प्रास आदिसे लेकर अनेक भेदरूप अवमोदर्य तपको वे आत्मलक्ष्मी नन्दमुनि करने लगे ॥३३॥ आशाका क्षय करनेवाले वृत्तिपरिसख्यान तपको एक, दो, चार आदि घरोतक जानेका नियम कर आहार-लाभके लिए करने लगे ॥३४॥ वे जितेन्द्रिय मुनिराज अतीन्द्रिय सुखकी प्राप्तिके लिए कभी कभी निर्विकार वृत्तिसे काजिक अन्नको लेकर रसपरित्याग तप करते थे ॥३५॥ वे स्त्री-नपुंसक आदिसे रहित, गिरि-गुफा, वन आदिमे ध्यान और स्वाध्यायको करनेवाले विविक्त शयनासन तपको करते थे ॥३६॥ वे वर्षाकालमे झञ्जावात और महावृष्टिसे व्याप्त वृक्षके मूलमे धैर्य रूप कम्बल ओढकर बैठते थे ॥३७॥ तुषारसे व्याप्त, अतिशीतल हेमन्त ऋतुमे वे मुनिराज जले हुए वृक्षके समान होकर-चौराहोपर अथवा नदीके किनारे कायोत्सर्ग करते थे ॥३८॥ ग्रीष्मकालमे सूर्यकी किरणोके पुजसे सन्तप्त पर्वतके शिखरपर स्थित शिलातल पर ध्यानामृतरसके आस्वादी वे मुनिराज सूर्यके सम्मुख बैठते थे ॥३९॥ इनको आदि लेकर नाना प्रकारके योगोके द्वारा वे धीर-वीर मुनिराज काय और इन्द्रिय सुख के नाश करनेके लिए निरन्तर कायक्लेश नामक तपको करते थे ॥४०॥

इस प्रकार यह बाह्य छह भेदरूप तप मनुष्योके प्रत्यक्ष है और आभ्यन्तर तपकी वृद्धि करनेवाला है । अतः वे मुनिराज अन्तरगतपकोकी वृद्धिके लिए बाह्य तप और चैतन्य गुणोकी प्राप्तिके लिए अन्तरगत तप करने लगे ॥४१॥ अन्तरंग तपोमे प्रथम तप प्रायश्चित्त है, यह

दृक्चिद्वृत्ततपोऽन्याना तद्वृत्ता च सुयोगिनाम् । सर्वार्थसिद्धिं कुर्यात् त्रिशुद्ध्या विनय चिदे ॥४३॥
 आचार्यादिमनोज्ञान्ताना पूज्याना जगद् बुधै । सुश्रूषाज्ञादिभिर्वैयावृत्य स दशधा चरेत् ॥४४॥
 करोति पञ्चभेद स्वाध्याय योगवशीकरम् । नि प्रमादोऽङ्गपूर्वाणा मनोऽक्षदमनाय स ॥४५॥
 त्यक्त्वाङ्गादौ ममत्व स व्युत्सर्गं भजतेऽन्वहम् । कर्मारण्यानल धीमान्निर्ममत्वसुखाप्तये ॥४६॥
 अनिष्टयोगज स्वेष्टवियोगजनित महत् । रोगोत्थ च निदान हीत्यार्तध्यान चतुर्विधम् ॥४७॥
 तिर्यग्गतिकर निन्द्य क्लिष्टाशयभव सुधी । धर्मशुक्लात्तचितोऽसौ स्वप्नेऽपि नाश्रयत् क्वचित् ॥४८॥
 सत्त्वहिसानृतस्तेयोपधिरक्षाविधायिनाम् । आनन्दप्रमव निन्द्य रौद्रध्यान चतुर्विधम् ॥४९॥
 रौद्रकर्माशयोत्पन्न नरकाध्वफलावहम् । धर्मोऽज्ज्वले मनाग् नास्य चित्ते धत्ते पद क्वचित् ॥५०॥
 आज्ञापाय-विपाकाख्य सस्थानविचयान्यपि । धर्मध्यानानि चत्वारि स्वर्गाग्रफलदानि च ॥५१॥
 प्रशस्तार्थोषचिन्तादिशुद्धाशयभवानि स । सर्वावस्थासु सर्वत्र ध्यायेदेकाग्रचेतसा ॥५२॥
 पृथक्त्वभिधमेकत्वावीचाराह्वप्रसृजितम् । सूक्ष्मक्रियाच्यवनाख्य शेषक्रियनिवर्तकम् ॥५३॥
 चतुर्धेति महद्-ध्यान शुक्ल साक्षाच्छिवप्रदम् । निर्विकल्पहृदा धीमान् ध्यायत्येष वनादिषु ॥५४॥
 इति द्वादशभेदानि तपास्यत्र महान्ति स । कर्मोन्द्रियादिशत्रुणा घातने वज्रमान्यपि ॥५५॥
 विश्वधिसुखबीजानि कैवल्योत्पादकानि वै । समीहितार्थकर्तृणि सर्वशक्त्या सदाचरत् ॥५६॥

स्वीकृत व्रतोंकी शुद्धि करता है । अतः निःप्रमाद होकर वे आत्म-शुद्धिके लिए आलोचनादि दश भेदोंके द्वारा प्रायश्चित्त तप निरन्तर करने लगे ॥४२॥ वे मुनिराज दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और इनको धारण करनेवाले पूज्य योगियोंका सर्व अर्थकी सिद्धि करनेवाला विनय आत्म-स्वरूपकी प्राप्तिके लिए करने लगे ॥४३॥ वे आचार्य, उपाध्यायसे लेकर मनोज्ञ पर्यन्त दश प्रकारके जगत्-पूज्य पुरुषोंकी वैयावृत्य सुश्रूषा करके और आज्ञा पालनादिके द्वारा करने लगे ॥४४॥ वे मन और इन्द्रिय दमनके लिए योगोंको वशमे करनेवाला अग-पूर्वोंका पाँच भेदरूप स्वाध्याय प्रमाद-रहित होकर के करने लगे ॥४५॥ वे ज्ञानी मुनिराज शरीरादिमे ममत्व त्याग कर कर्मरूप वनको जलानेके लिए अग्नि समान व्युत्सर्ग तप निर्ममत्वरूप सुखकी प्राप्तिके लिए निरन्तर करने लगे ॥४६॥

वे बुद्धिमान् मुनिराज अनिष्टसयोगज, इष्टवियोगजनित, रोग-जनित और निदानरूप चारों प्रकारके महानिन्द्य तिर्यग्गतिको करनेवाले और सक्लिष्ट चित्तसे उत्पन्न होनेवाले आर्तध्यानको कभी स्वप्नमे भी आश्रय नहीं करते थे, किन्तु धर्म और शुक्लध्यानमे ही अपना चित्त सलग्न रखते थे ॥४७-४८॥ वे जीवहिसा, अनृत (असत्य), चोरी और परिग्रहके सरक्षण करनेवाले जीवोंको आनन्द उत्पन्न करनेवाला, रौद्रकर्मके अभिप्रायसे उत्पन्न होनेवाला, नरकमार्गके फलको देनेवाला चारों प्रकारका निन्द्य रौद्रध्यान अपने धर्मध्यानसे उज्ज्वल चित्तमे कभी भी रचमात्र नहीं रखते थे ॥४९-५०॥ वे नन्दमुनिराज उत्तम तत्त्वोंके चिन्तवन आदि शुद्ध अभिप्रायसे उत्पन्न होनेवाले, आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्थानविचयरूप चारों प्रकारके धर्मध्यानको जो कि स्वर्गके उत्तम फलोंको देनेवाला है, सभी अवस्थाओंमे सर्वत्र एकाग्रचित्तसे ध्याते थे ॥५१-५२॥ वे बुद्धिमान् मुनिराज पृथक्त्व वितर्कसवीचार, एकत्ववितर्क अवीचार, सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति और शेषक्रिया निवृत्तिरूप चारों प्रकारके महान् शुक्लध्यानको, जो कि साक्षात् मोक्षका दाता है, वन आदि एकान्त स्थानोंमे ध्याते थे ॥५३-५४॥

इस प्रकार बारह भेदरूप महातपोंको, जो कि कर्म और इन्द्रिय आदि शत्रुओंके घातनेमे वज्रके समान है, ससारकी समस्त ऋद्धि और सुखके बीजस्वरूप है, केवलज्ञानके उत्पादक है और अभीष्ट अर्थके करनेवाले है, सदा सर्वशक्तिसे आचरण करते थे ॥५५-५६॥

तपोभिर्दुष्करैरेतै प्रादुरासन् महर्द्धय । एतस्थानेकशो दिव्या ज्ञानाद्या सुखखानय ॥५७॥
 सर्वसत्त्वेषु मैत्रीं स विधत्ते धर्ममातृकाम् । धर्माकर प्रमोद च मुनीन्द्रगुणशालिषु ॥५८॥
 वृत्तमूला कृपा कुर्याद् रोगक्लेशाब्जदेहिषु । मिथ्यादृग्विपरीतेषु माध्यस्थ्य च सुखार्णवम् ॥५९॥
 तल्लीनहृदयस्यास्य चतुर्षु भावनास्वपि । रागद्वेषौ स्थितिं कर्तुं स्वप्नेऽपि न क्षमौ क्वचित् ॥६०॥
 त्रिशुद्ध्या भावयन्नित्य षोडशेमा सुभावना । तद्गुणार्पितचित्तोऽसौ तीर्थनाथविभूतिदा ॥६१॥
 आदौ दृष्टिविशुद्धयर्थं नि शङ्कादीन् गुणान् परान् । स्वीचक्रेऽष्टौ मलान् हत्वा सद्-दृष्टे पञ्चविंशतिम् ॥६२॥
 सूक्ष्मतत्त्वविचारेषु जिनोक्तधर्मयोगिषु । प्रामाण्यपुरुषाच्छङ्का त्यक्त्वा नि शङ्किता व्यधात् ॥६३॥
 तपसेह परत्रापि स्वभोगश्रीसुखादिषु । श्रद्धेयुषु निहत्याकाङ्क्षा स नि काङ्क्षिता दुषे ॥६४॥
 मलजल्लाक्तदेहेषु गुणशालिषु योगिषु । विचिकित्सा त्रिधोज्झित्वा सोऽधान्निर्विचिकित्सताम् ॥६५॥
 देवचिद्गुरुधर्मादीन् परीक्ष्य ज्ञानचक्षुषा । मूढत्व त्रिविध मुक्त्वामूढत्वगुणमाददौ ॥६६॥
 बालाशक्तजनैर्निर्दोषजैनशासनस्य स । आगत दोषमाच्छाद्योपगूहनगुण भजेत् ॥६७॥
 चलतो दृक्तपोवृत्ताद्यङ्गीकृतेभ्य एव स । तद्गुणेषु स्थिरीकृत्य स्थितीकरणमाचरेत् ॥६८॥
 नि स्नेहोऽपि स्वकायादौ सद्य प्रसूतधेनुवत् । सधर्मणि महास्नेह कृत्वा वात्सल्यमाभजेत् ॥६९॥
 मिथ्यातमोऽत्र निर्धूय तपोज्ञानाशुभिर्मुनि । प्रकाश्य शासन जैन कुर्याद् धर्मप्रभावनाम् ॥७०॥

इन दुष्कर तपोसे उन मुनिराजके सुखकी खानिरूप अनेक प्रकारकी दिव्य शारीरिक महा-
 ऋद्धियाँ प्रकट हो गयी और बीज, बुद्धि आदि अनेक ज्ञानऋद्धियाँ भी उन्हें प्राप्त हुई ॥५७॥
 वे मुनिराज सर्व प्राणियों पर धर्मकी मातृस्वरूप मैत्री भावना, गुणशाली मुनीन्द्रोके ऊपर
 धर्माकर प्रमोद भाव, रोग-क्लेश-युक्त प्राणियों पर धर्मका मूल कृपाभाव और मिथ्या
 दृष्टि एव विपरीत बुद्धिवालोपर सुखका सागर माध्यस्थ्य भाव रखते थे ॥५८-५९॥ इन
 चारो भावनाओमे तल्लीन हृदयवाले उन मुनिराजके स्वप्नमे भी राग-द्वेष भाव स्थिति
 करनेके लिए कभी समर्थ नहीं हुए ॥६०॥

वे मुनिराज तीर्थकरकी विभूतिको देनेवाली इन वक्ष्यमाण सोलह उत्तम भावनाओकी
 तीर्थकरोके गुणोमे समर्पित चित्त होकर निरन्तर मन वचन कायकी शुद्धिसे भावना करने
 लगे ॥६१॥ उनमे सबसे पहले सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके लिए उसके पचीस दोषोको दूर कर
 निश्शक्ति आदि आठ महान् गुणोको उन्होने स्वीकार किया ॥६२॥ उन्होने जिन-भाषित
 धर्मके करनेवाले सूक्ष्म तत्त्वोके विचारनेमे 'प्रामाणिक पुरुषके वचन अन्यथा नहीं हो सकते'
 ऐसा निश्चय करके सर्व प्रकारकी शकाको छोडकर निश्शक्ति गुणको धारण किया ॥६३॥
 उन्होने तपके द्वारा इस लोकमे तथा परलोकमे स्वर्गोके भोग, लक्ष्मी, सुख आदिमे जो कि
 अन्तमे नरक निवासके दाता है, आकाक्षाका त्याग कर निःकाक्षित अगको धारण किया ॥६४॥
 मल और शारीरिक मैल आदिसे जिनका शरीर व्याप्त है ऐसे गुणशाली योगियोमे मन वचन
 कायसे ग्लानिका त्याग करके निर्विचिकित्सा अगको धारण किया ॥६५॥ उन मुनिराजने देव,
 शास्त्र, गुरु और धर्म आदिकी ज्ञाननेत्रसे परीक्षा कर तीनो प्रकारकी मूढताओका त्याग कर
 अमूढत्व गुणको स्वीकार किया ॥६६॥ निर्दोष जैन शासनमे अज्ञानी और असमर्थ पुरुषोके
 द्वारा प्राप्त हुए दोषोको आच्छादन करके उपगूहन गुणका पालन किया ॥६७॥ सम्यग्दर्शन,
 तप, चारित्र आदिको अगीकार करके उससे चलायमान हुए जीवोको उपदेश आदिके द्वारा
 उन्ही गुणोमे पुन. स्थिर करके स्थितीकरण अगका आचरण किया ॥६८॥ अपने शरीर आदिमे
 वे मुनिराज स्नेह-रहित थे, फिर भी सद्यःप्रसूता गौ जैसे अपने बछडेपर अत्यन्त स्नेह करती
 है, उसी प्रकार उन्होने साधर्मी जनोंमे अति स्नेह करके वात्सल्यगुणका पालन किया ॥६९॥
 उन मुनिराजने इस ससारमे फैले हुए मिथ्यात्वरूप अन्धकारको अपने तप और ज्ञानकी

एतैरष्टगुणै कृत्वा सबल दर्शनं यमी । तेन कर्मरिपून् हन्याद्यथा राज्याङ्गभृन्नृप ॥७१॥
 देवलोकाप्रशस्तान्यसमयोत्थ त्रिधात्मकम् । पापाकरं स धर्मज्ञ मूढत्व सर्वथात्यजत् ॥७२॥
 सज्जातिसुकुलैश्वर्यरूपज्ञानतपोबला । शिल्पित्व बहुधात्रेति मदा अष्टौ कुमारगंगा ॥७३॥
 जात्याद्यै सद्-गुणैर्युक्तं सन्नप्येषोऽखिल जगत् । जानन् नित्यातिगं तेषु नावहज्जातु दुर्मदम् ॥७४॥
 मिथ्यादृज्ज्ञानचारित्रास्तद्वन्तं क्वध्वगा जडा । इत्यनायन षोढा श्वभ्रद सोऽत्यजत् त्रिधा ॥७५॥
 नि शङ्कादिगुणैभ्यो ये दोषा शङ्कादयोऽशुभा । विपरीताहितानष्टौ सर्वथा स निराकरोत् ॥७६॥
 एतान् प्रक्षाल्य चिन्नीरात्यञ्चविशति दृग्मलान् । दर्शनं निर्मलीकृत्य तद्विशुद्धिं चकार स ॥७७॥
 सवेगस्त्रिनिर्वेदो निन्दा गहर्णमेव हि । सर्वत्रोपशमो भक्तिर्वात्सल्यमनुकम्पिका ॥७८॥
 अमीभिरष्टभि सारैर्गुणैरलङ्कृतो मुनि । तार्थशोद्याद्यसोपाने दृग्विशुद्धौ स्थितिं व्यधात् ॥७९॥
 ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराणां च तद्व्रताम् । गुणाधिकमुनीनां स त्रिशुद्ध्या विनयं भजेत् ॥८०॥
 अष्टादशसहस्रप्रमशोलाश्च व्रतात्मनः । यत्नेन पालयेन्नित्यं सोऽतीचारपराङ्मुखं ॥८१॥
 अमीक्षणमङ्गपूर्वादिज्ञानमज्ञानघातकम् । पठेच्च पाठयेच्छिष्यान् नि प्रमादोऽघशान्तये ॥८२॥
 देहभोगाङ्गवर्गेषु कृत्स्नानर्थकरेषु स । मोहाक्षारातिहन्तारं सवेगं भावयेत् परम् ॥८३॥

किरणोंसे नाश करके और जैन शासनका प्रकाश करके धर्मकी प्रभावना की ॥७०॥ उन सयमी मुनिराजने इन उपर्युक्त आठ गुणोंके द्वारा अपने सम्यग्दर्शनको सबल करके और उसके द्वारा कर्मरूप शत्रुओंको विनष्ट किया, जैसे कि राजा अपने राज्यके अगोको पुष्ट करके शत्रुओंको नष्ट करता है ॥७१॥ उन्होंने देवमूढता, लोकमूढता और अन्य मतोंसे उत्पन्न हुई पाखण्ड-मूढताको जो कि पापकी खानि है और धर्मकी घातक है, सर्वथा छोड़ दिया था ॥७२॥ उन्होंने सज्जाति, सुकुल, ऐश्वर्य, रूप, ज्ञान, तप, बल और अनेक प्रकार शिल्पकलाचातुर्यरूप आठों मद्दोंको जो कि कुमारगंगे ले जानेवाले हैं, सर्वथा छोड़ दिया था । यद्यपि वे स्वयं सज्जाति, सुकुल आदि सद्-गुणोंसे युक्त थे, तथापि इस समस्त जगत्को अनित्य जानकर उक्त जाति-कुलादिकका उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया ॥७३-७४॥ उन्होंने मिथ्यादर्शन, ज्ञान, चारित्र और इनके धारक कुमारगंगामी जड (मूर्ख), सेवक इन छहों प्रकारके नरक ले जाने वाले अनायतनोंको त्रियोगसे त्याग कर दिया था ॥७५॥ नि शक्ति आदि गुणोंसे विपरीत-और अहितकारी शका आदि अशुभ दोष हैं, उनको उन्होंने सर्वथा दूर कर दिया था ॥७६॥ उन मुनिराजने सम्यग्दर्शनके इन पचीस मलोंको ज्ञानरूपी जलसे धोकर और सम्यग्दर्शनको निर्मल करके उसकी परम विशुद्धि की ॥७७॥ सवेग, ससार-शरीर और भोग इन तीनोंसे विरक्तिरूप निर्वेद, निन्दा, गहर्ण, सर्वत्र उपशमभाव, भक्ति, वात्सल्य और अनुकम्पा इन सारभूत आठ गुणोंसे अलंकृत उन मुनिराजने तीर्थकरपदके प्रथम सोपानस्वरूप दर्शन-विशुद्धिमें अपने आपको अवस्थित किया ॥७८-७९॥ वे मुनिराज दर्शन ज्ञान चारित्र और उपचार विनय, तथा इनके धारण करनेवाले अधिक गुणशाली मुनियोंकी त्रियोगकी शुद्धिपूर्वक विनय करते थे ॥८०॥

उन्होंने अतीचारोंसे पराङ्मुख रहते हुए अठारह हजार शीलोंको और व्रतोंको यत्नके साथ नित्य पालन किया ॥८१॥ अज्ञानका घात करनेवाले अग और पूर्वरूपादि रूप श्रुतज्ञानका वे निरन्तर पठन करते थे और पाप-शान्तिके लिए प्रमाद-रहित होकर शिष्योंको पढाते थे ॥८२॥ वे मुनिराज सर्व अनर्थोंके करनेवाले शरीर, भोग और ससारके कारणभूत पदार्थोंमें मोह और इन्द्रियरूप शत्रुओंका नाशक परम सवेगकी भावना करते थे ॥८३॥

योगिभ्यो ज्ञानदान सत्त्वेभ्य सोऽभय सदा । दद्याद्धर्मोपदेश च सर्वजीवसुखावहम् ॥८४॥
 हन्तुदुष्कर्मखारीणा द्विषद्भेद तपोऽनघम् । प्रागुक्तवर्णनोपेत स्वशक्त्या सोऽन्वह चरेत् ॥८५॥
 रुजादिभि स साधूनामसमाधिवता सदा । शुश्रूष्योपदेशाद्यै समाधिं वृत्तद भजेत् ॥८६॥
 आचार्योऽध्यापक शिष्यस्तपस्वी ग्लान एव हि । गणो गुरुकुल सघ साधुर्मनोज्ञ इत्यमी ॥८७॥
 वैयावृत्येऽत्र योग्या स्युर्दश तेषा महात्मनाम् । स्वान्ययोगुणद कुर्याद् वैयावृत्य स मुक्तये ॥८८॥
 मनोवचनकायाद्यैरर्हता भक्तिमूर्जिताम् । धर्मार्थकाममोक्षाणा (१) सर्वदाश्रयत् ॥८९॥
 आचार्याणा गणाचार्याणा पञ्चाचारपरायिणाम् । षट्त्रिंशद्गुणधातृणा धत्ते भक्ति त्रिरत्नदाम् ॥९०॥
 बहुश्रुतवता विश्वोद्योतकाना मुनीशिनाम् । अज्ञानध्वान्तहन्तृणा भक्तिं ज्ञानखनि श्रयेत् ॥९१॥
 एकान्तान्धतमोहन्तुजैनप्रवचनस्य स । समस्ततत्त्वपूर्णस्य दध्याद् भक्तिं श्रुताम्बिकाम् ॥९२॥
 समता स्तुतिरेवानुवन्दना हि त्रिकालजा । सत्प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान व्युत्सर्ग एव हि ॥९३॥
 इमान्यावश्यकान्येष सिद्धान्तबीजजान्यपि । नियमेनावहन्तृणि काले काले करोति वै ॥९४॥
 चिद्विज्ञानतपोयोगैरुत्कृष्टाचरणै सदा । विधत्तेऽङ्गिहिता सारा जैनमार्गप्रभावनाम् ॥९५॥
 सम्यग्ज्ञानवता पुसा कृत्वा सम्मानमञ्जसा । कुर्यात् प्रवचनस्यामौ वात्सल्य विश्वधर्मदम् ॥९६॥
 अमूस्तीर्थेशमद्भूतिकरान् षोडशकारणान् । शुद्धैर्मनोवच कायैर्भावयित्वा स प्रत्यहम् ॥९७॥
 तत्फलैर्न बन्धनाशु तीर्थकृन्नामकर्म हि । अनन्तमहिमोपेत त्रिजगत्क्षोभकारणम् ॥९८॥
 प्रकम्पन्ते सुरेशा विष्टराणि यःप्रभावत । मुक्तिश्री स्वयमागत्य दत्ते चालिङ्गन सताम् ॥९९॥

वे योगियोंके लिए ज्ञानदान, प्राणियोंके लिए अभयदान सबके लिए सुखकारक धर्मका उपदेश सदा देते थे ॥८४॥ जिनका पहले वर्णन किया गया है, जो दुष्कर्म और इन्द्रियरूप शत्रुओका नाशक है ऐसे बारह प्रकारके निर्दोष तपोको अपनी शक्तिके अनुसार सदा आचरण करते थे ॥८५॥ वे रोग आदिके द्वारा असमाधिको प्राप्त साधुओकी सेवा-शुश्रूषा और उपदेश आदिसे चारित्रकी रक्षक साधु समाधिको सदा करते थे ॥८६॥ वे आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, तपस्वी, ग्लान (रोगी) गण, गुरुकुल, सघ और मनोज्ञ इन दश प्रकारके महात्मा पुरुषोंकी मुक्तिप्राप्तिके लिए स्वपर-गुणकारक यथायोग्य वैयावृत्य करते थे ॥८७-८८॥ वे मुनिराज धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके देनेवाले अर्हन्तोंकी मन, वचन, कायके द्वारा सदा उत्कृष्ट भक्ति करते थे ॥८९॥

गण द्वारा पूज्य, पचाचार-परायण और छत्तीस गुण-धारक आचार्योंकी रत्नत्रय-दायिनी भक्तिको वे सदा करते थे ॥९०॥ अज्ञानान्धकारके नाशक, विश्वके प्रकाशक ऐसे बहुश्रुतवन्त मुनिराजोंकी ज्ञानकी खानिरूप भक्ति करते थे ॥९१॥ वे एकान्त अन्धतमके नाशक, समस्त तत्त्वसे परिपूर्ण, जैन प्रवचनकी और जिनवाणी माताकी परम भक्ति करते थे ॥९२॥ वे मुनिराज समता स्तुति त्रिकाल वन्दना सत्प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग ये छह आवश्यक जो कि सिद्धान्तके बीजभूत है, और नियमसे पापके नाशक है, उन्हें यथाकाल—यथासमय नियमसे करते थे ॥९३-९४॥ वे चिद्-अचित्तके भेदविज्ञानसे, तपो-योगसे और उत्कृष्ट आचरणसे सदा जीवोंका हित करनेवाली सारभूत जैनमार्गकी प्रभावना करते थे ॥९५॥ वे सम्यग्ज्ञानी पुरुषोंका नियमसे सम्मान करके पूर्णधर्मको देनेवाले प्रवचन-का वात्सल्य करते थे ॥९६॥ इस प्रकार तीर्थकरकी सद्-विभूतिको देनेवाली इन सोलह कारण भावनाओकी शुद्ध मन वचन कायसे प्रतिदिन भावना करके उसके फल द्वारा तीर्थकर नामकर्मका शीघ्र बन्ध किया । यह तीर्थकर नामकर्म अनन्त महिमासे सयुक्त है और तीन लोकमे क्षोभका कारण है ॥९७-९८॥ जिस तीर्थकर प्रकृतिमे प्रभावसे इन्द्रोंके सिंहासन प्रकम्पित होते हैं और मुक्ति लक्ष्मी स्वय आकरके सन्तोंका आलिङ्गन करती है ॥९९॥

ततोऽसौ मृत्युपर्यन्तं प्रपाल्यानघसयमम् । विदित्वा निजमल्पायुस्त्यक्त्वाहारवपुःक्रियाम् ॥१००॥
 त्रिजगच्छर्मकर्तारं व्रतसाफल्यकारकम् । सन्यास परया शुद्ध्याददे मोक्षसमाधये ॥१०१॥
 ततो दृग्ज्ञानचारित्रतपसा शुद्धिकारिणाम् । आराध्याराधना यत्नान्मुक्तिस्थम्बा चतुर्विधा ॥१०२॥
 निर्विकल्प मन कृत्वा स्थापयित्वा चिदात्मनि । समाधिनात्यजद् धीमान् प्राणान् विश्वाङ्गिरक्षकान् ॥१०३॥
 ततस्तद्योगपाकेन सोऽच्युतेन्द्रोऽभवद्यति । दिवि षोडशमेऽनेकभूतिवाधौ सुरार्चित ॥१०४॥
 तत्र सोऽन्तर्मुहूर्तेन सप्राप्य वपुरुर्जितम् । भूषित सहजैर्दिव्यै स्त्रभूषाम्बरयौवनै ॥१०५॥
 रत्नोपादशिलान्तं स्थमृदुपल्यङ्गतो मुदा । उत्थाय वीक्ष्य तत्सर्वं रामणीयकमद्भुतम् ॥१०६॥
 नाकद्विस्त्रीविमानादि-साश्चर्यहृदय शनैः । सुप्तोऽस्थित इवेन्द्र स्वमनसीत्थमचिन्तयत् ॥१०७॥
 अहो कोऽहं सुपुण्यात्मा कोऽयं देश सुखाकर । केऽत्रामी वत्सला दक्षा अमरा विनयाङ्किता ॥१०८॥
 का इमा लङ्किता देव्यो दिव्यश्रीरूपखानय । केषामेते विद्यद्गलमया प्रासादपङ्क्तय ॥१०९॥
 कस्येदं सप्तधानीक मनोज्ञ सुररक्षितम् । कस्याय परमस्तुङ्गसभामण्डप ऊर्जित ॥११०॥
 दिव्यरत्नमय तुङ्ग कस्यैतद्भरिविष्टरम् । इमा अन्या निरौपम्या बह्व्या कस्य विभूतय ॥१११॥
 केन वा कारणेनायं जन सर्वोऽतिसुन्दर । त्रिनीतो वीक्ष्य मामत्र सानन्दो वर्तते तराम् ॥११२॥
 अथवाऽहमिहानीत केनाद्भुतायकर्मणा । पुरार्जितेन देशेऽस्मिन् विश्वद्विकुलमन्दिरे ॥११३॥
 इत्यादि चिन्तमानस्य तदा तस्यामरेशिन । नायाति निश्चय यावद् हृदि सदेहनाशकृत ॥११४॥
 तावत्तत्सचिवा दक्षा अवधिज्ञानचक्षुषा । तदाकृत परिज्ञायाम्भेत्य नत्वाशु तत्कमौ ॥११५॥
 स्वहस्तौ कुड्मलीकृत्य मूर्ध्ना दिव्यगिरा मुदा । तत्सदेहविनाशाय तं प्रतीत्यवदन् विद ॥११६॥

इस प्रकार मरण-पर्यन्त निर्दोष सयमका पालन कर और अपनी अल्पायुको जानकर उन्होंने आहार और शारीरिक क्रियाओको छोड़कर त्रिजगत्के सुख देनेवाले और व्रतको सफल करनेवाले सन्यासको उन्होंने मोक्ष और समाधिकी प्राप्तिके लिए परम विशुद्धिके साथ धारण कर लिया ॥१००-१०१॥ तत्पश्चात् दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपकी शुद्धि करनेवाली मुक्तिरमाकी मातृस्वरूपा चारो आराधनाओका परम यत्नसे आराधन कर, मनको विकल्पोसे रहित कर, तथा शुद्ध आत्मामे अपनेको स्थापित कर उन बुद्धिमान् नन्दमुनिराज-ने समस्त प्राणियोकी रक्षा करनेवाले अपने प्राणोको समाधिपूर्वक छोडा ॥१०२-१०३॥

तत्पश्चात् वे मुनिराज उस समाधि-योगके फलसे अनेक प्रकारकी विभूतिके समुद्र ऐसे सोलहवे अच्युतकल्पमे देवोसे पूजित अच्युतेन्द्र उत्पन्न हुए ॥१०४॥ वहाँपर यह अच्युतेन्द्र अन्तर्मुहूर्तमे सहज उत्पन्न हुए दिव्य माल्य, आभूषण, वस्त्र और यौवनावस्थासे भूषित उत्तम शरीरको पाकर, रत्नमयी उपपाद शिलाके अन्तःस्थित कोमलशय्यासे उठकर तथा वहाँकी सभी रमणीय अद्भुत वस्तुओको देखकर स्वर्गकी ऋद्धि, देवियों और विमान आदिके देखनेसे हृदयमे आश्चर्यमुक्त होकर धीरेसे सोकर उठते हुए राजकुमारके सदृश वह इन्द्र अपने मनमे इस प्रकार चिन्तवन करने लगा ॥१०५-१०७॥ अहो, मै पुण्यात्मा कौन हूँ, सुखोका भण्डार यह कौन देश है, ये वत्सल, दक्ष, विनयसे परिपूर्ण देव कौन है? दिव्य लक्ष्मी और रूपकी खानि ये सुन्दर देवियों कौन है? ये आकाशमे अधर रहनेवाली रत्नमय भवनोकी पक्तियाँ किनकी है? यह देव रक्षित, मनोज्ञ सात प्रकारकी यह सेना किसकी है? यह परम उन्नत देदीप्यमान सभामण्डप किसका है, यह दिव्य रत्नमय उजुंग सिंहासन किसका है? ये दूसरी अनुपम नाना प्रकारकी बहुत-सी विभूतियाँ किसकी है? किस कारणसे ये सभी अतिसुन्दर विनीत जन मुझे देखकर अति आनन्दित हो रहे है? ॥१०८-११२॥ अथवा पूर्वापार्जित किस अद्भुत पुण्यकर्मके द्वारा मै इस समस्त ऋद्धियोसे परिपूर्ण मन्दिर-वाले देशमे लाया गया हूँ ॥११३॥ इत्यादि प्रकारसे चिन्तवन करनेवाले उस देवेन्द्रके

भो देव कुरु न स्वामिन् प्रसाद स्वच्छया दशा । नूताना शृणु वाक्य ते पूर्वापरार्थसूचकम् ॥११७॥
 अद्य नाथ वय धन्या सफल नोऽद्य जीवितम् । यतस्त्वयाधुना स्वेनोत्पादेनात्र पवित्रिता ॥११८॥
 महानच्युतनामाय कल्पो विश्वर्द्धिसागर । राजतेऽखिलकल्पाना मूर्ध्नि चूडामणिर्यथा ॥११९॥
 अत्र सकल्पिता कामा सुख वाचामगोचरम् । दुर्लभ यत्त्रिलोकेऽपि सुलभ तत्सतामिह ॥१२०॥
 गाव कामदुघा सर्वे पादपा कल्पशाखिन । चिन्तामणय एवात्र रत्नान्येव निसर्गत ॥१२१॥
 नात्र जातु प्रवर्तन्ते ऋतवो दु खहेतव । किन्त्वेक साम्यतापन्न काल स्याद् विश्वसौख्यद् ॥१२२॥
 दिन-रात्रिविभागोऽत्र विद्यते जातुचिन्न हि । रत्नालोक स्फुरत्येको दिनश्रीसुखकारक ॥१२३॥
 नात्र दीनोऽसुखी रोगी दुर्भंगो वा गतप्रभ । अपुण्यो निर्गुणोऽज्ञश्च जातु स्वप्नेऽपि दृश्यते ॥१२४॥
 वर्ततेऽत्र सदाप्येका महापूजा जिनेशानाम् । जिनालयेषु नृत्याद्यैश्चोत्सवोऽनुदिन महान् ॥१२५॥
 असख्यसख्यविस्तारा स्वर्विमाना हि योजनै । शताग्रैकान्नषष्टिप्रमा एते शर्मवार्धय ॥१२६॥
 तेषा मध्ये त्रयोविंशत्यत्र शत प्रकीर्णका । श्रेणीबद्धास्ततो ज्ञेया अन्ये दिव्या सहेन्द्रका ॥१२७॥
 एते सामानिका देवा सहस्रदशसख्यका । आज्ञा विना महाभोगैस्त्वत्समाना महर्द्धिका ॥१२८॥

जबतक हृदयमे सन्देहका नाश करनेवाला निश्चय नहीं हो रहा था, तभी उसके कुशल विद्वान् सचिव अवधिज्ञानरूप नेत्रसे उसके अभिप्रायको जानकर और उसके चरणोको नमस्कार कर अपने दोनों हाथोको जोड़कर मस्तकपर रखते हुए हर्षसे दिव्य वाणी द्वारा उसका सन्देह दूर करनेके लिए उससे बोले ॥११४-११६॥

हे देवेन्द्र, हे स्वामिन्, निर्मल दृष्टिसे हम लोगोपर प्रसन्न होइए, और नमस्कार करते हुए आपके पूर्वापर अर्थ-सम्बन्धके सूचक हमारे वाक्य सुनिए ॥११७॥ हे नाथ, आज हम लोग धन्य हैं, आज हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज आपने अपने जन्मसे यहाँपर हम लोगोको पवित्र किया है ॥११८॥ यह सर्व ऋद्धियोवाला सागर अच्युत नामक महान् स्वर्ग है जो कि समस्त कल्पोके मस्तकपर चूडामणि रत्नके समान शोभित हो रहा है ॥११९॥ यहाँपर मनोवाञ्छित भोग और वचनोके अगोचर सुख प्राप्त है। जो वस्तु तीनों लोकोमे दुर्लभ है, वह सब यहाँ उत्पन्न होनेवालोको सुलभ है ॥१२०॥ यहाँपर स्वभावसे ही सभी गाये कामधेनु है, सभी पैड कल्पवृक्ष है, और सभी रत्न चिन्तामणि है ॥१२१॥ यहाँपर दुःखकी कारणभूत ऋतुएँ कभी नहीं होती है। किन्तु सर्वसुखदायक साम्यताको प्राप्त एक-सा ही काल रहता है ॥१२२॥ यहाँपर कभी भी दिन-रातका विभाग नहीं होता। किन्तु दिनकी शोभा और सुखका करनेवाला एकमात्र रत्नोका प्रकाश रहता है ॥१२३॥ यहाँपर दीन, दुःखी, रोगी, अभागी, कान्तिहीन, पापी और गुण-रहित कोई भी जीव स्वप्नमे भी नहीं दिखाई देता है ॥१२४॥ यहाँपर जिनमन्दिरोमे सदा ही श्री जिनेन्द्रदेवोकी महापूजा होती रहती है और नृत्य-सगीत आदिसे प्रतिदिन महान् उत्सव होता रहता है ॥१२५॥ यहाँपर असख्यात और सख्यात योजन विस्तारवाले श्रेणीबद्ध देव-विमान हैं, जिनकी सख्या एक सौ उनसठ है और वे सभी सुखके सागर हैं ॥१२६॥ उनके मध्यमे अन्य एकसौ तेईस प्रकीर्णक विमान हैं। ये सब दिव्य हैं। इस अच्युत कल्पमे छह इन्द्रक विमान हैं ॥१२७॥ ये दश हजारकी

१ षडिन्द्रका, प्रतिभाति ।

२ श्लोक स १२६-१२७ मे जो श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णकविमानोकी सख्या दी गयी है, उसका मिलान तिलोयपण्णत्ती और त्रिलोकसारादिमे दी गयी सख्यासे नहीं होता है। 'सहेन्द्रका' पाठके स्थानपर 'षडिन्द्रका' पाठ मानकर छह इन्द्रक विमान अर्थ किया है। क्योंकि त्रिलोकसार गा० ४६२ में आनतादि चार कल्पोमे छह इन्द्रक बतलाये हैं ?—अनुवादक ।

त्रयस्त्रिंशत्प्रमा एते त्रायस्त्रिंशत् सुरोत्तमा । तव पुत्रसमाना स्यु स्नेहनिर्भरमानसा ॥१२९॥
 चत्वारिंशत्सहस्राणि ह्यात्मरक्षा इमेऽमरा । तेऽप्यङ्गरक्षकैस्तुल्या विभवायैव सस्थिता ॥१३०॥
 एषान्त परिषत्तेऽस्ति सपादा शतसखिका । सार्धद्विशतसख्या च मध्यमा परिषत्परा ॥१३१॥
 शतपञ्चप्रमा बाह्या तवादेशविधायिनी । चत्वारो लोकपाला एते तल्लोकान्तपालका ॥१३२॥
 अमीषा लोकपालाना प्रत्येक सुमनोहरा । द्वात्रिंशद् गणना देव्य सन्ति शर्मादिखानथ ॥१३३॥
 अष्टाविमा महादेव्यो रूपसौन्दर्यभूषिता । तवादेशविधायिन्यस्त्वद्रागरञ्जिताशया ॥१३४॥
 आसा सन्त्यत्र प्रत्येक परिवारसुराङ्गमा । त्रिज्ञानविक्रियर्द्ध्याख्या सार्धं द्विशतसखिका ॥१३५॥
 एता वल्लभिका देव्यस्त्रिषष्टिप्रमिता शुभा । तव चेतोऽपहारिण्यो महतीरूपसपदा ॥१३६॥
 पिण्डता निखिला देव्यस्तास्ते नाथ समर्पिता । द्विसहस्राधिकैकाग्रसप्ततिप्रमिता परा ॥१३७॥
 दशलक्षचतुर्विंशतिसहस्रप्रमाण्यपि । विकरोत्येकशो देवी दिव्यरूपाणि योषिताम् ॥१३८॥
 हस्तिनोऽश्वा रथा पादातयो वृषाश्च सत्तमा । गन्धर्वा सुरनर्तक्य सप्तानीकान्यमून्यपि ॥१३९॥
 तदेकैरुचमूना स्यु सप्तकक्षा पृथक् पृथक् । देवास्तेषा हि प्रत्येक सन्ति सेना महत्तरा ॥१४०॥
 प्रथमे च गजानीके सहस्रविंशतिप्रमा । गजा शेषेण्वनीकेषु द्विगुणद्विगुणा मता ॥१४१॥
 तथैव तुरगादीना षट्सैन्याना सुराधिप । विद्वि सख्यामनूना त्व तव सेवापरायिणाम् ॥१४२॥
 एकैकस्या हि देव्या अप्सरसा परिषत्त्रयम् । गीतनृत्यकलाज्ञानविज्ञानादिकुलालयम् ॥१४३॥
 परिषत्प्रथमायामप्सरस पञ्चविंशति । द्वितीयाया च पञ्चाशत् तृतीयाया शतप्रमा ॥१४४॥

सख्यावाले सामानिक देव हैं। आज्ञा के विना शेष सब महाभोगोमे ये आपके समान ही महाऋद्धिवाले हैं ॥१२८॥ ये तीस सख्यावाले देवोमे उत्तम त्रायस्त्रिंश देव हैं। ये आपके पुत्रके समान हैं और इनका हृदय आपके प्रति स्नेहसे भरा हुआ है ॥१२९॥ ये चालीस हजार आत्मरक्षक देव हैं, जो आपके अंग-रक्षकोके समान हैं और केवल वैभवके लिए ही हैं ॥१३०॥ ये एक सौ पचीस देव आपकी अन्त परिषद्के सदस्य हैं। ये दो सौ पचास देव मध्यम परिषद्के सभासद् हैं और ये पाँच सौ देव बाहरी परिषद्के पारिषद् हैं। ये सभी देव आपकी आज्ञाकारी हैं। ये चार लोकपाल हैं जो आपकी अपनी-अपनी दिशाका लोकसे अन्ततक पालन करते हैं ॥१३१-१३२॥

इन लोकपालोमे से प्रत्येककी बत्तीस-बत्तीस देवियाँ हैं, जो सुख भोगादिकी खानि हैं ॥१३३॥ ये रूप लावण्यसे भूषित आपकी आठ महादेवियाँ हैं, जो आपकी आज्ञाकारिणी और आपके रागमे रजित हृदयवाली हैं ॥१३४॥ इन प्रत्येक महादेवीके परिवारमे ढाई ढाई सौ देवियाँ हैं जो तीन ज्ञान और विक्रिया ऋद्धिसे युक्त हैं ॥१३५॥ ये तिरसठ वल्लभिका देवियाँ हैं जो कि उत्तम भारी रूप सम्पदासे युक्त हैं, आपके चित्तको हरनेवाली हैं ॥१३६॥ हे नाथ, ये सब मिलाकर दो हजार इकहत्तर परम देवियाँ आपको समर्पित हैं ॥१३७॥ ये आपकी एक एक महादेवी दश लाख चौबीस हजार स्त्रियोंके दिव्य-रूप विक्रियासे बना सकती हैं ॥१३८॥ हाथी, घोड़े, रथ, पयादे, बैल, गन्धर्व और देवनर्तकी वाली ये सात प्रकारकी आपकी उत्तम सेना हैं ॥१३९॥ एक-एक जातिकी सेनाकी पृथक्-पृथक् सात-सात कक्षाएँ हैं। प्रत्येक कक्षा (पलटन) के अलग-अलग सेना महत्तर (सेनापति) देव हैं ॥१४०॥ हाथियोंकी पहली कक्षामे बीस हजार हाथी हैं। शेष कक्षाओमे इससे दूनी-दूनी सख्या है। इसी प्रकार हे देवेन्द्र, आपकी आज्ञा परायण घोड़े आदि छोटी सेनाओके प्रत्येक कक्षाकी सख्या जानिए ॥१४१ १४२॥ एक-एक देवीकी अप्सराओकी तीन-तीन सभाएँ हैं, जो कि गीत, नृत्य, कला, ज्ञान-विज्ञानादि गुणोसे सम्पन्न हैं ॥१४३॥ महादेवीकी प्रथम अन्त-परिषद्मे पचीस देवियाँ हैं, दूसरी मध्यम परिषद्मे पचास देवियाँ हैं और तीसरी बाहरी

एता विभूतयो दिव्या अन्याश्च विविधा परा । नाथ तेऽद्भुतपुण्येन समुखीभावमागता ॥१४५॥
 समग्रस्वर्गराज्यस्य भव स्वामी त्वमद्य च । गृहाण सकला भूर्तीर्निरौपम्या स्वपुण्यत ॥१४६॥
 इत्यादि तद्वच श्रुत्वाथावधिज्ञानमज्ञसा । तेन प्राग्भववृत्तादीन् ज्ञात्वा भूत्वा परायण ॥१४७॥
 धर्मे जिनोक्तमार्गे च साक्षाद् दृष्टफल सुधी । अच्युतेन्द्र उवाचेद वच प्राग्भवसूचकम् ॥१४८॥
 अहो मया पुरा घोर कृत सर्वं तपोऽनघम् । ध्यानाध्ययनयोगाद्या शुभा कातरर्मातिदा ॥१४९॥
 आराधिता जगत्पूज्या सुपञ्चपरमेष्ठिन । रत्नत्रय त्रिशुद्धयामा घृत भावनया परम् ॥१५०॥
 निर्दग्ध विषयारण्य स्मरखाद्यरथो हता । कषायरिपव सर्वे निजिताश्च परीषहा ॥१५१॥
 दशलक्षणिको धर्म सर्वशक्त्या पुरा मया । अनुष्ठितस्ततस्तेनात्राह सस्थापित पदे ॥१५२॥
 अथवा स्वर्गसाम्राज्यमिदं कृत्स्न गतोपमम् । धर्मस्यैव फल मन्ये विपुल विश्वशर्मदम् ॥१५३॥
 अतो धर्मसमो बन्धुर्नान्यो लोकत्रये क्वचित् । धर्मस्त्राता भवाम्भोधेर्धर्मं सर्वार्थसाधक ॥१५४॥
 सहगामी नृणा धर्मो धर्म पापारिहंसक । धर्मं स्वर्मुक्तिदाता च धर्मो विश्वसुखाकर ॥१५५॥
 इति मत्वा बुधै कार्यं सर्वावस्थासु सर्वदा । शर्मार्थिभिः परो धर्मो निर्मलाचारकोटिभिः ॥१५६॥
 अहो वृत्तेन येनैष जायते सकलो महान् । तत्रात्र लभ्यते जातु ततोऽद्याह करोमि किम् ॥१५७॥
 दृक्शुद्धिरथैका मेऽत्रास्तु धर्मादिसिद्धये । भक्ति श्रोजिननाथाना तन्मूर्तीना परार्चना ॥१५८॥
 इत्युक्त्वा स्नानवाप्या स स्नात्वा धर्मार्जनाय च । अकृत्रिम जिनागार यथौ देवाङ्गनावृत ॥१५९॥

परिषद्मे सौ देवियाँ है ॥१४४॥ हे नाथ, ये सब दिव्य विभूति और अन्य अनेक प्रकारकी सम्पदा आपके अद्भुत पुण्यसे आपके सम्मुख उपस्थित है ॥१४५॥ हे नाथ, आज आप अपने पुण्यसे इस समस्त स्वर्गके राज्यके स्वामी हो और इस समस्त अनुपम विभूतिको ग्रहण करो ॥१४६॥

इस प्रकारसे उस सचिव देवके वचनको सुन करके और तत्काल उत्पन्न हुए अवधि-ज्ञानसे पूर्वभवके वृत्तान्तको जानकर धर्ममे तत्पर होता हुआ वह बुद्धिमान् अच्युतेन्द्र साक्षात् पुण्यके फलको देखकर पूर्वभव-सूचक यह वचन बोला ॥१४७-१४८॥ अहो, मैंने पूर्वभवमे सर्व प्रकारका निर्दोष घोर तप किया है, कायरजनको भय देनेवाले शुभ ध्यान, अध्ययन और योगादि किये हैं, जगत्पूज्य पंचपरमेष्ठीकी आराधना की है, विशुद्ध भावनाके साथ परम रत्नत्रयधर्मको धारण किया है, इन्द्रियोके विषयरूप वनको जलाया है, कामदेव रूप शत्रुको मारा है, कषायरूप शत्रुओका दमन किया है, सभी परीषहको जीता है और पूर्ण सामर्थ्यसे मैंने पहले श्रमादि दश लक्षणवाले धर्मका परिपालन किया है उसीने मुझे यहाँ इस पदपर स्थापित किया है ॥१४९-१५२॥ अथवा उपमा-रहित और सर्वसुखदायक यह समस्त स्वर्गका विशाल साम्राज्य धर्मका ही फल है, ऐसा मैं मानता हूँ ॥१५३॥ अतः तीनों लोकोमे कहीपर भी धर्मके समान दूसरा कोई बन्धु नहीं है। धर्म ही ससार-समुद्रसे पार उतारनेवाला रक्षक है और धर्म ही सब अर्थका साधक है ॥१५४॥ धर्म ही जीवोका सहगामी है, धर्म ही पापरूप शत्रुका नाशक है, धर्म ही स्वर्ग-मुक्तिका दाता है और धर्म ही समस्त सुखोकी खानि है। ऐसा समझकर सुखके इच्छुक ज्ञानी जनको चाहिए कि वे सभी अवस्थाओमे सदा ही निर्मल आचरणोसे परम धर्मका पालन करे ॥१५५-१५६॥ अहो, जिस चारित्रसे उस लोकमे और इस लोकमे यह सब महान् वैभव प्राप्त होता है उस चारित्र धमको पालन करनेके लिए आज मैं क्या करूँ ॥१५७॥ अथवा धर्म आदिकी सिद्धिके लिए एक दर्शनविशुद्धि ही मेरे यहाँ पर होवे, तथा श्री जिननाथोकी भक्ति और उनकी मूर्तियोका परम पूजन ही करूँ ? ऐसा कहकर और स्नान-वापिकामे स्नान करके देवागनाओसे घिरा हुआ वह अच्युतेन्द्र धर्मोपार्जनके लिए अपने अकृत्रिम जिनालयमे गया ॥१५८-१५९॥

चकार महती पूजा नमस्कारपुर सराम् । तत्रार्हता सुबिम्बाना भक्तिभारवशीकृत ॥१६०॥
 सकल्पमात्रसजातैर्दिव्यैरष्टविधार्चनैः । तोयादिफलपर्यन्तैर्गीतवाद्यस्तवादिभिः ॥१६१॥
 ततोऽभ्यर्च्य जिनाचार्य चैत्यपादपसस्थिता । तिर्यग्नुलोकनाकस्था गत्वा भक्त्या सुरेश्वर ॥१६२॥
 नत्वा प्रपूज्य तीर्थेशगणेशादिमुनीश्वरान् । श्रुत्वा तेभ्य स्वतत्त्वादीन्महाधर्ममुपार्जयत् ॥१६३॥
 तस्मादेत्य निज स्थान स्वधर्मजनिता पराम् । विभूति विविधा सर्वा स्वीचक्रे सोऽमरार्पिताम् ॥१६४॥
 त्रिकरोच्चातिदिव्याङ्गधरो नेत्रप्रियो महान् । स्वेदधातुमलातीतो नयनस्पन्दवर्जित ॥१६५॥
 षट्प्रभावनिपर्यन्तान् रूपिद्रव्यास्त्रिधात्मकान् । जानन् स्वावधिबोधेन विक्रियर्द्धिप्रभावत ॥१६६॥
 गमनागमन कर्तुं क्षम क्षेत्रे स्वचित्समे । द्वाविंशत्यब्धिमानायुर्विश्वामरणभूषित ॥१६७॥
 द्वाविंशतिसहस्राब्दैर्गते सर्वाङ्गतृप्सिदम् । दिव्य सुधामयाहारमाहरन्मनसोजितम् ॥१६८॥
 एकादशप्रसैर्मासैर्निष्कान्तैश्च मनागमजन् । सुगन्धिदिव्यमुच्छ्वास सुरभीकृतदिकूचयम् ॥१६९॥
 पञ्चकल्याणकान्येव तीर्थेशा भक्तिनिर्भर । शेषकेवलिना कुर्वन् कल्याणद्विकमन्वहम् ॥१७०॥
 स्वकीय वर्धयन् धर्म महार्चादिमहोत्सवैः । सर्वदेनार्चिताद्भ्यज्जो धर्मकर्मप्रणीर्भहान् ॥१७१॥
 महादेवीभिरैवासौ सार्धं क्रीडादिकोटिभिः । सुख मन प्रवीचारमव त्यक्तोपम महत् ॥१७२॥
 भुञ्जान परमानन्दसुखसागरमध्यग । आस्ते तत्राच्युताधीश कृत्स्नामरनमस्कृत ॥१७३॥

वहाँपर उसने भक्ति-भावसे नम्रीभूत होकर अर्हन्तोके प्रतिबिम्बोका नमस्कारपूर्वक महापूजन सकल्पमात्रसे उत्पन्न हुए जलादि-फल पर्यन्त आठ प्रकारके दिव्य द्रव्योसे गीत, नृत्य, वाद्य, स्तवनादिके द्वारा की ॥१६०-१६१॥ तत्पश्चात् चैत्य वृक्षोके नीचे विराजमान जिनप्रतिमाओ-को पूजकर वह देवेन्द्र भक्तिके साथ तिर्यक्लोक, मनुष्यलोक और देवलोकमे स्थित कृत्रिम-अकृत्रिम चैत्यालयोकी वन्दनाके लिए गया और तीर्थकर गणधर आदि मुनीश्वरो-को नमस्कार-पूजन कर और उनसे धर्म-तत्त्वको सुनकर उसने महान् धर्म उपार्जन किया ॥१६२-१६३॥

तत्पश्चात् वहाँसे वापस अपने स्थान पर आकर अपने पुण्यसे उत्पन्न और देवो द्वारा समर्पित नाना प्रकारकी सर्व विभूतिको उसने स्वीकार किया ॥१६४॥ वह इन्द्र तीन हाथ उन्नत अति दिव्य देहका धारक, नेत्रोको अतिप्रिय, स्वेद-धातु आदि सर्व मलोसे रहित और नेत्र-टिमकारसे रहित था ॥१६५॥ छठी पृथिवी तकके तीन प्रकारके रूपी द्रव्योको अपने अवधि-ज्ञानसे जानता हुआ वह देव अवधिज्ञान प्रमाण क्षेत्रमे विक्रिया ऋद्धिके प्रभावसे गमनागमन करनेमे समर्थ था, बाईस सागर प्रमाण आयु थी और सब उत्तम आभरणोसे भूषित था ॥१६६-१६७॥

बाईस हजार वर्ष बीतनेपर सर्वांगको तृप्त करनेवाला अमृतमय दिव्य आहार मनसे ग्रहण करता था ॥१६८॥ ग्यारह मास बीतनेपर दिङ्मण्डलको सुरभित करनेवाला सुगन्धिवाला दिव्य उच्छ्वास नाममात्रको लेता था ॥१६९॥ भक्तिसे भरा हुआ वह अच्युतेन्द्र तीर्थकरोके पंच कल्याणकोको, एव शेष केवलियोके ज्ञान-निर्वाण इन दो कल्याणको-को निरन्तर करता हुआ महापूजनादिके महोत्सवो द्वारा अपने धर्मको बढ़ाता था, सर्व देवोसे पूजित है चरण-कमल जिसके ऐसा धर्म-कार्यमे अग्रणी वह महान् देवेन्द्र अपनी महादेवियोके साथ कोटि प्रकारके क्रीडा-कौतूहलादिसे खेलता मनःप्रवीचारजनित अनुपम महान् सुखको भोगता था ॥१७०-१७२॥ इस प्रकार सर्वदेवोसे नमस्कृत अच्युत स्वर्गका स्वामी वह देवेन्द्र वहाँपर परम आनन्दरूप सुख-सागरके मध्यमे निमग्न रहने लगा ॥१७३॥

इति वृषपरिपाकादाप्य नाकाग्रराज्य सकलविभवपूर्णं सोऽन्वभूद् दिव्यभोगान् ।

सुरपतिरतिसाराश्चेति मत्वा भजध्व शमदमयमयोगैर्धर्ममेक सुदक्षा ॥१७४॥

धर्मश्चाचरितो मया सह जनैर्धर्मं प्रकुर्वेऽनिश

धर्मणानुचरामि वृत्तमतुल धर्माय मूर्ध्ना नम ।

धर्मान्नापरमाश्रये शिवकृते धर्मस्य मार्गं भजे

धर्मो मे दधतो मनोऽत्र हृदये हे धर्मं तिष्ठान्वहम् ॥१७५॥

इति श्री-भट्टारकसकलकीर्तिविरचिते श्रीवीरवर्धमानचरिते नन्द-नृप-
तपोऽच्युतेन्द्रोद्भवविभूतिवर्णनो नाम षष्ठोऽधिकार ॥६॥

इस प्रकार धर्मके फलसे वह देवेन्द्र सर्ववैभवसे परिपूर्ण स्वर्गके उत्तम राज्यको प्राप्त कर सारभूत दिव्य महाभोगोको भोगने लगा । ऐसा जानकर सुचतुर पुरुष शम, दम और योगसे एक धर्मको ही निरन्तर पालन करे ॥१७४॥

साथियोंके साथ मेरे द्वारा धर्म आचरण किया गया, मैं धर्मको नित्य करता हूँ, धर्मके द्वारा मैं अनुपम चारित्रिका पालन करता हूँ, धर्मके लिए मस्तक नवाकर नमस्कार है, मैं धर्मसे भिन्न किसी अन्य वस्तुका आश्रय नहीं लेता हूँ, मोक्षकी प्राप्तिके लिए मैं धर्मके मार्गका सेवन करता हूँ, धर्ममे अपने मनको लगानेवाले मेरे हृदयमे हे धर्म, तुम निरन्तर विराजमान रहो ॥१७५॥

इस प्रकार भट्टारक श्री सकलकीर्तिविरचित श्री-वीरवर्धमानचरितमे नन्दराजाके तपका, अच्युतेन्द्रकी उत्पत्ति और वहाँकी विभूतिका वर्णन करनेवाला छठा अधिकार समाप्त हुआ ॥६॥

सप्तमोऽधिकारः

कृत्स्नविघ्नौघहन्तार त्रिजन्नाथसेवितम् । वन्दे श्रीपार्श्वतीर्थेश पञ्चकल्याणनायकम् ॥१॥
 अथेह भारते क्षेत्रे विदेहाभिध ऊर्जित । देश सद्धर्मसघाघैर्विदेह इव राजते ॥२॥
 तत्रत्या मुनय केचिद् विदेहा समवन्त्यहो । वृत्तात्तस्मात्स देशोऽत्र विधत्ते नाम सार्थकम् ॥३॥
 केचित्तीर्थेशसत्कर्म बध्नान्ति भावनादिभि । यान्ति पञ्चोत्तर केचिच्चाहमिन्द्रालय दिवम् ॥४॥
 केचिद् भक्त्या प्रदायोच्चै दान पात्राय तत्फलात् । यान्ति भोगधरा चान्ये शक्रास्थान जिनार्चया ॥५॥
 निर्वाणभूमयो यत्र विलोक्यन्ते पदे पदे । नृदेवखचरैर्वन्द्या अर्हत्केवलियोगिनाम् ॥६॥
 यत्रारण्याचलादीनि भान्ति ध्यानस्थयोगिभि । तुङ्गश्रीजिनधामौवै पुरादीनि च सततम् ॥७॥
 यत्र ग्रामपुरीखेटमटवाद्या वनानि च । तुङ्गैर्जिनालयै सद्भि शोभन्तेऽथाकरा इव ॥८॥
 विहरन्ति यतीशौघा यत्र धर्मप्रवृत्तये । चतुर्विधैरमा सघैर्गणेशा केवलक्षणा ॥९॥
 इत्यादि वर्णनोपेतदेशस्याभ्यन्तरे पुरम् । कुण्डाभिध विराजेत नाभिवद्भार्मिकैर्महत् ॥१०॥
 यत्तुङ्गगोपुरै शालखातिकाभ्या सुरक्षकै । अलङ्घ्य शत्रुभिश्चाभात् साकेतपुरवत्तराम् ॥११॥
 यत्र केवलित्तीर्थेशा कल्याणयागतै सुरै । तेषा यात्रादिभिश्चैको वर्तते परमोऽसव ॥१२॥
 यत्रोन्नता जिनागारा हेमरत्नमया शुभा । विभ्राजन्ते बुधै सेव्या इव धर्मावधयोऽहुता ॥१३॥

समस्त विघ्न-समूहके विनाशक, तीन जगत्के स्वामियोसे सेवित और पचकल्याणको-
 के नायक श्री पार्श्वनाथ तीर्थेशकी मै वन्दना करता हूँ ॥१॥

अथानन्तर इसी भारतवर्षमे विदेह नामक एक विशाल देश है, जो श्रेष्ठ धर्म और मुनीश्वरोंके सघ आदिसे विदेहक्षेत्रके समान शोभायमान है ॥२॥ अहो, वहाँके कितने ही मुनिराज शुद्ध चारित्रसे देह-रहित (मुक्त) होते हैं, इस कारणसे वह देश 'विदेह' इस सार्थक नामको धारण करता है ॥३॥ वहाँके कितने मनुष्य दर्शनविशुद्धि आदि भावनाओंके द्वारा उत्तम तीर्थकर नामकर्मको बँधते हैं और कितने ही पच अनुत्तर विमानोमे जाकर अहमिन्द्र-पद प्राप्त करते हैं ॥४॥ कितने ही भव्य जीव उच्च भक्तिके साथ पात्रके लिए दान देकर भोग-भूमिको जाते हैं और कितने ही जिन-पूजनके प्रभावसे इन्द्रोका स्थान प्राप्त करते हैं ॥५॥ जिस देशमे तीर्थकर और सामान्यकेवलियोंकी देव, मनुष्य, विद्याधरोसे वन्द्य निर्वाणभूमियाँ पद-पद पर दृष्टिगोचर होती हैं ॥६॥ जहाँके वन और पर्वतादिक ध्यान-स्थित योगियोंके द्वारा शोभित हैं और जहाँके नगर-ग्रामादिक उत्तुंग जिनमन्दिरोंसे निरन्तर शोभा पा रहे हैं ॥७॥ जहाँ पर ग्राम, पुर, खेट, मटम्ब आदि और वन-प्रदेश उन्नत और उत्तम जिनालयोंसे पुण्यकी खानिके समान शोभित हैं ॥८॥ जहाँ पर धर्मकी प्रवृत्तिके लिए केवलज्ञानी भगवन्त, गणधर और मुनिराजोंके समूह चारों प्रकारके सघोंके साथ विहार करते रहते हैं ॥९॥ इत्यादि वर्णन-से सयुक्त उस देशके भीतर नाभिके समान मध्यभागमे कुण्डपुर नामक महान् नगर विराज-मान है ॥१०॥ जो सुरक्षक उत्तुंग गोपुरोंसे, कोट और खाईसे शत्रुओं द्वारा अलङ्घ्य है, अतः साकेतपुर (अयोध्यानगर) के समान अयोध्या है ॥११॥ जहाँ पर केवली और तीर्थकरोंके कल्याणकोके लिए, तथा तीर्थयात्रादिके लिए समागत देवों द्वारा सदा परम उत्सव होता रहता है ॥१२॥ जहाँपर उन्नत सुवर्ण-रत्नमयी उत्तम जिनालय शोभायमान हैं, जो ज्ञानी जनोके

जयनन्दस्तवाद्यैश्च गीतवाद्यसुनतैः । मणिबिम्बव्रजैर्दिव्यैर्होमोपकरणैर्वरैः ॥१४॥
 तेष्वर्चायै नृत्युग्मानि यातायातानि चान्वहम् । दिव्यरूपाणि शोभन्तेऽमरयुग्मानि वा गुणैः ॥१५॥
 यत्रत्या दानिनो नित्य पात्रदानाय धीधना । प्रपश्यन्ति गृहद्वार मुहुर्भक्तिभराङ्किता ॥१६॥
 केचित्सुपात्रदानेन लभन्ते च सुरार्चनाम् । तद्रत्नवृष्टिमालोक्य परे स्युर्दानतत्परा ॥१७॥
 यत्पुर राजते तुङ्गसौध्राध्वजपाणिभिः । आह्वयतीव नाकेशानुच्चैस्तरपदास्रये ॥१८॥
 दातारो धार्मिका शूरा व्रतशीलगुणालया । जिनेन्द्रसद्गुरुणा च भक्तिसेवार्चनापरा ॥१९॥
 नीतिमार्गरता दक्षा इहामुत्र हितोद्यता । धर्मशीला सदाचारा धनिन सुखिनो बुधा ॥२०॥
 दिव्यरूपा नरा नार्यस्तत्समानगुणाङ्किता । वसन्ति तुङ्गसौधेषु यत्र देवा इवोर्जिता ॥२१॥
 पतिस्तस्य महीपाल श्रीमान् सिद्धार्थसञ्जक । आसीत् काश्यपगोत्रस्थो हरिवशनभोऽशुमान् ॥२२॥
 ज्ञानत्रयधरो धीमान् नीतिमार्गप्रवर्तक । जिनभक्तो महादाता दिव्यलक्षणलक्षित ॥२३॥
 धर्मकर्मप्रणीर्धर सद्दृष्टिर्वत्सल सताम् । कलाविज्ञानचातुर्यविवेकादिगुणाश्रय ॥२४॥
 व्रतशीलशुभध्यानभावनादिपरायण । स्व-भूचरसुराधीशैः सेविताहिर्नृपाग्रणी ॥२५॥
 दीप्तिकान्तिप्रतापाद्यैर्दिव्यरूपाशुक्रैः परैः । नेपथ्यैः सकलैः सारैर्धर्ममूलप्रवर्तनैः ॥२६॥
 नरेन्द्र सोऽतिपुण्यात्मा बभौ विश्वमहीभुजाम् । मध्ये यथामराणां च सुरराजोऽतिपुण्यधी ॥२७॥
 तस्याभवन् महादेवी सन्नाम्ना प्रियकारिणी । अनौपम्यैर्गुणव्रातैर्जगता पुण्यकारिणी ॥२८॥

द्वारा सेव्यमान है अतः वे अद्भुत धर्मके समुद्रके समान प्रतीत होते हैं ॥१३॥ वे जिनालय जय, नन्द आदि शब्दोंसे, स्तवन आदिसे, गीत, वाद्य, नृत्यादिसे, दिव्य मणिमयी जिन-बिम्बोंसे और उत्तम दिव्य, हेम-रचित उपकरणोंसे युक्त हैं और उनमें मनुष्य-युगल (स्त्री-पुरुषोंके जोड़े) पूजनके लिए सदा आते-जाते रहते हैं, जो अपने गुणोंके द्वारा दिव्य रूपवाले देव-युगलके समान शोभित होते हैं ॥१४-१५॥ जहाँके बुद्धिमान् दानी पुरुष भक्ति-भारसे युक्त होकर पात्रदानके लिए नित्य अपने घरका द्वार बार-बार देखते रहते हैं ॥१६॥ कितने ही पुरुष सुपात्रदानसे देवों द्वारा पूजाको प्राप्त होते हैं और उनके द्वारा की गयी रत्नवृष्टिको देखकर कितने ही दूसरे लोग दान देनेके लिए तत्पर होते हैं ॥१७॥ जो नगर ऊँचे प्रासादोंके अग्रभाग-पर लगी हुई ध्वजारूपी हाथोंसे उच्चतर पदकी प्राप्तिके लिए देवेन्द्रोंको बुलाता हुआ-सा शोभता है ॥१८॥ उस नगरके ऊँचे भवनोमें दातार, धार्मिक, शूरवीर, व्रत-शील-गुणोंके धारक, जिनेन्द्र देव और सद्-गुरुओंकी भक्ति, सेवा और पूजामें तत्पर, नीति-मार्ग-निरत, चतुर, इस लोक और परलोकके हित-साधनेमें उद्यत, धर्मात्मा, सदाचारी, धनी, सुखी, ज्ञानी, और दिव्यरूपवाले मनुष्य तथा उनके समान गुणवाली स्त्रियाँ रहती हैं, वे स्त्री-पुरुष देव देवियोंके समान पुण्यशाली प्रतीत होते हैं ॥१९-२२॥

उस कुण्डपुरके स्वामी श्रीमान् सिद्धार्थ नामवाले महीपाल थे, जो काश्यपगोत्री, हरि-वशरूप गगनके सूर्य, तीन ज्ञानके धारक, बुद्धिमान्, नीतिमार्गके प्रवर्तक, जिनभक्त, महादानी, दिव्य लक्षणोंसे सयुक्त, धर्मकार्योंमें अग्रणी, धीरवीर, सम्यग्दृष्टि, सज्जनवत्सल, कला विज्ञान चातुर्य विवेक आदि गुणोंके आश्रय, व्रत शील शुभध्यान भावनादिमें परायण, राजाओंमें प्रमुख थे और जिनके चरण विद्याधर, भूमिगोचरी और देवेन्द्रोंके द्वारा सेवित थे ॥२३-२५॥ वे पुण्यात्मा सिद्धार्थ नरेन्द्र दीप्ति, कान्ति, प्रताप आदिसे, दिव्यरूप वस्त्रोंसे, उत्कृष्ट वेष-भूषासे और सारभूत धर्ममूलक सर्वप्रवृत्तियोंसे समस्त राजाओंके मध्यमें इस प्रकार शोभायमान थे, जैसे कि अतिपुण्य बुद्धिवाला देवेन्द्र देवोंके मध्यमें शोभा पाता है ॥२६-२७॥ उस सिद्धार्थ नरेश की रानी 'प्रियकारिणी' इस उत्तम नामवाली महादेवी थी । जो अपने अनुपम गुण-समूहसे जगत्की पुण्यकारिणी थी ॥२८॥

सा कलेर्वेन्दवी कान्त्या जगदानन्ददायिनी । कलाविज्ञानचातुर्यैर्भरतीव जनप्रिया ॥२९॥
 जितनीरजपादाब्जा नखचन्द्राशुराजिता । मणिनूपुरझकारैर्मुखरीकृतदिङ्मुखा ॥३०॥
 कदलीगर्भसादृश्यमृदुजङ्घा मनोहरा । चारुजानुद्गयोपेता युदारोरुद्धयाङ्किता ॥३१॥
 मनोभूषामसकाशकलत्रस्थानभूषिता । काञ्चीदामाशु कैर्दिव्यै परिष्कृतकटीतटा ॥३२॥
 कृशमध्या महाकाया निम्ननाभिस्तन्दरा । मणिहारादिभूषाङ्गा तुङ्गचारुपयोधरा ॥३३॥
 निर्जिताशोकसञ्छायमृदुदिव्यकरान्विता । कण्ठाभरणशोभाढ्या शुभकण्ठातिकोकिला ॥३४॥
 महाकान्तिकलालापदीप्युद्योतितसम्मुखा । कर्णाभरणविन्यासै सुकर्णाभ्यामलकृता ॥३५॥
 अष्टमीन्दुसमाकारललाटा दिव्यनासिका । मनोज्ञभ्रूलतानीलकेशस्रग्युतमस्तका ॥३६॥
 भतीवरूपसौन्दर्यलावण्यसुश्रुतात्मिका । परमैस्त्रिजगत्सारैरगुभिर्निर्मिता सती ॥३७॥
 इत्याद्यैरपरै कृत्स्नै स्त्रीलक्षणसमुत्करै । सा शचीव बभौ लोकेऽसाधारणगुणव्रजै ॥३८॥
 खनीव गुणरत्नाना निधिर्वाखिललपदाम् । श्रुतदेवीव सानेकशास्त्राढ्ये पारगा व्यभ्रात् ॥३९॥
 साभवत्प्रेयसी मर्तु प्राणेभ्योऽतिगरीयसी । इन्द्राणीवामरेन्द्रस्य परा प्रणयभूमिका ॥४०॥
 तौ दम्पती महापुण्यपरिपाकान्महोदयौ । महाभोगोपभोगादीन् भुञ्जानौ तिष्ठतो मुदा ॥४१॥
 अथ सौधर्मकल्पेशो ज्ञात्वाच्युतसुरेशिन । षण्मासावभिशेषायु प्राहेति धनद प्रति ॥४२॥
 श्रीदात्र भारते क्षेत्रे सिद्धार्थनृपमन्दिरे । श्रीवर्धमानतीर्थेश्वरमोऽवतरिष्यति ॥४३॥
 अतो गत्वा विधेहि त्व रत्नवृष्टिं तदालये । शेषाश्चर्याणि पुण्याय स्वान्यशर्माकराणि च ॥४४॥

वह अपनी कान्तिसे चन्द्रमाकी कलाके समान जगत्को आनन्द देनेवाली थी । कला विज्ञान चातुर्यके द्वारा सरस्वतीके समान सर्वजनको प्रिय थी, अपने चरण-कमलोसे जलमे उत्पन्न होनेवाले कमलोको जीतती थी, नखरूप चन्द्रकी किरणोसे शोभित थी, मणिमयी नूपुरोकी झकारोसे सर्व दिशाओको व्याप्त करती थी ॥२९-३०॥ केलेके गर्भ-सदृश कोमल जघावली, मनोहर, दो सुन्दर जानुओसे युक्त, दो उदार ऊरुओसे भूषित, कामदेवके निवासस्थानवाले स्त्री-चिह्नसे भूषित, काचीदाम (करधनी) और दिव्य बन्धोसे परिष्कृत कमरवाली, मध्यमे कृश और ऊपर पुष्ट शरीरवाली, गम्भीरनाभिवाली, कृशोदरी, मणियोके हार आदिसे भूषित अगवाली, उन्नत सुन्दर स्तनोको धारक, अशोककी पत्रकान्तिको जीतनेवाले कोमल हाथोसे युक्त, कण्ठके आभूषणोसे शोभित, उत्तम कण्ठ-स्वरसे कोकिलकी बोलीको जीतनेवाली, महाकान्ति, कलकलालाप और दीप्तिसे प्रकाशित उत्तम मुखवाली, कानोके आभूषण युक्त सुन्दर आकारवाले कानोसे अलकृत, अष्टमीके चन्द्रसमान ललाटवाली, दिव्य नासिकावाली, सुन्दर भ्रूलता, नीलकेश और पुष्प-मालासे युक्त मस्तकवाली, अत्यन्त रूप-सौन्दर्य, लावण्य और उत्तम विद्याओको धारण करनेवाली वह सती प्रियकारिणी, मानो तीन लोकमे सारभूत परमाणुओसे निर्मित प्रतीत होती थी । इन उक्त गुणोको आदि लेकर अन्य समस्त स्त्री-लक्षणोके समूहसे तथा असाधारण गुणोके पुजसे वह लोकमे शचीके समान शोभती थी ॥३१-३८॥ वह गुणरूप रत्नोकी खानि थी, समस्त सम्पदाओ की निधान थी और श्रुतदेवीके समान अनेक शास्त्र-समुद्रकी पारगत थी । वह अपने भर्तारको प्राणोसे भी अधिक प्यारी थी और इन्द्रके इन्द्राणीके समय परम प्रेमकी भूमिका थी ॥३९-४०॥ महापुण्यके परिपाकसे महान् उदयको प्राप्त वे दम्पती राजा-रानी महान् भोगोपभोगको भोगते हुए आनन्दसे रहते थे ॥४१॥

अथानन्तर सौधर्मस्वर्गका इन्द्रने उक्त अच्युतेन्द्रकी छह मास प्रमाण शेष आयुको जानकर कुबेरके प्रति इस प्रकार कहा—हे धनद, इस भरतक्षेत्रमे सिद्धार्थ राजाके राज-मन्दिरमे अन्तिम तीर्थकर श्रीवर्धमान स्वामी अबतार लगे, अतः तुम जा करके उनके

इत्यादेश स यक्षेशो मूर्धादायामरेशिन । द्विगुणीभूतसन्नाव आजगाम महीतलम् ॥४५॥
 तत प्रत्यहमारभे मणिकाञ्चनवर्षणै । रत्नवृष्टिं मुदा कर्तुं भूपधामनि सोऽमर ॥४६॥
 नानारत्नमयाधारा सैरावतकराकृति । पतन्ती श्रीरिवायान्यभात् पुण्यकल्पशाखिन ॥४७॥
 दीप्रा हिरण्यमयी वृष्टि पतन्ती खाङ्गणाद् बभौ । ज्योतिर्मालेव सायान्नी सेवितु पितरौ गुरो ॥४८॥
 प्राग्गर्भाधानत षण्मासान्त सिद्धार्थमन्दिरे । सार्धं कल्पद्रुमोद्भूतपुष्पगन्धाम्बुवृष्टिभि ॥४९॥
 रत्नवृष्टिं चकारोच्चैर्महार्घ्यमणिकाञ्चनै । धनदोऽनुदिन भूत्या सेवया श्रीजिनेशिन ॥५०॥
 तदा नृपाक्य दीप्रमाणिक्यस्वर्णैराशिभि । पूर्णं तन्मणिरम्यौचैर्ग्रहचक्रमिवावभौ ॥५१॥
 केचिद् विचक्षणा वीक्ष्य साङ्गण भूपधाम तत् । व्याप्त सन्मणिहेमाद्यैस्तदेत्याहु परस्परम् ॥५२॥
 अहो पश्येदमथन्त माहात्म्य त्रिजगद्गुरो । यतोऽस्य मन्दिर रत्नै पूरयामास यक्षराट् ॥५३॥
 तदाकर्ण्यपरैऽप्युचुरित्यहो नैतदद्भुतम् । किन्तु मक्त्यार्हत पित्रो सेवा कुर्वन्ति वासवा ॥५४॥
 तच्छ्रुत्वान्ये वदन्तीत्य सर्वमेतदहो फलम् । धर्मस्य प्रवर रत्नवृष्ट्यर्हत्सुतगोचरम् ॥५५॥
 यतो धर्मेण जायन्ते पुत्रा लोकत्रयार्चिता । तीर्थैशपदकल्याणसपदो दुर्घटाणि च ॥५६॥
 ततोऽपरे जगुश्चैवमहो सत्यमिद वच । यस्माद् धर्मादिते न स्युः सन्वाद्यभीष्टसपद् ॥५७॥
 तस्मात् सुखार्थिभिर्नित्य कार्यो धर्म प्रयत्नत । अहिसालक्षणो द्वेषाणुमहाव्रतनिर्मलै ॥५८॥

भवनमे रत्नोकी वर्षा करो, तथा पुण्य प्राप्तिके लिए स्व-परको सुख करनेवाले शेष आश्चर्योंको भी करो ॥४२-४४॥ वह यक्षेश अमरेन्द्रके इस आदेशको शिरोधार्य कर द्विगुण हर्षित होता हुआ महीतल पर आया ॥४५॥ तत्पश्चात् उस यक्षेशने सिद्धार्थ राजाके भवनमे प्रतिदिन मणिसुवर्ण बरसाते हुए हर्षसे रत्नवृष्टि आरम्भ कर दी ॥४६॥ ऐरावत हाथीकी सूँडके समान आकारवाली नाना रत्नमयी वह धारा आकाशसे गिरती हुई ऐसी शोभती थी, मानो पुण्यरूपी कल्पवृक्षसे लक्ष्मी ही आ रही हो ॥४७॥ गगनागणसे गिरती हुई वह देदीप्यमान हिरण्यमयी वृष्टि इस प्रकार शोभा दे रही थी, मानो त्रिजगद्-गुरुके माता-पिताको सेवा करनेके लिए ज्योतिर्मय नक्षत्रमाला ही आ रही हो ॥४८॥

गर्भाधानसे पूर्व लह मासतक सिद्धार्थ नरेशके मन्दिरमे कल्पवृक्षसे उत्पन्न हुए पुष्पोंके और सुगन्धित जलवर्षाके साथ, तथा बहुमूल्यवाले मणियों और सुवर्णोंके द्वारा श्री जिनेश्वरदेवकी विभूतिसे सेवा करनेके लिए प्रतिदिन महारत्नवृष्टि करने लगा ॥४९-५०॥ उस समय कान्तिमान् माणिक्य और सुवर्णकी राशियोंसे परिपूर्ण राजमन्दिर मणियोंकी रमणीक किरण-समूहसे प्रकाशमान ग्रहचक्रके समान शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥५१॥ उस समय कितने ही विचक्षण पुरुष उत्तम मणि-सुवर्णादिसे व्याप्त राजभवन और अँगनको देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे ॥५२॥ अहो, त्रिजगद्-गुरुके इस असीम माहात्म्यको देखो कि यक्षराजने इस राजाका मन्दिर रत्नोसे पूर दिया है ॥५३॥ उनकी यह बात सुनकर दूसरे लोग बोले—अहो, यह कोई अद्भुत बात नहीं है, क्योंकि तीर्थकरके माता-पिताकी सेवाको देव भक्तिसे करते हैं ॥५४॥ उनकी यह बात सुनकर अन्य पुरुष इस प्रकार बोले—अहो, यह सब धर्मका प्रकृत फल है जो होनेवाले तीर्थकर पुत्रके सम्बन्धसे यह भारी रत्नवर्षा हो रही है ॥५५॥ क्योंकि धर्मके प्रभावसे तीन लोकद्वारा पूजित तीर्थकर पदकी कल्याणरूप सम्पदावाले पुत्र उत्पन्न होते हैं और दुःखसे प्राप्त होनेवाली वस्तुएँ भी सुखसे अनायास प्राप्त हो जाती हैं ॥५६॥ तब दूसरे लोग इस प्रकार बोले—अहो, यह वचन सत्य है, क्योंकि धर्मके बिना पुत्र आदि अभीष्ट सम्पदाएँ नहीं प्राप्त होती हैं ॥५७॥ इसलिए सुखके इच्छुक मनुष्योंको नित्य ही प्रयत्न पूर्वक धर्म करना चाहिए । वह अहिसा लक्षण धर्म निर्मल अणुव्रत और महाव्रतके भेदसे दो प्रकारका है ॥५८॥

अथैकदा महादेवी सौधान्तमृदुतल्पके । सुसातिशर्मणा स्वस्था पश्चिमे प्रहरे शुभे ॥५९॥
 निशाया पुण्यपाकेनापश्यत्स्वप्नान् जगद्धितान् । इमान् षोडश तीर्थेशविश्वभ्युदयसूचकान् ॥६०॥
 ददर्शादौ गजेन्द्र सा त्रिमद^१ श्वेतमूर्जितम् । ततो दीप्र गवेन्द्र च चन्द्राम मन्द्रनि स्वनम् ॥६१॥
 लसत्कान्ति महाकाय मृगेन्द्र रक्तकन्धरम् । पद्मा स्नाप्या हरिण् कुम्भैविष्टरे देवदन्तिभि ॥६२॥
 साद्राक्षीद्दामनी दिव्यामोदाक्लृष्टमदालिनी । हतध्वान्त च सपूर्ण ताराधीश सतारकम् ॥६३॥
 निर्धूततमसोद्योत भास्कर सोदयाचलात् । कुम्भौ हेममयौ पद्मपिहितावास्यावलोकयत् ॥६४॥
 मत्स्यौ सरसि सफुलकुमुदाम्भोजमचये । तरत्सरोजकिञ्चलक पूर्ण दिव्य सरोवरम् ॥६५॥
 उद्वेल च महाध्वानमब्धिमेघा व्यलोकयत् । स्फुरन्मणिमय तुङ्ग दिव्य सिंहासन परम् ॥६६॥
 स्वर्विमान मुदापश्यत्पराध्वरत्नभास्वरम् । फणीन्द्रमवन पृथ्वीमुद्दिद्योगतमूर्जितम् ॥६७॥
 अद्राक्षीद् रत्नराशिं च तदशुद्योतिताम्बरम् । निर्धूमवपुष दीप्त पावक सा जिनाम्बिका ॥६८॥
 तेषामन्ते मुदाद्राक्षीत्तुङ्गकाय गजोत्तमम् । प्रविशन्त स्ववक्त्राब्जे सुतागमनसूचकम् ॥६९॥
 ततो जजृम्भरे प्रातस्तर्याणामद्भुता स्वरा । तस्या प्रबोधमाधातुमिति पेटु सुपाठका ॥७०॥
 कलकण्ठा सुमाङ्गल्यगीतादीन्यस्वलद्गिर । प्रबोधसमयो देवि तेऽय सम्मुखमागत ॥७१॥
 मुञ्च तल्प यथायोग्य कुरु कृत्य शुभावहम् । येनामोषि जगत्सार विश्वकल्याणसचयम् ॥७२॥

इसके पश्चात् किसी दिन वह स्वस्थ महादेवी प्रियकारिणी राजमन्दिरके भीतर कोमल शय्यापर रात्रिके अन्तिम शुभ प्रहरमे अति सुखसे सो रही थी, तब उसने पुण्य-परिपाकसे जगत्के हित करनेवाले, और तीर्थकरके सर्व अभ्युदयके सूचक ये वक्ष्यमाण सोलह स्वप्न देखे ॥५९-६०॥ उसने आदि मे तीन स्थानोसे मद झरते हुए श्वेत मदोन्मत्त गजेन्द्रको देखा । तत्पश्चात् गम्भीरध्वनि करनेवाले दीप्तियुक्त चन्द्र समान उज्ज्वल वृषभराजको देखा ॥६१॥ तदनन्तर कान्तियुक्त, लाल कन्धेवाला विशाल देहका धारक मृगराजको देखा । पुनः कमलासनपर बैठी हुई लक्ष्मीको देव हस्तियोंके द्वारा सुवर्णकलशोसे स्नान कराते हुए देखा ॥६२॥ पुनः उसने दिव्य सुगन्धिसे उन्मत्त भौरोको आकृष्ट करनेवाली दो मालाएँ देखीं । पुनः अन्धकारको नाश करनेवाला, ताराओके साथ सम्पूर्ण कलाओसे युक्त चन्द्रमा देखा ॥६३॥ पुनः अन्धकारको सर्वथा नाश करनेवाला ऐसा उदयाचलसे उदित होता हुआ सूर्य देखा । इसके पश्चात् कमलोसे ढके हुए मुखवाले दो सुवर्णमयी कलश देखे ॥६४॥ तदनन्तर कुमुदो और कमलोके सचयवाले सरोवरमे क्रीडा करती दो मछलियाँ देखी । पुनः जिसमे कमल-पराग तैर रहा है ऐसा जल-पूर्ण दिव्य सरोवर देखा ॥६५॥ पुन उसने गम्भीर ध्वनि करता हुआ उमडता समुद्र देखा । पुन स्फुरायमान मणिमय उत्तुग दिव्य सिंहासन देखा ॥६६॥ पुन हर्षित होती हुई रानीने बहुमूल्य रत्नोसे प्रकाशमान देवविमान देखा । पुनः भूमिको भेदकर निकलता हुआ देदीप्यमान धरणेन्द्रका विमान देखा ॥६७॥ अपनी किरणोसे आकाशको प्रकाशित करनेवाली रत्नराशि देखी । सबसे अन्तमे उस जिनमाताने प्रदीप्त निर्धूम अग्नि देखी ॥६८॥ इन स्वप्नोंके अन्तमे प्रमोद सयुक्त माताने पुत्रके आगमनका सूचक, उन्नत गजराजको अपने मुखमे प्रवेश करते हुए देखा ॥६९॥

तत्पश्चात् प्रातःकालीन बाजोकी अद्भुत ध्वनि चारो ओर फैल गयी और उस माताको जगानेके लिए सुन्दर कण्ठवाले तथा अस्खलित वाणीवाले वन्दीजन उत्तम मंगल गीत आदिको गाते हुए इस प्रकार स्तुति करने लगे—हे देवि, जगनेका समय तेरे सम्मुख आकर उपस्थित हुआ है, अतः शय्याको छोडो और अपने योग्य शुभ कार्योंको करो जिससे

प्रभाते श्रावका केचित् समतापन्नमानसा । सामायिक प्रकुर्वन्ति कर्मारण्यहुताशनम् ॥७३॥
 उत्थाय शयनात् केचित् सर्वविघ्नविनाशकान् । परमेधिनमस्कारान् जपन्ति श्रीसुखाकरान् ॥७४॥
 महाप्राज्ञा परे ज्ञाततत्त्वा सरुध्य मानसम् । भजन्ते धर्मकद्वयान् कर्मज्ञ शर्मसागरम् ॥७५॥
 अन्ये धीरा भजन्ति स्म काय त्यक्त्वा शिवासये । व्युत्सर्गं विधिहन्तार स्वर्मोक्षसुखसाधनम् ॥७६॥
 इत्याद्यै शुभकर्मोर्धैर्दक्षो लोक प्रवर्तते । स्वहिताय प्रभातेऽस्मिन् धर्मध्यानेन सप्रति ॥७७॥
 जिनसूर्योद्गमे यद्वत् खद्योता इव दुर्मता । जायन्ते नि प्रभास्तद्वच्चेन्दुतारा इनोद्गमे ॥७८॥
 अर्हद्-भानूदये यद्वत्कुलिङ्गितस्करोऽकरा । प्रणश्यन्ति तथादित्योदये चौरा भयातुरा ॥७९॥
 यथाज्ञानतमो दिव्यध्वन्यशुभिर्जिनाशुमान् । निर्णाशयति तद्वच्च भास्वान्नैश्य तमोऽशुभि ॥८०॥
 सन्मार्गसुपदार्थादीन् शुद्धवाक्किरणैर्यथा । प्रकाशयति तीर्थशस्तथेन किरणैरपि ॥८१॥
 यथार्हद्वचनाश्रौघैर्विक्राप्त यान्ति निश्चितम् । मनोऽम्बुजानि भव्याना तथाऽज्ञानीनरश्मिभि ॥८२॥
 पापिहृत्कुमुदान्याशु लभते म्लानिर्महत । दिव्यवाक्किरणैस्तद्वत् कुमुदानीनभाचयै ॥८३॥
 प्रातः कालोऽधुना देवि वर्तते विश्वशर्मकृत् । धर्मध्यानस्य योग्योऽय सर्वभ्युदमसाधक ॥८४॥
 अतः पुण्यार्थिके पुण्य कुरु मुक्त्वाशुतल्पकम् । सामायिकस्तवाद्यैस्त्व कल्याणशतभागव ॥८५॥
 इति तत्सारमाङ्गल्यगीतै वर्णसुखावहै । ध्वनद्भिर्वाद्यसघातै सह सा राश्यजागरीत् ॥८६॥
 ततः स्वप्रविलोकोत्थानन्दनिर्मरमानसा । उत्थाय शयनाद्देवी चक्रे नित्यक्रिया पराम् ॥८७॥

कि तुम जगत्मे सारभूत सब कल्याणोको पाओगी ॥७०-७२॥ प्रभातकालमे समता-सहित चित्तवाले कितने ही श्रावक सामायिकको करते है, जो कि कर्मरूपी वनको जलानेके लिए अग्निके समान है ॥७३॥ कितने ही मनुष्य शय्यासे उठकर सर्व-विघ्न-विनाशक, लक्ष्मी और सुखके भण्डार पचपरमेष्ठियोके नमस्कार मन्त्रका जाप करते है ॥७४॥ कितने ही तत्त्वोके ज्ञाता महाबुद्धिमान् लोग मनको रोककर कर्मका नाशक और सुखका सागर धर्मध्यान करते है ॥७५॥ कितने ही धीर पुरुष मुक्ति-प्राप्तिके लिए शरीरका त्याग कर कर्म-नाशक एव स्वर्ग-मोक्ष सुखका साधक कायोत्सर्ग करते है ॥७६॥ इत्यादि शुभ कार्योंके द्वारा चतुर लोग अब इस प्रभातकालमे अपने हितके लिए धर्मध्यानके साथ प्रवृत्त हो रहे है ॥७७॥ जिस प्रकार जिन देवरूपी सूर्यके उदय होनेपर कुमतिरूपी खद्योत प्रभा-हीन हो जाते है, उसी प्रकार इस समय सूर्यके उदय होनेपर ये चन्द्रमा और तारागण प्रभा-हीन हो रहे है ॥७८॥ जिस प्रकार अर्हन्तरूपी भानुके उदय होनेपर कुलिगीरूपी चोरोका समूह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस समय सूर्यके उदय होनेपर चौर भयभीत होकर विनष्ट हो रहे है ॥७९॥ जिस प्रकार जिनेन्द्ररूपी सूर्य अपनी दिव्यध्वनि रूपी किरणोसे अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करता है, उसी प्रकार यह सूर्य भी अपनी किरणोके द्वारा रात्रिके अन्धकारका नाश कर रहा है ॥८०॥ जिस प्रकार तीर्थकर भगवान् अपने शुद्ध वचन-किरणोके द्वारा सन्मार्ग और जीवादि पदार्थोको प्रकाशित करते है, उसी प्रकार यह सूर्य भी अपनी किरणोसे सासारिक पदार्थोको प्रकाशित कर रहा है ॥८१॥ जिस प्रकार अर्हन्तदेवके वचन-किरणोके समूहसे भव्य जीवोके हृदय-कमल विकसित हो जाते है, उसी प्रकार सूर्यकी किरणोसे ये कमल भी विकसित हो रहे है ॥८२॥ जिस प्रकार अर्हन्तदेवके दिव्य वचन-किरणोसे पापियोके हृदय कुमुद म्लान हो जाते है, उसी प्रकार सूर्यकी किरण समूहसे कुमुद म्लान हो रहे है ॥८३॥ हे देवि, अब यह सर्व सुख-कारक प्रातःकाल हो रहा है, जो कि सर्व अभ्युदयके साधक धर्मध्यानके योग्य है ॥८४॥ अतः हे पुण्यशालिनि, शीघ्र शय्याको छोडकर सामायिक, जिनस्तव आदिके द्वारा पुण्य कार्य करो और शत कल्याणभागिनी होवो ॥८५॥ इस प्रकार उन बन्दीजनोके सारभूत, कानोको सुखदायी, मंगल गीतोके द्वारा बजते हुए बाजोके साथ वह रानी जाग गयी ॥८६॥ तब स्वप्नोके

श्रेयोनिबन्धिनी सारा विश्वमाङ्गल्यकारिणीम् । एकाग्रचेतसा मुक्त्यै स्तवसामायिकादिभि ॥८८॥
 ततो मज्जननेपथ्यमण्डनानि विधाय सा । परीता स्वजनै कैश्चिज्जगाम भूपते सभाम् ॥८९॥
 आगच्छन्ती नृपो वीक्ष्य प्रिया सभाष्य स्नेहत । मधुरैर्वचनैस्तस्यै ददौ स्वार्धासन मुदा ॥९०॥
 सुखासीना ततोऽप्येषा विधाय स्वमुखे मुदम् । मनोहरगिरा होत्थ स्वमर्तार व्यजिज्ञपत् ॥९१॥
 देवाद्य पश्चिमे भागे यामिन्या सुखनिद्रिता । अत्राक्ष षोडशस्वप्नानहमद्भुतकारणान् ॥९२॥
 इमान् गजादिवह्वचन्तान् महाश्रयंकरान् परान् । पृथक् पृथक् त्वमेतेषा फल नाथ ममादिश ॥९३॥
 तदाकर्ण्यति सोऽवादीत् त्रिज्ञानी शृणु सुन्दरि । एकाग्रचेतसामीषा दिशामि फलमूर्जितम् ॥९४॥
 प्रशस्ते भविता कान्ते तीर्थनाथो गजेक्षणगात् । जगज्ज्येष्ठो महाधर्मरथप्रवर्तको वृषात् ॥९५॥
 सिंहेनानन्तवीर्योऽसौ कर्मभयूथघातक । लक्ष्म्याभिषेकमासैष मेरो मूर्ध्नि सुरेश्वरै ॥९६॥
 दात्रा सुगन्धि देहश्च सद्धर्मज्ञानतीर्थकृत् । पूर्णन्दुना बुभाह्वादी सद्धर्माभृतवर्षण ॥९७॥
 भास्वताज्ञानकुध्वान्नहन्ता सभास्वरद्युति । कुम्भाभ्या निधिभागी स ज्ञानध्यानसुधाघट ॥९८॥
 मत्स्ययुग्मेक्षणाद् विश्वशर्मकर्ता महासुखी । सरसा लक्षणैर्दिव्यैरुद्धासी व्यञ्जनैश्च स ॥९९॥
 अग्निना केवलज्ञानी नवकेवलिल्लिम्बवान् । सिंहासनेन साम्राज्यपदयोग्यो जगद्गुरु ॥१००॥
 स्वविमानावलोकेन दिव सोऽवतरिष्यति । नागेन्द्रभवनलोकात् सोऽवधिज्ञाननेत्रवान् ॥१०१॥

देखनेसे उत्पन्न हुए आनन्दसे जिसका हृदय परिपूर्ण है, ऐसी उस देवीने शय्यासे उठकर पुण्य-
 वर्धिनी और सर्वमगलकारिणी नित्य क्रियाओको एकाग्रचित्तसे मुक्तिके लिए सामायिक,
 जिनस्तुति आदिके साथ किया ॥८७-८८॥

तत्पश्चात् स्नान करके और वस्त्राभूषण धारण करके वह कितने ही स्वजनोके साथ
 राजाकी सभामे गयी ॥८९॥ राजाने अपनी प्रियाको आती हुई देखकर स्नेहके साथ मधुर
 वचन बोलकर हर्षसे उसे अपना आधा आसन दिया ॥९०॥ तब सिंहासनपर सुखसे बैठकर
 इस रानीने अपने मुखपर प्रमोद धारणकर मनोहर वाणी द्वारा अपने स्वामीसे इस प्रकार
 निवेदन किया ॥९१॥ हे देव, आज रात्रिके अन्तिम पहरमे सुखसे सोते हुए मैंने अद्भुत पुण्यके
 कारण ये सोलह स्वप्न देखे है ॥९२॥ ऐसा कहकर उसने हाथीको आदि लेकर अग्नि पर्यन्त
 महा आश्चर्य करनेवाले उन उत्तम स्वप्नोको निवेदन किया और बोली—हे नाथ, इन स्वप्नो
 का भिन्न-भिन्न फल मुझे बताइए ॥९३॥ रानीका यह कथन सुनकर तीन ज्ञानके धारक
 सिद्धार्थने कहा—हे सुन्दरि, तुम एकाग्रचित्तसे सुनो, मैं इनका उत्तम फल कहता हूँ ॥९४॥ हे
 उत्तम प्रिये, हाथीके देखनेसे तेरे तीर्थनाथ पुत्र होगा । बैलके देखनेसे वह जगत्मे श्रेष्ठ और
 महान् धर्मरूप रथका प्रवर्तक होगा ॥९५॥ सिंहके देखनेसे वह कर्मरूपी गज समुदायका
 घातक अनन्त वीर्यशाली होगा । लक्ष्मीके देखनेसे वह सुमेरुकी शिखरपर देवेन्द्रो द्वारा
 जन्माभिषेकको प्राप्त होगा ॥९६॥ मालाओके देखनेसे वह सुगन्धित देहवाला और सद्धर्म-
 ज्ञानरूप तीर्थका प्रवर्तक होगा । पूर्णचन्द्रके देखनेसे वह श्रेष्ठ धर्मरूप अमृतका
 बरसानेवाला और ज्ञानियोको आनन्द करनेवाला होगा ॥९७॥ सूर्यके देखनेसे अज्ञानरूपी
 अन्धकारका नाशक भास्वर कान्तिका धारक होगा । कलश-युगलके देखनेसे वह अनेक
 निधियोका स्वामी और ज्ञान ध्यानरूपी अमृतसे परिपूर्ण घटवाला होगा ॥९८॥ मत्स्य-युगलके
 देखनेसे वह सर्व सुखोका करनेवाला, महासुखी होगा । सरोवरके देखनेसे वह दिव्य लक्षणो
 और व्यजनोसे शोभित शरीरवाला होगा ॥९९॥ समुद्रके देखनेसे वह केवलज्ञानी और नव-
 केवलल्लिम्बोवाला होगा । सिंहासनके देखनेसे वह साम्राज्यपदके योग्य जगद्-गुरु होगा
 ॥१००॥ स्वर्गविमानके देखनेसे वह स्वर्गसे अवतरित होगा । नागेन्द्र-भवनके देखनेसे वह

द्क्चिद्वृत्तादिरत्नानामाकरो रत्नराशित । अग्निना कर्मकाष्ठाणा भस्मीभाव करिष्यति ॥१०२॥
 गजेन्द्राकारमादाय भवत्यास्यप्रवेशनात् । त्वद्गर्भे निर्मले तीर्थेऽन्तिमोऽवतरिष्यति ॥१०३॥
 इत्यमीषा च सम्यक्सत्फलाकर्णनत सती । कृत्वा रोमाञ्चित गात्र पुत्र प्राप्तेव सातुषत् ॥१०४॥
 तदैवादिसुरेशस्यादेशाच्छ्रयाद्या सुदेवता । पद्मादिहृदवासिन्यस्तत्राजग्मुश्च षट्प्रमा ॥१०५॥
 व्यधुस्तीर्थकरोत्पत्यै तास्तस्या गर्भशोधनम् । स्वर्गादुपाहृतैर्दिव्यै शुचिद्रव्यै शुभासये ॥१०६॥
 पुनर्देव्यो जिनाम्नायामादधु स्वानिमान् गुणान् । सर्वा अभ्यर्णवर्तिन्यस्तत्सेवादिपरायणा ॥१०७॥
 श्री श्रिय ह्री स्वलज्जा च धृतिर्धैर्यं महद्भवे । तस्या कीर्तिं स्तुतिं बुद्धिर्बोधं लक्ष्मीश्च वैभवम् ॥१०८॥
 निसर्गनिर्मला देवी भूयस्ताभिर्विशोधिता । तदाच्छस्फटिकेनेव घटिताङ्गीतरा बभौ ॥१०९॥
 तदैवाषाढमासस्य शुक्ले षष्ठी दिने शुचौ । उत्तराषाढनक्षत्रे शुभे लग्नादिके सति ॥११०॥
 सोऽमरेन्द्रोऽच्युताच्च्युत्वा धर्मध्यानेन धर्मकृत् । सुगर्भे प्रियकारिण्या शुचौ पुण्यादवातरत् ॥१११॥
 तद्गर्भाधानमाहात्म्याद् घण्टाशब्दो महानभूत् । स्वर्लोकेषु सुरेशा विष्टराणि प्रचकम्पिरे ॥११२॥
 स्वयमेवामवत्सिहनादो ज्योतिष्कधामसु । शङ्खध्वनिर्महानासीद् भवनाधिपसन्नसु ॥११३॥
 भेरीरवोऽतिगम्भीरो व्यन्तराणा गृहेषु च । शेषाश्चर्याणि जातानि बहूनि सर्वधामसु ॥११४॥
 इत्यादि विविधाश्चयदर्शनाच्छ्रीजिनेशिन । विवेदुरवतार ते चतुर्णिकायवासवा ॥११५॥
 ततस्ते त्रिदशाधीशा स्वस्वभूत्युपलक्षिता । स्व स्व वाहनमारूढा सद्गर्भकरणोद्यता ॥११६॥
 स्वाङ्गाभरणतेजोभिर्द्यौतयन्तो दिशो दश । ध्वजऋत्रविमानाद्यैश्छाद्यन्तो नमोऽङ्गणम् ॥११७॥
 सामरा सकलत्रा जयवाद्यादिरवाङ्किता । जिनकल्याणससिद्ध्यै ब्राह्मणमुस्तत्पुर परम् ॥११८॥

अवधिज्ञानरूप नेत्रका धारक होगा ॥१०१॥ रत्नराशिके देखनेसे वह सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारि-
 त्रादि गुणोका भण्डार होगा । और अग्निके देखनेसे वह कर्मरूप काष्ठाको भस्म करेगा ॥१०२॥
 मुखमे प्रवेश करते हुए गजेन्द्रके देखनेसे आपके निर्मल गर्भमे अन्तिम तीर्थकर गजेन्द्रके
 आकारको धारण करके अवतरित होगा ॥१०३॥ इस प्रकार इन स्वप्नोका उत्तम फल सुननेसे
 वह सती रोमाञ्चित शरीर होती हुई पुत्रको प्राप्त हुके समान अत्यन्त सन्तुष्ट हुई ॥१०४॥
 इसी समय सौधर्म सुरेन्द्रके आदेशसे पद्म आदि सरोवरोमे रहनेवाली श्री आदि छहो
 देवियाँ वहाँ आयी ॥१०५॥ उन्होने स्वर्गसे लाये हुए दिव्य पवित्र द्रव्योसे पुण्य प्राप्तिके निमित्त
 तीर्थकरकी उत्पत्तिके लिए उस प्रियकारिणीके गर्भका शोधन किया ॥१०६॥ पुनः समीपमे
 रहकर और उसकी सेवामे तत्पर होकर उन सभी देवियोंने जिन मातामे ये अपने-अपने गुण
 स्थापित किये ॥१०७॥ माताके शरीरमे श्री देवीने अपनी शोभाको, ह्री देवीने अपनी लज्जाको,
 धृति देवीने महान् धैर्यको, कीर्तिदेवीने स्तुतिको, बुद्धिदेवीने बोधिको और लक्ष्मी देवीने अपने
 वैभवको धारण किया ॥१०८॥ वह देवी स्वभावसे ही निर्मल थी, पुन उन देवियोंके द्वारा
 विशुद्ध किये जानेपर स्वच्छ स्फटिकमणि निर्मित शरीरके समान अत्यन्त शोभाको प्राप्त
 हुई ॥१०९॥ उसी समय आषाढमासके शुक्लपक्षके पवित्र षष्ठीके दिन उत्तराषाढा नक्षत्रमे शुभ
 लग्नादिक होनेपर वह धर्मात्मा देवेन्द्र धर्मध्यानके साथ अच्युत स्वर्गसे च्युत होकर पुण्योद्य-
 से प्रियकारिणीके पवित्र गर्भमे अवतरित हुआ ॥११०-१११॥ उसके गर्भधारणके माहात्म्यसे
 स्वर्गलोकमे घण्टाओका भारी शब्द हुआ और इन्द्रोके आसन कम्पित हुए ॥११२॥ ज्योतिष्क
 देवोके स्थानोमे स्वयमेव ही सिहनाद हुआ । भवनवासियोंके भवनोमे शखध्वनि होने लगी
 ॥११३॥ व्यन्तरोके घरोमे अति गम्भीर भेरियोका शब्द हुआ । उस समय सर्व ही स्थानोमे
 इसी प्रकारके अनेक आश्चर्य हुए ॥११४॥ इत्यादि नाना प्रकारके आश्चर्योंको देखनेसे चतुर्णि-
 कायके देवोने श्री तीर्थकर देवके गर्भावतारको जाना ॥११५॥ तब वे सभी देवेन्द्र अपनी-अपनी
 विभूतिके साथ अपने-अपने वाहनोपर आरूढ हो उत्तम धर्मके करनेमे उद्यत हुए अपने

तदानेकविमानैश्चाप्सरोभिः सुरसैन्यकैः । तत्पुरं परितो रुद्धं रेजेऽमरपुरं यथा ॥११९॥
 जिनेन्द्रपितरौ भक्त्या ह्यारोप्य हरिविष्टरे । अभिषिच्य कनकाञ्जनकुम्भैः परमोत्सवैः ॥१२०॥
 प्रपूज्य दिव्यभूषास्त्रगवस्त्रैः शक्रा सहामरैः । गर्भान्तस्थं जिनस्मृत्वा प्रणेमुच्छिपरीत्य ते ॥१२१॥
 ह्यथाद्य गर्भकल्याणं कृत्वा सयोज्य सद्गुरोः । अम्बायाः परिचर्यायां दिक्कुमारीनेकशः ॥१२२॥
 आदिकत्पाधिपो देवैः समं शक्रैरुपार्ज्यं च । परं पुण्यं सुचेष्टामिर्नाकलोकं मुदा ययौ ॥१२३॥
 इति सुचरणवर्माच्छर्मसारं नृनाके निरुपममिह भुक्त्वा तीर्थकर्तावतीर्णं ।
 शिवमतिमुखसिद्धयै चेति मत्वाश्रयध्वं ह्यमलचरणधर्मं शर्मकामा जिनोक्तम् ॥१२४॥
 धर्मोऽधर्महरः सुधर्मजनको धर्मं श्रितास्तद्विदो धर्मणैव किलाप्यते जिनपदं धर्माय मुक्त्यै नमः ।
 धर्मान्नास्त्यपरो जगत्सुशिवकृद्धर्मस्य हेतुः क्रिया धर्मो मां स्थितिवन्तमेव विधिभिर्हे धर्मं मुक्तं कुरु ॥१२५॥
 वीरो वीरबुधाग्रणीर्जिनरिपुं वारं श्रयन्ते बुधा वीरेणारिचयं सता विघटते वीराय सिद्धयै नमः ।
 वीरान्नास्त्यरिघातकोऽत्र सुभटो वीरस्य नित्या गुणा वीरे वीरतरं दधे निजमनो मा वीर वीरं सृज ॥१२६॥

इति भट्टारक-सकलकीर्ति-विरचिते श्री-वीरवर्धमानचरिते

भगवद्-गर्भावतार-वर्णनो नाम सप्तमोऽधिकारः ॥७॥

शरीरके आभूषणोके तेजसे दशो दिशाओको उद्योतित करते, ध्वजा, छत्र, विमानादिसे गगनाङ्गणको आच्छादित करते और जय-जय नाद करते और बाजोको बजाते हुए अपनी स्त्रियो और अपने देव-परिवारके साथ भगवान्के गर्भकल्याणकी सिद्धिके लिए उस उत्तम कुण्डपुर नगर आये ॥११६-११८॥

उस समय अनेक विमानोसे, अप्सराओसे और देव-सैनिकोसे वह कुण्डपुर सर्व ओर से व्याप्त होकर अमरपुरके समान शोभित होने लगा ॥११९॥ इन्द्रोने तीर्थकर भगवान्के माता-पिताको भक्तिसे सिंहासनपर बैठाकर चमकते हुए सुवर्ण कलशो द्वारा परम उत्सवके साथ अभिषेक करके, दिव्य वस्त्र, आभूषण और मालाओसे सर्व देवोके साथ पूजा करके उन्होने गर्भके भीतर विराजमान जिनदेवका स्मरण कर और तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया ॥१२०-१२१॥ इस प्रकार गर्भकल्याणक करके और जगद्गुरुकी माताकी सेवामे अनेक दिक्कुमारियोको नियुक्त करके तथा परम पुण्य उपार्जन करके वह आदि कल्पका स्वामी सौधर्मन्द्र उत्तम चेष्टावाले देवोके साथ हर्षित होता हुआ देवलोकको चला गया ॥१२२-१२३॥

इस प्रकार उत्तम आचरण किये गये धर्मके प्रभावसे मनुष्य और स्वर्गलोकमे अनुपम सारभूत सुखोको भोगकर तीर्थकर देवने अवतार लिया । ऐसा समझकर सुखके इच्छुक जन शिवगतिके सुखोकी सिद्धिके लिए जिन-भाषित निर्मल चारित्र धर्मका आश्रय लेवे ॥१२४॥ धर्म अधर्मका हर्ता है और सुधर्मका जनक है, अतः सुधर्मके जानकार उस धर्मका आश्रय लेते है । धर्मके द्वारा ही निश्चयसे जिन पद प्राप्त होता है, अतः मुक्ति प्राप्तिके अर्थ धर्मके लिए नमस्कार है । जगत्मे धर्मके अतिरिक्त अन्य कोई सुखकारी नहीं है, धर्मका कारण चारित्र-आचरण है, अतः धर्ममे स्थिति करनेवाले मुझे हे धर्म, तुम कर्मोसे मुक्त करो ॥१२५॥ वीर भगवान् वीरोमे ज्ञानियोके अग्रणी है, अतः पण्डित लोग शत्रुओके जीतनेवाले वीर भगवान्का आश्रय लेते है, वीरके द्वारा ही सन्तपुरुषोका शत्रु-समूह विघटित होता है, अतः सिद्धि-प्राप्तिके अर्थ वीर प्रभुके लिए नमस्कार है । इस लोकमे वीरसे अतिरिक्त और कोई सुभट शत्रुओका नाश करनेमे समर्थ नहीं है, वीर प्रभुके गुण नित्य है, मैं वीर भगवान्मे अपने अति वीर मनको धारण करता हूँ, हे वीर भगवन्, मुझे वीर बनाओ ॥१२६॥

इस प्रकार भट्टारक श्री सकलकीर्ति-विरचित श्री-वीरवर्धमान चरितमे भगवान्के

गर्भावतारका वर्णन करनेवाला सप्तम अधिकार समाप्त हुआ ॥७॥

अष्टमोऽधिकारः

पञ्चकल्याणभोक्तार दातार त्रिजगच्छ्रिय । त्रातार ससृते पुसा वीर तच्छ्रुत्ये स्तुवे ॥१॥
 अथ मङ्गलधारिण्य काश्चित्तस्या सुराङ्गना । काश्चिन्मज्जनपालिन्यश्चान्यास्ताबूलदायिका ॥२॥
 काश्चिन्महानसे लग्ना शय्याविरचने परा । पादप्रक्षालने काश्चिटासन् दिव्यप्रसाधने ॥३॥
 काश्चिद्विद्या स्रजस्तस्यै दद्यु कल्पलता इव । क्षौमाशुकानि काश्चिच्चान्या रत्नाभरणानि च ॥४॥
 उत्खातासिकरा काश्चिदङ्गरक्षविधौ स्थिता । तस्या अभीष्टभोगादीन् दातु चान्यास्नदिच्छया ॥५॥
 पुष्परेणुभिराकीर्णं मार्जयन्ति नृपाङ्गणम् । काश्चिच्चान्या प्रकुर्वन्ति चन्दनच्छटयोक्षितम् ॥६॥
 विचित्र बलिविन्यास रत्नचूर्णैः प्रकुर्वन्ते । काश्चिद् द्युशाखिपुष्पौवैरन्या उपहरन्ति च ॥७॥
 काश्चित्खे तुङ्गहर्म्यात्र तरला मणिदीपिका । निशासु बोधयन्ति स्म विद्युन्वानस्तमोऽमित ॥८॥
 गतावशुकसधानमासनेऽप्यासनार्पणम् । स्थितौ च परित सेवा तस्याश्चक्रु सुराङ्गना ॥९॥
 कदाचिज्जलकेलीभिर्वनक्रीडाभिरन्यदा । अन्येद्युर्मधुरैर्गीतैस्तत्सुतोत्थगुणान्वितैः ॥१०॥
 परेद्युर्नर्तनैर्नर्तप्रियैस्तूर्थत्रिकैः परैः । कथागोष्ठीभिरन्येद्युः प्रेक्षणगोष्ठीभिरन्यदा ॥११॥
 इत्याद्यैरपरैर्दिव्यैर्विक्रियद्विप्रभावजैः । विनोदैस्ता जिनाम्बाया देव्यश्चक्रुस्तरा सुखम् ॥१२॥

पञ्चकल्याणकोके भोक्ता, तीन लोककी लक्ष्मीके दाता और ससारी जीवोके त्राता श्री वीरनाथकी मै उनकी शक्ति-प्राप्तिके लिए स्तुति करता हूँ ॥१॥

भगवान्के गर्भमे आनेके पश्चात् उन कुमारिका देवियोमे से कितनी ही देवियाँ माताके आगे मंगल द्रव्योको रखती थीं, कितनी ही देवियाँ माताको स्नान कराती थीं, कितनी ही ताम्बूल प्रदान करती थीं, कितनी ही रसोईके काममे लग गयीं, कितनी ही शय्या सजानेका काम करने लगीं, कोई पाद-प्रक्षालन कराती, कोई दिव्य आभूषण पहनाती, कोई माताके लिए कल्पलताके समान दिव्य मालाएँ बनाके देती, कोई रेशमी वस्त्र पहननेके लिए देती और कोई रत्नोके आभूषण लाकर देती थी ॥२-४॥ कितनी ही देवियाँ माताकी शरीर-रक्षाके लिए हाथोमे तलवार लिये खड़ी रहती और कितनी ही देवियाँ माताकी इच्छाके अनुसार उन्हे अभीष्ट भोगादिकी वस्तुएँ लाकर देती थीं ॥५॥ कितनी ही देवियाँ पुष्प-पराग-से व्याप्त राजागणको साफ करतीं और कितनी ही चन्दनके जलका छिडकाव करती थी ॥६॥ कितनी ही देवियाँ रत्नोके चूर्णसे साथिया आदि पूरती थीं, और कितनी ही कल्पवृक्षोके पुष्पोसे बने फूल-गुच्छक भेट करती थीं ॥७॥ कितनी ही देवियाँ आकाशमे ऊँचे राजभवनके अग्रभागपर रातके समय प्रकाशमान मणि-दीपक जलाती थी जो कि सब ओरके अन्धकार-का नाश करते थे । माताके गमन करते समय कितनी ही देवियाँ वस्त्रोको संभालती थी और उनके बैठते समय आसन-समर्पण करती थीं । माताके खडे होनेपर वे देवियाँ चारो ओर खड़ी होकर उनकी सेवा करती थीं ॥८-९॥ वे देवियाँ कभी जलक्रीडाओसे, कभी वनक्रीडाओ-से, कभी उसके गर्भस्थ पुत्रके गुणोसे युक्त मधुर गीतोसे, कभी नेत्र-प्रिय नृत्योसे, कभी तीन प्रकारके बाजोसे, कभी कथा-गोष्ठियोसे और कभी दर्शनीय स्थलोको दिखानेके द्वारा माताका मनोरजन करती थी ॥१०-११॥ इनको आदि लेकर विक्रिया ऋद्धिके प्रभावसे उत्पन्न हुए नाना प्रकारके अन्य दिव्य विचोदोके द्वारा वे जिन-माताको सर्व प्रकारसे सुखी करती

इत्येषा दिक्कुमारीभिर्विधिना पर्युपासिता । तत्प्रभाचैरिवाविष्टा बभौ त्यक्तोपमा सती ॥१३॥
 नवमे मास्यथाभ्यर्णे अन्तर्वती महागुणाम् । प्रज्ञाप्रकर्षसप्राप्ता देव्यस्तामित्यरञ्जयन् ॥१४॥
 निगूढार्थक्रियाशब्दैर्नानाप्रश्नैर्मनोहरैः । प्रहेलिकानिरोष्ठघाद्यैः काव्यैः श्लोकैश्च धर्मदैः ॥१५॥
 विरक्तो नित्यकामिन्या कामुकोऽकामुको महान् । सस्पृहो नि स्पृहो लोके परात्मान्यश्च यः सक ॥१६॥
 (प्रहेलिका)
 दृश्योऽदृश्यश्चिद्भूष प्रकृत्या निर्मलोऽन्यथ । हन्ता देहविधेर्देवोना यः क्व वर्ततेऽद्य स ॥१७॥
 (प्रहेलिका)
 असख्यन्सुराराध्यो दृश्योऽत्र त्रिजगद्गुरु । जयतात्ते सुतोऽनेकैर्गुणैः सारैश्च सुन्दरि ॥१८॥
 (निरोष्ठचम्)
 नित्यस्त्रीरागरक्तो यस्त्यक्तान्यस्त्रीसुखाशय । सूनुस्ते जगता नाथो नो रक्षतु गुणाकर ॥१९॥
 (निरोष्ठचम्)
 हरहर्यादिविशेषा मनोऽम्ब त्रिजगत्पते । गर्भाधानेन दिव्येन जगत्कल्याणकारिणि ॥२०॥
 (क्रियागोपितम्)
 भटाद्यभूतनाथाना तीर्थता तीर्थधारिणे । धर्मतीर्थकरोत्पत्ते स्वस्य गर्भाज्जगद्धिते ॥२१॥
 (क्रियागोपितम्)
 हितकृत्क इहामुत्र देवि योऽनन्तशर्मणे । त्रिजगद्धितकर्त्रोश्च कर्ता चिद्धर्मतीर्थयो ॥२२॥

थीं ॥१२॥ इस प्रकार उन दिक्कुमारी देवियोके द्वारा विधिपूर्वक उपासना की गयी सती जिन-माताने उनके प्रभावसे व्याप्त होकर अनुपम शोभाको धारण किया ॥१३॥

अथानन्तर नवम मासके समीप आनेपर महागुणशालिनी, बुद्धि प्रकर्षधारिणी उस गर्भवती माताका मन देवियोने गूढ अर्थ और गूढ क्रियापदवाले नाना प्रकारके मनोहर प्रश्नोसे, प्रहेलिका (पहेलियाँ) पूछकर, निरोष्ठय (ओठसे नहीं बोले जानेवाले वर्णोंसे युक्त) काव्य, और वामिक श्लोकोके द्वारा इस प्रकारसे रजायमान करना प्रारम्भ किया ॥१४-१५॥ देवियोने पूछा—हे माता, बताओ—नित्य ही कामिनी जनोमे आसक्त होकरके भी विरक्त है, कामुक होकरके भी अकामुक है और इच्छा-सहित होकर भी इच्छा रहित है ? ऐसा लोक-मे कौन श्रेष्ठ आत्मा है ? माताने उनके इस प्रश्नका उत्तर इस प्रश्नमे पठित 'परात्मा' पदसे दिया । अर्थात् जो परमात्मा होता है, वह मुक्ति स्त्रीमे आसक्त होते हुए भी सासारिक स्त्रियोसे विरक्त रहता है ॥१६॥ पुनः देवियोने पूछा—जो अदृश्य होकरके भी दृश्य है, रत्न त्रयसे भूषित होनेपर भी त्रिशूलधारक नहीं है, प्रकृतिसे निर्मल और अव्यय होनेपर भी देहकी रचनाका नाशक है, परन्तु वह महादेव नहीं है, ऐसा वह जीव अभी कहाँ रहता है ? इसका उत्तर इसी श्लोक-पठित 'देवोना' पदसे माताने दिया । अर्थात् वह देवरूपधारक मनुष्य तीर्थकर है ॥१७॥ हे सुन्दरि, असख्य नर और सुर-आराध्य, दृश्य, त्रिजगद्गुरु अनेक सारवान् गुण-युक्त तेरा पुत्र है । (यह निरोष्ठय काव्य है, क्योंकि इस श्लोकमे ओठसे बोले जानेवाला एक भी शब्द नहीं है) ॥१८॥ जो नित्य-स्त्री-रागरक्त है, अन्य स्त्रीसुखका त्यागी है, ऐसा जगत्का नाथ तेरा गुणाकर सुत हमारी रक्षा करे । (इस पद्यमे भी सभी निरोष्ठय अक्षर है) ॥१९॥ हे जगत्कल्याणकारिणि, मात, त्रिजगत्पतिको अपने दिव्य गर्भमे धारण करनेसे हर, हरि आदि सर्व देवोके मनकी रक्षा करो । (इस श्लोकमे 'अव' क्रिया छिपी होनेसे यह क्रियागुप्त पद्य है) ॥२०॥ हे जगत्-हितकरि, अपने गर्भसे धर्म-तीर्थकरकी उत्पत्ति करनेके कारण तीर्थधारिणी तू देव, विद्याधर और भूमिगोचरी राजाओका तीर्थस्थान बन ॥२१॥ (इस पद्यमे 'अट' यह क्रिया गुप्त है) । (प्रश्न-) हे देवि ! इस लोक और परलोकमे

महागुरुर्गुरुणा को यो गरीयान् जगत्त्रये । सर्वैश्चातिशयैर्दिव्यैर्गुणैरन्तातिगैर्जिनेट् ॥२३॥
 प्रामाण्य सद्ब्रह्म कस्य य सर्वज्ञो जगद्धित । निर्दोषो वीतरागश्च तस्य नान्यस्य जातुचित् ॥२४॥
 पीयूषमिव किं पेय जन्ममृत्युविषापहम् । जिनेन्द्रास्योद्भव ज्ञानामृत दुश्चिद्विष न च ॥२५॥
 किं ध्येय धीमता लोके ध्यान च परमेष्ठिनाम् । जिनागम स्वतत्त्व वा धर्मशुक्ल न चापरम् ॥२६॥
 त्वरित करणीय किं येन नश्यति ससृति । अनन्ता दृष्टिचिद्वृत्तयमादि तन्न चापरम् ॥२७॥
 सहगामी सता कोऽत्र धर्मबन्धुर्दयामय । सर्वत्रापदि सत्राता पापारिरपि नापर ॥२८॥
 धर्मस्य कानि कर्तृणि तपो रत्नत्रयाणि च । व्रतशीलानि सर्वाणि क्षमादिलक्षणान्यपि ॥२९॥
 धर्मस्य किं फल लोके या विश्वेन्द्रविभूतय । सत्सुख श्रीजिनादीना तत्सर्वं तत्फल परम् ॥३०॥
 लक्षण कीदृश धमिणामत्र शान्तता परा । निरहकारता शुद्धक्रिया तत्परतानिदम् ॥३१॥
 कानि पापस्य कर्तृणि मिथ्यात्वादीनि खानि च । कोपादीनि कुसगानि षोढानायतनान्यपि ॥३२॥
 पापस्य किं फल यच्चात्मनोऽत्र दुःखकारणम् । दुर्गतौ क्लेशरोगादिनिन्द्य सर्वं हि तत्फलम् ॥३३॥
 पापिना लक्षण कीदृग्विष तीव्रकषायता । परनिन्दात्मशसादिरौद्रत्वादीनि तत्परम् ॥३४॥
 को लोभी सर्वदा योऽत्रैक धर्मं भजते सुधी । मुमुक्षुर्विमलाचरैस्तपोयोगैश्च दुःकरै ॥३५॥

जीवोका हित करनेवाला कौन है ? (उत्तर-) जो चेतन-धर्म तीर्थका कर्ता है, वही अनन्त सुखके लिए तीन जगत्का हित करनेवाला है ॥२२॥ (प्रश्न-) गुरुओमे सबसे महान् गुरु कौन है ? (उत्तर-) जो सर्व दिव्य अतिशयोसे अनन्त गुणोसे गरिष्ठ है, ऐसे जिनराज ही महान् गुरु है ॥२३॥ (प्रश्न-) इस लोकमे किसके वचन प्रामाणिक है ? (उत्तर-) जो सर्वज्ञ, जगत्-हितैषी, निर्दोष और वीतराग है, उसके ही वचन प्रामाणिक है, अन्य किसी के नहीं है ॥२४॥ (प्रश्न-) जन्म-मरणरूप विषको दूर करनेवाली, अमृतके समान पीने योग्य क्या वस्तु है ? (उत्तर-) जिनेन्द्रदेवके मुखसे उत्पन्न हुआ ज्ञानामृत ही पीनेके योग्य है । मिथ्याज्ञानियोके विषरूप वचन नहीं ॥२५॥ (प्रश्न-) इस लोकमे बुद्धिमानोको किसका ध्यान करना चाहिए ? (उत्तर-) पंच परमेष्ठियोका, जिनागमका, आत्मतत्त्वका और धर्मशुक्लरूप ध्यानोका ध्यान करना चाहिए । अन्य किसीका नहीं ॥२६॥ (प्रश्न-) शीघ्र क्या काम करना चाहिए ? (उत्तर-) जिससे ससारका नाश हो, ऐसे अनन्त दर्शन, ज्ञान, चारित्रके पालनेका काम करना चाहिए, अन्य काम नहीं ॥२७॥ (प्रश्न-) इस ससारमे सज्जनोके साथ जानेवाला कौन है ? (उत्तर-) पापका नाशक, सर्वत्र आपदाओमे रक्षक ऐसा दयामयी धर्म बन्धु ही साथ जानेवाला है, अन्य कोई नहीं ॥२८॥ (प्रश्न-) धर्मके करनेवाले कौन है ? (उत्तर-) तप, रत्नत्रय, व्रत, शील और क्षमादि लक्षणवाले सर्व कार्य धर्मके करनेवाले है ॥२९॥ (प्रश्न-) इस लोकमे धर्मका क्या फल है ? (उत्तर-) समस्त इन्द्रोकी विभूति, तीर्थकरादिकी लक्ष्मी और उत्तम सुखकी प्राप्ति ही धर्मका उत्तम फल है ॥३०॥ (प्रश्न-) धर्मात्माओका क्या लक्षण है ? (उत्तर-) उत्तम शान्त और अहकार-रहित स्वभाव होना, तथा शुद्ध क्रियाओके आचरणमे नित्य तत्पर रहना ये धर्मात्माके लक्षण है ॥३१॥ (प्रश्न-) कौनसे कार्य पापके करनेवाले है ? (उत्तर-) मिथ्यात्व आदिक, पंच इन्द्रियाँ, क्रोधादि कषाय, कुसग और लह अनायतन ये सब पापके करनेवाले है ॥३२॥ (प्रश्न-) पापका क्या फल है ? (उत्तर-) अप्रिय और दुखके कारण मिलाना, दुर्गतिमे रोग-क्लेशादि भोगना और निन्द्य पर्याय पाना ये सर्व ही पापके फल है ॥३३॥ (प्रश्न-) पापियोके लक्षण किस प्रकारके है ? (उत्तर-) तीव्र कषायी होना, पर-निन्दा और अपनी प्रशंसा करना, रौद्र कार्य करना इत्यादि पापियोके लक्षण है ॥३४॥ (प्रश्न-) महालोभी कौन है ? (उत्तर-) जो बुद्धिमान् ससारमे सदा एकमात्र धर्मका ही सेवन करता है, और

विवेकी कोऽत्र यो वेत्ति विचार निस्तुष हृदि । देवशास्त्रगुरुणा च धर्मादीना न चापर ॥३६॥
 को धर्मी यो युत सारै क्षमाद्यैर्दशलक्षणै । जिनाज्ञापालको धोमान् व्रती ज्ञानी न चापर ॥३७॥
 किममुत्र सुपाथेय यत्पुण्य निर्मल कृतम् । दानपूजोपवासाद्यैर्व्रतशीलयमादिभि ॥३८॥
 सफल जन्म कस्येह येनासा बोधिरुत्तमा । मुक्तिश्रीसुखमाता च तस्य नान्यस्य जातुचित् ॥३९॥
 क सुखी जगता मध्ये य सर्वोपधिवर्जित । ज्ञानध्यानामृतस्वादी वनवासी न चापर ॥४०॥
 चिन्ता कात्र विधेयाहो कर्माारीणा विघातने । साधने मुक्तिलक्ष्म्याश्च नान्यत्र खादिशर्मणि ॥४१॥
 क विधेयो महान् यत्न पालने शिवदायिनाम् । रत्नत्रयतपोयोगज्ञानादीना न सपदाम् ॥४२॥
 क सुहृत्परम पुसा यो बलाकारयेद् वृषम् । तपो दान व्रतादीनि दुराचार निवार्य च ॥४३॥
 क शत्रुविषयो योऽत्र तपोदीक्षान्नतादिकान् । हितान् ददाति न दातु स शत्रु स्वान्ययो कुधी ॥४४॥
 किं श्लाघ्य यन्महद्दान सुक्षेत्रेऽल्पधनान्वितै । तपो वा दुर्बलाङ्गैर्यत् क्रियतेऽनघमूर्जितम् ॥४५॥
 त्वत्समा का महादेवी महादेव जगद्गुरुम् । सूते या धर्मकर्तार मत्समा सा न चापरा ॥४६॥
 किं पाण्डित्य श्रुत ज्ञात्वा यद्दुराचारदुर्मदम् । मनाग् न क्रियतेऽन्यद्वा पापहेतुक्रियादिकम् ॥४७॥
 किं मूर्खत्व परिज्ञाय यज्ज्ञान हितकारणम् । तपो धर्मक्रियाचार नि पाप न विधीयते ॥४८॥

निर्मल आचरणोसे तथा दुष्कर तपोयोगोसे मोक्षकी इच्छा करता है, वही महालोभी है ॥३५॥ (प्रश्न-) इस लोकमे विवेकी पुरुष कौन है ? (उत्तर-) जो मनमे देवशास्त्र गुरुका और धर्मादिकका निर्दोष विचार करता है, वह विवेकी है । अन्य कोई नहीं ॥३६॥ (प्रश्न-) धर्मात्मा कौन है ? (उत्तर-) जो सारभूत उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्मसे सयुक्त है, जिन-आज्ञाका पालक है, बुद्धिमान्, व्रती और ज्ञानी है, वही धर्मात्मा है । अन्य कोई नहीं ॥३७॥ (प्रश्न-) परलोकमे जाते समय उत्तम पाथेय (मार्गका भोजन) क्या है ? (उत्तर-) दान, पूजा, उपवासादिसे, तथा व्रत, शील सयमादिसे उपार्जित निर्मल पुण्य ही परलोकका उत्तम पाथेय है ॥३८॥ (प्रश्न-) इस ससारमे किसका जन्म सफल है ? (उत्तर-) जिसने मुक्ति-श्रीकी सुखमयी मातास्वरूप उत्तम बोधि प्राप्त (भेदज्ञान) कर ली है, उसीका जन्म सफल है, अन्य किसीका नहीं ॥३९॥ (प्रश्न-) जगत्मे सुखी कौन है ? (उत्तर-) जो सर्व परिग्रहसे रहित है, ज्ञान और ध्यान रूप अमृतका आस्वादन करनेवाला है, ऐसा वनवासी साधु ससारमे सुखी है और कोई सुखी नहीं ॥४०॥ (प्रश्न-) ससारमे चिन्ता किस वस्तुकी करना चाहिए ? (उत्तर-) कर्म-शत्रुओके विघात करनेमे, और मुक्ति लक्ष्मीके साधनमे चिन्ता करना चाहिए । इन्द्रियादिके सुखमे नहीं ॥४१॥ (प्रश्न-) महान् प्रयत्न कहाँ करना चाहिए ? (उत्तर-) शिव देनेवाले रत्नत्रयधर्ममे, तपःसाधनमे और ज्ञानादिकी प्राप्तिमे प्रयत्न करना चाहिए । सासारिक सम्पदाओके पानेमे नहीं ॥४२॥ (प्रश्न-) मनुष्योका परम मित्र कौन है ? (उत्तर-) जो आग्रहपूर्वक धर्मको, तप, दान और व्रतादिको करावे और दुराचारको छुडावे ॥४३॥ (प्रश्न-) ससारमे विषम शत्रु कौन है ? (उत्तर-) जो आत्म-हितकारक तप, दीक्षा और व्रतादिको ग्रहण न करने देवे, वह कुबुद्धि अपना और दूसरोका परम शत्रु है ॥४४॥ (प्रश्न-) प्रशसा करनेके योग्य क्या कार्य है ? (उत्तर-) जो अल्प धनसे युक्त होनेपर भी उत्तम क्षेत्रमे महान् दान दे और दुर्बल अग होनेपर भी निर्दोष उत्तम तपश्चरण करे, उसके ये दोनो कार्य प्रशसनीय है ॥४५॥ (प्रश्न-) तुम्हारे समान और दूसरी महादेवी कौन है ? (उत्तर-) जो जगत्के गुरु और धर्मके कर्ता महान् देवको उत्पन्न करती है, वह मेरे समान है, दूसरी कोई नहीं है, ॥४६॥ (प्रश्न-) पाण्डित्य क्या है ? (उत्तर-) जो शास्त्रोको जानकर जरा-सा भी दुराचरण और दुरभिमान नहीं करता, तथा पापकी कारणभूत अन्य क्रियादिको नहीं करना ही पाण्डित्य है ॥४७॥ (प्रश्न-) मूर्खता क्या है ? (उत्तर-)

के चौरा दुर्धरा पुसा धर्मरत्नापहारिण । पञ्चाक्षा पापकर्तार सर्वानर्थविधायिन ॥४९॥
 के शूरा ये जयन्त्यत्र परीषहमहाभटान् । धैर्यासिना कषायारीन् स्मरमोहादिशात्रवान् ॥५०॥
 को देवोऽखिलवेत्ता यो दोषाष्टादशदूरग । अनन्तगुणवाराशिर्धर्मकर्ता परो न च ॥५१॥
 को महान् गुरुरेवात्र यो द्विधा सङ्गवर्जित । जगद्भव्यहितोद्युक्तो मुमुक्षुर्नापर क्वचित् ॥५२॥
 इति तामि प्रयुक्ताना प्रश्नाना शुभकारिणाम् । सर्वविद्गर्भमाहात्म्यादुत्तर सा स्फुट ददौ ॥५३॥
 निसर्गेणामला बुद्धिर्विज्ञानेऽस्यास्तरामभूत् । त्रिज्ञानभास्वर देवमुद्बहन्त्या निजोदरे ॥५४॥
 सुतोऽस्या उदरस्थोऽपि नाजीजनन्मनाग् व्यथाम् । शुक्तिस्थो जलबिन्दु कि विक्रिया याति जातुचित् ॥५५॥
 त्रिबलीभङ्गुर देव्यास्तथैवास्थात्तनूदरम् । तथापि ववृधे गर्भस्तत्प्रभावो महात्मन ॥५६॥
 साभात्पुरुषरत्नेन तेन गर्भस्थितेन भो । रत्नगर्भा धरेवान्या महती कान्तिसश्रिता ॥५७॥
 शक्रेण प्रहितेन्द्राणी ह्यप्सरोभि सम मुदा । सिषेवे यदि ता देवी तस्या का वर्णना परा ॥५८॥
 इत्याद्यै परमोत्साहैर्महोत्सवशतै परै । नवमे मासि सपूर्णै चैत्रे मासि शुभोदये ॥५९॥
 त्रयोदशीदिने शुक्ले योगेऽर्यमणि नामनि । शुभे लग्नादिके देवी सुखेन सुषुवे सुतम् ॥६०॥
 लसत्कान्तिहतध्वान्त दिव्यदेह जगद्धितम् । त्रिज्ञानभूषित दीप्र धर्मचित्तीर्थकारकम् ॥६१॥
 तदास्य जन्ममाहात्म्यात्प्रापुर्निर्मलता दिश । नभसामाववौ वायु सुगान्बि शिशिर शनै ॥६२॥

हितकारक ज्ञानको पा करके भी निष्पाप धर्म, क्रिया और आचारको नहीं करना ही मूर्खता है ॥४८॥ (प्रश्न-) दुर्धर चोर कौनसे है ? (उत्तर-) जीवोके धर्मरूप रत्नके चुरानेवाले, पाप-कारक, और सर्व अनर्थ विधायक इन्द्रिय-विषय ही दुर्धर चोर हैं ॥४९॥ (प्रश्न-) इस जगत्में शूर-वीर कौन है ? (उत्तर-) जो धैर्यरूपी तलवारके द्वारा परीषह रूपी महान् सुभटोको, कषायरूप अरियोको और काल-मोहादि शत्रुओको जीतते है, वे ही पुरुष शूरवीर हैं ॥५०॥ (प्रश्न-) देव कौन है ? (उत्तर-) जो सर्व वस्तुओका ज्ञाता है, अठारह दोषोसे रहित है, अनन्त गुणोका सागर है और धर्म तीर्थका कर्ता है, वही देव है । दूसरा नहीं ॥५१॥ (प्रश्न-) महान् गुरु कौन है ? (उत्तर-) जो अन्तरग-बहिरग दोनो प्रकारके परिग्रहसे रहित है, जगत्के भव्य जीवोके हित करनेमें उद्यत है, और मोक्षका इच्छुक है, वही सच्चचा गुरु है और कोई नहीं ॥५२॥ इस प्रकारसे उन देवियोके द्वारा पूछे गये शुभ-कारक प्रश्नोका उत्तम स्पष्ट उत्तर सर्ववेत्ता गर्भस्थ तीर्थकारके माहात्म्यसे उस माताने दिया ॥५३॥

यद्यपि माता प्रियकारिणी स्वभावसे ही निर्मल बुद्धिवाली थी, तो भी अपने उदरमें त्रिज्ञानी सूर्यरूप जिनदेवको धारण करनेसे विशिष्ट ज्ञानमें उसकी बुद्धि और भी अधिक निपुण हो गयी ॥५४॥ गर्भस्थ पुत्रने अपनी माताको जरा सी भी पीडा नहीं दी । शुक्तिके भीतर स्थित जलबिन्दु क्या कभी कुछ विकार करता है ? नहीं करता ॥५५॥ माताका त्रिबलीसे सुन्दर कृश उदर ज्योका त्यो रहा और गर्भ बढ़ता रहा । यह प्रभाव गर्भस्थ महान् आत्माका था ॥५६॥ गर्भमें स्थित उस पुरुषरत्नसे वह माता इस प्रकारसे शोभाको प्राप्त हुई, जैसे कि महाकान्तिसे युक्त दूसरी रत्नगर्भा पृथ्वी ही हो ॥५७॥ यदि शक्रेन्द्रके द्वारा भेजी गयी इन्द्राणी अप्सराओके साथ हर्षसे उस प्रियकारिणी देवीकी सेवा करती थी, तो उसकी महिमाका और अधिक क्या वर्णन किया जा सकता है ॥५८॥

इस प्रकारके परम उत्साह-पूर्ण सैकड़ो महोत्सवोके साथ गर्भकालके नौ मास पूर्ण होनेपर चैत्र मासके शुभोदयवाले शुक्ल पक्षमें त्रयोदशीके दिन 'अर्यमा' नामक योगमें शुभ लग्नादिके समय सुखसे पुत्रको पैदा किया ॥५९-६०॥ वह पुत्र प्रकाशमान शरीरकी कान्तिसे अन्धकारको नाश करनेवाला, दिव्य देहका धारक, जगत्-हितैषी, तीन ज्ञानसे भूषित देदीप्यमान और धर्मतीर्थका कर्ता था ॥६१॥ उस समय इस पुत्रके जन्म होनेके माहात्म्यसे सर्व

अम्भानकुसुमैर्दृष्टि प्रचक्रु सुरभूरुहा । चतुर्णिकायदेवेशामासनानि च रुम्पिरे ॥६३॥
 अनाहता पृथुध्वाना घण्टादिप्रमुखानका । दध्वनुर्नाकिना लोके वदन्तीव जिनोत्सवम् ॥६४॥
 सिंहशङ्खमहाभेरीरवा आसन् स्वय तदा । सहान्यै सकलाश्चर्यैर्निकायत्रितये परे ॥६५॥
 चिह्नैस्तै सामरा शक्रा ज्ञात्वा जन्मजिनेशिन । तत्कल्याणे मतिं चक्रु सौधर्मैन्द्रादयोऽखिला ॥६६॥
 तदैवेन्द्राज्ञया देवघृतना निर्ययुर्दिव । महाध्वाना क्रमेणैव महाब्धेरिव वीचय ॥६७॥
 हस्तिनोऽश्वा रथा गन्धर्वा नर्तक्य पदातय । वृषभा इति देवेशा सप्तानीकानि निर्ययु ॥६८॥
 अथ सौधर्मकल्पेश आरुह्य देवदन्तिनम् । ऐरावत सहेन्द्राण्या प्रतस्थे निर्जैरैवृत ॥६९॥
 तत सामानिकाद्या हि नि शेषा नाकिनो मुदा । स्वस्वभूत्या श्रिता धर्मोद्यतास्त परिवत्रिरे ॥७०॥
 दुन्दुभीना महाध्वानैर्देवाना जयघोषणै । तदाभवन्महाध्वान सप्तानीकेषु विस्फुरन् ॥७१॥
 केचिद्धसन्ति बलान्ति नृत्यन्त्यास्फोटयन्ति च । पुरो धावन्ति गायन्ति तत्र देवा प्रमोदिन ॥७२॥
 तत खाङ्गणमारुध्य स्वै स्वैश्चर्यैर्ध्वजोत्करै । विमानैर्वाहनैर्वाद्यैरवतीर्थ महीतलम् ॥७३॥
 विभूत्या परया सार्धं क्रमात्कुण्डपुर परम् । चतुर्णिकायदेवेशा प्रापुर्नवियङ्गनावृता ॥७४॥
 तदा मध्योर्ध्वभागेन परितस्तःपुर सुरै । देवीभिरभवद्बुद्ध शक्राद्यैश्च नृपाङ्गणम् ॥७५॥
 तत शची प्रविश्याञ्च प्रमवागारमूर्जितम् । दिव्यदेहकुमारेण सार्धं वीक्ष्य जिनाम्बिकाम् ॥७६॥
 सुदु प्रदक्षिणीकृत्य मूर्ध्ना नत्वा जगद्गुरुम् । जिनमातु पुर स्थित्वा श्लाघते स्मेति ता गुणै ॥७७॥

दिशाएँ निर्मल हो गयी और आकाशमे मन्द सुगन्धित पवन चलने लगा ॥६२॥ स्वर्गके कल्प-
 बुक्षोने खिले हुए फूलोकी वर्षा की, और चारो जातिके देवेन्द्रोके आसन काँपने लगे ॥६३॥
 स्वर्गलोकमे विना बजाये ही गम्भीर ध्वनि करनेवाले घण्टा आदि प्रमुख बाजे बजने लगे,
 मानो वे प्रभुके जन्मोत्सवकी ही बाट जोह रहे हो ॥६४॥ शेष तीन जातिके देवोके यहाँ
 सिंह, शख और भेरीके शब्द उस समय अपने आप ही अन्य आश्चर्योके साथ होने लगे
 ॥६५॥ इन सब चिह्नोसे देवोके साथ इन्द्रोने तीर्थकर देवका जन्म जानकर सब देवोने
 भगवान्के जन्मकल्याणक करनेका विचार किया ॥६६॥ तभी इन्द्रकी आज्ञासे देव-सेना
 महाध्वनि करती हुई महासमुद्रकी तरगोके समान क्रमशः स्वर्गसे निकली ॥६७॥ हाथी,
 घोडे, रथ, गन्धर्व, नर्तकी, पयादे और बैल यह सात प्रकारकी देवोकी सेना निकली ॥६८॥
 तभी सौधर्म स्वर्गका स्वामी ऐरावत नामके देव गजराजपर इन्द्राणीके साथ बैठकर देवोसे
 घिरा हुआ स्वर्गसे चला ॥६९॥

तत्पश्चात् सामानिक आदि समस्त देवगण अपनी-अपनी विभूतिके साथ धर्ममे
 उद्यत होकर और इन्द्रको घेरकर चले ॥७०॥ उस समय दुन्दुभियोकी महाध्वनिसे तथा
 देवोके जय जयकारसे सातो प्रकारकी सेनाओमे फैलता हुआ महान् शब्द हुआ ॥७१॥ उस
 समय हषित होते हुए कितने ही देव हँस रहे थे, कितने ही कूद रहे थे, कितने ही नाच रहे
 थे, कितने ही हाथोसे तालियाँ बजा रहे थे, कितने ही आगे दौड रहे थे और कितने ही देव
 गा रहे थे ॥७२॥ तब वे देव अपने-अपने छत्रोसे, ध्वजाओके समूहोसे, विमानोसे, वाहनोसे
 और बाजोसे गगनागणको व्याप्त करते हुए भूतलपर उतरे और परम विभूतिके साथ अपनी-
 अपनी देवागनाओसे घिरे हुए वे चतुर्णिकायके देवेन्द्र क्रमसे उस उत्तम कुण्डपुर पहुँचे
 ॥७३-७४॥ उस समय नगरका मध्य और ऊर्ध्व भाग देव देवियोके द्वारा सर्व ओरसे घिर
 गया, तथा शक्र आदि इन्द्रोके द्वारा राजाका आँगन व्याप्त हो गया ॥७५॥

तत्पश्चात् शची शीघ्र प्रकाशमान प्रसूतिगृहमे प्रवेश करके, दिव्य देहके धारक बालक-
 के साथ जिन माताको देखकर, बार-बार उनकी प्रदक्षिणा करके मस्तकसे जगद्गुरुको
 नमस्कार करके और जिनमाताके आगे खडी होकर गुणोके द्वारा उनकी इस प्रकार स्तुति

त्व देवि भुवनाम्बासि जननास्त्रिजगत्पते । महादेवी त्वमेवासि महादेवाङ्गजोद्भवात् ॥७८॥
 त्वयाद्य सार्थक नाम कृत हे प्रियकारिणि । स्वस्य विश्वप्रियोत्पत्तेस्ततोऽन्या स्त्री न ते समा ॥७९॥
 इत्यभिस्तुत्य गूढाङ्गी ता मायानिद्रयान्विताम् । कृत्वा मायामय बाल निधाय तत्पुरोऽपरम् ॥८०॥
 स्वकराभ्या मुदादाय दीप्त्या द्योतितदिङ्मुखम् । जिन स्रस्पर्श्य तद्गात्रमाग्राय तन्मुख मुहु ॥८१॥
 भेजे सा परमा प्रीतिं महती रूपसपदाम् । निरुन्मेषतया दिव्यरूपोत्थाना विलोकनात् ॥८२॥
 ततोऽसौ बालसूर्येण ब्रजन्ती तेन खे बभौ । तदङ्गकान्तितेजोभि प्राचीव भानुना समम् ॥८३॥
 छत्र ध्वज सुभृङ्गार कलश सुप्रतिष्ठकम् । चामर दर्पण तालमित्यादाय स्वपाणिभि ॥८४॥
 अष्टौ मङ्गलवस्तूनि जगन्मङ्गलकारिण । तदा मङ्गलधारिण्य दिक्कुमार्य पुरो ययु ॥८५॥
 ततो मुदा समानीय जगदानन्दवर्तिनम् । इन्द्राणी देवराजस्य व्यधात् करतले जिनम् ॥८६॥
 तन्महारूपसौन्दर्यकान्तिलक्षणदर्शनात् । प्रमोद परम प्राप्य स जिन स्तोतुमुद्ययौ ॥८७॥
 त्व देव परमानन्द कर्तुमस्माकमुद्गात । विश्वान् दर्शयितु लोके पदार्थान् बालचन्द्रवत् ॥८८॥
 त्व ज्ञानिन् जगता नाथो महता त्व महागुरु । पतिर्जगत्पतीना त्व धाता चिद्धर्मतीर्थयो ॥८९॥
 आमनन्ति मुनीन्द्रास्त्वा केवलनेोदयाचलम् । त्रातार भव्यजीवाना भर्तार मुक्तिसस्त्रिय ॥९०॥
 मिथ्याज्ञानान्धकूपेऽस्मिन् पततो भव्यदेहिनि । धर्महस्तावलम्बेन बहूस्त्वमुद्धरिष्यसि ॥९१॥
 सुधियोऽत्र भवद्वाण्या हत्वा मोहादिदुर्विधीन् । यास्यन्ति परम स्थान केऽपि स्वर्गादि चापरम् ॥९२॥

करने लगी ॥७६-७७॥ हे देवि, त्रिजगत्पतिको जन्म देनेसे तुम सर्व लोककी माता हो, महादेव स्वरूप पुत्रके उत्पन्न करनेसे तुम ही महादेवी हो, ससारके प्रिय पुत्रकी उत्पत्तिसे तुमने अपना 'प्रियकारिणी' यह नाम आज सार्थक कर दिया है, ससारमे तुम्हारे समान और कोई स्त्री नहीं है ॥७८-७९॥

इस प्रकारसे जिनमाताकी स्तुति कर गुप्त देहवाली उस इन्द्राणीने उन्हें माया-रूप निद्रासे युक्त करके और उनके समीप दूसरा मायामयी बालक रखकर, अपनी कान्तिसे दशो दिशाओको प्रकाशित करनेवाले बालजिनेन्द्रको हर्षके साथ दोनो हाथोंसे उठाकर, उनके शरीरका आलिंगन कर और बार-बार मुख चुम्बन कर, दिव्यरूप-जनित अलौकिक रूप सम्पदाको निर्निमेष दृष्टिसे देखती वह परम प्रीतिको प्राप्त हुई ॥८०-८२॥ उस समय वह इन्द्राणी भगवान्के शरीरकी कान्ति और तेजसे युक्त बालसूर्यके साथ आकाशमे जाती हुई इस प्रकारसे शोभाको प्राप्त हुई, जैसे कि उदित होते हुए सूर्यके साथ पूर्व दिशा शोभती है ॥८३॥ उस समय जगत्मे मगल करनेवाली दिक्कुमारी देवियाँ छत्र, ध्वजा, भृङ्गार, कलश, सुप्रतिष्ठक (स्वस्तिक), चमर, दर्पण और ताल (पखा) इन आठ मगल वस्तुओको अपने हाथोंमे लेकर इन्द्राणीके आगे चली ॥८४-८५॥ इस प्रकार ससारमे आनन्द करनेवाले बाल जिनको लाकर इन्द्राणीने हर्षके साथ देवेन्द्रके करतलमे दिया ॥८६॥ उन बाल जिनके रूप, सौन्दर्य, कान्ति और शुभ लक्षणोंके देखनेसे परम प्रमोदको प्राप्त होकर वह जिनदेवकी स्तुति करनेके लिए उद्यत हुआ ॥८७॥

हे देव, तुम हमारे परम आनन्दको करनेके लिए तथा लोकमे सर्व पदार्थोंको दिखाने के लिए बालचन्द्रके समान उदित हुए हो ॥८८॥ हे ज्ञानवान्, तुम जगत्के नाथ हो, महा-पुरुषोंके भी महान् गुरु हो, जगत्पतियोंके भी पति हो, और धर्मतीर्थके विधाता हो ॥८९॥ हे देव, मुनीन्द्रगण आपको केवलज्ञानरूप सूर्यका उदयाचल, भव्यजीवोका रक्षक और मुक्ति रमाका भर्तार मानते हैं ॥९०॥ इस मिथ्याज्ञानरूप अन्ध कूपमे पड़े हुए बहुतसे भव्य जीवोंको धर्मरूप हस्तावलम्बन देकरके आप उनका उद्धार करोगे ॥९१॥ इस ससारमे कितने ही बुद्धिमान् लोग आपकी दिव्यवाणीसे अपने मोहादि कर्म शत्रुओका नाशकर मोक्षरूप परम

अद्य प्रवर्तते देव ह्यानन्द परम सताम् । त्रिलोके धर्महेतुर्नोऽभवत्तीर्थकरोदयात् ॥९३॥
 भतो देव वय कुर्म शिरसा ते नमस्क्रियाम् । सेवा भक्ति मुदाज्ञा च दध्मो नान्यस्य जातुचित् ॥९४॥
 स्तुत्वेति त जगन्नाथ स्वाङ्गमारोप्य देवराट् । हस्तमुच्चालयामास मेरु गन्तु गजाश्रित ॥९५॥
 जय नन्देश वर्धस्व त्वमित्योच्चैर्ध्वनिव्रजै । सुरा कलकल चक्रुस्तदा व्यास दिगन्तरम् ॥९६॥
 अथोत्पेतुर्नभोभाग प्रोच्चरज्जयघोषणा । नाकिनोऽभासुरेन्द्रेण प्रमोदाङ्कितविग्रहा ॥९७॥
 तदाकाशे नटन्ति स्म लीलयाप्सरस पुर । विभोर्ब्रजन्य एवात्र हर्षास्त्यत्रिकै समम् ॥९८॥
 जन्माभिषेकसबन्धिचारुगीतान्यनेकश । दिव्यकण्ठा हि गन्धर्वा गायन्ति सह वीणया ॥९९॥
 कुर्वन्ति विविधान् नानान् देवदुन्दुभयोऽद्भुतान् । मधुरान् सुरदो स्पर्शाद् बधिरौकृतदिङ्मुखान् ॥१००॥
 किन्नर्य किन्नरै सार्धं गीत गान मनोहरम् । पूर्णं जिनगुणै सारै कर्तुमारोभिरे मुदा ॥१०१॥
 वपुर्भगवतो दिव्य पश्यन्त स्वाङ्गनान्विता । तदानिमेषनेत्राणा फल प्रापु सुरासुरा ॥१०२॥
 सौधर्माविषेकसमध्यासीनस्य सद्गुरो । शिरसीन्दुसम छत्रमैशानेन्द्र स्वय दधे ॥१०३॥
 सनत्कुमारमाहेन्द्रौ चामरोत्क्षेपणैर्मुदा । क्षीराब्धिबीचिसादृश्यैर्भजतो धर्मनायकम् ॥१०४॥
 तदातनी परा भूति वीक्ष्य केचिज्जिनेशन । शक्रप्रामाण्यमाश्रित्य स्वीचक्रुर्दर्शन हृदि ॥१०५॥
 ज्योतिष्पटलमुल्लङ्घ्य प्रययुर्देवनायका । तन्वन्तश्चेन्द्रचापानि खेड्गभूषणरश्मिभि ॥१०६॥
 क्रमात्प्रापु सुराधीशा महोत्सवशतै परै । विभूत्यामा महत्या च महामेरु महोन्नतम् ॥१०७॥

स्थानको प्राप्त करेगे और कितने ही स्वर्गादिको जायेगे ॥९२॥ हे देव, आप तीर्थकरके उदय होनेसे तीन लोकमे सन्तजनोको आज परम आनन्द हो रहा है, क्योंकि आप धर्म-प्रवृत्तिके कारण है ॥९३॥ अतएव हे देव, हम मस्तक नमाकर आपको नमस्कार करते हैं और हर्षसे आपकी सेवा, भक्ति एव आज्ञाको धारण करते हैं। हम अन्य देवकी सेवा-भक्ति कभी नहीं करते हैं ॥९४॥ इस प्रकार वह देवेन्द्र स्तुति करके हाथीपर बैठकर और उस जगन्नाथको अपनी गोदमे विराजमान कर सुमेरुपर चलनेके लिए अपना हाथ ऊपर उठाकर धुमाया ॥९५॥ उस समय सब देवोंने 'हे प्रभो, आपकी जय हो, आप आनन्दको प्राप्त हो, वृद्धिको प्राप्त हो' इस प्रकार उच्चस्वरसे जय जयनाद किया। उनकी इस कलकल ध्वनिसे सर्व दिशाओके अन्तराल व्याप्त हो गये ॥९६॥

अथानन्तर प्रमोदसे व्याप्त शरीरवाले वे देव जय-जय शब्द उच्चारण करते हुए इन्द्रके साथ आकाशकी ओर उड़ चले ॥९७॥ उस समय अत्यन्त हर्षको प्राप्त अप्सराएँ तीन प्रकारके बाजोके साथ लीलापूर्वक आकाशमे प्रभुके आगे गमन करती हुई ही नाच कर रही थी ॥९८॥ दिव्य कण्ठवाले गन्धर्व देव अपनी वीणाके साथ जन्माभिषेक सम्बन्धी सुन्दर गीत अनेक प्रकारसे गा रहे थे ॥९९॥ उस समय देव-दुन्दुभियों स्वर्गलोकके स्पर्शसे सर्व दिशाओको बधिर करनेवाले मधुर, अद्भुत नाना प्रकारके शब्दोको करने लगीं ॥ किन्नरोके साथ किन्नरी देवियोंने हर्षसे सारभूत जिनेन्द्र-गुणोसे परिपूर्ण मनोहर गीतोका गाना प्रारम्भ किया ॥१००-१०१॥ उस समय सुर और असुरोंने अपनी-अपनी देवियोंके साथ भगवान्के दिव्य रूपवाले शरीरको देखते हुए अनिमेष नेत्रोका फल प्राप्त किया ॥१०२॥ सौधर्म इन्द्रकी गोदमे विराजमान जगद् गुरुके शिरपर चन्द्रके समान शुभ्र छत्रको स्वय ईशानेन्द्रने लगाया ॥१०३॥ सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गके इन्द्र क्षीरसागरकी तरगोके समान उज्ज्वल चमर हर्षसे ढोरते हुए उस धर्मके स्वामीकी सेवा करने लगे ॥१०४॥ उस समयकी जिनेश्वर देवकी परम विभूतिको देखकर कितने ही देवोंने इन्द्रकी प्रमाणताका आश्रय लेकर अपने हृदयमे सम्यग्दर्शनको स्वीकार किया ॥१०५॥ वे देव-नायक ज्योतिष्पटल का उल्लघन कर और अपने शरीरके आभूषणोकी किरणोसे आकाशमे इन्द्रधनुषकी शोभाको

भवेदस्थोन्नतिभूर्भेर्लक्षकमूनमेव च । योजनाना सहस्रेण सहस्र कन्द उन्नत ॥१०८॥
 तस्याद्य भद्रशालाख्य वन भद्र विराजते । चतुर्महाजिनागारैस्त्रिशालध्वजभूषितै ॥१०९॥
 शतैव योजनानामैस्तदर्धविस्तृतै परै । उभयोऽर्धसमुत्तुङ्गै रत्नोपकरणान्वितै ॥११०॥
 गव्यूतिद्विसहस्राणि गत्वा पृथ्व्याश्च सुन्दरम् । एतस्य मेखलाया भ्राजतेऽन्य नन्दन वनम् ॥१११॥
 परिधानमिवानेकपादपै कूटधामभि । स्वर्णरत्नमयैर्दिव्यैश्चतुश्चैत्यालयोत्तमै ॥११२॥
 वै योजनसहस्राणि सार्धद्विषष्टिसख्यया । गत्वापर महद्रम्य भाति सौमनस वनम् ॥११३॥
 तस्यैवेवोपसख्यान सर्वर्तुफलदैर्दुर्मै । अष्टोत्तरशतार्चाद्वैश्चतु श्रीजिनधामभि ॥११४॥
 पुनर्गत्वास्य षट्त्रिंशत्सहस्रयोजनान्यपि । मूर्ध्नि पाण्डुकमेवान्त्य राजते वनसुखणम् ॥११५॥
 शिरोरुहमिवातीव सुन्दर द्रुमसचयै । चतुश्चैत्यालयैस्तुङ्गै शिलासिंहासनादिभि ॥११६॥
 तन्मध्ये चूलिका भाति मुकुटश्रीरिवोजिता । चतु खयोजनोत्सेधा स्वर्गावोवर्तिनी स्थिरा ॥११७॥
 मेरोरीशानदिग्भागे महती पाण्डुकाह्वया । योजनाना शतायामा पञ्चाशद्विस्तृता शिला ॥११८॥
 अष्टोच्छ्रिता पवित्राङ्गा क्षालिता क्षीरवारिभि । अर्धचन्द्रसमाकारा भातीवान्त्याष्टमी धरा ॥११९॥
 छत्रचामरभृङ्गारसुप्रतिष्ठदूर्पणै । कलशध्वजतालैश्च मङ्गलद्रव्यधारणै ॥१२०॥
 वैदूर्यसनिभ तस्या मध्ये सुहरिविष्टरम् । क्रोशपादोच्छ्रित क्रोशपादभूभागविस्तृतम् ॥१२१॥
 तदर्धमुखविस्तार जिनस्नानै पवित्रितम् । राजते मणितेजोभिर्मैरो शृङ्गमिवापरम् ॥१२२॥

विस्तारते, तथा संकडो प्रकारके महोत्सव करते हुए क्रमसे परम विभूतिके साथ महान् उन्नत महामेरुपर पहुँचे ॥१०६-१०७॥ उस सुमेरु पर्वतकी ऊँचाई इस भूमितलसे एक हजार योजन कम एक लाख योजन है । भूमिमे उसका स्कन्द एक हजार योजनका है ॥१०८॥ उस सुमेरुपर्वतके भूमितलपर भद्रशाल नामक प्रथम वन तीन कोट और ध्वजाओसे भूषित चार महान् चैत्यालयोसे शोभायमान है ॥१०९॥ ये चैत्यालय पूर्व-पश्चिम दिशामे एक सौ योजन लम्बे, उत्तर-दक्षिण दिशामे पचास योजन चौड़े और उन दोनोंके आधे अर्थात् पिच-हत्तर योजन ऊँचे है, तथा रत्नोके उपकरणोसे युक्त है ॥११०॥ पृथ्वीसे अर्थात् भद्रशाल वनसे दो हजार कोश अर्थात् पाँच सौ योजन ऊपर जाकर सुमेरुकी प्रथम मेखला (कटनी) पर दूसरा सुन्दर वन है ॥१११॥ यह वन भी अनेक प्रकारके वृक्षोसे, कूट प्रासादोसे, तथा सुवर्ण रत्नमय दिव्य उत्तम चार चैत्यालयोसे शोभित है ॥११२॥ इससे ऊपर साढे बासठ हजार योजन ऊपर जाकर तीसरा महा रमणीक सौमनस नामका वन है । यह भी सर्व ऋतुओके फल देनेवाले वृक्षोसे और एक सौ आठ-आठ प्रतिमाओसे युक्त चार श्रीजिनालयोसे सयुक्त है, शेष कथन नन्दन वनके समान समझना चाहिए ॥११३-११४॥ इससे ऊपर छत्तीस हजार योजन जाकर सुमेरुके मस्तक पर चौथा उत्तम पाण्डुकवन शोभित है ॥११५॥ वह केशोके समान वृक्ष समूहोसे, चार उत्तुग चैत्यालयोसे, पाण्डुकशिला और सिंहासनादिसे अत्यन्त सुन्दर है ॥११६॥ उस पाण्डुक वनके मध्यमे मुकुटश्रीके समान उत्तम चूलिका शोभित है । वह चालीस योजन ऊँची है, स्वर्गके अधोभागको स्पर्श करती है और स्थिर है ॥११७॥ सुमेरुकी ईशान दिशामे एक विशाल पाण्डुक शिला है, जो सौ योजन लम्बी और पचास योजन चौड़ी है, तथा आठ योजन ऊँची है, क्षीरसागरके जलसे प्रक्षालित होनेके कारण पवित्र अगवाली है, अर्ध चन्द्रके समान आकारवाली है, जो कि ईषत्प्राग्भार पृथ्वीके समान शोभती है ॥११८-११९॥ वह छत्र, चामर, भृंगार, स्वस्तिक, दर्पण, कलश, ध्वजा और ताल इन अष्ट मंगल द्रव्योको धारण करती है ॥१२०॥ उस पाण्डुक शिलाके मध्यमे वैदूर्यमणिके समान वर्णवाला सिंहासन है, जो चौथाई कोश ऊँचा, चौथाई कोश लम्बा और उसके आधे प्रमाण चौड़ा है । तीर्थकरोके जन्माभिषेकोसे पवित्र है, मणियोके तेजसे

तस्य दक्षिणदिग्भागेऽस्यन्यसिंहासन महत् । सौधर्मेन्द्रस्य चेशानेन्द्रस्योत्तरदिशि स्फुटम् ॥१२३॥

तस्य मध्यस्थहर्यासनस्योपरि सुरेश्वर । विभूत्या पर्यानीय सुरै सार्धं महोत्सवै ॥१२४॥

परीत्याद्य गिरीन्द्र त सुरचारणसेवितम् । न्यधाच्छ्रीतीर्थकर्तार प्राङ्मुख स्नानसिद्धये ॥१२५॥

इति परमविभूत्या तीर्थकृत्पुण्यपाकात्सकलसुरगणेशा स्थापयामासुरन्त्यम् ।

इह जिनवरराज हीति मत्वा सुभव्या मजत विमलपुण्य कारणैर्द्वैचष्टसख्यै ॥१२६॥

पुण्य तीर्थकरादिभूतिजनक पुण्य श्रितास्तद्विद

पुण्यनैव पवित्रित जगदिद पुण्याय भद्रा क्रिया ।

पुण्यान्नापर एव शर्मजनक पुण्यस्य मूल व्रत

पुण्येऽनेकगुणा भवन्त्यसुमता मा पुण्य, पूत कुह ॥१२७॥

वीरो वीरबुधे स्तुतश्च महितो वीर प्रवीरा श्रिताद्

वीरेणाशु समाप्यते गुणचयो वीराय भक्त्या नम ।

वीरान्नास्त्यपर स्मरारिहतको वीरस्य दिव्या गुणा

वीरे मा विधिना स्थित विधिजये भो वीर वीर कुह ॥१२८॥

इति श्रीभट्टारकसकलकीर्तिविरचिते वीरवर्धमानचरिते प्रियकारिणीप्रज्ञाप्रकर्षतीर्थ-
कृत्(जन्म)सुराचलानयनवर्णनो नामाष्टमोऽधिकार ॥८॥

शोभित है । वह सुमेरुके दूसरे शिखरके समान मालूम पड़ता है ॥१२१-१२२॥ उस सिंहासन-
की दक्षिण दिशामे सौधर्मेन्द्रके खडे होनेका और उत्तर दिशामे ईशानेन्द्रके खडे होनेका एक-
एक सुन्दर सिंहासन है ॥१२३॥ देवोके स्वामी सौधर्मेन्द्रने उपर्युक्त तीन सिंहासनोमे से बीचके
सिंहासनके ऊपर भारी विभूतिसे, महान् उत्सवोके द्वारा देवोके साथ लाकर, देव और
चारणद्विवालोसे सेवित उस गिरिराज सुमेरुकी प्रदक्षिणा देकर जन्माभिषेककी सिद्धिके
लिए तीर्थकर भगवानको पूर्वमुख चिराजमान किया ॥१२४-१२५॥

इस प्रकार तीर्थकर प्रकृतिके पुण्य परिपाकसे समस्त देव और उनके स्वामी इन्द्रोने
परम विभूतिके साथ अन्तिम श्री वर्धमान जिनराजको वहाँपर स्थापित किया । ऐसा मानकर
भगव्यजन सोलह कारण भागनाओसे निर्मल पुण्यकी आराधना करे ॥१२६॥ यह उत्कृष्ट पुण्य
तीर्थकरादिके वैभवका जनक है, ज्ञानी जन पुण्यका आश्रय लेते है, पुण्यसे ही यह जगत्
पवित्र होता है, उत्तम क्रियाएँ पुण्यके लिए होती है, पुण्यसे अतिरिक्त और कोई वस्तु सुख-
कारक नहीं है, पुण्यका मूल कारण व्रत है, पुण्यसे प्राणियोंके अनेक गुण प्राप्त होते है, इसलिए
हे पुण्य, तू मुझे पवित्र कर ॥१२७॥ वीरजिन वीर ज्ञानीजनोके द्वारा सस्तुत और पूजित है,
उत्तम वीर पुरुष वीर जिनका आश्रय लेते है, वीरके द्वारा शीघ्र ही उत्तम गुण-समुदाय प्राप्त
होता है, इसलिए वीरनाथको भक्तिसे नमस्कार है । वीरसे भिन्न और कोई मनुष्य काम-
शत्रुका नाशक नहीं है, वीर जिनेन्द्रके गुण दिव्य है, वीरनाथमे विधिपूर्वक स्थित मुझे
हे वीर भगवन्, कर्म-विजयके लिए वीर करो ॥१२८॥

इस प्रकार भट्टारक श्री सकलकीर्ति विरचित श्रीवीरवर्धमानचरितमे प्रियकारिणीके
प्रज्ञा प्रकर्ष, तीर्थकरका जन्म और सुमेरुपर ले जानेका वर्णन करनेवाला
आठवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥८॥

नवमोऽधिकारः.

तामथावेष्ट्य सर्वत्र द्रष्टुकामा महोत्सवम् । जिनेन्द्रस्य यथायोग्ये तस्तुधमोद्यता सुरा ॥१॥
 दिग्पाला स्व स्वदिग्भाग स्वैर्निकायै सम मुदा । तिष्ठन्ति द्रष्टुकामास्तज्जन्मकल्याणसपद ॥२॥
 महान् मण्डपविन्यासस्तत्र चक्रेऽमरै पर । यत्र देवगण कृत्स्नमास्ते स्मावाधित मिथ ॥३॥
 तत्रावलम्बिता माला कल्पमूरुहपुष्पजा । रेजुभ्रमरझङ्कारैर्गातुकामा इवेशिनम् ॥४॥
 तत्र प्रारोभरे दिव्य गीतगान कलस्पना । गन्धर्वाश्च सुकिन्नर्यो जिनकल्याणजेर्गुणै ॥५॥
 नृत्य चामरनर्तक्यो बहुभावरसाङ्गिता । ध्वनन्ति देववाद्यौघा क्षिप्यन्तेऽर्धा अनेकश ॥६॥
 शान्तिपुष्ट्यादिकामैश्चोत्क्षिप्यन्ते धूपराशय । सुरा कलकल कुयुर्जयनन्दादिवोषणै ॥७॥
 अथ सौधर्मनाकेशो विभो प्रथममज्जने । प्रचक्रे कलशोद्धारं कृत्वा प्रस्तावनाविधिम् ॥८॥
 ऐशानेन्द्रोऽपि सानन्दो मुक्तास्रक्चन्दनार्चितम् । आददे कलशं पूर्णं कलशोद्धारमन्त्रवित् ॥९॥
 शेषा कृत्वाधिपा सर्वे सानन्दजयघोषणा । परिचारकतामापुर्यथात्तपरिचर्यथा ॥१०॥
 इन्द्राणीप्रमुखा देव्यो धर्मरागरसोत्सुका । तदासन् परिचारिण्यो मङ्गलद्रव्यमण्डिता ॥११॥
 पूत स्वायभुव देह निसर्गाक्षीरशोणितम् । स्पष्टं नान्यज्जल योग्यं दुग्गाढिधसलिलादृते ॥१२॥
 मत्वेति नाकिनो नून तत श्रेणी कृता मुदा । प्रसृता अम्म आनेतुमन्तरेऽढ्यचलेन्द्रयो ॥१३॥

अथानन्तर जिनेन्द्रदेवके जन्म महोत्सवको देखनेके इच्छुक धर्मोद्यत वे सर्वदेव उस पाण्डुक शिलाको सर्व ओरसे घेरकर यथायोग्य स्थानोपर बैठ गये ॥१॥ भगवान्के जन्म-कल्याणककी सम्पदाको देखनेके इच्छावाले दिग्पाल अपने-अपने निकायो (जाति-परिवारो) के साथ अपने-अपने दिग्भागमे हर्षपूर्वक बैठे ॥२॥ वहाँ पर देवोंने एक विशाल मण्डप बनाया, जहाँ पर समस्त देवगण परस्पर बिना किसी बाधाके सुखपूर्वक बैठे ॥३॥ उस मण्डपमे कल्पवृक्षोसे उत्पन्न हुए फूलोकी मालाएँ लटकायी गयी, उनपर गुजार करते हुए भौरै ऐसे मालूम पडते थे, मानो जिनेन्द्रदेवके गुण ही गा रहे हो ॥४॥ वहाँ पर सुन्दर कण्ठवाले किन्नर और किन्नरियोने जिनदेवके जन्मकल्याणक-सम्बन्धी गुणोके द्वारा दिव्य गीत गाना प्रारम्भ किया ॥५॥ देव-नर्तकियोने अनेक रस-भावसे युक्त नृत्य करना प्रारम्भ किया । देवोके नाना प्रकारके बाजे बजने लगे, शान्ति-पुष्टि आदिकी इच्छासे देवोंने अनेक प्रकारके पुष्प, अक्षत-मुक्ता आदि फेकना प्रारम्भ किया, सुगन्धित धूप-पुज उढाया गया और देवोंने जय, नन्द' आदि शब्दोको उच्चारण करते हुए कलकल नाड किया ॥६-७॥

तत्पश्चात् सौधर्म इन्द्रने प्रस्तावना विधि करके भगवान्के प्रथमाभिषेकके लिए कलशोका उद्धार किया ॥८॥ कलशोद्धारके मन्त्रको जाननेवाले ईशानेन्द्रने भी आनन्दके साथ मोती, माला और चन्दनसे चर्चित जलसे भरे हुए कलशको हाथमे लिया ॥९॥ उस समय शेष सभी कल्पोके इन्द्र आनन्दपूर्वक जय-जय शब्द उच्चारण करते हुए यथायोग्य परिचर्याके द्वारा परिचारकपनेको प्राप्त हुए ॥१०॥ धर्मरागके रससे परिपूर्ण इन्द्राणी आदि देवियोँ मंगल द्रव्योसे मण्डित होकर परिचारिकाएँ बनकर परिचर्या करने लगी ॥११॥ 'स्वयम्भू भगवान्का देह स्वभावसे ही क्षीर रक्त वर्णवाला होनेसे पवित्र है' अतः इसे क्षीरसागरके जलसे अतिरिक्त अन्य जल स्पर्श करनेके लिए योग्य नहीं है' ऐसा निश्चय करके देवोकी

कनःस्वर्गमयै कुम्भैर्मुखे योजनविस्तृतै । अष्टयोजनगम्भीरैर्मुक्तादामाद्यलकृतै ॥१४॥
 सहस्रप्रमितान् बाहून् दिव्याभरणमण्डितान् । विनिर्ममे तदादीन्द्र स्नपनाय जिनेशिन ॥१५॥
 स तै साभरणैर्हस्तै सहस्रकलशान्वितै । बभौ सद्भाजनाङ्गाख्य कल्पशाखीव तेजसा ॥१६॥
 ततो जयेति सप्रोच्य त्रिवार निजमूर्धनि । महती प्रथमा धारा सौधर्मेन्द्रो न्यपातयत् ॥१७॥
 तदा कलकलो भूयान् प्रचक्रेऽसख्यनिर्जरै । जय जीव पुनीहि त्वमिति वाक्यैर्मनोहरै ॥१८॥
 तथा सर्वे सुरार्थीसै सम धारा निपातिता । बहुशस्तैर्महाकुम्भै स्वनदीपूरसनिभा ॥१९॥
 यस्याद्गैर्मूर्धनि ता वारा पतन्ति तद्ग्रहारत । तत्क्षणे सोऽचलो नून प्रयाति शतखण्डताम् ॥२०॥
 तादृशो पततीर्धारा मूर्धनि श्रीजिनेश्वर । अप्रमाणमहावीर्यं कुसुमानीव मन्यते ॥२१॥
 उच्छलन्त्यो विरेजुस्ता अफ्रटा खेऽतिदूरगा । जिनाङ्गस्पर्शमात्रेण पापान्मुक्ता इवोर्ध्वगा ॥२२॥
 तिर्यग्विसारिण केचित् स्नानाम्भ शीकरा विभो । मुक्ताफलद्युति तेनुर्दिग्बधूमुखमण्डने ॥२३॥
 रेजे तदम्भसा पूर परितस्तद्वनान्तरे । आप्लावयन्निवादीन्द्र विचित्राकारजर्जित ॥२४॥
 पद्मरागैर्धारापीठै क्वचिन्मरुतप्रभै । नानामणिसयैश्चान्यै कुम्भास्यात्पतिताम्बुजै ॥२५॥
 तत्स्नानाम्भोमिराकीर्णं तद्वन भग्नपादपम् । बभौ निरन्तर दृष्ट्या क्षीरणव इवापर ॥ ६॥
 इत्याद्यैर्विधैर्दिव्यैर्महोत्सवशतै परै । दीपधूपार्चनागीतनृत्यवाद्यादिकोटिभि ॥२७॥
 सामग्र्या परया सार्धं शुद्धाम्बुस्नपन विभो । सपूर्णं कल्पनाथास्ते प्रचक्रु स्वात्मसिद्धये ॥२८॥

श्रेणी (पक्ति) क्षीरसागर और सुमेरुपर्वतके बीचमे जल लानेके लिए हर्षके साथ खड़ी हो गयी ॥१२-१३॥ जिन कलशोसे जल लाया जा रहा था वे चमकते हुए स्वर्णनिमित्त थे, मोतियोकी माला आदिसे अलकृत थे, आठ योजन ऊँचे (मध्यमे चार योजन चौड़े) और मुखमे एक योजन विस्तृत थे ॥१४॥ उन एक हजार कलशोको लेकर जिनेश्वरका अभिषेक करनेके लिए सौधर्मेन्द्रने दिव्य आभूषणोसे मण्डित अपनी एक हजार भुजाएँ बनायी ॥१५॥ उस समय वह आभूषणवाले तथा हजार कलशोसे युक्त हाथोके द्वारा अपने तेजसे भाजनाङ्ग जातिके कल्पवृक्षके समान शोभित हुआ ॥१६॥ सौधर्मेन्द्रने तीन बार जय-जय शब्दको बोलकर भगवान्के मस्तकपर पहली महान जलधारा छोड़ी ॥१७॥ उस समय भारी कल-कल शब्द हुआ, असख्य देवोने 'भगवान्, आपकी जय हो, आप पवित्र हो' इत्यादि प्रकारके मनोहर वाक्य उच्चारण किये ॥१८॥ इसी प्रकार शेष सर्व देवेन्द्रोने भी एक साथ उन महाकुम्भोके द्वारा स्वर्गङ्गाके पूरके सदृश जल वारा छोड़ी ॥१९॥ ऐसी विशाल जलधाराएँ जिस पर्वतके शिखरपर छोड़ी जावे तो उसके प्रहारसे वह पर्वत तत्काल नियमसे शत खण्ड हो जाय ॥२०॥ किन्तु अप्रमाण महावीर्यशाली श्री जिनेश्वर देवने अपने मस्तकपर गिरती हुई उन जल-धाराओको फूलोके समान समझा ॥२१॥ उस समय अति दूर तक ऊपर उछलते हुए जलके छीटे ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो जिनेन्द्रके शरीरके स्पर्शमात्रसे पाप मुक्त होकर ऊपरको जा रहे है ॥२२॥ प्रभुके स्नानजलके कितने ही तिरछे फैलते हुए कण दिग्बधुओके मुख-मण्डनमे मुक्ताफलोकी कान्तिको विस्तार रहे थे ॥२३॥ अभिषेकका जल-पूर सुमेरुके वन-मध्यभागमे नाना प्रकारके आकारवाला होकर गिरीन्द्र (सुमेरु) को आप्लावित करता हुआ सा शोभित हो रहा था ॥२४॥ भगवान्के अभिषेक किये हुए जलसे व्याप्त होनेके कारण डूबे हुए वृक्षोवाला वह पाण्डुकवन निरन्तर जलवृष्टिसे दूसरे क्षीरसागरके समान शोभित हो रहा था ॥२५॥ इत्यादि अनेक प्रकारके दिव्य परम सैकड़ो महोत्सवोसे, दीप-धूपादिसे की गयी पूजाओसे, कोटि कोटि गीत नृत्य और बाजोके द्वारा उत्कृष्ट सामग्रीके साथ उन स्वर्गके स्वामी इन्द्रोने अपने आत्म कल्याणके लिए भगवान्का शुद्ध जलसे अभिषेक किया ॥२६-२८॥

पुन श्रीतीर्थकर्तारमभ्यषिञ्चच्छताम्बर । गन्धाम्बुवन्दनायै च विभूत्यामा महोत्सवै ॥२९॥
 सुगन्धिद्रव्यसन्मिश्रसुगन्धिजलपूरितै । गन्धोदकमहाकुम्भैर्मणिकाञ्चननिमित्तै ॥३०॥
 पतन्ती सा गुरोरङ्गे धारा रेजेऽतिपिञ्जरा । तद्गात्रस्पर्शमात्रेण सजातेवाति पावनी ॥३१॥
 जगता पूरयन्त्याशा सर्वा पुण्यविधायिनी । पुण्यधारेव धारासौ नस्तनोतु शिवश्रियम् ॥३२॥
 या पुण्यास्त्रधारेव सूते विश्वान्मनोरथान् । सा न करोतु सिद्धार्थं समस्ताभीष्टम्पद ॥३३॥
 निशाता खड्गधारेव विघ्नजाल निहन्ति या । सता सा हन्तु नौ धारा प्रच्यूहान् शिवसाधने ॥३४॥
 सुधाधारेव या पुसा निहन्त्यखिलवेदनाम् । सास्माक वेदना हन्तु मोक्षाध्वमलकारिणीम् ॥३५॥
 दिव्याङ्ग श्रीमत प्राप्य या यातातिपवित्रताम् । पवित्रयतु सास्माक मनोदु कर्मजत्लत ॥३६॥
 इत्थ गन्धोदकै कृत्वा तेऽभिषेक सुरधिपा । विभो शान्त्यै सता शान्ति घोषयामासुरचक्रै ॥३७॥
 तत्सुगन्धाम्बु ते चक्रुस्तमाङ्गेषु नाकिन । सर्वाङ्गेषु स्वशुद्धयै च स्वर्गस्थोपायन मुदा ॥३८॥
 गन्धाम्बुस्नपनस्यान्ते जयादिघोषणै सह । व्यात्युक्षी ते मुदा चक्रु सचूर्णैर्गन्धवारिणि ॥३९॥
 निवृत्तावभिषेकस्य कृतमज्जनसत्क्रिया । आनन्दुस्त महाभक्त्या देवेन्द्रा नृसुरार्चितम् ॥४०॥
 दिव्यैर्गन्धैस्ततामोदैर्मुक्ताफलमयाक्षतै । कल्पशाखिजमालाद्यै सुधापिण्डचरुज्रै ॥४१॥
 मणिदीपैर्महाधूपै कल्पद्रुमफलोत्करै । मन्त्रपूतै महार्घैश्च कुसुमाञ्जलिवर्षणै ॥४२॥
 कृतेष्ट्य कृतानिष्टविधाता कृतपौष्टिका । इति जन्माभिषेक भो सुरेशा निरतिष्ठपन् ॥४३॥

पुन. सौधमेन्द्रने गन्धोदककी वन्दनाके लिए परम विभूति और महान् उत्सवोंके साथ सुगन्धी द्रव्योंके सम्मिश्रणसे सुगन्धित जलसे भरे हुए, मणि और सुवर्णसे निमित्त गन्धोदक-वाले महाकुम्भोंसे भी तीर्थकर देवका अभिषेक किया ॥२९-३०॥ जगद्गुरुके शरीरपर गिरती हुई वह अनेक वर्णवाली जलधारा उनके शरीरके स्पर्शमात्रसे अत्यन्त पवित्र हुई के समान शोभाको धारण कर रही थी ॥३१॥ जगत्के जीवोंकी सर्व आशाओंको पूर्ण करनेवाली, पुण्यविधायिनी पुण्यधाराके समान वह जलधारा हमलोगोंको शिवलक्ष्मी देवे ॥३२॥ जलधारा पुण्यास्त्रधाराके समान सर्व मनोरथोंको पूर्ण करती है, वह हमारे भी समस्त अभीष्ट सम्पदाकी सिद्धि करे ॥३३॥ जो तीक्ष्ण खड्गधाराके समान सज्जनोंके विघ्न जालका नाश करती है, वह जलधारा हमारे शिव-साधनमें आनेवाले विघ्नोंका नाश करे ॥३४॥ जो जलधारा अमृतधाराके समान जीवोंकी समस्त वेदनाओंको नष्ट करती है, वह हमारे मोक्षमार्गमें मल उत्पन्न करनेवाली वेदनाका नाश करे ॥३५॥ जो जलधारा श्रीमान् वीरनाथको प्राप्त होकर अति पवित्रताको प्राप्त हुई है, वह हमारे मनके दुष्कर्मोंसे हमें पवित्र करे ॥३६॥

इस प्रकार उन देवेन्द्रोंने प्रभुका सुगन्धित जलसे अभिषेक करके सज्जनोंके विघ्नोंकी शान्तिके लिए उच्चस्वरसे शान्तिकी घोषणा की, अर्थात् शान्ति पाठ पढा ॥३७॥ उन देवोंने अपनी शरीरकी शुद्धिके लिए स्वर्गकी भेट समझकर हर्षके साथ उस उत्तम गन्धोदकको अपने मस्तकपर और सर्वांगमें लगाया ॥३८॥ सुगन्धित जलसे अभिषेक होनेके अन्तमें जय-जय आदि शब्दोंको उच्चारण करते हुए उन देवोंने हर्षके साथ उस चूर्ण-युक्त सुगन्धित जलसे परस्पर सिचन किया अर्थात् आपसमें उस सुगन्धित जलके छीटे डाले ॥३९॥ इस प्रकार अभिषेकके समाप्त होनेपर शरीरमज्जनरूप सत्क्रिया करके उन देवेन्द्रोंने देवों और मनुष्योंसे पूजित प्रभुकी महाभक्तिके साथ, जिनकी सुगन्ध सर्व ओर फैल रही है ऐसे दिव्य सुगन्ध द्रव्योंसे, मुक्ताफलमयी अक्षतोसे, कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुए पुष्पोंकी माला आदिसे, अमृतपिण्डमय नैवेद्य पुजसे, मणिमय दीपोंसे, महान् धूपसे, कल्पवृक्षाके फल-समूहसे, मन्त्रोंसे पवित्रित महाध्वजोंसे और पुष्पाजलियोंकी वर्षासे पूजा की ॥४०-४२॥ इस प्रकार अनिष्टोंका विनाश करनेवाली पूजाओंको करके, तथा शान्ति-पौष्टिकादि कार्योंको करके उन देवेन्द्रोंने जन्माभि-

त्रि परीत्य जिनाधीश प्रणेषु शिरसा समम् । शचीभिर्निर्जैरैश्वान्यैर्वासव प्रमुदोद्धता ॥४४॥
 पपात कोसुमी वृष्टिस्तदा गन्धोदकै समम् । दिवो ववौ मरुन्मन्द सुगन्धि शिशिरोऽमरै ॥४५॥
 यस्य जन्माभिषेकस्य स्नानपीठ सुराचल । इन्द्र स्नापयिता कुम्भा क्षीरमेघायिता परा ॥४६॥
 सर्वा देव्यश्च नर्तक्य स्नानद्रोणी पयोऽर्णव । किंकरा निर्जरा दक्ष कस्त वर्णयितु क्षम ॥४७॥
 अथामिषेकसपूर्णे इन्द्राणी त्रिजगद्गुरो । दिव्य प्रसाधन कर्तुं प्रारभे कौतुकान्विता ॥४८॥
 तस्याभिषिक्तगात्रस्य शिरोनेत्रमुखादिषु । लग्नानम्भ ऋणान् देवी ममार्जत्यमलाशुकै ॥४९॥
 निसर्गदिव्यगन्धाक्तमीशितुर्वपुर्हजितम् । अन्वलिप्यत भक्त्या सा द्रव्यै सान्द्रै सुगन्धिभि ॥५०॥
 त्रिजगत्तिलक्रीभूतस्यास्य भालेऽच्युतोपमे । चकार तिलक दीप्र भक्तिरागेण केवलम् ॥५१॥
 जगच्चूडामणेरस्य न्यधान्मन्दारमालया । उत्तसेन सम मूर्ध्नि दीप्त चूडामणि परम् ॥५२॥
 विश्वनेत्रस्य देवस्य स्वभावासितचक्षुषो । चक्रे साञ्जनसस्कार स्नाचार इति लभ्यते ॥५३॥
 अबिद्धछिद्रयोश्चास्कर्णयोस्त्रिजगत्पते । कुण्डलाभ्या स्फुरद्गलाभ्या शोभा सा परा व्यधात् ॥५४॥
 कण्ठ सा मणिहारेण बाहुयुग्म महद्विभो । मुद्रिकाभिरलचक्रे केयूरकटकज्जदै ॥५५॥
 कटीतटे बबन्धास्य किङ्किणीमिविराजितम् । दीप्र मणिमय दाम तेजसा व्याप्तदिग्मुखम् ॥५६॥
 पादौ गोमुखनिर्भासैर्मणिभिस्तस्य साकरोत् । वाचालितौ सरस्वत्या सेव्यमानाविवाद्रात् ॥५७॥
 इत्यसाधारणैर्दिव्यैर्मण्डनैस्तत्कृतै परै । निसर्गकान्तितेजोभिर्लक्षणै सहजैर्गुणै ॥५८॥

षेकको सम्पन्न किया ॥४३॥ पुनः अपनी-अपनी इन्द्राणियोंके साथ इन्द्रोने, तथा अपनी देवियोंके साथ सब देवोंने अत्यन्त प्रमुदित होते हुए तीन प्रदक्षिणाएँ देकर जिनेन्द्रदेवको नमस्कार किया ॥४४॥ उस समय देवोंने गन्धोदकके साथ पुष्पोकी वर्षा की, और मन्द सुगन्धित शीतल पवन चलने लगा ॥४५॥ जिसके जन्माभिषेकका स्नानपीठ सुमेरुपर्वत हो, इन्द्र अभिषेक करनेवाला हो, क्षीरसागरके जलसे भरे हुए उत्तम कलश हो, सर्वदेवियों नृत्यकारिणी हो, क्षीरसागर द्रोणी (जलपात्र) हो और देव फिरर हो, उसका वर्णन करनेके लिए कौन दक्ष पुरुष समर्थ है ? कोई भी नहीं ॥४६-४७॥

अभिषेकका कार्य समाप्त होनेपर आश्चर्यको प्राप्त इन्द्राणीने त्रिजगद्-गुरुका शृङ्गार करना प्रारम्भ किया ॥४८॥ सर्वप्रथम उसने भगवान्के जलाभिषिक्त शरीरके शिर, नेत्र और मुख आदि पर लगे हुए जलकणोंको निर्मल वस्त्रसे पोछा ॥४९॥ तत्पश्चात् स्वभावसे ही दिव्य सुगन्धसे युक्त भगवान्के उत्तम शरीरपर भक्तिके द्वारा गीले सुगन्धित द्रव्योंका लप किया ॥५०॥ पुनः तीन जगत्के तिलक स्वरूप प्रभुके अनुपम ललाटपर केवल भक्तिके रागसे प्रेरित होकर देदीप्यमान तिलक किया ॥५१॥ पुनः जगत्के चूडामणि प्रभुके मस्तकपर मन्दार पुष्पोकी माला और मुकुटके साथ परम प्रदीप्त चूडामणि रत्न बाँधा ॥५२॥ तत्पश्चात् विश्वके नेत्ररूप प्रभुके स्वभावसे ही अति कृष्ण नेत्रोंमें अञ्जन-सस्कार किया, यह उसने अपने आचार पालनके लिए किया ॥५३॥ पुनः त्रिजगत्पतिके अबिद्ध छिद्रवाले दोनों कानोंमें प्रकाशमान रत्न-जटित कुण्डलोंको पहिना कर परम शोभा की ॥५४॥ तत्पश्चात् उस इन्द्राणीने प्रभुके कण्ठको मणिहारसे, बाहु-युगलको केयूर, कटक और अगद आभूषणोंसे तथा अगुलियोंको मुद्रिकाओंसे शोभित किया ॥५५॥ तदनन्तर उसने प्रभुकी कमरमें छोटी-छोटी घण्टियोंसे विराजित अपने प्रकाशसे दिशाओंके मुखको व्याप्त करनेके लिए देदीप्यमान मणिमयी काचीदाम (करधनी) पहनायी ॥५६॥ पुनः प्रभुके दोनों चरणोंमें मणिमयी गोमुखवाले प्रकाशमान कडे पहिनाये, जो कि ऐसे प्रतीत होते थे मानो सरस्वती देवी आदरसे उनके चरणोंकी सेवा ही कर रही हो ॥५७॥ इस प्रकार इन्द्राणीके द्वारा पहिनाये गये असाधारण दिव्य परम आभूषणोंसे तथा स्वभाव-जनित कान्ति, तेज, लक्षण और गुणोंसे युक्त वे भगवान् ऐसे शोभित

लक्ष्म्या पुञ्ज इवोद्भूतस्तेजसा वा निर्विर्महान् । सौन्दर्यस्येव सघात सद्गुणानामिवाकर ॥५९॥
 भाग्यानामिव सवासो राशिर्वा यशसा परा । स्वभावरुचिर कायस्तदामादीशिनोऽमल ॥६०॥
 इत्थ प्रसाध्यमान त शक्रोत्सङ्गस्थित शची । स्वय विस्मयमायासीत्पश्यन्ती रूपसपद ॥६१॥
 तद्वात्रनी परा शोभा वीक्ष्य सर्वाङ्गगालिन । विभोस्तुस्मिनासाद्य द्विनेत्राभ्या च्युतोपमाम् ॥६२॥
 पुनस्तामीक्षितु चक्रे साश्चर्यहृदय सुरेत् । सहस्रनयनान्याशु निमेषविमुखान्यपि ॥६३॥
 देवा सर्वेऽखिला देव्यो महती रूपसपदम् । ददृशुश्च प्रभो प्रीत्यानिमेषैर्दिव्यलोचनै ॥६४॥
 तत पर प्रमोद ते प्राप्य शक्रा महाधिय । उद्ययुस्तमिति स्तोतु तीर्थकृत्पुण्यजैर्गुणै ॥६५॥
 त्व देव स्नातपूताङ्ग सहजातिशयै परै । भक्त्याद्य स्नापितोऽस्माभि केवल स्वावहानये ॥६६॥
 त्रिजगन्मण्डनोभूत त्व प्रकृत्यातिसुन्दर । विना च मण्डनै प्रीत्या मण्डित स्वसुखासये ॥६७॥
 सचरन्ति विभो तेऽद्य महत्यो गुणराशय । प्रपूर्ण सकल विश्व सुरेशा हृदयेष्वपि ॥६८॥
 त्वत्त कल्याणमाप्स्यन्ति देव कल्याणकाङ्क्षिण । भवद्वाण्या हनिष्यन्ति मोहिनो मोहशात्रवम् ॥६९॥
 त्वयोद्दिष्टमहातीर्थपोतेन भववारिधिम् । अनन्तमुत्तरिष्यन्ति रत्नत्रयधनेश्वरा ॥७०॥
 भवद्वाक्किरणैर्नाथ मिथ्याज्ञानतमोऽञ्जसा । हत भव्यात्मना शीघ्र विनङ्क्ष्यति न सशय ॥७१॥
 अनर्घ्यदृष्टिचिद्वृत्तरत्नादीन् शिवकारिण । प्रादुर्बभूविथेशत्व दातु दाता महान् सताम् ॥७२॥
 त्व स्वामिन् केवल नात्रोत्पन्न स्वरय शिवाप्तये । कितु स्वमुक्तिमिद्व्यर्थ धीमता चावदर्शनात् ॥७३॥

हुए, मानो लक्ष्मीके पुज ही हो, अथवा तेजोके निधान हो, अथवा सौन्दर्यके समूह हो, अथवा सद्-गुणोके सागर ही हो, अथवा भाग्यो के निवास हो, अथवा यशो की उज्ज्वल राशि हो । इस प्रकार स्वभावसे ही सुन्दर और निर्मल प्रभुका शरीर उक्त आभूषणोसे और भी अधिक शोभायमान हो गया ॥५८-६०॥

इस प्रकार आभूषणोसे भूषित और इन्द्रकी गोदमे विराजमान उन भगवानकी रूप-सम्पदाको देखती हुई शची स्वय ही आश्चर्यको प्राप्त हुई ॥६१॥ उस समय सर्वाङ्गशोभित प्रभुकी परम अनुपम शोभाको दो नेत्रोसे देखने पर तृप्त नहीं होते हुए आश्चर्य युक्त हृदयवाले इन्द्रने और भी अविश्व दृढतासे देखनेके लिए निमेष रहित एक हजार नेत्र बनाये ॥६२-६३॥ उस समय सभी देवो और देवियोने प्रभुके शरीरकी भारी रूप सम्पदाको परम प्रीतिके साथ निर्निमेष दिव्य नेत्रोसे देखा ॥६४॥

तदनन्तर परम प्रमोदको प्राप्त हुए वे महाबुद्धिशाली इन्द्रगण तीर्थकर प्रकृतिके पुण्यसे उत्पन्न हुए गुणोके द्वारा इस प्रकार स्तुति करनेके लिए उद्यत हुए ॥६५॥ हे देव, आप स्नानके विना ही जन्मजात परम अतिशयोके द्वारा पवित्र शरीरवाले है, आज केवल अपने पापोके नाश करनेके लिए हमने भक्तिसे आपको स्नान कराया है ॥६६॥ हे तीन लोकके आभूषण स्वरूप भगवन्, आप स्वभावसे ही विना आभूषणोके अति सुन्दर हो, हमने तो केवल सुखकी प्राप्तिके लिए प्रीतिसे आपको आभूषणोसे मण्डित किया है ॥६७॥ हे प्रभो, आपके महागुणोकी राशि सर्वविश्वको पूर करके आज इन्द्रोके हृदयमे भी सचार कर रही है ॥६८॥ हे देव, कल्याणके इच्छुक लोग आपसे कल्याणको प्राप्त होंगे और मोहीजन आपकी वाणीसे अपने मोहशत्रुका नाश करेंगे ॥६९॥ रत्नत्रय वनके वारण करनेवाले भव्य जीव आपके द्वारा उपदिष्ट महातीर्थरूप जहाजसे इरा अनन्त ससार सागरके पार उतरेगे ॥७०॥ हे नाथ, आपकी वचन किरणोसे भव्यात्माओका मिथ्याज्ञानरूप अन्धकार शीघ्र विनाशको प्राप्त होगा, इसमे कोई सशय नहीं है ॥७१॥ हे ईश, मोक्ष प्राप्त करनेवाले अमूल्य सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि रूप रत्न देनेके लिए आपसे प्रकट हुए हैं, इसलिए आप सज्जनोंके महान् दाता हो ॥७२॥ हे स्वामिन्, आप यहाँ पर केवल अपनी मुक्तिकी प्राप्तिके लिए ही नहीं उत्पन्न हुए हैं, किन्तु

मुक्तिरामा महाभाग चासक्ता त्वयि वर्तते । स्निह्यन्ति त्रिजगद्भव्यास्त्वद्गुणैरञ्जिताशया ॥७३॥
 मोहमल्लविजेतार त्रातार शरणार्थिनाम् । मोहान्धकूपपाताच्च हन्तार कर्मविद्विषाम् ॥७५॥
 नेतार भव्यसार्थाना शाश्वते पथि तीर्थकृत् । कर्तार धर्मतीर्थस्य विदस्त्वामामनन्त्यहो ॥७६॥
 अद्य जन्माभिषेकेण वय नाथ पवित्रिता । ते गुणस्मरणेनैव नोऽभवाञ्जर्मल मन ॥७७॥
 भवस्तुतिशुभालापैर्जात न सफल वच । गात्र चावयवै सार्धं सेवया ते गुणास्तुधे ॥७८॥
 मणि शुद्धाकरोद्भूतो यथा सस्कारयोगत । दीप्यतेऽधिकमोक्ष त्व तथा स्नानादिसकृत् ॥७९॥
 त्रिजगत्स्वामिना स्वामी त्व नाथासि महान् भुवि । पतिर्विश्वपतीना त्व जगद्धन्धुरकारण ॥८०॥
 अतो देव नमस्तुभ्य परमानन्ददायिने । नमस्ते चित्त्रिनेत्राय नमस्ते परमात्मने ॥८१॥
 नमस्तीर्थकृते तुभ्य नम सद्गुणसिन्धवे । मलस्वेदातिगाद्यन्तदिव्यदेहाय ते नम ॥८२॥
 निर्वाणदर्शिने तुभ्य नम कर्मारिनाशिने । जितपञ्चाक्षमोहाय पञ्चकल्याणभागिने ॥८३॥
 नमो निसर्गपूताय भुक्तिमुक्त्येकदायिने । नमोऽतिमहिमासाय नमोऽकारणबन्धवे ॥८४॥
 नमो मुक्त्यङ्गनामत्रे नमो विश्वप्रकाशिने । त्रिजगत्स्वामिने तुभ्य नमोऽधिगुरवे सताम् ॥८५॥
 त्वा मुदे हेत्यभिष्टुत्य देव नाशास्महे वयम् । त्रिजगत्सर्वसाम्राज्य किन्तु देहि जगद्धिताम् ॥८६॥
 सामग्री सकला पूर्णा मोक्षसाधनकारिणीम् । त्वत्समा कृपयास्माक दाता न त्वत्समो यत ॥८७॥

ज्ञानियोको भी मार्ग दिखाकर उनकी स्वर्ग और मुक्तिकी सिद्धिके लिए उत्पन्न हुए है ॥७३॥
 हे महाभाग, मुक्तिरामा आपमे आसक्त हो रही है और तीन जगत्के भव्य जीव भी आपके गुणसे अनुरजित हृदयवाले होकर आपसे परम स्नेह रखते है । ७४॥ अहो भगवन्, ज्ञानी लोग आपको मोहमल्लका विजेता, शरणार्थियोंको मोहान्धकूपमे गिरनेसे बचानेवाला रक्षक, कर्मशत्रुओका नाशक, भव्य सार्थवाहोको शाश्वत मुक्तिमार्गमे ले जानेवाला नेता और धर्म-तीर्थका कर्ता तीर्थकर मानते है ॥७५-७६॥ हे नाथ, आज आपके जन्माभिषेकसे हम लोग पवित्र हुए है, और आपके गुणोका स्मरण करनेसे हमारा मन निर्मल हुआ है । आपकी शुभ स्तुति करनेसे हमारे वचन सफल हुए है और हे गुणसागर, आपकी सेवासे सब अगोके साथ हमारा शरीर पवित्र हुआ है ॥७७-७८॥ हे ईश, शुद्ध खानिसे उत्पन्न हुआ मणि जैसे सस्कारके योगसे और भी अधिक चमकने लगता है, उसी प्रकार स्नान आदिके सस्कारको प्राप्त होकर आप और भी अधिक शोभायमान हो रहे है ॥७९॥ हे नाथ, आप तीन जगत्के स्वामियोंके स्वामी है, ससारमे समस्त विश्वपतियोंके आप महान् पति है, और ससारके अकारण बन्धु है ॥८०॥ अतः हे देव, परम आनन्दके देनेवाले आपके लिए नमस्कार है, ज्ञानरूप तीन नेत्रोंके धारक आपके लिए नमस्कार है, परमात्मस्वरूप आपके लिए नमस्कार है, तीर्थके प्रवर्तन करनेवाले आपको नमस्कार है, सद्गुणोंके सागर आपको नमस्कार है, प्रस्वेद मल आदिसे रहित अत्यन्त दिव्यदेहवाले आपको नमस्कार है, कर्मशत्रुओका नाश करनेवाले आपको नमस्कार है, पाँचो इन्द्रियाको और मोहको जीतनेवाले आपको नमस्कार है, पञ्चकल्याणकोके भोगनेवाले आपको नमस्कार है, स्वभावसे पवित्र और भुक्ति-(स्वर्गीय सुख) मुक्तिके देनेवाले आपको नमस्कार है, महामहिमाको प्राप्त आपको नमस्कार है, अकारण बन्धु आपको नमस्कार है, मुक्तिरामाके भर्तार आपको नमस्कार है । विश्वके प्रकाश करनेवाले आपको नमस्कार है, त्रिजगत्के स्वामी आपको नमस्कार है और सज्जनोंके महागुरु आपको नमस्कार है ॥८१-८५॥

हे देव, यहाँपर इस प्रकार हर्षसे आपकी स्तुति करके हम तीन लोकके सर्व साम्राज्यको लेनेकी आशा नहीं करते है, किन्तु जगत्का हित करनेवाली, अपने समान ही पूर्ण सर्वसामग्री कृपा करके हमे दीजिए, क्योंकि ससारमे आपके समान और कोई दाता नहीं है ॥८६-८७॥

इतीष्टप्रार्थना कृत्वा व्यवहारप्रसिद्धये । नाकेशा सार्थक सारमिद नामद्वय व्यधु ॥८८॥
 अथ स्यान्महता वीर कर्मरातिनिकन्दनात् । श्रीवर्धमान एवाप्तौ वर्धमानगुणाश्रयात् ॥८९॥
 इत्याख्याद्वय कृत्वा तथैवातिमहोत्सवै । आरोप्यैरावतस्कन्ध दिव्यरूप जिनेश्वरम् ॥९०॥
 विभूत्या परया साक जयनन्दादिघोषणै । शेषकार्याय नाकेशा आजग्मुस्तत्पुर परम् ॥९१॥
 तदारुध्य पुर विष्वग् नमोभाग च तद्वनम् । तस्थु सर्वाण्यनीकानि देवा देव्यश्चतुर्विधा ॥९२॥
 तत कतिपर्यैदैवैर्देवदेव स देवराट् । आदायामा नृपागार प्रविवेश श्रियोजितम् ॥९३॥
 तत्र गुहाङ्गणे रम्ये मणिसिंहासने शिशुम् । अशिशु गुणकान्त्याद्यै सौधर्मेन्द्रोन्यवीविशत् ॥९४॥
 सिद्धार्थभूपति सार्धं बन्धुभिर्हर्षितानन । प्रीत्या विस्फारिताक्षस्त ददर्शाद्भुतकान्तिकम् ॥९५॥
 शच्या प्रबोधिता राज्ञी सापश्यत्स्वसुत मुदा । तेज पुञ्जमिवोत्पन्न विश्वाभरणभूषितम् ॥९६॥
 सौधर्मेण सम शच्या तावदृष्टा जगत्पते । पितरौ तुष्टिमापन्नौ परिपूर्णमनोरथौ ॥९७॥
 ततस्तौ जगता पूज्यौ प्रपूज्य स्वर्गलोकजै । विचित्रैर्मणिनेपथ्यैर्दिव्यैश्चाम्बरदामभि ॥९८॥
 प्रीत सौधर्मत्पेन्द्र प्रशशसेत्यमामरै । युवा धन्यौ महापुण्यवन्तौ विश्वाग्रिमौ परौ ॥९९॥
 लोके गुरु युवा यस्मात्पितरौ त्रिजगत्पितु । पती त्रिजगता मान्यौ जननात् त्रिजगत्पते ॥१००॥
 विश्वोपकारिणौ जातौ युवा कल्याणभागिनौ । विश्वोपकारि तीर्थेशसुतोत्पादनहेतुत ॥१०१॥
 चैत्यालयमिवागारमिदमारोध्यमद्य न । माननीयौ युवा पूज्यौ अस्मद्गुरुसमाश्रयात् ॥१०२॥
 इत्यमिष्टुत्य तौ देव समर्थं तत्करेऽमरेट् । क्षण तस्थौ मुदा कुर्वस्तद्वार्ता मेरुजा वराम् ॥१०३॥

इस प्रकारसे इष्ट प्रार्थना करके इन्द्रोने लोकव्यवहारकी प्रसिद्धिके लिए सार्थक और सारभूत ये दो नाम रखे । कर्मरूपी शत्रुओको नाश करने हेतु ये महावीर है और निरन्तर बढ़नेवाले गुणोंके आश्रयसे ये श्रीवर्धमान है ॥८८-८९॥ इस प्रकार दो नाम रखकर दिव्यरूपधारी जिनेश्वरको ऐरावत गजके कन्धे पर विराजमान करके पूर्वके समान ही अत्यन्त महोत्सव और भारी विभूतिके साथ 'जय, नन्द' आदि शब्दोंको उच्चारण करते हुए वे देवेन्द्र शेष कार्योंको सम्पन्न करनेके लिए वापस कुण्डपुर आये ॥९०-९१॥ वहाँ आकर नगरको, आकाशको और वनोंको सर्व ओरसे घेरकर सर्व देव-सेनाएँ और चारो जातिके देव-देवियों यथास्थान ठहर गये ॥९२॥ तत्पश्चात् कुछ देवोंके साथ उस देवराजने देवोंके देव श्रीजिनेन्द्र-देवको लेकर शोभासम्पन्न राजभवनमे प्रवेश किया ॥९३॥ वहाँ राजभवनके अगण (चौक) मे सौधर्मेन्द्रने रमणीक मणिमयी सिंहासनपर गुणकान्ति आदिसे अशिशु (शैशवावस्थासे रहित) किन्तु वयसे शिशु जिनेन्द्रको विराजमान किया ॥९४॥ तब बन्धुजनोंके साथ हषित मुख सिद्धार्थ राजाने अति प्रीतिसे आँखें फैलाकर अद्भुत कान्तिवाले बाल जिनदेवको देखा ॥९५॥ इन्द्राणीके द्वारा जगायी गयी प्रियकारिणी रानीने सर्व आभूषणोंसे भूषित समुत्पन्न तेजपुजके समान अपने पुत्रको अति हर्षके साथ देखा ॥९६॥ उस समय जगत्पति श्रीवर्धमान स्वामीके माता-पिता इन्द्राणीके साथ सौधर्मेन्द्रको देखकर परिपूर्ण मनोरथ हो अत्यन्त सन्तोषको प्राप्त हुए ॥९७॥ तत्पश्चात् सौधर्मेन्द्रने स्वर्गलोकमे उत्पन्न नाना प्रकारके मणिमयी वस्त्राभूषणोंसे और दिव्य पुष्पमालाओसे उन जगत्पूज्य माता-पिताकी पूजा कर देवोंके साथ प्रसन्न होते हुए उनकी इस प्रकारसे प्रशंसा करने लगा—आप दोनो ही लोकके गुरु है, क्योंकि आप त्रिजगत्पिताके माता-पिता है, त्रिजगत्पतिके उत्पन्न करनेसे आप लोग ही त्रिजगन्मान्य स्वामी हैं, ससारके उपकारी तीर्थेश पुत्रके उत्पन्न करनेके निमित्तसे कल्याणभागी आप दोनो ही विश्वके उपकारी है ॥९८-१०१॥ आज आपका यह भवन जिनमन्दिरके समान हमारे लिए आराध्य है । हमारे परमगुरुके आश्रयसे आप दोनो ही हमारे लिए माननीय और पूज्य है ॥१०२॥ इस प्रकार देवोंका स्वामी सौधर्मेन्द्रने माता-पिताकी स्तुति करके और उनके

जन्माभिषेकजा सर्वा वार्ता श्रुत्वा सविस्मयौ । प्रमोदस्य परा कोटि प्रापतुस्तौ महोदयौ ॥१०४॥
 तौ भूयोऽनुमति लब्ध्वा शक्रस्य बन्धुभिः समम् । चक्रतु स्वसुतस्येति जातकर्ममहोत्सवम् ॥१०५॥
 तस्यादौ श्राजिनागारे जिनार्चना महामहम् । नृपाद्याश्चक्रिरे भूत्या सर्वाभ्युदयसाधनम् ॥१०६॥
 ततः स्वजनभृत्येभ्यो ददौ दानान्यनेकशः । यथायोग्यं नृपो दीनानाथवन्दिभ्य एव च ॥१०७॥
 तदा तोरणविन्यासैः केतुपङ्क्तिभिरुज्जितैः । गीतैर्नृत्यैश्च वादित्रैर्महोत्सवशतैः परैः ॥१०८॥
 तत्पुरं स्य पुरं वाभास्वर्धामैव नृपालयम् । प्रमोदनिभरा सर्वे बभूवुः स्वजना प्रजा ॥१०९॥
 प्रमोदनिभरान् विश्वास्तद्वन्धुस्तन्महोत्सवे । पौराश्च वीक्ष्य देवेश स्व प्रमोदं प्रकाशयन् ॥११०॥
 आनन्दनाटकं दिव्यं त्रिवर्गफलसाधनम् । गुरोराराधनायामा देवीभिः कर्तुमुद्ययौ ॥१११॥
 नृत्यारम्भेऽस्य सद्गीतगानं (चैव) मनोहरम् । कर्तुं प्रारंभिरे गन्धर्वास्तद्वाद्यादिभिः समम् ॥११२॥
 सिद्धार्थाद्या नृपाधीशा सकलत्राश्च सोत्सवाः । तद्द्रष्टुं प्रेक्षकास्तत्र पुत्रोत्सङ्गा उपाविशन् ॥११३॥
 आदौ समवतार स कृत्वा नेत्रसुखावहम् । जन्माभिषेकसबद्धं प्रायुङ्क्तैनं शुभप्रदम् ॥११४॥
 पुनर्नाटं शक्रोऽन्यन्नाटकं बहुरूपकम् । अधिकृत्य जिनेन्द्रस्यावतारान् प्राग्भवोद्भवान् ॥११५॥
 प्रकुर्वन्नृजितं नृत्यं लसद्दीप्तिभराङ्कितम् । कल्पशाखीव रंजेऽसौ दिव्यामरणदामिनि ॥११६॥
 सलयैः क्रमविन्यासैः परितो रङ्गमण्डलम् । परिक्रामन् बभौ शक्रो मिमान इव भूतलम् ॥११७॥

हाथमे भगवान्को समर्पण कर मेरुपर हुई जन्माभिषेककी सुन्दर वार्ताको हर्षके साथ कहता हुआ कुछ क्षण खडा रहा ॥१०३॥ जन्माभिषेककी सारी बात सुनकर आश्चर्य-युक्त हो वे दोनो भाग्यशाली माता-पिता अत्यन्त प्रमोदको प्राप्त हुए ॥१०४॥

तत्पश्चात् माता पिताने सौधर्मेन्द्रकी अनुमति लेकर बन्धुजनोके साथ अपने पुत्रका जन्ममहोत्सव किया ॥१०५॥ सबसे प्रथम उन्होंने और राजाओने श्रीजिनालयमे जाकर सर्व कल्याणकी साधक श्री जिनप्रतिमाओकी महापूजा भारी विभूतिके साथ की ॥१०६॥ उसके बाद सिद्धार्थराजाने अपने परिजनोको, नौकरोको, दीन, अनाथ और बन्दीजनोको यथायोग्य अनेक प्रकारका दान दिया ॥१०७॥ उस समय तोरण द्वारोसे, बन्दनवारोसे, ऊँची ध्वजा-पक्तियोसे, गीतोसे, नृत्योसे, बाजोसे और सैकडो प्रकारके महोत्सवोसे वह नगर स्वर्गपुरके समान और राज-भवन स्वर्ग धामके समान शोभाको प्राप्त हो रहा था । सभी स्वजन और प्रजाजन अत्यन्त प्रमुदित हुए ॥१०८-१०९॥ उस जन्ममहोत्सवके द्वारा आनन्दसे परिपूर्ण समस्त बन्धुजनोको और पुरवासियोको देखकर सौधर्मेन्द्र अपना प्रमोद प्रकाशित कर श्रीजगद्-गुरुकी आराधना करनेको अपनी देवियोके साथ धर्म अर्थ कामरूप त्रिवर्ग फलका साधक दिव्य आनन्द नाटक करनेके लिए उद्यत हुआ ॥११०-१११॥ नृत्यके प्रारम्भमे गन्धर्व देवोने अपने-अपने वीणादि बाजोके साथ मनोहर सद्-गीत-गान करना प्रारम्भ किया ॥११२॥ उस समय श्री महावीर पुत्रको गोदमे बैठाये हुए सिद्धार्थ राजा तथा अपनी-अपनी रानियोके अन्य राजा लोग और उल्लासको प्राप्त अन्य दर्शकगण उस आनन्द नाटकको देखनेके लिए यथास्थान बैठ गये ॥११३॥ उस सौधर्मेन्द्रने सबसे पहले नयनोको आनन्दित करनेवाला, कल्याणमयी जन्माभिषेक-सम्बन्धी दृश्यका अवतार किया । अर्थात् सुमेरुपर किये गये जन्म कल्याणकका दृश्य दिखाया ॥११४॥ पुनः जिनेन्द्रदेवके पूर्वभव-सम्बन्धी अवतारोका अधिकार लेकर इन्द्रने बहुरूपक अन्य नाटक किया ॥११५॥ उल्लासयुक्त, दीप्ति-भारसे परिपूर्ण-उत्कृष्ट नाटकको करता हुआ वह इन्द्र उस समय दिव्य आभूषण और मालाओके द्वारा कल्प-वृक्षके समान शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥११६॥ लय युक्त पादविक्षेपोके द्वारा, रगभूमिकी चारो ओरसे प्रदक्षिणा करता हुआ वह इन्द्र ऐसा मालूम होता था मानो इस भूतलको नाप

कृतपुष्पाञ्जलरस्य ताण्डवारम्भसभ्रमे । पुष्पवर्ष मुदामुञ्चन् देवास्तद्भक्तिवर्तिन ॥११८॥
 सम तद्योग्यवाद्यानि कोटिशो दध्वनुस्तदा । आरेणुर्मुर वीणा कल्वशा विसस्वतु ॥११९॥
 फल गायन्ति किन्नर्य ऊर्जित गीतसचयम् । रचित श्रीजिनेन्द्राणा गुणग्रामै शुभप्रदम् ॥१२०॥
 प्रयुज्यासौ महच्छुद्ध पूर्वरङ्गमनुकृमात् । करणैरङ्गहारैश्च विकृत्य पुनरुर्जितान् ॥१२१॥
 सहस्रप्रमितान् बाहून् मणिनेपथ्यभूषितान् । ननाट ताण्डव दिव्य दर्शयन् रसमद्भुतम् ॥१२२॥
 नृपादीना सुख कुर्वन् विक्रियद्धर्षाघहानये । विचित्रै रेचकै पादकटीकण्ठकराश्रिते ॥१२३॥
 तस्मिन् बाहुसहस्राद्ये प्रनृत्यत्यमरोशिनि । पृथ्वी तत्कमविन्यासै स्फुटन्तीव तदाचलत् ॥१२४॥
 विक्षिप्तकरविक्षेपैस्तारका परितो भ्रमन् । कल्पद्रुम इवानर्ती चलदशुक्रभूषण ॥१२५॥
 एकरूप क्षणादिव्यो बहुरूपोऽपर क्षणात् । क्षणात्सूक्ष्मतर काय क्षणाद् व्यापी महोन्नत ॥१२६॥
 क्षणात्पाद्वै क्षणाद्दूरे क्षणाद् व्योम्नि क्षणाद्भुवि । क्षणाद् द्विकरयुक्ताङ्ग क्षणाद् बहुकराङ्कित ॥१२७॥
 इति तन्वन् मुदात्मीय सामर्थ्य विक्रियोद्भवम् । इन्द्रजालमिवादीन्द्रोऽदर्शयन्नाटक तदा ॥१२८॥
 पुनरप्सरसो नेटुरङ्गहारै सचारिभि । उत्क्षिप्य भ्रूलता शक्रभुजराशिषु सस्मिता ॥१२९॥
 वर्धमानलयै काश्चिदन्यास्ताण्डवलास्यकै । ननृतुर्देवनर्तक्यश्चित्रैरभिनयै परै ॥१३०॥
 काश्चिदैरावती पिण्डीमैन्द्री बद्ध्वा सुराङ्गना । अनृत्यश्च प्रवेशेनिष्क्रमैदिव्यैनियन्त्रितै ॥१३१॥

ही रहा हो ॥११७॥ पुष्पाञ्जलि बिखेरकर ताण्डवनृत्य करते हुए इन्द्रके ऊपर उसकी भक्ति करनेवाले देवोंने हषित होकर पुष्पोकी वर्षा की ॥११८॥ उस समय ताण्डव नृत्यके योग्य करोडो बाजे बज रहे थे, वीणाओने मधुर झंकार किया और सुरीली आवाजवाली अनेक बाँसुरियाँ बज रही थी ॥११९॥ किन्नरी देवियाँ श्री जिनेन्द्र देवके गुणसमूहसे युक्त उत्तम कल्याण कारक सुन्दर गीतको गा रही थी ॥१२०॥ इस प्रकार अनुक्रमसे महान् पवित्र पूर्व रग करके उस इन्द्रने मणिमयी आभूषणोसे भूषित एक हजार उत्कृष्ट भुजाएँ बनाकर, हस्ता-गुलि-सचालन और अग-विक्षेपोके द्वारा अद्भुत रसको दिखलाते हुए दिव्य ताण्डव नृत्य किया ॥१२१-१२२॥ राजादि सभी दर्शकोको सुख उत्पन्न करते हुए, अपने पापोके विनाशके लिए विक्रिया ऋद्धिसे पाद, कमर, कण्ठ और हाथोसे अनेक प्रकारके अग-सचालन द्वारा सहस्र भुजावाले उस सौधर्मेन्द्रके नृत्य करते समय उसके पाद विन्यासोसे पृथ्वी फूटती हुई-सी चलायमान प्रतीत हो रही थी ॥१२३-१२४॥ चंचल वस्त्र और आभूषणवाला वह इन्द्र किये गये करविक्षेपोके द्वारा ताराओके चारो ओर घूमता हुआ कल्पवृक्षके समान नृत्य कर रहा था ॥१२५॥ नृत्य करते हुए वह इन्द्र क्षणभरमे एक रूप और क्षण भरमे दिव्य अनेक रूपवाला हो जाता था । क्षण-भरमे अत्यन्त सूक्ष्म शरीरवाला और क्षण-भरमे महाउन्नत सर्वव्यापक देहवाला हो जाता था ॥१२६॥ क्षण-भरमे समीप आ जाता और क्षण-भरमे दूर चला जाता, क्षण भरमे आकाशमे और क्षण भरमे भूमि पर आ जाता था । क्षण-भरमे दो हाथवाला हो जाता और क्षण-भरमे अनेक हाथवाला हो जाता था ॥१२७॥ इस प्रकार अत्यन्त हर्षसे विक्रिया-जनित अपनी सामर्थ्यको प्रकट करते हुए इन्द्रने इन्द्रजालके समान उस समय आनन्द नाटक दिखाया ॥१२८॥

तत्पश्चात् इन्द्रकी भुजाओपर खडी होकर मुसकराते हुए अप्सराओने अपनी भ्रूलताओ-को मटकाते और करविक्षेप करते हुए नृत्य करना प्रारम्भ किया ॥१२९॥ कितनी ही देवियाँ वर्धमान लयके साथ, कितनी ही ताण्डव नृत्यके साथ और कितनी ही अनेक प्रकारके अभिनयोके साथ नाचने लगी ॥१३०॥ कितनी ही देवियाँ ऐरावत हाथीका और कितनी ही इन्द्रका रूप धारण कर दिव्य नियन्त्रित प्रवेश और निष्क्रमणके द्वारा नृत्य करने लगी ॥१३१॥

कल्पाह्निपस्य शाखासु कल्पवलय इवोद्गता । बभुस्ता परिनृत्यन्त करोधेष्वमरशिन ॥१३२॥
 हस्ताङ्गुलीषु शक्रस्य निधाय स्वक्रमान् शुभान् । नेटु काश्चित्सलील ता सूचीनाट्यमिवाश्रिता ॥१३३॥
 दिव्या कराङ्गुलीरन्या भ्रेमुश्चादिसुरेशिन । वशयष्टीरिवारुह्य तदग्रार्पितनाभय ॥१३४॥
 प्रतिबाह्वमरेशस्य नटन् यो नाकियोषित । यत्नेन सचरन्ति स्म वञ्चयन्त्यो नृवीक्षणात् ॥१३५॥
 ऊर्ध्वमुच्छालयस्ता खे नटन्तीर्दर्शयन् पुन । क्षणात् कुर्वन्नदृश्याश्च क्षणान्नयनगोचरा ॥१३६॥
 इतस्तत स्वदोर्जाल गूढ सचारयन् महान् । तदा हरिरमूलोक माहेन्द्रजालिकोपम ॥१३७॥
 प्रत्यङ्गमस्य ये रम्या कलाद्या नृत्यतोऽभवन् । ता एव तासु देवीषु सविभक्ता इवारुचन् ॥१३८॥
 इत्याद्यैर्विविधैर्दिव्यैर्नर्तनैर्विक्रियोद्भवै । आनन्दनाटक प्रेक्ष्य पूर्ण देवीमिरादरात् ॥१३९॥
 कृत्वामा बहुधाकारैर्हविर्भावै सहोत्सवै । पर सौख्य सुरेशोऽर्हत्पित्रादीनामजीजनत् ॥१४०॥
 तत शक्रा जिनेन्द्रस्य शुश्रूषामक्तिहेतवे । देवीधर्मात्रीर्नियोज्यामरकुमाराश्च मुक्तये ॥१४१॥
 तद्वयोरूपवेषादिकारिण शुभचेष्टितै । देवै साधर्ममुपाज्यातिपुण्य स्व स्व दिव ययु ॥१४२॥
 इति सुकृतविपाकात्प्राप तीर्थेऽसुरेशै सकलविभवपूर्ण जन्मकल्याणसारम् ।
 शुभसुखगुणबीज भो विदित्वेति दक्षा भजत परमयत्नाद्धर्ममेक सदैव ॥१४२॥

उस समय इन्द्रके भुजासमूह पर नृत्य करती हुई वे देवियाँ ऐसी शोभित हो रही थी मानो कल्प-वृक्षकी शाखाओ पर फैली हुई कल्पलताएँ ही हो ॥१३२॥ कितनी ही देवियाँ शक्रके हाथकी अगुलियोपर अपने शुभ चरणोको रखकर लीलापूर्वक सूचीनाट्य (सूईकी नोको पर किया जानेवाला नृत्य) को करती हुई के समान नाचने लगी ॥१३३॥ कितनी ही देवियाँ इन्द्रकी दिव्य हस्तागुलियोके अग्र भागपर अपनी-अपनी नाभिको रखकर इस प्रकार परिभ्रमण कर रही थी, मानो बाँसकी लकड़ीपर चढ़कर और उसके अग्र भागपर अपनी नाभिको रखकर घूम रही हो ॥१३४॥ कितनी ही देवियाँ इन्द्रकी प्रत्येक भुजापर नृत्य करती हुई तथा मनुष्यो-को नेत्रोके कटाक्षसे ठगती हुई सचार कर रही थी ॥१३५॥ वह इन्द्र नृत्य करती हुई उन देवियोको कभी उपर आकाशमे उछालकर नृत्य करता हुआ दिखाता था, कभी उन्हे क्षण-भरमे अदृश्य कर देता था और कभी क्षणभरमे दृष्टिगोचर कर देता था ॥१३६॥ कभी उन्हे अपनी भुजाओके जालमे गुप्त रूपसे इधर-उधर सचार कराता हुआ वह इन्द्र उस समय लोकमे महान् इन्द्रजालिककी उपमाको धारण कर रहा था ॥१३७॥ नृत्य करते हुए इन्द्रके प्रत्येक अगमे जो रमणीक कला-कौशल होता था, वह उन सभी देवियोमे विभक्त हुएके समान प्रतीत होता था ॥१३८॥ इत्यादि विक्रियाजनित विविध दिव्य नृत्योके द्वारा, बहुत प्रकारके आकारवाले हाव-भाव विलासोके द्वारा आदरसे देवियोके साथ दर्शनीय आनन्द नाटक करके इन्द्रने माता पिता और दर्शक आदिकोको परम सुख उत्पन्न किया ॥१३९-१४०॥

तदनन्तर मुक्ति-प्राप्त्यर्थ जिनेन्द्रदेवकी शुश्रूषा और भक्तिके लिए अनेक देवियोको धाय-रूपसे और भगवान्के वयके अनुरूप वेष आदिके करनेवाले देवकुमारोको इन्द्रने नियुक्त किया । पुन. शुभचेष्टावाले देवोके साथ महान् पुण्यको उपार्जन करके वे सब देवगण अपने-अपने स्वर्गको चले गये ॥१४१-१४२॥

इस प्रकार पुण्यके परिपाकसे तीर्थकर देवने इन्द्रोके द्वारा समस्त वैभवसे परिपूर्ण सारभूत जन्मकल्याणकके महोत्सवको प्राप्त किया । अतः ऐसा जानकर चतुर पुरुष उत्तम और गुणोके कारणभूत एक धर्मको ही परम यत्नके साथ सदा सेवन करे ॥१४३॥

धर्मो नाकिनरेन्द्रशर्मजनको धर्मो गुणाना निधि-
 धर्मो विश्वहितकरोऽशुभहरो धर्म शिवश्रीकर ।
 धर्मो दुःखमवान्तकोऽसमपिता धर्मश्च माता सुहृन्-
 नित्य य स विधीयता बुधजना भो कि ह्यसत्कल्पनै ॥१४४॥
 यो वन्द्योऽङ्गिपितामहोऽसुखहरश्चिद्धर्मतीर्थकर
 सर्वज्ञो गुणसागरोऽतिविमलो विश्वैकचूडामणि ।
 कल्याणादिसुखाकरो निरुपम कर्मारिविध्वसको
 वन्द्योऽर्च्योऽत्र मया जगत्त्रयबुधैर्मे सोऽस्तु तद्भृतये ॥१४५॥

इति भट्टारकसकलकीर्तिविरचिते श्रीवीरवर्धमानचरिते भगवज्जन्मा-
 भिषेकवर्णनो नाम नवमोऽधिकार ॥९॥

धर्म इन्द्र और नरेन्द्रके सुखका जनक है, धर्म सर्व गुणोका निधान है, धर्म विश्वभरके प्राणियोका हितकारक है, अशुभका सहारक है और शिवलक्ष्मीका कर्ता है। धर्म ससारके दुःखोका अन्त करनेवाला है, धर्म असामान्य पिता, माता और मित्र है। इसलिए हे ज्ञानी जनो, इस धर्मका ही सदा पालन करो। अन्य असत्कल्पनाओसे क्या लाभ है ॥१४४॥

जो श्रीवीरप्रभु प्राणियोके पितामह है, दुःखोके हरण करनेवाले है, धर्मतीर्थके कर्ता है, सर्वज्ञ है, गुणोके सागर है, अत्यन्त निर्मल है, विश्वके अद्वितीय चूडामणिरत्न है, कल्याण आदि सुखोके भण्डार है, उपमा रहित है, कर्म-शत्रुओके विध्वसक है, और तीन लोकके ज्ञानी पुरुषोके द्वारा एव मेरे द्वारा वन्दनीय और पूज्य है, वे मेरे उक्त विभूतिके लिए सहायक होंगे ॥१४५॥

इस प्रकार भट्टारक सकलकीर्ति-विरचित श्रीवीरवर्धमानचरितमे भगवान्के जन्माभिषेकका वर्णन करनेवाला नवम अधिकार समाप्त हुआ ॥९॥

दशमोऽधिकार

नम श्रीवर्धमानाय हताभ्यन्तरशत्रवे । त्रिजगद्धितकर्त्रे मूर्झानन्तगुणसिन्धवे ॥१॥
 अथ काश्चिच्च धान्यस्त भूषयन्ति शिशूत्तमम् । वस्त्राभरणमाल्याद्यैर्नाकोपन्नैर्विलेपने ॥२॥
 स्नापयन्त्यपरा दिव्यै सलिलैर्देवयोषित । रमयन्ति मुदा चान्या नानाक्रीडनजल्पनै ॥३॥
 एहि ह्येहि जगत्स्वामिन् प्रसार्य स्वकराम्बुजान् । मुहुरित्युक्तवस्थोऽन्या प्रीत्यैन क्रीडयन्त्यहो ॥४॥
 तदासौ स्मितमातन्वन् प्रसर्पन्मणिभूतले । पित्रोर्मुद ततानोच्चैर्मनोज्ञैर्बालचेष्टितै ॥५॥
 जगद्धन्वादिनेत्राणा चन्द्रस्येवोत्सवप्रदम् । कलोज्ज्वल तदास्यासीच्छैशव विश्ववन्दितम् ॥६॥
 मुग्धस्मित यदस्याभून्मुखेन्दौ चन्द्रिकामलम् । तेन पित्रोर्मनस्तोषसमुद्रो ववृधेतराम् ॥७॥
 क्रमाच्छ्रीमन्मुखाब्जेऽस्यामवन्मनमनभारती । वाग्देवतैव तद्वात्यमनुकर्तु तथाश्रिता ॥८॥
 प्रस्वळत्पादत्रिन्यासै शनैर्मणिधरातले । स रेजे सचरन् बालभानुवद्भूषणाश्रुभि ॥९॥
 हस्यश्वमर्कटादीना रूपमादाय सुन्दरम् । मुदा त क्रीडयामासुर्नानाक्रीडापरा सुरा ॥१०॥
 इत्यन्यै शिशुचेष्टैर्वैबन्धूना जनयन्मुदम् । क्रमात्सुधान्नपानाद्यै स कौमारत्वमाप्तवान् ॥११॥

अभ्यन्तर कर्मशत्रुके नाशक, त्रिजगत्के प्राणियोके हितकर्ता और अनन्त गुणोके सागर श्रीवर्धमानस्वामीके लिए नमस्कार है ॥१॥

अथानन्तर कितनी ही देवियाँ उस श्रेष्ठ बालकको स्वर्गलोकमे उत्पन्न हुए वस्त्र, आभूषण, माला और चन्दन-विलेपनसे भूषित करती थी, कितनी ही देवियाँ दिव्य जलसे स्नान कराती और कितनी ही देवियाँ हर्षपूर्वक नाना प्रकारके खेलोसे और मधुर वचनोसे उन्हे रमाती थी ॥२-३॥ कितनी ही देवियाँ अपने कर कमलोको पसारकर कहती—‘हे जगत्स्वामिन्, इधर आइए, इधर आइए,’ इस प्रकार प्रीतिसे कहकर उन्हे अपनी ओर बुलाती और खिलाती थी ॥४॥ उस समय वे बाल वीर जिन मन्द-मन्द मुसकराते और मणिमयी भूतलपर इधर-उधर घूमते हुए अपनी सुन्दर बालचेष्टाओके द्वारा माता पिताको आनन्दित करते थे ॥५॥ उस समय भगवान्के शैशवकालकी उज्ज्वल कलाएँ समस्त बन्धुजनादिकोके नेत्रोको चन्द्रमाके समान उत्सव करनेवाली और विश्ववन्दित थी ॥६॥ प्रभुके मुख चन्द्रपर मुग्ध-स्मित (मन्द मुसकान) रूप निर्मल चन्द्रिका थी, उमसे माता-पिताके मनका सन्तोषरूप सागर उमडने लगता था ॥७॥ क्रमसे बढ़ते हुए श्रीमान् महावीर प्रभुके मुखरूपी कमलमे मन्मन करती हुई सरस्वती प्रकट हुई, सो ऐसा मालूम पडता था मानो वचन देवता ही उनके बालपनका अनुकरण करनेके लिए उस प्रकारसे आश्रयको प्राप्त हुई है ॥८॥ मणिमयी धरातलपर वीरे-वीरे डगमगाते चरण विन्याससे विचरते हुए भगवान् ऐसे शोभित होते थे मानो भूषणरूपी किरणोके साथ बालसूर्य ही घूम रहा हो ॥९॥ नाना प्रकारकी क्रीडाओमे कुशल देवकुमार हाथी, घोडे, वानर आदिके सुन्दर रूप धारण कर बडे हर्षसे बालजिनको खिलाते थे ॥१०॥ इन उपर्युक्त तथा इनके अतिरिक्त अन्य नाना प्रकारकी बालचेष्टाओके द्वारा बन्धुओको प्रमोद उत्पन्न करते और अमृतमयी अन्न-पानादिके सेवनद्वारा क्रमसे बढ़ते हुए भगवान् कुमारावस्थाको प्राप्त हुए ॥११॥

सम्यक्त्व क्षायिक चास्य प्राक्तन मलदूरगम् । अस्ति तेनाखिलार्थानां स्वयं सुनिश्चयोऽभवत् ॥१२॥
 मतिश्रुतावधिज्ञानत्रितय सहजं तदा । विभोस्कर्षता प्रायाद्विन्येन वपुषा समम् ॥१३॥
 तेन विश्वपरिज्ञानकलाविद्यादयोऽखिला । गुणा धर्मविचाराद्याश्चागु परिणतिं स्वयम् ॥१४॥
 ततोऽयं नृसुरादीनां बभूव गुरुर्जित । नापरो जातु देवस्य गुरुर्वाध्यापकोऽस्त्यहो ॥१५॥
 अष्टमे वत्सरे देवो गृह्णधर्माप्तये स्वयम् । आदौ स्वस्य भोग्यानि व्रतानि द्वादशैव हि ॥१६॥
 स्वेददूरं वपुः कान्तं मलनीहारवर्जितम् । क्षीराच्छशोणितं रम्यमादिसंस्थानभूषितम् ॥१७॥
 स वज्रधर्मनाराचज्येष्ठसहननान्वितम् । सौरूप्योत्कृष्टसयुक्तं महासौरभ्यमण्डितम् ॥१८॥
 अष्टोत्तरसहस्रप्रमैलक्षणैरलकृतम् । अप्रमाणमहावीर्याङ्कितं दधद्वयोऽमलम् ॥१९॥
 प्रियं विश्वहितं चाभूद्विमो कर्णसुखावहम् । इत्थं चातिशयैर्दिव्यै सहजैर्दशभिर्युतम् ॥२०॥
 अप्रमाणैर्गुणैश्चान्यैः सौम्याद्यैः कीर्तिकान्तिभिः । कलाविज्ञानचातुर्यैर्व्रतशीलादिभूषणैः ॥२१॥
 कनकाञ्जनवर्णाभदिव्यदेहधरं प्रभुः । द्वासप्तत्यब्दजीवी स धर्ममूर्तिरिवावभौ ॥२२॥
 अथान्येषु सुराः प्राहुः कथामस्य परस्परम् । सभायां कल्पनाथस्य महावीर्योद्भवामिति ॥२३॥
 अहो वीरजिनस्वामी कौमारपदभूषितः । धीरं शूराग्रणीं वीरो ह्यप्रमाणपराक्रम ॥२४॥
 दिव्यरूपधरोऽनेकासाधारणगुणाकरः । वर्तते क्रीडयासक्तोऽधुनासन्नभवो महान् ॥२५॥
 सङ्गमाख्योऽमरः श्रुत्वा तदुक्तं तं परीक्षितुम् । तस्मादेत्यं महोद्याने द्रुमक्रीडापरायणम् ॥२६॥

वीरप्रभुके निर्मल क्षायिक सम्यक्त्व पूर्वभवसे ही प्राप्त था, उससे उनके सर्वतत्त्वोका यथार्थ निश्चय स्वयं हो गया ॥१२॥ भगवान्के मति श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान जन्मसे ही प्राप्त थे, फिर ज्यो-ज्यो उनका दिव्य शरीर बढने लगा, त्यो-त्यो वे तीनो ज्ञान और भी अधिक उत्कर्षताको प्राप्त हुए ॥१३॥ उक्त ज्ञानोके प्रकर्षसे समस्त पदार्थोंका परिज्ञान, समस्त कलाएँ, सर्वविद्याएँ, सर्वगुण और धार्मिक विचार आदि स्वयं ही भगवान्की परिणतिको प्राप्त हुए ॥१४॥ इस कारण वे बाल प्रभु मनुष्यो और देवोके उत्तम गुरु सहजमे ही बन गये । इसीलिए वीरदेवका कोई दूसरा गुरु या अध्यापक नहीं हुआ, यह आश्चर्यकी बात है ॥१५॥ आठवे वर्षमे वीर जिनने गृहस्थ वर्मकी प्राप्तिके लिए स्वयं अपने योग्य श्रावकके वारह व्रतोको धारण कर लिया ॥१६॥

भगवान्का शरीर अतिशय सुन्दर, पसीना-रहित, मल-मूत्रादिसे रहित, दूधके समान उज्ज्वल रक्तवाला और सुगन्धित था । वे आदि समचतुरस्रसंस्थानसे भूषित थे, वज्रवृषभ-नाराचसहननके वारक थे, उत्कृष्ट सौन्दर्यसे युक्त, महासुखसे मण्डित, एक हजार आठ शुभ लक्षण-व्यजनोसे अलकृत और अप्रमाणमहावीर्यसे युक्त थे । प्रभु विश्वहितकारक और कर्णोको सुखदायक प्रिय निर्मल वचनोके धारक थे । इस प्रकार इन सहज उत्पन्न हुए दश दिव्य अतिशयो से युक्त थे, तथा सौम्यादि अप्रमाण अन्य गुणोसे, कीर्तिकान्तिसे, कला-विज्ञान चातुर्यसे और व्रत शीलादि भूषणोसे भूषित थे ॥१७-२१॥ प्रभु तपाये हुए सोनेके वर्ण जैसी आभावले दिव्य देहके और बहत्तर वर्षकी आयुके वारक थे । इस प्रकार वे साक्षात् वर्ममूर्तिके समान शोभते थे ॥२२॥

अथानन्तर एक दिन सौधर्म इन्द्रकी सभामे देवगण भगवान्के महावीर्यशाली होनेकी कथा परस्पर कर रहे थे कि देखो-वीरजिनेश्वर जो अभी कुमारपदसे भूषित है और क्रीडामे आसक्त है, फिर भी वे बडे धीर-वीर, शूरोमे अग्रणी, अप्रमाण पराक्रमी, दिव्यरूपवारी, अनेक असाधारण गुणोके भण्डार, और आसन्न भव्य है ॥२३-२५॥ देवोकी यह चर्चा सुनकर सगम नामका देव उनकी परीक्षा करनेके लिए स्वर्गसे उस महावनमे आया, जहाँ पर कि वीरजिन

कुमार भासुराकार ददर्शामा नृपात्मजै । काकपक्षधरैरेकवयोभिर्बहुभिर्मुदा ॥२७॥
 त विभीषयितु क्रूरकालनागाकृतिं सुर । कृत्वा मूलाद् द्रुमस्याशु यावत्स्कन्धमवेष्टत ॥२८॥
 तद्भयात्ते निपत्याशु विटपेभ्यो महीतलम् । दूरे पलायन चक्रु सर्वेऽतिभयविह्वला ॥२९॥
 ललज्जिह्वाशतात्युग्र तमहि भीषणाकृतिम् । मुदारुह्य विभीर्धरो नि शङ्को निर्मलाशय ॥३०॥
 कुमार क्रीडयामास मातृपर्यङ्कवत्तराम् । तृणवन्मन्यमानस्तमप्रमाणमहाबली ॥३१॥
 तद्द्वैर्यमसम वीक्ष्य देव साश्चर्यमानस । प्रकटीभूय त स्तोतु प्रोद्यथौ तद्गुणै परै ॥३२॥
 त्व देव जगता स्वामी धैर्यसारस्त्वमेव हि । त्व कृत्स्नकर्मशत्रूणा हन्ता त्राता जगत्सताम् ॥३३॥
 अनिवार्या भवत्कीर्तिश्चन्द्रिकेवातिनिर्मला । महावीर्यादिजा भव्यैर्लोकनाड्या समन्तत ॥३४॥
 त्वन्नामस्मरणाद् देव धीरस्व परम भुवि । मङ्क्षु सपद्यते पूसा सर्वार्थसिद्धिदायकम् ॥३५॥
 अत्र नाथ नमस्तुभ्य नमोऽतिदिव्यमूर्तये । नम सिद्धिवधूभर्त्रे महावीराय ते नम ॥३६॥
 इति स्तुत्वा महावीरनाम कृत्वा जगद्गुरो । सार्थक तृतीय सोऽस्मान्मुहुर्नत्वा दिव यथौ ॥३७॥
 कुमारोऽपि व्रच्चिकृष्णवन् स्वयश शशिनिर्मलम् । प्रोच्यमान द्युगन्धर्वैर्विश्वकर्णसुखप्रदम् ॥३८॥
 अन्येद्यु स्वगुणोत्पन्नगीतसागण्यनेकश । किन्नरीभि सुकण्ठीभिर्गायमानानि सादरम् ॥३९॥
 अन्यदा नर्तन चित्र नर्तकीना सुरेशिनाम् । पश्यन्नेत्रप्रिय चान्य नाटक बहुरूपिणाम् ॥४०॥
 क्वचिदालोक्यन् स्वस्य रैदानीतानि शर्मणे । भूषणाम्बरमाल्यानि दिव्यानि स्वर्गजानि च ॥४१॥

सुन्दर केशोके धारक, समान अवस्थावाले अनेक राजकुमारोके साथ आनन्दसे वृक्षपर चढ़े हुए क्रीडामे तत्पर थे । प्रभुके प्रकाशमान आकारको उस देवने देखा और उन्हें डरानेके लिए उसने क्रूर काले साँपका आकार धारण किया और वृक्षके मूल भागसे लेकर स्कन्ध तक उससे लिपट गया ॥२६-२८॥ उस भयकर साँपको वृक्षपर लिपटता हुआ देखकर उसके भयसे अतिविह्वल होकर सभी साथी कुमार डालियोसे भूमिपर कूद-कूदकर दूर भाग गये ॥२९॥ किन्तु धीर-वीर, निर्भय, निःशक, निर्मल हृदयवाले वीर कुमार तो लपलपाती सैकड़ों जीभोवाले, भीषण आकारके धारक उस साँपके ऊपर चढ़कर माताकी शय्याके समान क्रीडा करने लगे । अप्रमाणमहाबली प्रभुने उसे तृणके समान तुच्छ समझा ॥३०-३१॥ वीरकुमारके अतुल वैर्यको देखकर आश्चर्यचकित हृदयवाला वह देव प्रकट होकर उनके उत्तम गुणोसे इस प्रकार स्तुति करने लगा ॥३२॥ “हे देव, आप तीनों लोकोके स्वामी हैं, आप ही महावीर वीर हैं, आप ही सर्व कर्मशत्रुओके नाश करनेवाले हैं और जगत्के सज्जनोके रक्षक हैं ॥३३॥ चन्द्रिकाके समान अतिनिर्मल महापराक्रमादि गुणोसे उत्पन्न हुई आपकी कीर्ति भव्य पुरुषोके द्वारा सारी लोकनालीमे अनिवार्य रूपसे सर्वत्र व्याप्त है ॥३४॥ हे देव, ससारमे आपकी धीरता परम श्रेष्ठ है, आपके नामका स्मरण करने मात्रसे पुरुषोको सर्व अर्थोकी सिद्धि करनेवाला धैर्य शीघ्र प्राप्त होता है ॥३५॥ अत हे नाथ, आपको नमस्कार है, अतिदिव्यमूर्तिके धारक आपको नमस्कार है, सिद्धिवधूके स्वामी आपको नमस्कार है और महान् वीर प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है ॥३६॥ इस प्रकार स्तुति करके और जगद्-गुरु वीर प्रभुका ‘महावीर’ यह तीसरा सार्थक नाम रख करके बार-बार नमस्कार कर वह देव वहाँसे स्वर्ग चला गया ॥३७॥

वीरकुमार भी देव गन्धर्वोके द्वारा गाये गये, सबके कानोको सुखदायी, चन्द्रके समान निर्मल अपने यशको सुनते हुए विचरने लगे ॥३८॥ वे कभी सुन्दर कण्ठवाली किन्नरी देवियोके द्वारा आदरपूर्वक गाये अपने गुणोका वर्णन करनेवाले गीतोको सुनते, कभी देव-नर्तकियोके विविध प्रकारके नृत्योको देखते और कभी अनेक रूप धारण करनेवाले देवोके नेत्र प्रिय नाटकको देखते थे ॥३९-४०॥ कभी स्वर्गमे उत्पन्न हुए और कुबेर द्वारा लाये गये

क्वचिसुरकुमाराद्यै सम कुर्वन्मुदोजिताम् । जलकेलिं तथान्येद्युर्वनक्रीडा निजेच्छया ॥४२॥
 इत्याद्यैर्वहुभि क्रीडाविनोदै स निरन्तरम् । अन्वभूत्परम शर्म योग्य धर्मवतोऽपि सन् ॥४३॥
 सौधर्मेन्द्रोऽकरोत्तस्य महत्सौख्य स्वशर्मणे । विचित्रैर्नर्तनै रम्यैर्गीतगानैर्नोहरै ॥४४॥
 कारितैर्निजदेवीभि स्वर्गजेर्दिव्यवस्तुभि । काव्यवाद्यादिगोष्ठीभिर्धर्मगोष्ठीभिरन्वहम् ॥४५॥
 इत्थ सोऽद्भुतपुण्येन भुञ्जान सुखमुत्त्वणम् । क्रमालेभे जगच्छर्मकारण यौवन परम् ॥४६॥
 तदास्य मुकुटेनालकृते मन्दारमालया । शिरोऽल्लिनिभवाल च धर्माद्रिकूटवद्भवौ ॥४७॥
 ललाट रुरुचे तस्य कपोलोत्थसुकान्तिभि । निधानमिव भाग्याना वाष्टमीचन्द्रवत्तराम् ॥४८॥
 कि वर्ण्येतेऽस्य नेत्राब्जे चारुभ्रूविभ्रमाङ्किते । यदुन्मेषादिमात्रेण प्रतुप्यन्ते जगज्जना ॥४९॥
 मणिकुण्डलतेजोभिर्विभो कणौ रराजतु । गीताना पारगौ ज्योतिश्चक्रेण वेष्टिताविव ॥५०॥
 तन्मुखेन्दो परा शोभा वर्ण्यते कि पृथक्तराम् । निस्सरिष्यति यद्यस्माद् ध्वनिर्दिव्यो जगद्धित ॥५१॥
 नासिकाधरदन्ताना निस्सर्गरमणीयता । कण्ठादीना च यास्यासीत्कस्ता प्रोक्तु क्षमो बुध ॥५२॥
 पृथु वक्ष स्थल तस्य मणिहारेण भूषितम् । विदधे महती शोभा वीरचिच्छ्रीगृहोपमाम् ॥५३॥
 मुद्रिकाङ्गदकेयूरकङ्कणाद्यैरलकृतौ । बाहू सोऽधाज्जनाभीष्टप्रदौ कल्पाह्निपाविव ॥५४॥
 तदाश्रिता नखा दीप्रा मयूखाभिर्विभान्यहो । क्षमादीन् दशधर्माङ्गान् लोके वक्तुमिवाद्यता ॥५५॥
 स्वाङ्गमध्ये बभारासौ सावर्ता नाभिमद्भुताम् । मरसीमिव वाग्देवीलक्ष्म्यो क्रीडादिहेतवे ॥५६॥

सुखकारक दिव्य वस्त्र, आभूषण और मालाओको देखते, कभी देवकुमारोके साथ आनन्दसे जलक्रीडा करते और कभी अपनी इच्छासे वनक्रीडाको जाते थे ॥४१-४२॥ इत्यादि प्रकारके अनेक क्रीडा-विनोदोके साथ वीर कुमार धर्माजनोंके योग्य परम सुखका निरन्तर अनुभव करने लगे ॥४३॥ सौधर्मेन्द्र भी अपने सुखके लिए नाना प्रकारके रमणीक नृत्य और मनोहर गीत-गान अपनी देवियोंके द्वारा कराता, स्वर्गमें उत्पन्न हुई दिव्य वस्तुओके द्वारा भेट समर्पण करता, और निरन्तर काव्य-वाद्यगोष्ठी और वर्मगोष्ठीके द्वारा उन वीर प्रभुको महान् सौख्य पहुँचाता था ॥४४-४५॥ इस प्रकार वीरकुमार अद्भुत पुण्यसे उत्कृष्ट सुखको भोगते हुए क्रमसे सासारिक सुखकी कारणभूत परम यौवनावस्थाको प्राप्त हुए ॥४६॥

युवावस्थाके प्राप्त होनेपर मुकुट और मन्दारमालासे अलकृत वीर प्रभुका भ्रमरोके समान काले बालोसे युक्त सिर धर्मरूप पर्वतपर स्थित कूटके समान शोभायमान होता था ॥४७॥ कपोलोसे उत्पन्न हुई कान्तिके द्वारा उनका अष्टमीके चन्द्रतुल्य ललाट भाग्योके निधानके समान शोभित होता था ॥४८॥ सुन्दर भ्रू-विभ्रमसे युक्त उनके नेत्रकमलोका क्या वर्णन किया जाये, जिनके निमेष-उन्मेषमात्रसे जगत्-जन अत्यन्त सन्तुष्ट होते थे ॥४९॥ मणिमयी कुण्डलोकी कान्तिके प्रभुके सुन्दर गीतोको सुननेवाले दोनो कान इस प्रकार शोभित होते थे मानो वे ज्योतिषचक्रसे ही वेष्टित हो ॥५०॥ उनके मुखचन्द्रकी परम शोभाका क्या पृथक् वर्णन किया जा सकता है, जिससे कि कैवल्य प्राप्त होनेपर जगत्-हितकारी दिव्यध्वनि निकलेगी ॥५१॥ उनके नाक, अधर, ओष्ठ, और दाँतोकी, तथा कण्ठ आदिकी जो स्वाभाविक रमणीयता थी, उसे कहनेके लिए कौन बुद्धिमान् समर्थ है ॥५२॥ मणियोंसे निर्मित हारसे भूषित उनका विशाल वक्ष स्थल वीरलक्ष्मीके घरके समान भारी शोभाको धारण करता था ॥५३॥ वे मुद्रिका, अगव, केयूर, ककण आदि आभूषणोसे अलकृत दो मुजाओको अभीष्ट फल देनेवाले कल्पवृक्षोके समान धारण करते थे ॥५४॥ उनके दोनो हाथोकी अँगुलियोंके किरणोसे देदीप्यमान दशो नख ऐसे शोभायमान होते थे, मानो लोकमें क्षमादि धर्मके दश अगोको कहनेके लिए उद्यत हो ॥५५॥ वे अपने शरीरके मध्यमें आवर्त युक्त गम्भीर सुन्दर नाभिको धारण किये हुए थे, जो ऐसी ज्ञात होती थी, मानो सरस्वती और लक्ष्मी की क्रीडादि-

समेखल कटीभाग लसदशुकवेष्टितम् । स्मरारे स दधेऽगम्य ब्रह्मभूपगृहोपमम् ॥५७॥
 बभारोरुद्वय दीप्त वीरो जङ्घे च कोमले । कदल्या गर्भत कितु व्युत्सर्गादिविधौ क्षमे ॥५८॥
 पादाब्जयोर्महाकान्तिरस्य केनोपमीयते । किङ्करा इव देवेन्द्रा कुर्वन्त्याराधन ययो ॥५९॥
 इत्याद्या परमा शोभा स्यात्केशाग्र्य नखःप्रत । स्वभावेनाभवद्या ता विद्वान् को गदितु क्षम ॥६०॥
 जगत्त्रयस्थितैर्दिव्यैर्दीपै पूतैश्च पुद्गलै । सुगन्धैर्निर्मित कायो विमो सद्विधिनासम ॥६१॥
 आद्य सहनन तस्य वज्रास्थिघटित ह्यभूत् । वज्रास्थिवेष्टित वज्रनाराचैर्भिन्नमूर्जितम् ॥६२॥
 मदखेदादयो जातु नास्य गात्रे पद व्यधु । महारागादिका दोषा आतङ्काश्च त्रिदोषजा ॥६३॥
 जगत्प्रिया शुभा वाणी विश्वसन्मार्गदेशिनी । धर्ममातेव चास्यासीन्नापरोन्मार्गवतिनी ॥६४॥
 भर्तुर्दिव्याङ्गमाश्रित्य चामूनि लक्षणान्यपि । बभुर्यथात्र धर्माद्या गुणा आश्रित्य धर्मिणम् ॥६५॥
 श्रीवृक्ष शङ्ख एवाब्जस्वस्तिकाङ्कुशतोरणम् । सञ्चामर सितच्छत्र केतन सिंहविष्टरम् ॥६६॥
 मत्स्यौ कुम्भौ महाब्धिश्च कूर्मश्चक्र सरोवरम् । विमान भवन नागो मर्त्यानायौ महान् हरि ॥६७॥
 बाणवाणासने गङ्गा देवराजोऽचलाधिप । गोपुर पुरमिन्द्रकौ जात्यश्वस्तालवृन्तकम् ॥६८॥
 मृदङ्गोऽहिस्त्रजौ वीणा वेणु पट्टाशुक्रापणौ । दीप्राणि कुण्डलादीनि विचित्राभरणाणि च ॥६९॥
 उद्यान फलित क्षेत्र सुपक्कलमान्वितम् । वज्र रत्न महाद्वीपो धरा लक्ष्मी सुभारती ॥७०॥
 हिरण्य कल्पवल्ली हि चूडारत्न महानिधि । सुरभि सौरभेयोऽपि जम्बूवृक्षश्च पक्षिराट् ॥७१॥
 सिद्धार्थपादप सौधमुद्गनि तारका ग्रहा । प्रातिहार्याण्यहार्याणि चान्यानि मङ्गलान्यपि ॥७२॥

के लिए वापिका ही हो ॥५६॥ वे सुन्दर मेखला (काचीदाम) युक्त, शोभायमान रूपसे वेष्टित कटिभागको धारण करते थे, जो ऐसा प्रतीत होता था मानो कामदेवके अगम्य ऐसे ब्रह्म-नृपतिका घर ही हो ॥५७॥ वे वीरप्रभु कान्तियुक्त और केलेके गर्भभागसे भी कोमल, किन्तु कायोत्सर्ग आदिके करनेमें समर्थ दो ऊरु और जघाओको धारण करते थे ॥५८॥ उनके चरण-कमलो की महाकान्तिको किसकी उपमा दी सकती है, जिनकी कि आराधना देवेन्द्र भी किकरके समान करते है ॥५९॥ इस प्रकार नखके अग्रभागसे लेकर केशके अग्रभाग तककी उनके शरीरकी परम शोभाको जो स्वभावसे ही प्राप्त हुई थी, कहनेके लिए कौन विद्वान् समर्थ है ॥६०॥ तीन लोकमें स्थित, दिव्य, कान्तियुक्त, पवित्र, सुगन्धित पुद्गल-परमाणुओसे ही विधाताने प्रभुका अनुपम शरीर रचा था ॥६१॥ उनका प्रथम वज्रवृषभ नाराच-सहनन था, जो कि वज्रमय हड्डियोसे घटित, वज्रमय वेष्टनोसे वेष्टित और वज्रमय कीलोसे कीलित था ॥६२॥ उनके शरीरमें मद्, खेद आदि विकार, रागादि दोष, और त्रिदोष-जनित रोगादिने कभी स्थान नहीं पाया था ॥६३॥ उनकी शुभ वाणी जगत्-प्रिय, विश्वको सन्मार्गका उपदेश देनेवाली और धर्ममाताके समान कल्याणकारिणी थी, कुदेवोके समान उन्मार्ग प्रवर्तानेवाली नहीं थी ॥६४॥

वीरप्रभुके दिव्य शरीरको पाकर ये आगे कहे जानेवाले लक्षण (चिह्न) ऐसे शोभायमान होते थे, जैसे कि धर्मात्माको पाकर धर्मादिक गुण शोभित होते है ॥६५॥ वे लक्षण ये है— श्रीवृक्ष, शङ्ख, कमल, स्वस्तिक, अकुश, तोरण, चामर, श्वेत छत्र, ध्वजा, सिंहासन, मत्स्य-युगल, कलश युगल, समुद्र, कच्छप, चक्र, सरोवर, देव-विमान, नाग-भवन, स्त्री-पुरुष-युगल, महासिंह, वनूष, बाण, गंगा, इन्द्र, सुमेरु, गोपुर, नगर, चन्द्र, सूर्य, उत्तम जातिका अश्व, तालवृन्त, मृदग, सर्प, माला, वीणा, वींसुरी, रेशमी वस्त्र, दुकान, दीप्ति युक्त कुण्डल, विचित्र आभूषण, फलित उद्यान, सुपक्क धान्ययुक्त क्षेत्र, वज्र, रत्न, महाद्वीप, पृथ्वी, लक्ष्मी, सरस्वती, सुवर्ण, कल्पलता, चूडामणिरत्न, महानिधि, कामवेनु, उत्तम वृषभ, जम्बू वृक्ष, पक्षिराज (गरुड़), सिद्धार्थ (सर्षप) वृक्ष, प्रासाद, नक्षत्र, तारिका, ग्रह, प्रातिहार्य इत्यादि दिव्य

इत्याद्यैर्लक्षणैर्दिव्यैरष्टोत्तरशतप्रमै । व्यञ्जनै सकलै सारै परैर्नवशतान्तिकै ॥७३॥
 विचित्राभरणै स्रग्भिनिसर्गसुन्दर विभो । दिव्यमौदारिक देह बभौ त्यक्तोपम भुवि ॥७४॥
 किमत्र बहुनोक्तेन यत्किञ्चिल्लक्षण शुभम् । रूप सपत्प्रिय वाक्य विवेकादिगुणव्रजम् ॥७५॥
 जगत्त्रयेऽपि तत्सर्वं तीर्थकृत्पुण्यपाकत । बभूव स्वयमेवान्यद्दानेकशर्मकृत्प्रभो ॥७६॥
 इत्याद्यन्यतरै रम्यैर्गुणातिशयनिर्मलै । भूषित सेव्यमानोऽसौ नृखेचरसुराधिपै ॥७७॥
 त्रिशुद्ध्या पालयन् गेहिव्रतानि धर्मसिद्धये । अतिक्रमादते नित्य शुभध्यानानि चिन्तयन् ॥७८॥
 कुमारलीलया दिव्यान् नृपशकृपितान्मुदा । भुञ्जानो महतो भोगान् स्वपुण्यजनितान् शुभान् ॥७९॥
 त्रिशद्वर्षाणि पूर्णानि कुमारशर्मणानयत् । मन्दरागो जगन्नाथ क्षणवत्सन्मतिर्महान् ॥८०॥
 अथान्येद्युर्महावीर काललब्ध्या प्रेरित । चारित्रावरणादीना क्षयोपशमत स्वयम् ॥८१॥
 प्राक् परिभ्रमण स्वस्य विचिन्त्य भवकोटिभि । उत्कृष्ट प्राप वैराग्य विश्वभोगाङ्गवस्तुषु ॥८२॥
 ततोऽस्य धीमतश्चित्ते वितर्क इत्यभूत्तराम् । रत्नत्रयतप कर्ता मोहारातिक्षयकर ॥८३॥
 अहो वृथा गतान्यत्र समेयन्ति दिनानि च । मुग्धस्येव विना वृत्त दुर्लभानि जगत्त्रये ॥८४॥
 प्राक्तना वृषभाद्या ये तेषामायु सुपुष्कलम् । सर्वत्र कर्तुमायाति न चास्मत्सदृशा क्वचित् ॥८५॥
 नेमिनाथाद्यो धन्या विदित्वा स्वस्य जीवितम् । स्वल्प बाल्येऽप्यगुर्धारा शीघ्र मुक्त्यै तपोवनम् ॥८६॥
 अतोऽत्यल्पायुषा नैवात्रैका कालकला क्वचित् । सयमेन विना नेतु न योग्या हितकाङ्क्षिणाम् ॥८७॥

एक सौ आठ लक्षणोसे और नौ सौ उत्तम व्यजनोसे, तथा शरीरपर धारण किये गये अनेक प्रकारके आभूषणोसे और मालाओसे स्वभावतः सुन्दर भगवान्का दिव्य औदारिक शरीर अत्यन्त शोभायुक्त था, जिसकी ससारमे कोई उपमा नहीं थी ॥६६-७४॥ इस विषयमे अधिक कहनेसे क्या लाभ है ? इस जगत्त्रयमे जो कुछ भी शुभ लक्षण, रूप, सम्पदा, प्रिय-वचन, विवेकादि गुणोका समूह है, वह सब तीर्थकरप्रकृतिके पुण्य-परिपाकसे वीरप्रभुको स्वयमेव ही सुखके सावन प्राप्त हुए थे ॥७५-७६॥ इत्यादि अन्य अनेक रमणीय निर्मल गुणातिशयोसे भूषित और नरेन्द्र, विद्याधर एव देवेन्द्रोसे सेवित वीरप्रभुने धर्मकी सिद्धिके लिए मन-वचन-कायकी शुद्धि द्वारा श्रावकके व्रतोको नित्य अतिचारोके विना पालन करते, शुभ ध्यानोका चिन्तवन करते, अपने पुण्यसे उपार्जित एव मनुष्यो और इन्द्रोसे समर्पित दिव्य शुभ महान् भोगोको भोगते हुए कुमारकालीन लीलाके साथ कुमारकालके तीस वर्ष एक क्षणके समान पूर्ण किये । इस अवस्थामे वे जगन्नाथ सन्मतिदेव परम मन्दरागी रहे । अर्थात् उनके हृदयमे कभी काम-राग जागृत नहीं हुआ, किन्तु सासारिक विषयोसे उदासीन हो रहे ॥७७-८०॥

अथानन्तर काललब्धिसे प्रेरित महावीर प्रभु किसी दिन चारित्रावरणीय कर्मोके क्षयोप-शमसे स्वय ही अपने कोटिभवोके पूर्व परिभ्रमणका चिन्तवन करके ससार, शरीर और भोगके कारणभूत द्रव्योमे उत्कृष्ट वैराग्यको प्राप्त हुए ॥८१-८२॥ तब उन महाबुद्धिशाली प्रभुके चित्तमे रत्नत्रय धर्म और तपश्चरणका करनेवाला, तथा मोहशत्रुका नाशक ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ ॥८३॥ अहो, तीन जगत्त्रमे दुर्लभ मेरे इतने दिन चारित्रके विना मूढ पुरुषके समान वृथा ही चले गये ॥८४॥ पूर्वकालवर्ती जो वृषभादि तीर्थकर थे, उनका आयुष्य बहुत था, इसलिए वे सासारिक सर्व कार्य कर सके थे । अब अल्प आयुवाले हमारे जैसोको सर्व कार्य करना कभी उचित नहीं है ॥८५॥ नेमिनाथ आदि धीर-वीर तीर्थकर धन्य है कि जो अपना स्वल्प जीवन जानकर बालकालमे ही शीघ्र मुक्ति-प्राप्तिके लिए तपोवनको चले गये ॥८६॥ इसलिए इस ससारमे हितको चाहनेवाले अल्पायुके धारक पुरुषोको सयमके बिना कालकी

स्वल्पायुषो दिनान्यत्र गमयन्ति तपो विना । ये ते सीदन्त्यहो मूढा यमेन प्रसिता भुवि ॥८८॥
 चित्र त्रिज्ञाननेत्रोऽह मूढवत्सयमादृते । इयन्त कालमात्मज्ञ स्थितो गेहाश्रमे वृथा ॥८९॥
 तेन ज्ञानत्रयेणात्र किं साध्य येन नक्षयते । कर्मादि स्व पृथक्कृत्वा मुक्तिश्रीमुखपङ्कजम् ॥९०॥
 ज्ञानस्य सत्फल तेषां ये चरन्ति तपोऽनघम् । अन्यथा त्रिफल क्लेशो ज्ञानाभ्यासादिगोचर ॥९१॥
 सचक्षुर्यं पतेत्कूपे तस्य चक्षुर्निरर्थकम् । यथा ज्ञानी पतेन्मोहकूपे यस्तस्य तद् वृथा ॥९२॥
 अज्ञानेन कृत पाप यत्तज्ज्ञानेन मुच्यते । ज्ञानेन यत्कृत पाप तदत्र केन मुच्यते ॥९३॥
 इति मत्वा कचित्पाप न कार्यं ज्ञानशालिभिः । प्राणात्ययेऽपि सप्राप्ते मोहादिनिन्द्यकर्मभिः ॥९४॥
 यतो मोहेन जायेते रागद्वेषो हि दुर्वरो । ताभ्यां घोरतर पाप पापेन दुर्गतौ चिरम् ॥९५॥
 परिभ्रमणमत्यर्थं तस्माद्वाचामगोचरम् । लभन्ते प्राणिनो दुःख परार्थिना सुखच्युता ॥९६॥
 मत्वेति ज्ञानिभिः पूर्वं हन्तव्यो मोहशात्रव । स्फुरद्द्वैराग्यखड्गन विश्वानर्थकर खल ॥९७॥
 सोऽप्यहो शक्यते जातु न हन्तु गृहमधिभिः । तस्मात्तद्दूरतस्त्याज्य पापवद्-गृहबन्धनम् ॥९८॥
 सर्वानर्थं करीभूत बालत्वेऽपि विचक्षणैः । उन्मत्तयौवनत्वे वा धीरैर्मुक्त्याप्तय यत ॥९९॥
 त एव जगता पूज्या महान्तो धैर्यशालिनः । निघ्नन्ति यौवनस्था ये स्मरारि सुष्ठु दुर्जयम् ॥१००॥
 यतो यौवनभूषेण प्रेरिता मदनादयः । पञ्चाक्षतस्करा यान्ति विक्रिया परमा भुवि ॥१०१॥
 आयाते मन्दता यौवनराजे तेऽपि यान्त्यहो । मन्दता स्वाश्रयाभावाज्जरापाशेन वेष्टिता ॥१०२॥

एक कला भी बिताना योग्य नहीं है ॥८७॥ अहो, अल्प आयुके धारक जो मनुष्य तपके बिना जीवनके दिनोको व्यर्थ गँवाते हैं, वे मूढजन यमराजसे प्रसित होकर ससारमे दुःख पाते हैं ॥८८॥ आश्चर्य है कि तीन ज्ञानरूप नेत्रोका धारक और आत्मज्ञ भी मैं मूढके समान सयमके बिना इतने काल तक वृथा गृहाश्रममे रह रहा हूँ ॥८९॥ इस ससारमे तीन ज्ञानकी प्राप्तिसे क्या साध्य है जबतक कि कर्मादिसे अपने स्वरूपको पृथक् करके मुक्ति-लक्ष्मीका मुख-फल नहीं देखा जाये ॥९०॥ ज्ञान पानेका सत्फल उन्ही पुरुषोको है जो कि निर्मल तपका आचरण करते हैं। दूसरोका ज्ञानाभ्यासादि-विषयक क्लेश निष्फल है ॥९१॥ जो नेत्र धारण करके भी कूपमे पड़े, उसके नेत्र निरर्थक है। उसी प्रकार जो ज्ञानी मोहरूप कूपमे पड़े, तो उसका ज्ञान पाना वृथा है ॥९२॥ जो पाप अज्ञानसे किया जाता है वह ज्ञानसे छूट जाता है। किन्तु ज्ञानसे (ज्ञान करके) किया गया पाप ससारमे किसके द्वारा छूट सकेगा? किसीके द्वारा भी नहीं छूट सकेगा ॥९३॥ ऐसा समझकर ज्ञानशालियोको प्राणाके जानेपर भी मोह-जनित निन्द्य कार्योंके द्वारा कभी कोई पाप कार्य नहीं करना चाहिए ॥९४॥ क्योंकि मोहसे ही दुर्वर राग द्वेष होते हैं, उनसे पुनः अतिघोर पाप होता है तथा पापसे दुर्गतिमे चिरकाल तक परिभ्रमण करना पडता है और उससे सुख विमुक्त प्राणी परार्थिन होकर बचनोके अगोचर अति भयानक दुःखोको पाते हैं ॥९५-९६॥ ऐसा समझकर ज्ञानी जनोको पहले मोहरूपी शत्रु स्फुरायमान वैराग्यरूप खड्गसे मार देना चाहिए, क्योंकि वह दुष्ट समस्त अनर्थोका करनेवाला है ॥९७॥ अहो, वह मोहशत्रु गृहस्थोके द्वारा कभी नहीं मारा जा सकता है, इसलिए पापकारक यह घरका बन्धन दूरसे ही छोड़ देना चाहिए ॥९८॥ यह गृह-बन्धन बालपनमे और उन्मत्त यौवन अवस्थामे सर्व अनर्थोका करनेवाला है, अतः धीर-वीर बुद्धिमानोको मुक्ति प्राप्तिके लिए उसका त्याग कर ही देना चाहिए ॥९९॥ वे ही पुरुष जगत्मे पूज्य हैं, और वे ही महावैर्यशाली हैं, जो कि यौवन अवस्थामे ही अति दुर्जन कामशत्रुका नाश करते हैं ॥१००॥ क्योंकि यौवनरूप भूपके द्वारा प्रेरित हुए पचेन्द्रिय-रूपी चोर ससारमे परम विकारको प्राप्त होते हैं ॥१०१॥ यौवनरूपी राजाके मन्द पडनेपर अपने आश्रयके अभावसे वृद्धावस्थारूपी पाशके द्वारा वेष्टित होकर वे इन्द्रिय चोर भी

तस्मान्मन्ये तद्वाह तपो दुष्करमूजितम् । दमन विषयारीणा युवभि क्रियते च यत् ॥१०३॥
 विचिन्त्येति महाप्राज्ञ सन्मति प्रोज्ज्वले हृदि । नि स्पृहो राज्यभोगादौ सस्पृह शिवसाधने ॥१०४॥
 क'रागारसम गेह ज्ञात्वा राज्यश्रिया समम् । त्यक्तु तपोवन गन्तु प्रोद्यम परम व्यधात् ॥१०५॥
 इति शुभपरिणामाकाललब्ध्या च तीर्थेऽ सकलसुखनिधान प्राप सवेगसारम् ।
 मदनजनितसौख्य योऽप्यभुक्त्वा कुमार इह दिशतु स वीरो मे स्तुत स्वा विभूतिम् ॥१०६॥
 वीरो वारगणै स्तु ॥ इच महितो वीरा हि वीर श्रिता
 वीरेणात्र विधीयतेऽखिलसुख वीराय मूर्ध्ना नम ।
 वीराद्वीरपद भवेत् त्रिजगता वीरस्य वीरा गुणा
 वीरे मा दधत मनोऽरिविजये श्रीवीर वीर कुरु ॥१०७॥

इति भट्टारक-श्रीसकलकीर्तिविरचिते श्रीवीर-वर्धमानचरिते भगवत्कुमार-
 कालवैराग्योत्पत्तिवर्णनो नाम दशमोऽधिकारः ॥१०॥

मन्दताको प्राप्त हो जाते हैं ॥१०२॥ इसलिए मैं उसे ही परम दुष्कर तप मानता हूँ जो कि युवावस्थावाले पुरुषोंके द्वारा विषयरूप शत्रुओका दमन किया जाता है ॥१०३॥ इस प्रकार विचार करके महाप्रज्ञाशाली सन्मति प्रभु अपने उज्ज्वल हृदयमे राज्यभोग नि स्पृह (इच्छा रहित) हुए और शिव-साधन करनेके लिए सस्पृह (इच्छावाले) हुए ॥१०४॥ उन्होंने घरको कारागार के समान जानकर राज्यलक्ष्मीके साथ उसे छोडने और तपोवन जानेके लिए परम उद्यम किया ॥१०५॥

इस प्रकार शुभ परिणामोसे और काललब्धिसे तीर्थकर प्रभु काम जनित सुखको नहीं भोग करके ही समस्त सुखोके निधानभूत उत्कृष्ट सवेग को प्राप्त हुए । इस प्रकारके वे वीर कुमार मेरे द्वारा स्तुतिको प्राप्त होकर मुझे अपनी विभूति देवे ॥१०६॥

वीर प्रभु वीरजनोके द्वारा सस्तुत और पूजित है, वीर पुरुष वीरनाथके आश्रयको प्राप्त होते है, वीरके द्वारा ही इस ससारमे समस्त सुख दिये जाते है, ऐसे वीर प्रभुके लिए मस्तकसे नमस्कार है । वीरसे जगत्के जीवोको वीरपद प्राप्त होता है, वीरके गुण भी वीर है, वीरमे अपने मनको धारण करनेवाल मुझे हे श्री वीर भगवन्, शत्रुको जीतने के लिए वीर करो ॥१०७॥

इस प्रकार भट्टारक श्री सकलकीर्ति विरचित श्री वीरवर्धमान चरित्रमे भगवान्के कुमारकालमे वैराग्यकी उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला दसवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥१०॥

एकादशोऽधिकारः.

वन्दे वीर महावीर कर्मारतिनिपातने । सन्मति स्वात्मकार्यादौ वर्धमान जगत्त्रये ॥१॥
 अथ स्वामी महावीर स्ववैराग्यप्रवृद्धये । अचिन्तयदनुप्रेक्षा द्वादशेति जगद्धिता ॥२॥
 अनित्याशरणे ससारैकत्वान्यत्वसञ्ज्ञका । ततोऽशुच्यास्त्रवौ सवरामिधो निर्जरा तथा ॥३॥
 लोकस्त्रिधात्मको बोधिदुर्लभो धर्म एव हि । द्विषद्भेदा इमा प्रोक्ता अनुप्रेक्षा विरागदा ॥४॥
 आयुर्नित्य यमाक्रान्त जरास्यस्थ च यौवनम् । रोगोरगबिल काय खसुख क्षणभङ्गुरम् ॥५॥
 यत्किञ्चिद् दृश्यते वस्तु सुन्दर भुवनत्रये । कर्मोद्भव हि तत्सर्व नश्येत्कालेन नान्यथा ॥६॥
 यदायुर्दुर्लभ पुमा भवकोटिशतैरपि । क्षणविध्वंसि मृत्योस्तत्का दुराशान्यवस्तुषु ॥७॥
 यतो गर्भात्समारभ्य देहिन समयदिभि । नयति स्वान्तिक पापी यमो विश्वक्षयकर ॥८॥
 यद्यौवन सता मान्य धर्मशर्मादिमाधनम् । तदपि व्याधिमृत्यादे क्षणाद् यात्यन्नत्रक्षयम् ॥९॥
 यौवनस्था यत केचिद् रागाग्निक्वलीकृता । भुञ्जन्ति विविध दु ख चान्ये वन्दिगृहे धृता ॥१०॥
 यस्यार्थ क्रियते कर्म निन्द्य श्वभ्रादिसाधकम् । नि सार तदपि प्रोक्त कुटुम्ब चञ्चल यमात् ॥११॥
 राज्यलक्ष्मीसुखादीनि चक्रिणामपि भूतले । अभ्रच्छायोपमान्यत्र स्थिरता कान्यवस्तुषु ॥१२॥

कर्मरूप शत्रुओके नाश करनेमे महावीर, अपने आत्मीय कार्य आदिके साधनमे सन्मति और जगत्त्रयमे वर्धमान ऐसे श्री वीरप्रभुको वन्दन करता हूँ ॥१॥

अथानन्तर महावीर स्वामी अपने वैराग्यकी वृद्धिके लिए जगत्-हितकारी अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस्रव, सवर, निर्जरा, त्रिप्रकारात्मक लोक, बोधिदुर्लभ और धर्मनामवाली, वैराग्य-प्रदायिनी बारह अनुप्रेक्षाओका चिन्तन करने लगे ॥२-४॥

ससारकी अनित्यताका विचार करते हुए वे सोचने लगे—प्राणियोंकी आयु नित्य ही—प्रतिसमय यमसे आक्रान्त हो रहीं है, यौवन वृद्धावस्थाके मुखमे प्रवेश कर रहा है, यह शरीर रोगरूपी सँपोका विल है और ये इन्द्रिय-सुख क्षणभंगुर है ॥५॥ इस तीन भुवनमे जो कुछ भी वस्तु सुन्दर दिखती है, वह सब कर्म-जनित है और समय आनेपर नष्ट हो जायेगी, यह अन्यथा नहीं हो सकता ॥६॥ जब शतकोटि भवोसे भी अति दुर्लभ मनुष्योंकी आयु मृत्युसे क्षणभरमे नष्ट हो जाती है, तब अन्य वस्तुओमे स्थिरताकी इच्छा करना दुरासामात्र है ॥७॥ क्योंकि गर्भकालसे लेकर यह विश्वका क्षय करनेवाला पापी यमराज प्राणीको प्रति समय अपने समीप ले जा रहा है ॥८॥ जो यौवन सज्जनोंके वर्म और सुखका साधन माना जाता है, वह भी व्याधि और मृत्यु आदिसे मेघके समान क्षणभरमे क्षयको प्राप्त हो जाता है ॥९॥ यौवन अवस्थामे रहते हुए ही कितने मनुष्य रागरूपी अग्निके ग्रास बन जाते हैं और कितने ही बन्दीगृहमे बद्ध होकरके नाना प्रकारके दु ख भोगते हैं ॥१०॥ जिस कुटुम्बके लिए यह प्राणी नरक आदि दुर्गतियोंके साधक निन्द्य कर्म करता है, वह कुटुम्ब भी यमसे प्रस्त है, चंचल है, अतः नि सार कहा गया है ॥११॥ इस भूतलपर जब चक्रवर्तियोंके भी राज्यलक्ष्मी और सुखादिक मेघ छायाके समान अस्थिर है तब अन्य वस्तुओमे स्थिरता कहाँ

विज्ञायेति क्षणव्यसि जगद्वस्त्वखिल बुधा । साधयन्ति द्रुत मोक्ष नित्य नित्यगुणाकरम् ॥१३॥

(अनित्यानुप्रेक्षा १)

यथात्र निर्जनेऽरण्ये सिंहद्वान्तराच्छिशो । न कोऽपि शरण जातु रुम्भत्यादेस्तथाङ्गिनाम् ॥१४॥
यत सेन्द्रै सुरै सर्वैश्चक्रिविद्याधरादिभि । यमेन नीयमानोऽङ्गी क्षण त्रातु न शक्यते ॥१५॥
मणिमन्त्रादयो विश्वे कृत्स्नाश्चौषधराशय । व्यर्थीभवन्त्यहो नृणामागते सम्मुखेऽन्तके ॥१६॥
शरण्या सद्बुधै प्रोक्ता जिना सिद्धाश्च साधव । सहगामी सता त्राता धर्म केवलिभाषित ॥१७॥
तपोदानजिनेन्द्रार्चाजपरत्नत्रयादय । विश्वानिष्टाघहन्तार शरण्या धीमता भुवि ॥१८॥
शरण यान्ति येऽमीषा मत्रस्ताशया बुधा । तेऽचिरात्तद्गुणानाप्य परा स्युस्तत्समा स्फुटम् ॥१९॥
चण्डिकाक्षेत्रपालादीन् य यान्ति शरण शठा । ते ग्रस्ता रोगदु खौवै पतन्ति नरकार्णवे ॥२०॥
मत्वेति वीधनै कार्या शरण्या परमेष्ठिन । तपोधर्मादय स्वस्य विश्वदु खान्तकारिण ॥२१॥
तथानन्तगुणै पूर्णो मोक्षोऽनन्तसुखाकर । विद्धि स्वस्य शरण्योऽनुष्ठेयो रत्नत्रयादिभि ॥२२॥

(अशरणानुप्रेक्षा २)

ससारो ह्यादिमध्यान्तदूरइचाभव्यदहिनाम् । अनन्तोऽशर्मसपूर्ण सान्तो भव्यात्मना क्वचित् ॥२३॥
सुखदु खोभय भाति ससारेऽत्र जडात्मनाम् । अन्वह केवल दु ख ज्ञानिना च मतेर्बलात् ॥२४॥
यता यदेव मन्यन्ते विषयोत्थ सुरा जडा । तदेव चाधिक दु ख विदु श्वाभ्राघघार्जनात् ॥२५॥

सम्भव है ॥१२॥ इस प्रकार इस समस्त जगत्को क्षण-विध्वसी जानकर ज्ञानी पुरुष शीघ्र ही नित्य गुणोंके भण्डाररूप स्थायी मोक्षका साधन करते हैं ॥१३॥

(यह अनित्यानुप्रेक्षा है-१)

जिस प्रकार निर्जन वनमें सिंहकी दाढ़ीके बीचमें स्थित मृग-शिशुका कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार प्राणियोंको रोग और मरणसे बचानेके लिए कोई शरण नहीं है ॥१४॥ यमराजके द्वारा ले जाये जानेवाले प्राणीकी एक क्षण भी रक्षा करनेके लिए सर्व देव, इन्द्र, चक्रवर्ती और विद्यावरदि भी समर्थ नहीं हैं ॥१५॥ अहो, मनुष्योंको ले जानेके लिए यमराजके सम्मुख आ जानेपर मणि-मन्त्रादिक और ससारकी समस्त औषधिराशियाँ व्यर्थ हो जाती हैं ॥१६॥ ज्ञानीजनोंने अरहन्त जिन, सिद्ध परमात्मा, साधुजन और केवलि-भाषित वर्म सज्जनोंके रक्षक और सहगामी कहे हैं ॥१७॥ ससारमें बुद्धिमानोंके लिए तप, दान, जिनेन्द्र-पूजन, जप, रत्नत्रय आदि ही शरण देनेवाले और सर्व अनिष्ट और पापोंका नाश करनेवाले हैं ॥१८॥ ससारके दुःखोंसे त्रस्त चित्त—जो पण्डितजन उक्त अरहन्त आदिके शरणको प्राप्त होते हैं, वे शीघ्र ही उनके गुणोंको प्राप्त होकर नियमसे उनके समान हों जाते हैं ॥१९॥ जो मूर्ख चण्डिका और क्षेत्रपाल आदिके शरण जाते हैं, वे रोग-दुःख आदिके समूहसे पीड़ित होकर नरकरूप समुद्रमें गिरते हैं ॥२०॥ ऐसा जानकर ज्ञानीजनको अपने समस्त दुःखोंके अन्त करनेवाले पंचपरमेष्ठी और तप-धर्मादिका शरण ग्रहण करना चाहिए ॥२१॥ तथा अनन्त गुणोंसे परिपूर्ण और अनन्त सुखोंका समुद्र ऐसा मोक्ष रत्नत्रय आदिके द्वारा सिद्ध करना चाहिए, वही आत्माको शरण देनेवाला है ॥२२॥

(अशरणानुप्रेक्षा-२)

यह ससार अभव्य जीवोंके लिए आदि, मध्य और अन्तसे दूर है, अर्थात् अनादि-अनन्त है और अनन्त दुःखोंसे भरा हुआ है । किन्तु भव्यजीवोंकी अपेक्षा वह शान्त है ॥२३॥ मूर्खजनोंके लिए इस ससारमें सुख और दुःख दोनों प्रतिभासित होते हैं । किन्तु ज्ञानियोंको तो बुद्धिके बलसे केवल दुःखरूप ही प्रतीत होता है ॥२४॥ जड़ बुद्धिवाले लोग जिस विषय-जनित सुखाभासको सुख मानते हैं, ज्ञानीजन उसे नरकादि दुर्गतियोंके कारणभूत पापोंका

द्रव्यादिभ्रमणै पञ्चप्रकारा च भवाटवीम् । दु खव्यात्रादिससेव्या भीमा खतस्करैर्भृताम् ॥२६॥
 सर्वेऽङ्गिनश्चिर भ्रेसुभ्रंमन्ति गलके धृता । कर्मारिभिर्भ्रमिष्यन्ति हेति रत्नत्रयादते ॥२७॥
 न गृहीता न मुक्ता ये पुद्गला खाङ्गकर्मभि । न रयुस्तेऽत्र भवानन्तान् भ्रमद्भिर्विश्व जन्तुभि ॥२८॥
 विद्यते स प्रदेशो न यत्रोत्पन्ना मृता न च । सर्वेऽङ्गिनो भ्रमन्तोऽसख्यप्रदेशेऽखिलेऽत्र खे ॥२९॥
 उत्सपिण्यवसपिण्योर्नास्त्येक समयोऽत्र स । यत्र जाता व्यथ प्राप्ता बहुशो नाखिलाङ्गिन ॥३०॥
 चतुर्गतिषु सा योनिर्न स्याद्या कृत्स्नदेहिभि । न नीता नोज्झिता मुक्त्वा विमानानि चतुर्दश ॥३१॥
 मिथ्यादिप्रत्ययै सप्तपञ्चाशत्सख्यकै खलै । दुष्कर्माण्यनिश जीवा भ्रमन्तोऽत्रार्जयत्यहो ॥३२॥
 इत्यनासाद्य य धर्म भ्रमन्त्यत्र सदाङ्गिन । भवन्न बहुयत्नेन भवभीता भजन्तु तम् ॥३३॥
 धर्मेणानन्तशर्माढ्य निर्वाण दु खदूरगम् । यत्नाद्भ्रमणेषु शर्मकामा श्रयन्त्वहो ॥३४॥

(ससारानुप्रेक्षा ३)

एकाकी जायते प्राणी ह्येको याति यमान्तिकम् । एको भ्रमेद्भ्रवारण्य चैको भुङ्क्तेऽसुख महत् ॥३५॥
 एको रोगादिभिर्ग्रस्तो लभते तीव्रवेदनाम् । तदश नैव गृह्णन्ति पश्यन्त स्वजना क्वचित् ॥३६॥
 यमेन नीयमानोऽङ्गी कुर्वन्नाक्रन्दमुल्वणम् । एकाकी शक्यते त्रातु क्षण जातु न बन्धुभि ॥३७॥

उपार्जन करनेसे भारी दुःख मानते हैं ॥२५॥ दुःखरूपी व्यात्रादिसे सेवित, भयानक और इन्द्रियविषयरूप चौरोंसे भरी हुई द्रव्य, क्षेत्रादिरूप पाँच प्रकारकी ससाररूप गहन अटवीमे सभी प्राणी रत्नत्रयवर्मके बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, और भावरूप पच प्रकारके परावर्तनोंके द्वारा कर्मशत्रुओंसे गला पकड़े हुएके समान भूतकालमे घूमे हैं, वर्तमानकालमे घूम रहे हैं और भविष्यकालमे घूमेगे ॥२६-२७॥ इस ससारमे अनन्त भवोंके भीतर परिभ्रमण करते हुए सभी प्राणियोंने अपनी इन्द्रियो और कर्मोंके रूपसे जिन पुद्गल परमाणुओंको ग्रहण न किया हो और छोडा न हो, ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं है । अर्थात् सभी पुद्गल परमाणुओंको अनन्त बार शरीर और कर्मरूपसे ग्रहण करके छोडा है । यह द्रव्यपरिवर्तन है ॥२८॥ इस असख्यप्रदेशी लोकाकाशमे ऐसा एक भी प्रदेश शेष नहीं है, जहाँपर परिभ्रमण करते हुए सभी प्राणियोंने जन्म और मरण न किया हो । यह क्षेत्रपरिवर्तन है ॥२९॥ उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालका ऐसा एक भी समय नहीं बचा है, जिसमे सभी प्राणियोंने अनन्त बार जन्म न लिया हो और मरणको न प्राप्त हुए हो । यह कालपरिवर्तन है ॥३०॥ देवलोकके नौ अनुदिश और पाँच अनुत्तर इन चौदह विमानोंको छोडकर शेष चारो गतियोंमे ऐसी एक भी योनि शेष नहीं है, जिसे कि समस्त प्राणियोंने अनन्त बार ग्रहण न किया हो और छोडा न हो । यह भवपरिवर्तन है ॥३१॥ अहो, ये ससारी जीव मिथ्यात्व, कषायादि सत्तावन प्रत्ययरूप दुष्टोंके द्वारा परिभ्रमण करते हुए निरन्तर दुष्कर्मोंका उपार्जन करते रहते हैं । यह भावपरिवर्तन है ॥३२॥ इस प्रकार जिस सद्-वर्मको नहीं प्राप्त कर प्राणी इस ससारमे सदा भ्रमण करते रहते हैं, उस ससार-नाशक सद्-धर्मको भव-भयभीत पुरुष बहुयत्नके साथ सेवन करे ॥३३॥ सुखके इच्छुक हे भव्यजनो, दुःखोंसे रहित और अनन्त सुखोंसे परिपूर्ण शिवपदको शीघ्र पानेके लिए रत्नत्रयरूप वर्मका आश्रय करो ॥३४॥

(ससारानुप्रेक्षा-३)

ससारमे यह प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही यमके समीप जाता है, अकेला ही भव काननमे भ्रमण करता है और अकेला ही महादुःखको भोगता है ॥३५॥ जब रोगादिसे पीडित यह प्राणी तीव्र वेदनाको पाता है, उस समय देखते हुए भी स्वजन-बन्धुगण कहीं भी उस वेदनाका अशमात्र भी हिस्सा नहीं बाँट सकते हैं ॥३६॥ यमके द्वारा ले जाया हुआ यह अकेला प्राणी जब अत्यन्त कष्ट विलाप करता जाता है, उस समय बन्धुजन एक

एको य कुर्वते पाप स्वस्य दुर्गतिकारणम् । निन्द्यै सावद्यहिंसाद्यै स्वपरीवारवृद्धये ॥३८॥
 तत्फलेन स एवात्र प्राप्य श्वभ्रादिदुर्गती । भुनक्ति परम दु ख तेनामा न जनोऽपर ॥३९॥
 उपार्ज्यैको महत्पुण्य जिनेन्द्रादिविभूतिदम् । दक्तपोज्ञानवृत्ताद्यैस्तद्विपाकेन धीधन ॥४०॥
 भुङ्क्ते त्यक्तोपम सौख्य स्वर्गादिसुगतौ महत् । आसाद्य महतीर्भूतीर्नापर कोऽपि तत्सम ॥४१॥
 एको हत्वा स्वकर्मांरीस्तपोरत्नत्रयादिभि । अनन्तसुखसपन्न याति मोक्ष भवातिग ॥४२॥
 इत्येकत्वं परिज्ञाय सर्वत्र स्वस्य धीधना । एक चिदात्मक नित्य ध्यायन्तु तत्पदाप्तये ॥४३॥

(एकत्वानुप्रेक्षा ४)

अन्यस्त्व स्वात्मनो विद्धि जन्ममृत्यादिषु स्फुटम् । स्वाङ्गकर्मसुखादिभ्यो निश्चयाद्वाखिलाङ्गिनाम् ॥४४॥
 अन्या माता पिताप्यन्योऽन्येऽनो सर्वेऽपि बान्धवा । स्त्रीपुत्राद्याश्च जायन्ते कर्मपाकाज्जगत्त्रये ॥४५॥
 सहज वपुरात्मीय पृथग्यत्र विलोक्यते । साक्षान्मृत्यादिके तत्र किं स्वकीय गृहादिकम् ॥४६॥
 आत्मन स्यात्पृथग्भूत मन पुद्गलकर्मजम् । सकल्पजालपूर्णं च निश्चयेन वचो द्विधा ॥४७॥
 कर्माणि कर्मकार्याणि सुखदु खान्यनेकश । जीवाच्चान्यस्वरूपाणि भवन्ति परमार्थत ॥४८॥
 इन्द्रियैर्यै पदार्थादीन् जीवो जानाति तत्त्वत । तेऽपि ज्ञानात्मनो भिन्ना विज्ञेया पुद्गलोद्भवा ॥४९॥
 रागद्वेषादयो भावा वर्तन्ते येऽस्य तन्मया । तेऽपि कमकरा कर्मभवा जीवमथा न च ॥५०॥

क्षणभर भी रक्षा करनेके लिए कभी समर्थ नहीं है ॥३७॥ यह अकेला प्राणी अपने परिवारकी वृद्धिके लिए निन्द्य सावद्य हिंसादि पापकार्योंके द्वारा अपनी दुर्गतिके कारणभूत जिस पापकर्मका उपार्जन करता है, उसके फलसे वह यहाँपर ही अनेक प्रकारके दुःखको पाकर परभवमे नरकादि दुर्गतियोंके महादुःखको भोगता है, उसके साथ दूसरा कोई जन उस दुःखको नहीं भोगता है ॥३८-३९॥ कोई एक बुद्धिमान् मनुष्य सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप आदिके द्वारा तीर्थकरादिकी विभूति देनेवाला महान् पुण्य उपार्जन करके उसके परिपाकसे स्वर्ग आदि सुगतियोंमे भारी विभूति पाकर अनुपम सुखको भोगता है, उसके समान दूसरा कोई महान् पुरुष नहीं है ॥४०-४१॥ यह अकेला ही जीव तपश्चरण और रत्नत्रय-धारणादिके द्वारा अपने कर्म-शत्रुओका नाश कर और ससारके पार जाकर अनन्त सुखसम्पन्न मोक्षको प्राप्त करता है ॥४२॥ इस प्रकार ससारमे सर्वत्र जीवको अकेला जानकर हे बुद्धिशालियो, आप लोग उस शिवपदके पानेके लिए नित्य ही अपने एक चैतन्यस्वरूपात्मक आत्माका ध्यान करे ॥४३॥

(एकत्वानुप्रेक्षा ४)

हे आत्मन्, तुम अपनी आत्माको जन्म-मरणादिमे स्पष्टतः सर्व प्राणियोंसे अन्य समझो, और निश्चयसे अपने शरीर, कर्म और कर्म-जनित सुख-दुःखादिसे भी भिन्न समझो ॥४४॥ इस त्रिभुवनमे माता अन्य है, पिता भी अन्य है और ये सभी बन्धुजन अन्य है । किन्तु कर्मके विपाकसे ये स्त्री-पुत्र आदिके सम्बन्ध होते रहते हैं ॥४५॥ मरणके समय जन्म-कालसे साथ आया हुआ अपना यह शरीर ही जब साक्षान् पृथक् दिखाई देता है, तब स्पष्ट रूपसे भिन्न दिखनेवाले घर आदिक क्या अपने हो सकते हैं ? कभी नहीं ॥४६॥ पौद्गलिक कर्मसे उत्पन्न हुआ यह द्रव्य मन और अनेक प्रकारके सकल्प-विकल्प जालसे परिपूर्ण यह तेरा भावमन, तथा द्रव्यवचन और भाववचन भी निश्चयसे तेरी आत्मासे सर्वथा भिन्न है । इसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म और कर्मोंके कार्य ये अनेक प्रकारके सुख-दुःखादि भी परमार्थतः जीवसे भिन्न स्वरूपवाले हैं ॥४७-४८॥ यह जीव जिन इन्द्रियोंके द्वारा इन बाह्य पदार्थोंको जानता है, वे इन्द्रियाँ भी पुद्गल कर्मसे उत्पन्न हुई हैं, अतः इन्हे भी अपने ज्ञान स्वरूपसे भिन्न जानना चाहिए ॥४९॥ जीवके भीतर जो राग द्वेषादि भाव हो रहे हैं और

इत्याद्यन्यतर वस्तु यत्किञ्चित्कर्मज भुवि । तत्सर्वं तत्त्वतो ज्ञेय पृथग्भूत निजात्मन ॥५१॥
 बहूक्तेनात्र किं साध्यं दृग्ज्ञानादिगुणान् परान् । तत्तन्मयान् विहायान्यत्स्वकीयं जातु नो भवेत् ॥५२॥
 वपुरादेविदित्वेत्यन्यत्स्व स्वस्य चिदात्मन । ध्यानं कुर्वन्ति योगीन्द्रा यत्नात्कायादिहानये ॥५३॥

(अन्यत्वानुप्रेक्षा ५)

शुक्रशोणितभूत यत्पूरितं सप्तधातुभिः । विष्टाद्यशुचिवस्त्वोघैस्तदङ्गं को भजेत्सुधी ॥५४॥
 क्षुत्पिपासाज्वरारोगाग्रयो यत्र ज्वलन्त्यहो । तत्र कायकुटीरे किं निवासं शस्यते सताम् ॥५५॥
 वसन्ति यत्र रागद्वेषकषायस्मरोगाः । तत्र गात्रविले नित्यं ज्ञानी कं स्थातुमिच्छति ॥५६॥
 कायोऽयं केवलं पापी स्वेन नाशुचितन्मयः । किन्तु सुगन्धिवस्त्वादीन् स्वाश्रितानपि दूषयेत् ॥५७॥
 मातङ्गपाटके यद्द्रव्यं किञ्चिन्न दृश्यते । चर्मास्थ्यादीन् विना तद्द्रव्यं सर्वाङ्गे मण्डितेऽपि च ॥५८॥
 पोषितं शोषितं चैतद्भस्मराशिर्भविष्यति । यद्यवश्यं वपुस्तर्हि तपसे शोषितं वरम् ॥५९॥
 यतोऽयं पोषितं कायो दत्ते रोगाद्यदुर्गती । शोषितस्तपसामुत्र दाता स्वर्मुक्तिसुखान् ॥६०॥
 यद्यनेनापवित्रेण पवित्रा गुणराशयः । कैवल्याद्या प्रसिद्धान्ति तत्कार्यं का विचारणा ॥६१॥
 विदित्वेति शरीरेणानित्येन विमलात्मभिः । साध्यो मोक्षो द्रुतं नित्यस्यक्त्वा तत्सम्भव सुखम् ॥६२॥

जिनमे यह जीव तन्मय हो रहा है, वे भी कर्म-जनित और नवीन कर्मबन्ध-कारक विभाव हैं, अतः पर है। वे जीवमय नहीं हैं ॥५०॥ इत्यादि रूपसे कर्म-जनित जो कुछ भी वस्तु ससारमे विद्यमान है, वह सब वास्तवमे अपनी आत्मासे सर्वथा भिन्न जानना चाहिए ॥५१॥ इस विषयमे बहुत कहनेसे क्या साध्य है, सम्यग्दर्शन-ज्ञानादि आत्माके स्वाभाविक तन्मयी उत्तम गुणोको छोड़ करके ससारमे कोई भी वस्तु अपनी नहीं है ॥५२॥ इसलिए योगीश्वर शरीरादिसे अपने चेतन आत्माको भिन्न जानकर काय आदिके विनाशके लिए शुद्ध चेतन आत्माका ध्यान करते हैं ॥५३॥

(अन्यत्वानुप्रेक्षा ५)

जो शरीर माता-पिताके रज-वीर्यसे उत्पन्न हुआ है, सात धातुओसे भरा हुआ है, विष्टा आदि अशुचि वस्तुओके पुजसे परिपूर्ण है, उस शरीरको कौन बुद्धिमान् पुरुष सेवन करेगा ॥५४॥ अहो, जिस शरीरमे भूख-प्यास, ज्वर-रोग आदि अग्नियों सदा जलती रहती है, उस शरीररूप कुटीरमे सज्जनोका निवास क्या प्रशसनीय है? कभी नहीं ॥५५॥ जिस शरीररूपी विलमे राग, द्वेष, कषाय और कामरूपी सर्प नित्य निवास करते हैं, वहाँ कौन ज्ञानी पुरुष रहनेकी इच्छा करेगा? कोई भी नहीं ॥५६॥ यह पापी शरीर केवल स्वयं ही अशुचि और अशुचिमय नहीं है, किन्तु अपने आश्रयमे आनेवाले सुगन्धी केशर, कर्पूर आदि द्रव्योको भी दूषित कर देता है ॥५७॥ जैसे भगीके विष्टापात्रमे कुछ भी रमणीय वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसी प्रकार चर्म-मण्डित इस सर्वांगमे भी हड्डी, मांस, रक्त आदिके सिवाय कोई रम्य वस्तु नहीं दिखाई देती है ॥५८॥ खान-पानादि पोषण किया गया और तपश्चरणादिसे शोषण किया गया यह शरीर अन्तमे अग्निसे जलकर अवश्य ही राखका ढेर हो जायेगा, यदि यह निश्चित है, तब तपके लिए सुखाया गया यह शरीर उत्तम है ॥५९॥ क्योंकि पोषण किया गया यह शरीर इस जन्ममे रोगादिको और परभवमे दुर्गतियोको देता है। किन्तु तपके द्वारा सुखाया गया यह शरीर परभवमे स्वर्ग और मुक्तिके उत्तम सुखोको देता है ॥६०॥ यदि इस अपवित्र शरीरके द्वारा केवलज्ञानादि पवित्र गुणराशियाँ सिद्ध होती हैं, तब इस कार्यमे विचार करनेकी क्या बात है ॥६१॥ ऐसा जानकर इस अनित्य शरीरसे निर्मल आत्माओको नित्य मोक्ष शरीर-जनित सुख छोड़कर सिद्ध करना चाहिए ॥६२॥

अपवित्रेण देहेन कृत्स्नकर्ममलातिग । पवित्रो विबुधै कार्यं स्वात्मा दृक्चित्तपोजलै ॥६३॥

(अशुच्यनुप्रेक्षा ६)

रागाद्यै रागिणो यत्र प्रयाति पुद्गलव्रज । कर्मरूपेण स ज्ञेय आस्रवोऽनन्तदु खद ॥६४॥

सच्चिद्र च यथा पोत मज्जत्यधौ जलागमै । तथा कर्मास्रवै प्राणी ह्यनन्ते भवसागरे ॥६५॥

दुर्मतोत्थ कुमिध्यात्व पञ्चवानर्थमन्दिरम् । अविरत्यौ द्विषड्भेदा प्रमादास्त्रिकपञ्चधा ॥६६॥

महापापाकरीभूता कषाया पञ्चविंशति । योगा पञ्चदशैतेऽत्र प्रत्यया दुर्धरा खरा ॥६७॥

सम्यग्वृत्तसुयत्नाद्यायुधैस्तीक्ष्णैर्मुमुक्षुभि । इवारथ प्रहन्तव्या कर्मास्रवनिबन्धना ॥६८॥

कर्मागममहद्द्वार निरोद्धु ये क्षमा न हि । कुर्वन्तोऽपि तपो घोर जातु तेषा न निर्वृति ॥६९॥

यै स्वकर्मास्रवो रुद्धो ध्यानाध्ययनसयमै । तेषा समीहित सिद्ध कि साध्य कायदण्डनै ॥७०॥

यावत्कर्मास्रवो योगजायते चञ्चलात्मनाम् । तावन्मोक्षो न तत्सङ्गाद्वर्धते भवपद्धति ॥७१॥

मत्वेत्यादौ सुयत्नेन रुद्ध्वा सर्वाशुभास्रवम् । रत्नत्रयशुभध्यानैस्तत प्राप्य चिदात्मन ॥७२॥

निर्विकल्प महद्ध्यान कृत्स्नकर्मारिघातकम् । शुभास्रवान् स्वमोक्षाय निराकुर्वन्ति योगिन ॥७३॥

(आस्रवानुप्रेक्षा ७)

योगै कर्मास्रवद्वारनिरोध क्रियतेऽत्र य । मुनिभिर्वृत्तगुण्याद्यै सवर स शिवप्रद ॥७४॥

त्रयोदशविध वृत्त सद्धर्मो दशभेदभाक् । अनुप्रेक्षा द्विषड्भेद परीषहमहाजय ॥७५॥

अतः ज्ञानियोको इस अपवित्र देहसे भिन्न, सर्व कर्म-मलसे रहित, अपना आत्मा दर्शन-ज्ञान-तपरूप जलके द्वारा पवित्र करना चाहिए ॥६३॥

(अशुच्यनुप्रेक्षा-६)

जिस रागवाले आत्मामे रागादिभावोके द्वारा पुद्गलपिण्ड कर्मरूप होकरके आता है, वह अनन्त दु खोका देनेवाला आस्रव जानना चाहिए ॥६४॥ जिस प्रकार छिद्रयुक्त जहाज समुद्रमे डूब जाता है, उसी प्रकार कर्मोके आस्रवसे यह प्राणी भी इस अनन्त ससार-सागर-मे डूबता है ॥६५॥ कर्मोके इस आस्रवके कारण अनर्थोका स्थान, दुर्मतोसे उत्पन्न हुआ पाँच प्रकारका मिध्यात्व है, छह प्रकारकी इन्द्रिय-अविरति और छह प्रकारकी प्राणिअविरति, पन्द्रह प्रकारका प्रमाद, महापापोकी खानिरूप पचीस कषाय, और पन्द्रह योग है । ये सभी कर्मास्रवके कारण है, जो दु खसे दूर किये जाते हैं और दुर्जन है ॥६६-६७॥ मोक्षाभिलाषी जनोको चाहिए कि वे इन कर्मास्रवके कारणोका शत्रुओके समान सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि तीक्ष्ण शस्त्रोके द्वारा प्रयत्नके साथ विनाश करे ॥६८॥ जो पुरुष घोर तपको करते हुए भी कर्मोके आनेके इन महाद्वारोको रोकने मे असमर्थ है, उनकी कभी निर्वृति (मुक्ति) नहीं हो सकती है ॥६९॥ जिन पुरुषोने ध्यान, अध्ययन और सयमके द्वारा अपने कर्मास्रव-को रोक दिया है, उनका मनोरथ सिद्ध हो चुका है । फिर उन्हे शरीरको क्लेश पहुँचानेसे क्या साध्य है ? ॥७०॥ जबतक चंचल आत्माओके योगसे कर्मास्रव हो रहा है, तबतक उनको मोक्ष नहीं मिल सकता । किन्तु आस्रवके सगसे उनकी ससार-परम्परा ही बढ़ती है ॥७१॥ ऐसा समझकर योगीजन सबसे पहले सुप्रयत्नसे सर्व अशुभ आस्रवोको रोक करके रत्नत्रय और शुभध्यानके द्वारा चेतन आत्मस्वरूपको प्राप्त करते हैं । तत्पश्चात् सर्व कर्म-शत्रुओके घातक निर्विकल्प परमध्यानको धारण करके आत्माके मोक्षके लिए शुभ आस्रवको भी त्याग देते हैं ॥७२ ७३॥

(आस्रवानुप्रेक्षा ७)

मुनिजन योग, चारित्र, गुणित आदिके द्वारा जो कर्मास्रवके द्वारका निरोध करते हैं, वह मोक्षका देनेवाला सवर है ॥७४॥ कर्मास्रवको रोकनेके कारण इस प्रकार है—पाँच

सामायिकादिचारित्र पञ्चधा शशिनिर्मलम् । धर्मशुक्लशुभध्यानज्ञानाभ्यासादयो वरा ॥७६॥
 एते मुनीश्वरै सेव्या कर्मास्त्रविरोधिन । हेतव सवरस्थोच्चैर्जगत्सारा प्रयत्नत ॥७७॥
 कर्मणा सवरो येषा योगिना प्रत्यह पर । निर्जरा सुतपो मोक्षास्तेषा स्यु सद्गुणा स्वयम् ॥७८॥
 सहन्तश्च तप क्लेश कर्तु दुष्कर्म सवरम् । अशक्ता ये व्रतास्तेषा भुक्तिर्वा निर्मला गुणा ॥७९॥
 सवरस्य गुणानित्य ज्ञात्वा मोक्षोत्सुका सदा । दृक्चिद्वृत्तादि सद्योगै कुर्वीध्व सर्वथात्र तम् ॥८०॥
 (सवरानुप्रेक्षा ८)

प्रागजितविधाना य क्रियते तपसा क्षय । निर्जरात्राविपाका सा यतीना शिवकारिणी ॥८१॥
 जायते कर्मपाकेन निर्जरा याखिलात्मनाम् । स्वभावेनात्र सा हेया सविपाकान्यकर्मदा ॥८२॥
 विधीयते तपोयोगैर्यथा यथा स्वकर्मणाम् । निर्जरा याति मुक्तिश्रीमुने पाश्व तथा तथा ॥८३॥
 जायते निर्जरा पूर्णा यदैव कृत्स्नकर्मणाम् । तपसात्र तदैव स्याद्योगिना मुक्तिसङ्गम ॥८४॥
 विश्वशर्मखनी सारा मुक्तिरामाम्बिका परा । अनन्तगुणदा सेव्या तीर्थनाथैर्गणाधिपै ॥८५॥
 सर्वाशर्मातिगा पुसा मातेव हितकारिणी । निर्जरा त्रिजगत्पूज्या विज्ञेया भवनाशिनी ॥८६॥
 इत्येतस्या गुणान् ज्ञात्वा तपो घोरपरीषहै । सर्वयत्नेन कार्या सा भवभीतै शिवाप्तये ॥८७॥
 (निर्जरानुप्रेक्षा ९)

महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्तिरूप तेरह प्रकारका चारित्र, उत्तम क्षमादिरूप दश प्रकारका धर्म, अनित्यादि बारह अनुप्रेक्षा, क्षुधादि-बाईस महापरीषहोका जीतना, सामायिक आदि पाँच प्रकारका चन्द्रतुल्य निर्मल चारित्र-परिपालन, धर्मशुक्लरूप शुभध्यान और उत्तम ज्ञानाभ्यास आदि । कर्मास्त्रवके रोकनेवाले और जगत्मे सार ये सभी सवरके उत्कृष्ट कारण मुनीश्वरोको प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए ॥७५-७७॥ जिन योगियोके आनेवाले कर्मोका प्रतिदिन परम सवर है और तपसे सचित कर्मोकी निर्जरा हो रही है, उनको मोक्ष और सद्-गुण स्वय प्राप्त होते है ॥७८॥ जो लोग तपके क्लेशको सहन करते हुए भी दुष्कर्मोका सवर करनेके लिए असमर्थ है, उनकी मुक्ति कहाँ सम्भव है और निर्मल सद्-गुण पाना भी कहाँसे सम्भव है ॥७९॥ इस प्रकार सवरके गुणोको जानकर मोक्षके लिए उत्सुक पुरुष सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि सद्योगो द्वारा सदा सर्व प्रकारसे कर्मोका सवर करे ॥८०॥

(सवरानुप्रेक्षा ८)

पूर्वकालमे उपाजित कर्मोका तपके द्वारा जो क्षय किया जाता है, वह शिव पद प्राप्त करनेवाली अविपाक निर्जरा योगियोके होती है ॥८१॥ कर्मकी विपाककालके द्वारा सभी ससारी प्रणियोके जो स्वभावत कर्म-निर्जरा होती है, वह सविपाक निर्जरा है । यह नवीन कर्मबन्ध कराती है, अत त्यागनेके योग्य है ॥८२॥ तपोयोगोके द्वारा जैसे-जैसे अपने कर्मोकी निर्जरा की जाती है, वैसे-वैसे ही मुक्तिलक्ष्मी तपस्वी मुनिके पास आती जाती है ॥८३॥ तपसे जब ही सर्व कर्मोकी पूर्ण निर्जरा है, तब ही योगिजनोंको मुक्तिका सगम हो जाता है ॥८४॥ यह निर्जरा सर्व सुखोकी खानि है, मुक्तिरामाकी माता है, परम सारभूत है, अनन्त गुणोको देनेवाली है, तीर्थनाथो और गणनाथोके द्वारा सेवन की जाती है, सर्व दु खोका नाश करती है, माताके समान मनुष्योकी हितकारिणी त्रिजगत्पूज्य है और ससारको नाश करनेवाली है, ऐसा जानना चाहिए । इस प्रकार इस निर्जराके गुणोको जानकर भव-भय-भीत ज्ञानीजनोंको मोक्षप्राप्तिके लिए घोर तपश्चरण और परीषह-सहनके द्वारा सर्व प्रयत्नसे इस कर्म-निर्जराको करना चाहिए ॥८५-८७॥

(निर्जरानुप्रेक्षा ९)

षड् द्रव्या यत्र लोक्यन्ते स लोकस्त्रिविधो मत । अधोमध्योर्ध्वभेदेनाकृत्रिम शाश्वतो महान् ॥८८॥
 ससरज्जुप्रभेऽस्याधोभागे रत्नप्रभादिका । स्यु श्वभ्रमया ससविश्वदु खाशुभाकरा ॥८९॥
 तासु स्यु पटलान्येकोनपञ्चाशच्च सग्रहे । चतुर्भिरविकाशीतिर्लक्षाणि दुर्विलान्यपि ॥९०॥
 तेषु ये प्राग्भवे दुष्टा महापापविधायिन । क्रूरकर्मरता निन्द्या सप्तव्यसनसेविन ॥९१॥
 महामिथ्यामतासक्ता आपन्ना नारकी गतिम् । वाचामगोचर दु ख ते लभन्ते परस्परम् ॥९२॥
 छेदचैर्विविधाकारैस्ताडनैश्च कदर्थनै । शूलादिरोहणैस्तीव्रै क्षुत्तृष्णादिपरीषहै ॥९३॥
 जम्बूद्वीपादयो द्वीपा लवणोदादयोऽब्धय । असख्या मेरव पञ्चतुङ्गास्त्रिशकुलाद्रय ॥९४॥
 विशतिर्गजदन्ता विजयार्था शतसप्तति । वक्षाराख्या अशीतिश्चतुरिष्वाकारपर्वता ॥९५॥
 दश कुरुद्रुमा मानुषोत्तरं सहोर्जिता । सार्धद्वीपद्वये सन्ति जिनधामादिभूषिता ॥९६॥
 विषयाश्च नगर्थं सप्तव्याधिकशतप्रमा । चतुर्गतिषु मुक्त्वम्बास्त्रिपञ्चकर्मभूमय ॥९७॥
 जनन्यो विश्वभोगाना त्रिशद्भोगधरा परा । महानद्यो विभङ्गाश्च हृदा कुण्डादयो वरा ॥९८॥
 विज्ञेया आगमे दक्षै षड्देवी कमलादय । अत्र नन्दीश्वरे द्वीपेऽजनाद्यद्रचप्रवर्तिन ॥९९॥
 द्विपञ्चाशत्समुत्कृष्टा सर्वदेवनमस्कृता । सन्ति ये श्रीत्रिनागारास्तान् सदा प्रणमाम्यहम् ॥१००॥
 चन्द्रा सूर्या ग्रहास्तारा सनक्षत्रा असख्यका । आयु कायर्धिशर्मद्यैर्ज्योतिष्का पञ्चधेत्यहो ॥१०१॥
 मध्येऽमीषा विमानाना सर्वेषा स्युर्जिनालया । हेमरत्नमया सार्चा एतान्नौमि सहाचर्या ॥१०२॥

जहाँपर जीवादि लहो द्रव्य अवलोकन किये जाते हैं, वह लोक कहा जाता है । यह लोक अकृत्रिम, शाश्वत और महान् है । तथा अवोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोकके भेदसे तीन प्रकारका है ॥८८॥ इस लोकके सात राजु प्रमाण अधोभागमे समस्त अशुभ दु खोकी खानिरूप नरकमय रत्नप्रभादिक सात भूमियाँ हैं ॥८९॥ उनमे उनचास (४९) पटल है और उनमे चौरासी लाख खोटे बिल है ॥९०॥ जो दुष्ट जीव पूर्वभवमे महापाप करते हैं, क्रूर कर्मोमे सलग्न रहते हैं, निन्दनीय हैं, सप्त व्यसनसेवी हैं और महामिथ्यात्वी कुमतोमे आसक्त हैं, ऐसे जीव उन नरक बिलामे उत्पन्न होकर नारक पर्यायको प्राप्त होते हैं और वचनोके अगोचर महादुःखोको सहते हैं । वे परस्पर छेदन भेदन, विविध प्रकारके ताडन, कदर्थन, शूलारोहण आदिके द्वारा तथा तीव्र भूख-प्यास आदि परीषहोके द्वारा रात-दिन दुःखोको पाते हैं ॥९१-९३॥ मध्यलोकमे जम्बूद्वीपको आदि लेकर असख्य द्वीप और लवण समुद्रको आदि लेकर असख्य समुद्र है, पाँच उन्नत मेरुपर्वत है, तीस कुलाचल है, बीस गजदन्त पर्वत है, एक सौ सत्तर विजयार्थ गिरि है, अस्सी वक्षार पर्वत है । चार इष्वाकार पर्वत है, दश कुरुद्रुम है, एक मानुषोत्तर पर्वत है । पाँच मेरु आदि ये सब अढाई द्वीप मे है । ये सभी पर्वत उन्नत जिनालयो और कूटादिकोसे विभूषित हैं ॥९४-९६॥ मनुष्यलोकमे एक सौ सत्तर बड़े देश और एक सौ सत्तर महानगरियाँ हैं । चारो गतियोमे ले जानेवाली और मुक्तिकी मातारूप पन्द्रह कर्मभूमियाँ हैं ॥९७॥ समस्त भोगोकी जननी तीस भोगभूमियाँ हैं । इसके अतिरिक्त गगा-सिन्धु आदि महानदियाँ, विभग नदियाँ, पद्म आदि हृद और गगाप्रपात आदि श्रेष्ठ कुण्ड आदि भी हैं ॥९८॥ हृदोके सरोवरोमे अवस्थित कमल और उनपर रहने-वाली श्री ह्री आदि देवियाँ भी इसी मनुष्यलोकमे रहती हैं, सो यह सब वर्णन आगममे दक्ष चतुर पुरुषोको जानना चाहिए । इसी मध्यलोकमे आठवाँ नन्दीश्वर द्वीप है, जहाँपर अजनगिरि आदि पर्वतोपर अतिउत्कृष्ट बावन श्री जिनालय है, जो सर्वदेवोके द्वारा नमस्कृत है । मै भी उनको सदा नमस्कार करता हूँ ॥९९-१००॥ इस मध्यलोकके ऊपर चन्द्र-सूर्य-ग्रह-तारा और नक्षत्र ये पाँच प्रकारके असख्यात ज्योतिष्क देव रहते हैं, वे सभी असख्यात वर्षकी आयुके धारक ऋद्धि और सुखादिसे सम्पन्न हैं ॥१०१॥ इन सभी ज्योतिष्क देवोके

ससरज्ज्वन्तरे स्वर्गा सौधर्माद्याश्च षोडश । नव प्रैवेयकाद्या स्युरुर्ध्वलोके सुखाकरा ॥१०३॥
 कल्पकल्पातिगोश्वेव त्रिषष्टिपटलान्यपि । लक्षाश्चतुरशीतिश्च नवति सप्तसयुता ॥१०४॥
 सहस्राणि त्रयोविंशति सख्येति जिनैर्मता । सर्वेषा स्वर्विमानाना विश्वशर्मनिबन्धनाम् ॥१०५॥
 भवे ये प्राक्तने दक्षास्तपोरत्नत्रयाङ्किता । महाधर्मविधातारश्चार्हन्निर्ग्रन्थभाक्तिका ॥१०६॥
 जितेन्द्रिया समाचारा प्राप्ता देवगति हि ते । भुञ्जन्ति विविध तेषु सुख वाचातिग महत् ॥१०७॥
 दिव्यस्त्रीभि सम नित्य चाप्सरोनृत्यलोकनै । स्वेच्छया क्रीडनैर्भोगैर्गीतादिश्रवणै परै ॥१०८॥
 लोकाग्रैःस्ति विद्यद्रत्नमया मोक्षशिला परा । नरक्षेत्रप्रमा वृत्ता स्यूला द्वादशयोजनै ॥१०९॥
 अनन्तसुखसलीना सिद्धा अन्तातिगा परा । ज्ञानाङ्गा सन्ति ये तस्या वन्दे तद्गतयेऽत्र तान् ॥११०॥
 इति लोकत्रय ज्ञात्वा सुखदु खोभयाश्रितम् । राग विहाय सर्वत्र तदग्रस्थ शिवालयम् ॥१११॥
 अनन्तगुणशार्ढव्य नित्य शर्मार्थिन परम् । रत्नत्रयतपोयोगैर्भजताञ्चु प्रयत्नत ॥११२॥

(लोकानुप्रेक्षा १०)

अत्यन्तदुर्लभो बोधिश्चतुर्गतिषु सततम् । भ्रमता कर्मकर्तृणा निधिवच्च दरिद्रिणाम् ॥११३॥
 मानुष्य दुर्लभ चादावन्धौ चिन्तामणिर्यथा । तस्मादप्यार्यखण्ड च खण्डादप्युत्तम कुलम् ॥११४॥
 कुलादीर्घायुरप्राप्य तत पञ्चाक्षपूर्णता । दुर्लभा रत्नखानीव पञ्चाक्षान्निर्मला मति ॥११५॥

विमानोमे जिनालय है और उनमे स्वर्ण-रत्नमयी जिनप्रतिमाएँ है। इन सबको मै पूजा भक्तिके साथ नमस्कार करता हूँ ॥१०२॥ मध्यलोकके ऊपर ऊर्ध्वलोकमे सात राजुके भीतर सौधर्मादिक सोलह स्वर्ग, नौ प्रैवेयक और नौ अनुदिशादि विमान है, वे सभी सुखके आकार है ॥१०३॥ स्वर्गलोकके उक्त कल्प और कल्पातीत विमानोके तिरसठ पटल है। उनके सर्व विमानोकी सख्या चौरासी लाख सत्तानबे हजार तेईस जिनदेवोने कही है। ये सभी सासारिक सुखोको देनेवाले है ॥१०४-१०५॥ जो चतुर पुरुष पूर्वभवमे रत्नत्रय धर्मयुक्त तपश्चरण करते है, महान् धर्मके विधायक है, अहन्तदेव और निर्ग्रन्थ गुरुओंके भक्त है, इन्द्रिय-विजयी और उत्तम सदाचारी हैं, वे देवगतिको प्राप्त होकर वहाँपर वचनोंके अगोचर नाना प्रकारके महान् सुखोको दिव्य स्त्रियोंके साथ अप्सराओके नृत्य देखकर, उनके दिव्य गीतादि सुनकर और उनके साथ अपनी इच्छानुसार क्रीडा करते हुए भोगते है ॥१०६-१०८॥ लोकके अग्रभागपर देदीप्यमान रत्नमयी सिद्धशिला है, जो मनुष्यक्षेत्र प्रमाण पैतालीस लाख योजन विस्तृत गोलाकार है और बारह योजन मोटी है ॥१०९॥ उस सिद्धशिलाके ऊपर अनन्त परम सुखमे लीन अनन्त सिद्ध भगवन्त विराजमान है, वे सभी ज्ञानशरीरी है। उस सिद्धगतिको पानेके लिए मैं उनकी वन्दना करता हूँ ॥११०॥ इस प्रकार सुख और दुःख इन दोनोसे युक्त तीनों लोकोका स्वरूप जानकर और सबसे राग छोडकर लोकके अग्रभागपर अवस्थित अनन्त सुखसे युक्त परम शिवालयकी सुखार्थी जन रत्नत्रय और तपोयोगसे शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक आराधना करे ॥१११-११२॥

(लोकानुप्रेक्षा १०)

ससारमे चारो गतियोंके भीतर निरन्तर परिभ्रमण करते हुए कर्मोंके करनेवाले प्राणियोंको बोधिकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है, जिस प्रकार कि दरिद्रियोंको निधिकी प्राप्ति अति कठिन है ॥११३॥ सबसे पहले तो ससार-समुद्रमे पडे हुए जीवोको मनुष्यभव पाना चिन्तामणि रत्नके समान दुर्लभ है, उससे भी अधिक कठिन आर्य खण्डका पाना है और उससे भी अधिक कठिन उत्तम कुलकी प्राप्ति है। उत्तम कुलसे भी अधिक कठिन दीर्घ आयु पाना है, उससे भी अधिक कठिन पाँचो इन्द्रियोंकी परिपूर्णता है। उस पचेन्द्रियपरिपूर्णतासे भी बहुत

मतेर्मन्दकषायित्व तस्मान्मिथ्यात्वहीनता । ततोऽहो विनयाद्या सद्गुणा अत्यन्तदुर्लभा ॥११६॥
 तेभ्योऽप्यतीव दुष्प्राप्ता सामग्री धर्मकारिणी । देवशास्त्रयतीशाना कल्पवल्लीव देहिनाम् ॥११७॥
 सामग्र्या दृग्विशुद्धिश्च ज्ञान वृत्त तपोऽनघम् । अलभ्य वरमृत्यादीनि सता सुलभानि न ॥११८॥
 इत्याद्यखिलसामग्री लब्ध्वा ये साधयन्त्यहो । हत्वा मोहविदो मुक्ति तैर्बोधि सफल कृत ॥११९॥
 तामाप्य धर्ममोक्षादौ प्रमाद ये प्रकुर्वते । निमज्जन्ति भवाब्धौ ते च्युतपोता जना यथा ॥१२०॥
 मत्वेतीह महान् यत्नो मुक्तौ धर्मादिसाधने । मरणे चोत्तमे दक्षै कर्तव्योऽत्र भवे भवे ॥१२१॥

(बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा ११)

मवाब्धौ पतनाजीवान् य उद्भृत्य शिवालये । जिनेन्द्रादिपदे वाञ्छु धत्ते स धर्म उत्तम ॥१२२॥
 सत्क्षमा मार्दवोऽप्यार्जव सत्य शौचमेव हि । सयमोऽनु तपस्याग आर्किचन्यममैथुनम् ॥१२३॥
 अमूनि प्रोक्तमान्यत्र दशैव लक्षणान्यपि । महाधर्मस्य बीजानि विधेयानि तदर्थिभि ॥१२४॥
 यतोऽत्रैतै प्रजायेत महाधर्म शिवप्रद । हन्ता दुष्कर्मदु खाना विश्वशर्मनिबन्धन ॥१२५॥
 तथा रत्नत्रयाचारैर्मूलोत्तरगुणव्रजै । तपसा जायते धर्मो यतीना मुक्तिसौख्यकृत् ॥१२६॥
 धर्मेण सुलभा सर्वास्त्रैलोक्यस्था सुसपद । निजा स्त्रिय इवायान्ति स्वय प्रीत्यात्र धर्मिण ॥१२७॥
 आकृष्टा धर्ममन्त्रेण ददात्यालिङ्गन स्वयम् । मुक्तिस्त्री धर्मिणा नून का कथामरयोषिताम् ॥१२८॥
 यत्किंचिद् दुर्लभ लोके महाधर्म्य सुखसाधनम् । तत्सर्वं धर्मत पुंसा सपद्येत पदे पदे ॥१२९॥

दुर्लभ निर्मल बुद्धिका पाना है, जैसे कि रत्नोकी खानिका पाना बहुत दुर्लभ है ॥११४-११६॥
 इन सबसे भी अत्यधिक दुर्लभ देव शास्त्र गुरुओका समागम और धर्मकारिणी सामग्रीका पाना है, जैसे कि दीन प्राणियोको कल्पलताका पाना दुर्लभ है ॥११७॥ उक्त धर्म-सामग्रीसे भी अधिक कठिन दर्शनविशुद्धि, निर्मल ज्ञान, चारित्र, तप और समाधिभरण आदिकी प्राप्ति है । किन्तु जो सच्चारित्रधारक सन्त पुरुष है, उन्हें यह सब मिलना सुलभ है ॥११८॥ इत्यादि समस्त सामग्रीको पा करके जो ज्ञानी पुरुष मोहका नाश कर मुक्तिका साधन करते है, वे ही बोधिकी प्राप्तिको सफल करते है ॥११९॥ उक्त सर्व सामग्री पा करके भी जो धर्म और मोक्षादिकी साधनामे प्रमाद करते है, वे जहाजसे गिरे हुए मनुष्यके समान ससार-समुद्रमे डूबते है ॥१२०॥ ऐसा जानकर चतुर पुरुषोको मुक्तिके लिए धर्मादिके साधनेमे भव-भवमे उत्तम भरणकी प्राप्तिमे महान् यत्न करना चाहिए ॥१२१॥

(बोधिदुर्लभभावना ११)

जो ससार-समुद्रमे गिरनेसे जीवोंका उद्धार करके शिवालयमे अथवा तीर्थकर-चक्रवर्ती आदिके पदोमे शीघ्र स्थापित करे, वही उत्तम धर्म है ॥१२२॥ वह धर्म उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य इन उत्तम दश लक्षणरूप धर्मके इच्छुक जनोको महाधर्मकेये उत्तम बीज धारण करना चाहिए ॥१२३-१२४॥ क्योकि इन बीजोके द्वारा ही इस लोकमे मोक्ष-दाता, दुष्कर्म-जनित दुःखोका नाशक और सर्व सुखोका कारणभूत महान् धर्म उत्पन्न होता है ॥१२५॥ तथा रत्नत्रयके आचरणसे, मूलगुणो और उत्तरगुणोके समुदायसे तथा तपसे मुक्तिसुखका करनेवाला मुनियोका धर्म होता है ॥१२६॥ धर्मके द्वारा तीन लोकेमे स्थित सभी उत्तम सम्पदाएँ सरलतासे प्राप्त होती है और वे धर्मात्माके पास प्रीतिसे अपनी स्त्रियोके समान स्वय समीप आती है ॥१२७॥ धर्मरूपी मन्त्रसे आकृष्ट हुई मुक्तिरूपी स्त्री जब धर्मात्मा पुरुषको निश्चयसे स्वय ही आकर आलिगन देती है, तब अन्य देवागनाओकी तो कथा ही क्या है ॥१२८॥ लोकमे जो कुछ दुर्लभ और बहुमूल्य सुखसाधन है, वे सब धर्मसे पुरुषोको पद-पदपर प्राप्त होते है ॥१२९॥

धर्मो मित्र पिता माता सहगामी हितकर । धर्म कल्पद्रुमश्चिन्तारत्न धर्मो निधानकम् ॥१३०॥
 धन्यास्त एव लोकेऽस्मिन् धर्मं ये कुर्वन्तेऽनिशम् । प्रमादपरिहारेण पूज्या लोकत्रये सताम् ॥१३१॥
 ये धर्मेण विना मूढा गमयन्ति दिनान्यहो । वृषभास्ते बुधै प्रोक्ता नि शृङ्गा गृहभारत ॥१३२॥
 ज्ञात्वेति धीधनैर्जातु विना धर्माप्रमादत । नैका कालकला नेया क्षणध्वसि यतो जगत् ॥१३३॥
 (धर्मानुप्रेक्षा १२)

इति विगतविकारास्तीव्रवैराग्यमूला सकलगुणनिधाना पापरागादिदूरा ।
 जिनमुनिगणसेव्या धीधना रागहान्यै ह्यनवरतमनुप्रेक्षा हृदि स्थापयन्तु ॥१३४॥
 एता द्वादश भावना सुविमला मुक्तिश्रियोऽन्नाम्बिका
 अन्तातीतगुणाकरा भवहरा सिद्धान्तसूत्रोद्भवा ।
 ये ध्यायन्ति यतीश्वरा प्रतिदिन तेषा न का सपद
 स्वर्मुक्त्यादिविभूतयश्च परमा आविर्भवन्ति स्वयम् ॥१३५॥
 यो मुक्त्वा नरदेवजा बहुविधा लक्ष्मी सुपुण्योदयाद्
 भूत्वा तीर्थकरो जगत्त्रयगुरुर्बात्येऽपि कर्मापहम् ।
 वैराग्य परम समाप शिवद् विश्वाङ्गभोगादिषु
 स श्रीवीरजिन स्तुतो मम नतो बाल्येऽस्तु दीक्षासये ॥१३६॥

इति भट्टारक श्रीसकलकीर्तिविरचिते श्रीवीरवर्धमानचरिते भगवदनुप्रेक्षा-
 चिन्तनवर्णनो नामैकादशोऽधिकार ॥११॥

धर्म ही मित्र, पिता, माता, साथ जानेवाला और हित करनेवाला है। धर्म ही कल्पवृक्ष, चिन्तामणि और सब रत्नोका निधान है ॥१३०॥ जो लोग इस लोकमें प्रमादका परिहार करके निरन्तर धर्मको करते हैं, वे धन्य हैं और वे ही तीनों लोकोंमें सज्जनोके पूज्य हैं ॥१३१॥ अहो, जो मूढ़जन धर्मके बिना दिन गँवाते हैं, ज्ञानीजनोंने उन्हें गृहके भारको ढोनेसे सीगरहित बैल कहा है ॥१३२॥ ऐसा जानकर बुद्धिमानोंको धर्मके बिना प्रमादसे कालकी एक कला भी व्यर्थ नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि यह ससार क्षण-भंगुर है ॥१३३॥
 (धर्मभावना १२)

इस प्रकार विकार-रहित, तीव्र वैराग्य-कारक, सकल गुणोंकी निधान भूत, रागादि पापोंसे विहीन, तीर्थकर और मुनिजनोंके द्वारा सेव्य ये बारह अनुप्रेक्षाएँ रागभावके विनाशके लिए ज्ञानीजन सदा अपने हृदयमें धारण करे ॥१३४॥ ये अति निर्मल बारह भावनाएँ मुक्तिलक्ष्मीकी माता हैं, अनन्त गुणोंकी भण्डार हैं, ससारकी नाशक हैं, सिद्धान्त-सूत्रसे उत्पन्न हुई हैं। इनको जो यतीश्वर प्रतिदिन ध्याते हैं, उनको कौन सी सम्पदाएँ नहीं प्राप्त होती है। उनको तो परम स्वर्ग और मुक्ति आदि विभूतियाँ स्वयं प्राप्त होती हैं ॥१३५॥ जो उत्तम पुण्यके उदयसे मनुष्यो और देवोंमें उत्पन्न हुई अनेक प्रकारकी लक्ष्मीको भोगकर और तीर्थकर होकर बालकालमें भी तीन जगत्के गुरु हो गये और कर्मोंका नाश करनेवाले, एव शिवपद देनेवाले ऐसे ससार शरीर और भोगादिमें परम वैराग्यको प्राप्त हुए, वे श्री वीर जिनेन्द्र मेरे स्तुत और नमस्करणीय हैं और बालकालमें वे दीक्षाकी प्राप्तिके लिए सहायक होंगे ॥१३६॥

इस प्रकार भट्टारक श्री सकलकीर्ति विरचित श्री वीरवर्धमान चरितमें
 भगवान्की अनुप्रेक्षा चिन्तनका वर्णन करनेवाला ग्यारहवाँ
 अधिकार समाप्त हुआ ॥११॥

द्वादशोऽधिकारः.

वीर वीराग्रिम नोमि महासवेगभूषितम् । मुक्तिकान्तासुखासक्त विरक्त कामजे सुखे ॥१॥
 अथ सारस्वता देवा आदित्या बह्व्योऽरुणा । गीर्वाणा गर्दतोयाख्या निर्जरास्तुषिताभिधा ॥२॥
 अव्याबाधा अरिष्टा इत्यष्टभेदा सुरोत्तमा । ब्रह्मलोकालया सौम्या लौकान्तिकममाह्वया ॥३॥
 प्राग्भवेऽभ्यस्तनि शेषश्रुतवैराग्यभावना । सर्वे पूर्वविदो दक्षा निसर्गब्रह्मचारिण ॥४॥
 परिनि क्रान्तकृत्याणशसिनोऽमलमानसा । एकाग्रतारिणो वन्द्या शक्रैर्देवर्षयोऽमरै ॥५॥
 स्वज्ञानेन परिजाय तत्कृत्याणमहोत्पवम् । अवतीर्थ मही स्वर्गादाजगमुनिकट गुरो ॥६॥
 मूर्ध्ना नत्वा महारौर कर्मारिहननोद्यतम् । प्रपूज्य परया भक्त्या स्वर्गोद्भवमहाचर्चनै ॥७॥
 विरक्तजनकैर्वाक्यैश्चाथर्थाभि स्तुतिभिर्मुदा । इति प्रारंभिरे स्तोतृमृषयस्ते महाविय ॥८॥
 त्व देव जगता नाथो गुरुणा त्व महागुरु । ज्ञानिना त्व महाज्ञानी बोधकाना प्रबोधका ॥९॥
 अतोऽस्माभिर्न बोध्यस्त्व स्वयंबुद्धोऽखिलार्थवित् । असि बोधयितास्माक भव्याना च न सशय ॥१०॥
 प्रबोधितोऽथवा दीपो यथार्थादीन् प्रकाशयेत् । तथा त्वमपि विश्वार्थान् भुवि व्यक्तान् करिष्यसि ॥११॥
 किन्तु देव नियोगोऽय भवत्सबोधनादिषु । स्तुतिव्याजेन नोऽद्यैव मुखरीकुरुते बलात् ॥१२॥
 यतस्त्रिज्ञाननेत्रस्त्व हेयादेयादिसर्ववित् । शिक्षा दातु क्षम कस्ते दीप कि दीयते रवे ॥१३॥
 मोहारिब्रिजयोद्योग त्वयैतत्सविधित्सुना । अयुनानुष्ठित बन्धुकृत्य देव जगत्सताम् ॥१४॥

महान् सवेगसे भूषित, मुक्तिरमाके सुखमे आसक्त, काम-जनित सुखमे विरक्त ऐसे वीर-शिरोमणि श्री वीर-जिनेन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥

अथानन्तर सारस्वत, आदित्य, वह्नि, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध और अरिष्ट नामवाले, ब्रह्मलोक निवासी, लौकान्तिक नामवारी, सौम्यमूर्ति, पूर्वभवमे सम्पूर्ण श्रुत और वैराग्यभावनाके अभ्यासी, सर्वपूर्वोके वेत्ता, जन्मजात ब्रह्मचारी, एकभवावतारी, निर्मल चित्तधारी, इन्द्र और देवोके द्वारा वन्द्य, एव अभिनिष्क्रमण कल्याणक मे तीर्थकरोको सम्बोधन करनेवाले देवपि जब अपने अवविज्ञानसे भगवान् महावीरके चित्तको विरक्त जाना, तब वे स्वर्गसे उतरकर इस भूतलपर जगद्गुरुके समीप आये और कर्म-शत्रुओके घात करनेके लिए उद्यत श्री महावीर प्रभुको मस्तकसे नमस्कार कर तथा स्वर्गमे उत्पन्न हुए महान् द्रव्योसे परम भक्तिके साथ पूजकर विरक्ति-वर्धक वाक्यवाली अर्थपूर्ण स्तुतियोंके द्वारा अत्यन्त प्रमोदके साथ उन महाबुद्धिशाली देवषियोने इस प्रकार स्तुति करना प्रारम्भ किया ॥२-८॥

हे देव, आप तीनों लोकोंके नाथ हैं, गुरुओंके महागुरु हैं, ज्ञानियोंके महागुरु हैं, प्रबोध देनेवालोंके महाप्रबोधक हैं, अतः आप हमारे द्वारा प्रबोधनेके योग्य नहीं हैं, आप तो स्वयंबुद्ध हैं, समस्त तत्त्वार्थके वेत्ता हैं, और हमारे-जैसे लोगोंके तथा समस्त भव्यजीवोंके प्रबोधक हैं, इसमे कोई सन्देह नहीं है ॥९-१०॥ जैसे प्रबोधित (प्रज्वलित) प्रदीप घट-पटादि पदार्थोंको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप भी समस्त जीव-अजीवादि पदार्थोंको ससारमे प्रकाशित करेगे ॥११॥ किन्तु हे देव, आपको सम्बोधन करनेका यह हमारा नियोग है, इसलिए वह आज स्तुतिके छलसे हमे वाचाल कर रहा है ॥१२॥ यतः आप तीन ज्ञानरूपी नेत्रोंके धारक हैं, और हेय-उपादेय आदि सर्वतत्त्वोंके ज्ञायक हैं, अतः आपको शिक्षा देनेके लिए कौन समर्थ है ? क्या दीपक सूर्यको प्रकाश दिखा सकता है ॥१३॥ हे देव, मोह-शत्रुके

यतस्त्वत्त प्रभो प्राप्य धर्मपोत सुदुर्लभम् । भवाब्धिमुत्तरिष्यन्ति केचिद्भव्या सुदुस्तरम् ॥१५॥
 केचिद्रत्नत्रय लब्ध्वा भवद्धर्मोपदेशत । तत्फलेन च यास्यन्ति सर्वार्थसिद्धिर्भूजिताम् ॥१६॥
 भवद्वचोऽशुभि केचिन्मिथ्याज्ञानतपश्चयम् । निर्धूय विश्वतत्त्वार्थान् द्रक्ष्यन्ति च शिवात्मजाम् ॥१७॥
 त्वत्तोऽत्राभीष्टमसिद्धिनिखिला सुधिया भुवि । भविष्यति न सन्देह स्वामिन् स्वर्मोक्षशर्म च ॥१८॥
 मोहपङ्के निमग्नाना सता हस्तावलम्बनम् । त्व दास्यसि त्रिभो नून धर्मतीर्थप्रवर्तनात् ॥१९॥
 त्वद्वाक्यजलदेनाप्य वैराग्यवज्रमद्भुतम् । शतचूर्णोकरिष्यन्ति बुधा मोहाद्रिमूर्जितम् ॥२०॥
 भवत्तत्त्वोपदेशेन पापिन पापमञ्जसा । कामिन कामशत्रु च हनिष्यन्ति न सशय ॥२१॥
 केचिद्वद्भाक्तिका नाथ त्वत्पादाम्बुजसेवनात् । स्वीकृत्य दृग्विशुद्धयादोन् भविष्यन्ति भवत्समा ॥२२॥
 अद्य मोहाक्षशन्वौघास्ते कम्प्यन्ते जगद्द्विष । सवेगासिद्धत वीदय त्वा स्पृष्ट्यादिशङ्कया ॥२३॥
 यतस्त्व दुर्जयारातीन् क्षमो जेतु च हेलया । परःषहभटास्तीक्ष्णान् स्वान्येषा सुभटोत्तम ॥२४॥
 अतो वीर कुरुद्योग मोहाक्षाद्यरिसजये । विश्वभव्योपकाराय घातिकर्मारिघातने ॥२५॥
 यतोऽय ते समायात काल सन्मुखमूर्जित । तप कर्तु विधीन् हन्तु नेतु भव्यान् शिवालयम् ॥२६॥
 अत स्वामिन् नमस्तुभ्य नमस्ते गुणसिन्धवे । नमस्ते मुक्तिकान्ताप्यै प्रोद्यताय जगद्धित ॥२७॥
 नि स्पृहाय नमस्तुभ्य स्वाङ्गमोगसुखादिषु । सस्पृहाय नमस्तुभ्य मुक्तिस्त्रीसुखसाधने ॥२८॥

विजयका उद्योग करनेके इच्छुक आपने यह जगत्के सन्तजनोके लिए उत्तम बन्धु-कर्तव्य पालन करनेका विचार किया है ॥१४॥ हे प्रभो, आपसे अति दुर्लभ धर्मपोतको पा करके कितने ही भव्य जीव इस दुस्तर ससार-सागरके पार उतरेगे, कितने ही जीव आपके धर्मोपदेशसे रत्नत्रयको पाकर उसके फलसे अति उत्कृष्ट सर्वार्थसिद्धिको जायेंगे ॥१५-१६॥ कितने ही जीव आपकी वचन-किरणोंसे मिथ्याज्ञानरूप अन्वकार-पुजका विनाश कर और समस्त तत्त्वार्थको जाकर शिवरमाका मुख देखेंगे ॥१७॥ ससारमे सुवीजनोको आपसे समस्त अभीष्ट अर्थकी सिद्धि होगी और हे स्वामिन्, वे स्वर्ग एव मोक्षके सुखको प्राप्त करेंगे, इसमे कोई सन्देह नहीं है ॥१८॥ हे प्रभो, मोहरूपी कीचडमे निमग्न पुरुषोको धर्मतीर्थका प्रवर्तन कर आप निश्चयसे उन्हें हस्तावलम्बन देंगे ॥१९॥ आपके वाक्यरूपी मेघसे अद्भुत वैराग्यरूपी वज्र पा करके पण्डित लोग महान् मोहरूपी पर्वतके सेकड़ो खण्ड करके चूर्ण कर देंगे ॥२०॥ आपके तत्त्वोपदेशसे पापीजन अपने पापोको और कामीजन अपने काम-शत्रुको मारेंगे, इसमे कोई सशय नहीं है ॥२१॥ हे नाथ, कितने ही आपके भक्तजन आपके चरण कमलोंकी सेवा करके और सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि आदि कारणोको स्वीकार करके आपके समान होंगे ॥२२॥ हे प्रभो, जगत्का अकल्याण करनेवाले मोह और इन्द्रिय शत्रुओका समूह आपको सवेगरूप खड्ग धारण किये हुए देखकर अपने मरण आदिकी शकासे कम्पित हो रहा है ॥२३॥ क्योंकि हे सुभटोत्तम भगवन्, आप अपने और दूसरोके दुःसह परीषह भटरूप दुर्जय शत्रुओको क्रीडामात्रसे जीतनेके लिए समर्थ है ॥२४॥ अतएव हे वीर-वीर प्रभो, मोह और इन्द्रिय शत्रुओके जीतनेके लिए, घातिकर्मोके नाश करनेके लिए तथा ससारके भव्य जीवोके उपकार करनेके लिए आप उद्योग कीजिए ॥२५॥ हे भगवन्, यतः आपके सम्मुख यह उत्तम अवसर तप करनेके लिए, कर्मोको नाश करनेके लिए और भव्यजीवोको शिवालय ले जानेके लिए उपस्थित हुआ है, अतः हे स्वामिन्, आपके लिए नमस्कार हे, आप गुणोके समुद्र है, अतः आपको नमस्कार है, हे जगत् हितकारिन्, मुक्तिकान्ताकी प्राप्तिके लिए आप उद्यत हुए हैं, अतः आपको नमस्कार है ॥२६-२७॥ आप अपने शरीरमे और इन्द्रिय-भोगोके सुखादिमे निःस्पृह हैं, अतः आपके लिए नमस्कार है । आप मुक्तिस्त्रीके सुख साधनेमे सस्पृह हैं, इसलिए

नमस्तेऽद्भुतवीर्यिय कौमारब्रह्मचारिणे । साम्राज्यश्रीविरक्ताय रक्ताय शाश्वतश्रियाम् ॥२९॥
 नमोऽधिगुरवे तुभ्यं महते गुरुशोगिनाम् । नमस्ते विश्वमित्राय स्वयंबुद्धाय ते नमः ॥३०॥
 अनेन स्तवनेनात्रामुत्र जन्मनि जन्मनि । महादातः प्रदेहि त्वं तपश्चारित्रसिद्धये ॥३१॥
 ईदृशीं सकलां शक्तिं भवदीयां भवद्गुणैः । सहबाल्येऽपि नो नाथ मोहारातिविनाशिनीम् ॥३२॥
 इति स्तुत्वा जगन्नाथं जगत्त्रयलुपेडितम् । निजेष्वप्रार्थनां कृत्वा स्वनियोगं विधाय च ॥३३॥
 उपार्ज्य परमं पुण्यं नमःस्तुतिशतार्चनैः । तत्पादाब्जौ मुहुर्नत्वा ययुः स्वर्गं महर्षयः ॥३४॥
 तदैव सामराः सर्वे चतुर्णिकायवासवाः । सकलत्रा महाभूत्या स्वस्ववाहनमाश्रिताः ॥३५॥
 घण्टानादादिचिह्नैर्घञ्जित्वा तत्संयमोत्सवम् । आजग्मुस्तत्पुरं भक्त्या महोत्सवशतैः समम् ॥३६॥
 तत्पुरं तद्वनं मार्गाश्चारुह्य सुरसैन्यकाः । नभोभागं मुदा तस्थुः सकलत्राः सवाहनाः ॥३७॥
 आदौ तं मुक्तिमर्तारमारोप्य हरिविष्टरे । संभूय वासवाः सर्वेऽभ्यषिञ्चन् परमोत्सवैः ॥३८॥
 क्षीरोदाब्धिपयःपूर्णैर्मकुम्भैर्महोन्नतैः । गीतनर्तनवाद्याद्यैर्जयकोलाहलस्वनैः ॥३९॥
 पुनस्तं भूषयामासुर्जगत्त्रितयभूषणम् । दिव्यैरंशुकनेपथ्यैर्माल्यैस्ते मलयोद्भवैः ॥४०॥
 तदा स मातरं स्वस्य महामोहात्तमानसाम् । बन्धुंश्च पितरं दक्षं महाकष्टेन तीर्थं कृत् ॥४१॥
 विविक्षतैर्मथुरालापैरुपदेशशतादिभिः । वैराग्यजनकैर्वाक्यैः स्वदीक्षायै ह्यबोधयत् ॥४२॥

आपको नमस्कार है ॥२८॥ आप अद्भुत वीर्यशाली हैं, कुमारकालसे ही ब्रह्मचारी हैं, लौकिक साम्राज्य लक्ष्मीसे विरक्त हैं और शाश्वत मोक्षलक्ष्मीमें अनुरक्त हैं, अतः आपको नमस्कार है ॥२९॥ हे गुरुओंके गुरु, आपको नमस्कार है, हे योगियोंके पूज्य, आपको नमस्कार है, हे समस्त विश्वके मित्र, आपको नमस्कार है और हे स्वयं बोधिको प्राप्त हुए भगवन्, आपको नमस्कार है ॥३०॥ हे महादातः, इस स्तवनके फलस्वरूप आप इस जन्ममें और परजन्म-जन्मान्तरोंमें भी तप और चारित्रकी सिद्धिके लिए अपने गुणोंके साथ हे नाथ, हमें भी बालकालमें मोहरूपी शत्रुको विनाश करनेवाली सम्पूर्ण शक्ति दीजिए ॥३१-३२॥ इस प्रकार वे देवर्षि लौकान्तिक देव तीन लोकके ज्ञानियोंसे पूजित जगन्नाथ वीर प्रभुकी स्तुति करके, अपनी इष्ट प्रार्थना करके, अपना नियोग पूरा करके, नमस्कार, स्तुति और पूजनसे परम पुण्य उपार्जन करके और भगवान्के चरण-कमलोंको बार-बार नमस्कार करके स्वर्गलोक चले गये ॥३३-३४॥

उन लौकान्तिक देवोंके जाते ही चारों जातिके सभी देवगण घण्टानाद आदि चिह्नोंसे भगवान्का संयमोत्सव जानकर अपनी-अपनी देवियोंके साथ अपने-अपने वाहनोंपर सवार होकर भक्तिके साथ सैकड़ों महोत्सवोंको करते हुए उस कुण्डपुर नगरको आये और उसके वनोंको और सर्व मार्गोंको अवरुद्ध कर वे देव सैनिक अपनी देवियों और अपने वाहनोंके साथ हर्षित हो आकाशमें ठहर गये ॥३५-३७॥ सर्वप्रथम उन सब देवोंने मुक्तिके भर्तार उन वीर प्रभुको सिंहासनपर विराजमान करके क्षीरसागरके जलसे भरे हुए महाउन्नत कलशोंके द्वारा परम उत्सवसे, गीत-नृत्य-वादित्र आदिसे, तथा जय-जयनादके कोलाहल पूर्ण शब्दोंके साथ उनका अभिषेक किया ॥३८-३९॥ पुनः त्रिजगत्के भूषणस्वरूप उन वीर प्रभुको उन्होंने दिव्य वस्त्र, आभूषण, और मलयाचलपर उत्पन्न हुई पुष्पमालाओंसे आभूषित किया ॥४०॥ तत्पश्चात् उन वीर प्रभुने महामोहसे व्याप्त चित्तवाली अपनी माताको, दक्ष पिताको और अन्य बन्धु जनोंको वैराग्य-उत्पादक मथुर वचनोंके द्वारा और सैकड़ों प्रकारके उपदेशी वाक्योंसे अलग-अलग सम्बोधित करते हुए महाकष्टसे उन्हें अपनी दीक्षाके लिए समझाया ॥४१-४२॥

ततोऽसौ शिविका दिव्या दीप्रा चन्द्रप्रभाभिधाम् । सुरेन्द्रनिर्मिता देव सयमश्रीसुखोत्सुक ॥४३॥
 आरुरोह मुदा शक्रदत्तहस्तावलम्बन । प्रतिज्ञामिव दीक्षाया व्यक्त्वा बन्धून् श्रिया समम् ॥४४॥
 तदारूढो जगन्नाथो विश्वामरणभूतिभि । वरोत्तम इवाभासीत्तपोलक्ष्या सुरावृत ॥४५॥
 आदौ ता शिविकामूहु पदानि सप्त भूमिपा । तत खगाधिपा व्योम्नि निन्यु सप्तक्रमान्तरम् ॥४६॥
 स्वस्फुन्धारोपिता कृत्वा ततोऽमु त्रिजगत्सुरा । खमुत्पेतुर्दु त भूत्या धर्मरागरसोत्कटा ॥४७॥
 अहो प्रभो सुमाहात्म्य वषण्यते कि पृथक्तराम् । तदास्य भुवनाधीशा आसन् युग्यकवाहिन ॥४८॥
 पुष्पवृष्टिं मुदा चक्रु परितस्त दिवौकस । वचो वातकुमारोऽथो मरुद् गङ्गाकणान् किरन् ॥४९॥
 प्रस्थानमङ्गलान्यस्य प्रपेतुर्देववन्दिन । बह्व्य प्रयाणभेर्यश्च सुरेरास्फालितास्तदा ॥५०॥
 मोहाद्यरिजयोद्योगसमयोऽय जगत्पते । इति शक्राज्ञया देवा घोषयामासुरेव तम् ॥५१॥
 जयेश नन्द वर्धस्वात्रेति कोलाहल महत् । मर्तुरग्रे खमारुध्य चक्रुर्हृष्टा सुरासुरा ॥५२॥
 प्रध्वनन्ति नभो व्याप्य देवेन्द्रानककोटय । नटन्ति सुरनर्तक्यो विचित्रकरणादिभि ॥५३॥
 मोहारिविजयोद्भूतयशोगीतान्यनेकश । गायन्ति शर्मदानस्य किन्नर्योऽतिकलस्वना ॥५४॥
 इतोऽमुत् प्रधावन्ति प्रमोदभरनिर्भरा । प्रचलन्ति खमाच्छाद्य ध्वजछत्रादिकोटय ॥५५॥
 पद्मार्पितकरा लक्ष्मीर्ब्रजते पुरतो विभो । सार्ध समङ्गलार्वाभिर्दिकुमारीभिरुद्यता ॥५६॥
 इत्याविष्कृतमाहात्म्यो वीज्यमान प्रकीर्णकै । श्वेतछत्राङ्कितो मूर्ध्नि देवेन्द्रै परितो वृत ॥५७॥

तत्पश्चात् देवेन्द्र-रचित, चन्द्रप्रभा नामकी देवीप्यमान दिव्य पालकीपर सयमरूपी लक्ष्मीके सुख प्राप्त करनेके लिए उत्सुक, और इन्द्रके द्वारा दिया गया है हाथका सहारा जिनको ऐसे श्री वीर जिनदेव राज्यलक्ष्मीके साथ सब बन्धुजनको छोड़कर दीक्षामे प्रतिज्ञा-बद्धके समान चढे ॥४३-४४॥ उस समय समस्त आभूषणोकी विभूतिसे युक्त और देवोसे आवृत वे जगत्के नाथ महावीर प्रभु उस पालकीपर चिराजमान होकर ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो तपोलक्ष्मीको वरनेके लिए जानेवाले उत्तम वर ही हो ॥४५॥ सर्व प्रथम उस पालकीको राजाओने सात पद तक उठाया, तत्पश्चात् सात पद तक विद्यावरौने उठाया और उसके पश्चात् धर्मानुरागके रससे परिपूरित वे सभी देवगण उस पालकीको अपने कन्धोपर आरोपण करके बड़ी विभूतिके साथ शीघ्र आकाशमे उड़कर ले चले ॥४६-४७॥ अहो, उस प्रभुके महा-माहात्म्यका क्या अलग वर्णन किया जा सकता है, जिसकी कि पालकीको उठानेवाले लोक-नायक इन्द्रादिक हो ॥४८॥ उस समय देवोने आकाशसे फूलोकी वर्षा की और वायुकुमार देवोने गगाके जलकणोसे युक्त सुरभित समीर प्रवाहित की ॥४९॥ उस समय देव वन्दी-जनोने भगवान्के अभिनिष्क्रमण कल्याणक सम्बन्धी मंगल पाठ पढे, और देवोने अनेक प्रयाणभेरियोको बजाया ॥५०॥ 'जगत्पतिके मोहादि शत्रुओको जीतनेके उद्योगका यह समय है' इस प्रकारसे इन्द्रकी आज्ञासे उस समय देवोने उच्च स्वरसे घोषणा की ॥५१॥ उस समय स्वामीके आगे हषित हुए सुरासुरोने 'हे ईश, तुम्हारी जय हो, नन्दो, वर्धो,' इत्यादि शब्दोको बोलते हुए आकाशको अवरुद्ध कर महान् कोलाहल किया ॥५२॥ उस समय देवेन्द्राके कोटि-कोटि बाजे आकाशको व्याप्त करते हुए बजने लगे और नाना प्रकारके हाव भावोके साथ देव नर्तकियाँ नृत्य करने लगी । किन्नरियाँ अति मधुर स्वरसे प्रभुके मोहशत्रुके विजयको प्रकट करनेवाले अनेक प्रकारके सुखद यशोगीत गाने लगी ॥५३-५४॥ उस समय प्रमोदके भारसे भरे हुए देवगण इधरसे उधर दौड रहे थे, और कोटि-कोटि ध्वजा छत्रादिसे आकाशको आच्छादित करते हुए चल रहे थे, ॥५५॥ प्रभुके आगे कमलोको हाथमे लिये हुए लक्ष्मीदेवी मंगल द्रव्योको वारण करनेवाली दिक्कुमारियोके साथ साथ आगे चल रही थी ॥५६॥ देवेन्द्रोके द्वारा जिनके ऊपर चँवर ढोरे जा रहे हैं और मस्तकपर श्वेत छत्र लगाया गया है,

स्वर्गोपनीतै समण्डितोऽशुक्रभूषणै । वीर पुराह्वन गच्छन् पौरैरित्यभिनन्दित ॥५८॥
 ब्रज सिद्धयै जयारातीन् कुरु कृत्य जगद्गुरो । शिवपन्थास्तवाद्यास्तु कल्याणकोटिभागभव ॥५९॥
 केचिद्विचक्षणा वीक्ष्य गच्छत त तपोवनम् । अभुक्तभोगसाम्राज्य जगुरित्य परस्परम् ॥६०॥
 अहो पश्य महच्चित्रमिदमेष यतो जिनेत् । कौमारत्वेऽपि कामारि हत्वा याति तपोवनम् ॥६१॥
 तदाकर्ण्य परे प्राहुरयमेव क्षमोऽन भो । मोहाक्षमदनारातीन् हन्तु नान्यश्च जातुचित् ॥६२॥
 तत सूक्ष्मधिय केचिदित्यूचुर्भो भवेदिदम् । सर्व वैराग्यमाहात्म्य बाह्यान्त शत्रुनाशकृत् ॥६३॥
 ईदृशा स्वर्गजा भोगा सपदस्त्रिजगद्भवा । येन त्यक्तु च शक्यन्ते हन्तु पञ्चाक्षतस्करा ॥६४॥
 यतस्त्यजेद् विरक्तोऽत्र तृणवच्चक्रिसपद । रागी दारिद्र्यदग्धोऽपि कुटीर नोज्झितु क्षम ॥६५॥
 तच्छ्रुत्वान्ये वदन्त्येवमहो सत्य वचोऽत्र व । वैराग्येण विना यस्मात्कुतोऽस्य नि स्पृह मन ॥६६॥
 इत्यादिवचनालापै केचित्तस्तवन व्यथु । केचित्पौरा प्रणेमुस्त पश्यन्त्यनग्रसतिकौतुकात् ॥६७॥
 इत्थ स विविधालापै श्लाघ्यमान पदे पदे । जनैर्जगत्त्रयीनाथ पुरोपान्तमुपागमत् ॥६८॥
 अथातो निर्गते सूनौ जिनाम्बान्त शुचा हता । वल्मीक दचदग्ध्याङ्गा तुग्वियोगाग्निना पिता ॥६९॥
 रोदन चेति कुर्वाणा बन्धुभि सममार्तधी । विलोपैर्बहुभिर्दुःखात्स पुत्रमनु निर्यथु ॥७०॥

जो सर्व ओर से देवेन्द्रोके द्वारा समावृत है, जो स्वर्गसे लाये गये मालाओ ओर वस्त्राभूषणो-
 से मण्डित है और इस प्रकार जिनका माहात्म्य सर्व ओर प्रकट हो रहा ह, ऐसे वे वीर
 भगवान् जब नगरसे वनको जा रहे थे, तब पुरवासियोने यह कहते हुए उनका अभिनन्दन
 किया—हे जगद्-गुरो, आप शत्रुओंको जीते, सिद्धि प्राप्तिके लिए कर्तव्य कार्यको करे, आपका
 मार्ग सुखमय हो, आप कोटि-कोटि कल्याणोको प्राप्त हो ॥५७-५९॥ साम्राज्य सुख और
 स्त्रीभोगको भोगे बिना ही तपोवनको जाते हुए वीर भगवान्को देखकर कितने ही विचक्षण
 पुरुष परस्परमे इस प्रकारसे वार्तालाप करने लगे—अहो, देखो, यह महान् आश्चर्यकी बात है
 कि यह जिनराज कुमारवस्थामे ही कामरूपी शत्रुको मारकर तपोवनको जा रहे है ॥६०-६१॥
 उनकी इस बातको सुनकर दूसरे लोग कहने लगे—अरे, इस लोकमे मोह, इन्द्रिय-भोग और
 कामशत्रुको मारनेके लिए यह वीर प्रभु ही समर्थ है, और दूसरा कदाचित् भी समर्थ नहीं
 है ॥६२॥ उनकी यह बात सुनकर कितने ही सूक्ष्म बुद्धिशाली पुरुष बोले—अरे, बाहरो और
 भीतरी शत्रुको नाश करनेवाले वैराग्यका यह सब माहात्म्य है ॥६३॥ जिससे कि ऐसे
 स्वर्गीय भोग, और त्रिजगत्की सर्व सम्पदाको भी छोडनेके लिए और पचेन्द्रियरूपी चोरोको
 मारनेके लिए ये समर्थ हो रहे है ॥६४॥ यह परम वैराग्यका ही प्रभाव है कि ये चक्रवर्ती
 की सम्पदाको विरक्त होकर तृणके समान छोड रहे है। अन्यथा रागी और दरिद्रतासे युक्त
 पुरुष तो अपनी जीर्ण पर्णकुटीरको भी छोडनेके लिए समर्थ नहीं होता है ॥६५॥ उनकी
 यह बात सुनकर दूसरे लोग कहने लगे—अहो, तुम्हारा कहना सत्य है, क्योंकि वैराग्यके
 बिना इनका ऐसा नि स्पृह मन कैसे हो सकता है ॥६६॥ इत्यादि वचनालापोके द्वारा कितने
 ही लोग उनका स्तवन कर रहे थे, कितने ही पुरवासी लोग उन्हें प्रणाम कर रहे थे और
 कितने ही लोग अति कौतुकसे उन्हें देख रहे थे ॥६७॥ इस प्रकार लोगोके द्वारा पद-पदपर
 अनेक प्रकारके वचनालापोसे प्रशंसा किये जानेवाले वे तीन जगत्के नाथ नगरके अन्तमे
 पहुँचे ॥६८॥

इस प्रकार अपने पुत्र वीर कुमारके घरसे चले जाने पर जिन-माता त्रिशला आन्तरिक
 शोकसे आहत होकर दावाग्निसे जली हुई बेलिके समान होती हुई और पुत्र-वियांगकी
 अग्निसे पीडित सिद्धार्थ पिता भी आर्तचित्त होकर बन्धुजनोके साथ दुःखसे रोते और भारी

हा पुत्र क गतोऽद्य त्व त्यक्त्वा मा मुक्तिरञ्जित । द्रक्ष्यामि नयनाभ्या त्वा कदाह मदुरप्रिय ॥७१॥
 त्वद्वियोग यतोऽत्राह क्षणमात्र क्षमा न हि । ततस्त्वामन्तरेणेश जीविव्यामि कथ चिरम् ॥७२॥
 हातिकोमलगात्रस्व कथ जेष्यसि दुर्जयान् । सर्वान् परीषहान् घोरानुपसर्गाननेकश ॥७३॥
 दुर्दमेन्द्रियमातङ्गास्त्रै लोक्त्रयजयिन स्मरम् । कषायारीश्च धैर्येण केन पुत्र हनिष्यसि ॥७४॥
 हासि बालस्त्वमेकाकी कथ स्थाम्यसि दुष्करे । भीमारण्ये गुहादौ च क्रूरैर्मासाशिभिर्भृते ॥७५॥
 विलापमिति कुर्वाणा व्रजन्ती ता स्वलत्क्रमाम् । एत्य दिव्यगिरेत्युच्चुर्निरुध्य तन्महत्तरा ॥७६॥
 देवि कि वेत्सि नास्येद चरित्र त्व जगद्गुरो । अय त्रिजगतीमर्ता सुतस्तेऽद्भुतविक्रम ॥७७॥
 भवाब्धौ पतनापूर्वमुद्ध्यत्याऽमानमाऽमवित् । पश्चाद्भव्यान् बहून्मनमुद्धरिष्यति तीथराट् ॥७८॥
 पाशैर्बद्धो यथा सिंहस्तिष्ठेज्जातु न दुर्जय । तथा देवि सुतस्ते च बद्धो मोहादिवन्धनै ॥७९॥
 अत्यासन्नमवप्रान्तो जगदुद्धरणक्षम । त्वत्सुतो दीनवद् गेहेऽशुभे कुर्यात्कथ रतिम् ॥८०॥
 तथा त्रिज्ञाननेत्रोऽय ज्ञातविश्वो विरक्तधी । पतेन्मोहान्धकूपेऽस्मिन् मूढवत्केन हेतुना ॥८१॥
 विज्ञायेति महादक्षे जहि शोकमघाकरम् । कुरु धर्म गृह गत्वा ज्ञात्वानित्य जगत्त्रयम् ॥८२॥
 मूर्खा एव यत शोकं कुर्वन्तीष्टवियोगत । दक्षा धर्म च सवेगात्सर्वानिष्टविघातकम् ॥८३॥
 इत्यादि तद्वच श्रुत्वा देवी प्रबुद्धधी । विवेकाशुभिराहत्य स्वान्त शोकतमो द्रुतम् ॥८४॥

विलाप करते हुए पुत्रके पीछे-पीछे घरसे निकले ॥६९-७०॥ हाय पुत्र, आज तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो ? हे मुक्तिमे अनुरक्त, हे मेरे हृदयके प्यारे, अब मैं तुम्हे अपने नेत्रोंसे कब देखूँगी ॥७१॥ जब मैं तेरे वियोगको क्षणमात्र भी सहन करनेको समर्थ नहीं हूँ, तब तेरे बिना मैं चिरकाल तरु कैसे जीवित रह सकूँगी ॥७२॥ हे पुत्र, तुम अति कोमल शरीरवाले हो, फिर इन दुर्जय परीषह और अनेक प्रकारके घोर उपसर्गोंको कैसे जीतोगे ? इन दुर्दमनीय इन्द्रियरूपी हाथियोंको, त्रैलोक्यविजयी इस कामदेवको, और इन कषायरूपी शत्रुओंको किस धैर्यसे घात करोगे ॥७३-७४॥ हाय पुत्र, तुम अभी बालक हो, फिर इस दुष्कर भयकारी वनमे और क्रूर मास-भक्षी सिंहादिसे भरे हुए गुफा आदिमे कैसे रहोगे ॥७५॥ इस प्रकारसे विलाप करती और भगवान्के पीछे-पीछे गिरती-पडती जाती हुई उस त्रिशला माताको उसके महत्तर पुरुषोने आकर और आगे जानेसे रोककर दिव्य वाणीसे इस प्रकार कहा—हे देवि, क्या तुम इस जगद्-गुरुके इस चरित्रको नहीं जानती हो ? तेरा यह पुत्र तीन लोकका स्वामी है और अद्भुत पराक्रमी है ॥७६-७७॥ यह तीर्थकर है, यह आत्मवेत्ता पहले ससार-सागरमे पतनसे अपना उद्धार करके पीछे बहुत-से भव्य जीवोंका निश्चयसे उद्धार करेगे ॥७८॥ जैसे दुर्जय सिंह कभी भी पाशोंसे बँधा हुआ नहीं रह सकता है, उसी प्रकार हे देवि, तुम्हारा यह पुत्र भी मोह आदिके बन्धनोसे बँधा हुआ घरमे कैसे रह सकता है अर्थात् नहीं रह सकता है ॥७९॥ इनका ससार अति निकट आ गया है, यह जगत्के उद्धार करनेमे समर्थ तुम्हारा पुत्र दीन जनके समान इस अशुभ घरमे कैसे प्रीति कर सकता है ॥८०॥ यह तुम्हारा पुत्र तीन ज्ञानरूप नेत्रोंका वारक है, ससारका ज्ञाता है, ससारसे विरक्त चित्तवाला है । फिर यह किस कारणसे मूढजनके समान इस मोहरूप अन्धकूपमे गिरेगा ॥८१॥ ऐसा जानकर हे महाचतुर माता, पापका आकर (खानि) इस शोकको छोड़ो और घर जाकर तथा इस तीन जगत्को अनित्य जानकर धर्मका आचरण करो ॥८२॥ क्योंकि इष्ट जनोके वियोगसे मूर्ख लोग ही शोकको करते हैं । किन्तु जो चतुर पुरुष होते हैं, वे सवेगसे सर्व अनिष्टोंके विघातक धर्मका पालन करते हैं ॥८३॥ इत्यादि प्रकारके उद्बोधक और श्रवणीय महत्तरोंके वचनोंको सुनकर प्रबुद्ध बुद्धि वह देवी विवेकरूपी किरणोंसे अपने मनके शोकरूपी अन्ध-

धृत्वा स्वहृदये धर्मं सवेगाङ्कितविग्रहा । बन्धुभि सह श्रुत्यैश्च जगाम निजमन्दिरम् ॥८५॥
जिनेन्द्रो नातिदूरं खमुत्पत्य नेत्रगोचरम् । जनाना मङ्गलारम्भैर्यथोक्तै सयमाप्तये ॥८६॥
आजगाम सुरै सार्धं वन खण्डाभिध महत् । सच्छाय सफल रम्य ध्यानाध्ययनवृद्धिदम् ॥८७॥
तत्रैकस्मिन् शिलापट्टे चन्द्रकान्तमये शुचौ । देवै प्राग्निर्मिते वृत्ते द्रुमौघच्छायशीतले ॥८८॥
चन्दनद्रवदत्ताच्छुद्धामङ्गलमण्डिते । इन्द्राणीकरविन्यस्तरत्नचूर्णोपहारके ॥८९॥
केतुमालावृताकाशे विचित्रपटमण्डपे । धूपधूमात्तदिग्भागे पर्यन्तवृत्तमङ्गले ॥९०॥
यानादवातरद् वीरो वीरकर्मात्तमानस । निराकाङ्क्षी शरीरादौ साकाङ्क्षी मोक्षसाधने ॥९१॥
अथ शान्ते जनक्षोभे तत्रासीन उदङ्मुख । सर्वत्रारातिमित्रादौ समता भावयन् पराम् ॥९२॥
क्षेत्रादीन् दशबाह्यस्थानुपधीश्चेतनेतरान् । मिथ्यात्वाद्यन्तरङ्गाश्च चतुर्दशातिदुस्वयजान् ॥९३॥
वस्त्राभरणमाल्यानि त्रिशुद्ध्या मोहहानये । अत्यजन्नि स्पृहोऽङ्गादौ सस्पृह स्वात्मशर्मणि ॥९४॥
तत सिद्धान्नमस्कृत्य पत्यङ्कासनमाश्रित । मोहपाशानिवालुञ्चत्केशौघान् पञ्चमुष्टिभि ॥९५॥
विरम्य सर्वसावधान्मनोवाक्यकर्मभि । अष्टाविंशतिमेवाद्यान् सारान्मूलगुणान् परान् ॥९६॥
आतापनादियोगोत्थान् नानोत्तरगुणान् वरान् । व्रतानि समितार्गुंसी स्वीकृत्य सकला जिनेद् ॥९७॥
सर्वत्र समतापन्न सामायिकाख्यसयमम् । कृत्स्नदोषातिग सार स्वीचकार गुणाकरम् ॥९८॥

कारको शीघ्र दूर कर अपने हृदयमे वर्मको धारण कर सवेगसे व्याप्तशरीरवाली वह माता बन्धुजनो और सेवकोके साथ अपने राजमन्दिरको वापस लौट आयी ॥८४-८५॥

तदनन्तर यथोक्त मागलिक आयोजनोसे मनुष्योके नेत्रगोचर आकाशमे न अतिदूर, न अतिसमीप जाते हुए वीर जिनेन्द्र सयमकी प्राप्तिके लिए देवोके साथ ज्ञातृखण्ड नामक महावनमे पहुँचे, जो कि उत्तम छायावाला, फल-युक्त, रमणीय और ध्यान-अध्ययनकी वृद्धि करनेवाला था ॥८६-८७॥ उस वनमे देवोके द्वारा पहले ही निर्माण किये गये एक गोल चन्द्रकान्तमयी पवित्र शिलापट्टपर वीर भगवान् पालकीसे उतरकर जा विराजे । वह शिलापट्ट वृक्षोके समूहकी छायासे शीतल था, घिसे हुए चन्दनके रससे जिसपर छीटे दिये गये थे, साथिया आदि मगल-चिह्नोसे जो मण्डित था, इन्द्राणीके हाथो रत्नोके चूर्णसे जिसपर नन्द्यावर्त आदि बनाये गये थे, जिसके ऊपर चित्र-विचित्र वस्त्रोका मण्डप शोभायमान था और जो ध्वजा-पक्तियोसे आकाशको व्याप्त कर रहा था, जिसके सर्व ओर दिशाओमे धूपका सुगन्धित गुआँ फैल रहा था और जिसके चारो ओर मगलद्रव्य रखे हुए थे ॥८८-९०॥ वीर कार्य करनेमे जिनका मन सलग्न है, जो शरीरादिकमे आकाक्षा-रहित है और मोक्षके साधन-मे आकाक्षा-युक्त है, ऐसे श्री वीरप्रभु जन-सक्षोभ (कोलाहल) के शान्त हो जानेपर उस शिलापट्टके ऊपर उत्तर दिशाकी ओर मुख करके विराजमान हुए । उस समय वे शत्रु-मित्रादि सर्व प्राणियो पर परम समता भावकी भावना कर रहे थे ॥९१-९२॥ तभी उन्होने क्षेत्र-वास्तु आदि दशो प्रकार के चेतन-अचेतन परिग्रहोको तथा अति दुःखसे छोडे जानेवाले मिथ्यात्व आदि चौदह प्रकारके अन्तरग परिग्रहोको एव वस्त्र, आभूषण और माला आदिकी शरीरादि मे नि स्पृह और स्वात्मीय सुखमे सस्पृह होते हुए मोहके नाश करनेके लिए मन-वचन-काय-की शुद्धिपूर्वक सर्वदाके लिए परित्याग कर दिया ॥९३-९४॥ तत्पश्चात् पद्मासनसे बैठकर तथा सिद्धोको नमस्कार कर मोह-पाशके समान अपने केश-समूहको पाँच मुट्टियोसे उखाडकर फेक दिया और मन-वचन-कायके द्वारा सर्व सावद्यो (हिसादि पापो) का परित्याग कर सर्व गुणोके आद्यस्वरूप सारभूत अट्टाईस परम मूल गुणोको, आतापन आदि योगोसे उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके उत्तर गुणोको, पच महाव्रतोको, पच समितियोको और तीनो गुप्तियोको वीर जिनराजने स्वीकार करके सर्वत्र समताभावको प्राप्त होकर सर्व दोषोसे

इत्यसौ मार्गशीर्षस्य कृष्णपक्षेऽप्यपराह्णके । हस्तोत्तरार्धयोर्मध्यभाग चन्द्रे समाश्रिते ॥९९॥
 दशम्या सुमुहूर्तादौ मुक्तिकान्तासखी पराम् । एकाकी ह्याददे जैनी दीक्षा मुक्त्यै सुदुर्लभाम् ॥१००॥
 केशान् भगवतो मूध्न चिरवासात्पवित्रितान् । मत्वा प्रतीक्ष्य देवेशो निधाय पाणिना स्वयम् ॥१०१॥
 स्फुरद्भस्मपट्टया हि मुदाभ्यर्च्य पिधाय च । दिव्याशुकेन नीत्वा सा सुरै रम्यैर्महोत्सवै ॥१०२॥
 क्षीरोदाब्धे पवित्रस्य निसर्गेण शुचौ जले । न्यक्षिपत् परया मूत्या बहुमानशुभाप्तये ॥१०३॥
 यद्यहो कालवालौघा पूजा प्राप्ता जिनाश्रयात् । तर्हि तस्मान्न किं पुसा जायते स्वेष्टसाधनम् ॥१०४॥
 लमन्तेऽत्र यथा यक्षा जिनाह्वयज्याश्रयान्महम् । तथा नीचजना पूजा दुर्लभा चार्हदाश्रिता ॥१०५॥
 जातरूपस्तदा ह्येष तप्तकाञ्चनभावपु । निसर्गे कान्तिदीप्याद्यैस्तेजोराशिरिवावभौ ॥१०६॥
 ततस्तुष्टा सुराधीशा स्तोतुमारैभिरे मुदा । इत्युच्चैस्तद्गुणग्रामै श्रीवीर परमेष्ठिनम् ॥१०७॥
 त्व देव परमात्मान्न जगता गुरुरूर्जित । गुणाकरो जगन्नाथो निर्जितारि सुनिर्मल ॥१०८॥
 ये गुणा गणनातीता अशक्या स्तोतुमद्भुता । देव ते श्रीगणेन्द्राद्यै सर्वेऽसाधारणा भुवि ॥१०९॥
 स्तूयन्ते ते कथ ह्यस्मद्विधैरल्पधियान्वितै । मत्वेति नो मनो दोलायतेऽत्यन्त भवत्स्तुतौ ॥११०॥
 तथापि निर्मला यैका भक्तिरस्ति तवोपरि । सैवेश त्वत्स्त्वेत्रास्मान्मुखरीकुरुते हठात् ॥१११॥
 बहिरन्तर्मलापायान्निर्मला गुणराशय । स्फुरन्ति तेऽद्य योगीश निर्मघेन करा इव ॥११२॥

रहित और सर्व गुणोका आकर ऐसा सामायिक नामका सारभूत सयम अगीकार किया ॥९५-९८॥ इस प्रकार मार्गशीर्षमासके कृष्णपक्षकी दशमीके दिन अपराह्णकालमे उत्तरा और हस्त नक्षत्रके मध्यभागमे चन्द्रमाके आश्रित होनेपर उत्तम मुहूर्तमे वीरप्रभुने अकेले ही मुक्तिकान्ताकी परम सखी और अतिदुर्लभ ऐसी जैनी दीक्षाको मुक्ति-प्राप्तिके लिए धारण किया ॥९९-१००॥ भगवान्के मस्तकपर चिरकाल तक निवास करनेसे केशोको अति पवित्र मानकर देवेन्द्रने उन्हे स्वय उठाकर हर्षसे उनकी पूजा कर और प्रकाशमान रत्नोकी पिटारीमे रखकर तथा उसे दिव्य वस्त्रसे ढककर देवोके साथ रमणीक महोत्सव करते हुए उस रत्न-पिटारीको पवित्र क्षीरसागरके स्वभावतः पवित्र जलमे परम विभूतिसे बहु सम्मान्य पुण्यकी प्राप्तिके लिए निक्षेपण किया ॥१०१-१०३॥ अहो, यदि जिनेश्वरके आश्रयसे ये काले अचेतन बालोका समूह पूजाको प्राप्त हुआ, तो सचेतन पुरुषोको उनसे क्या इष्ट साधन नहीं होगा ? अर्थात् जिनेश्वरके आश्रयसे मनुष्योको सभी इष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होगी ॥१०४॥ जिस प्रकार इस लोकमे यक्ष देव जिनदेवमे चरण-कमलोके आश्रयसे सम्मानको पाते हैं, उसी प्रकार अर्हन्त देवका आश्रय लेनेवाले नीचजन भी दुर्लभ पूजाको प्राप्त करते हैं ॥१०५॥

उस समय सन्तप्र सुवर्ण कान्तिवाले शरीरके धारक यथा जातरूपवाले वीर भगवान् नैसर्गिक कान्ति और दीप्ति आदिके द्वारा तेजोराशिके समान शोभित हुए ॥१०६॥ तब परम सन्तोषको प्राप्त हुए देवेन्द्रोने हर्षसे उनके गुण-ग्रामो द्वारा श्री वीर परमेष्ठीकी इस प्रकार उच्च स्वरसे स्तुति करना प्रारम्भ किया ॥१०७॥ हे देव, इस ससारमे तुम ही परमात्मा हो, तुम ही तीनो जगत्के महान् गुरु हो, तुम ही गुणोके सागर हो, जगन्नाथ हो, शत्रुओके जीतनेवाले हो और अति निर्मल हो ॥१०८॥ हे देव, आपके जो गणनातीत (असख्यात) गुण हैं, वे अद्भुत हैं, ससारमे वे असाधारण हैं, उनकी स्तुति करनेके लिए श्री गणधर देवादि भी अशक्य हैं, तो फिर अल्प बुद्धिसे युक्त हमारे-जैसे लोगोके द्वारा उनकी कैसे स्तुति की जा सकती है, यह समझकर हमारा मन आपकी स्तुति करनेमे झूलाके समान झोके खा रहा है ॥१०९-११०॥ तथापि हे ईश, आपके ऊपर हमारी जो एक निश्चल भक्ति है, वही हमे आपकी स्तुति करनेके लिए हठात् वाचालित कर रही है ॥१११॥ हे योगीश, बाह्य और आन्तरिक मरणके विनाशसे आपकी यह निर्मल गुणोकी

आद्यन्तदु खसन्मिश्र चल वैषयिक सुखम् । त्यक्त्वेहत स्वात्मज सौख्य पर ते क निरीहता ॥११३॥
 पूतिगन्धे कुरामाङ्गे सग मुक्त्वा प्रकुर्वत । मुक्तिनार्या महाराग कथ ते रागविच्युति ॥११४॥
 हेयादेय स्फुट ज्ञात्वा त्यक्त्वा हेय निजात्मगम् । आदेय भजतो नाथ कुतस्ते समभावना ॥११५॥
 दृषदो रत्नसज्जान् विहायानर्घ्यमहामणीन् । दृष्ट्यादीन् दधतो देव लोभमुक्ति कथ तव ॥११६॥
 क्षणध्वस्यघद राज्य हत्वा नित्य च्युतोपमम् । इच्छतस्त्रिजगद्राज्य काच्यते नि स्पृह मन ॥११७॥
 चला लक्ष्मी परित्यज्य परा लोकाग्रजा श्रियम् । ईहतस्ते कुतो लोकेऽत्राशामुक्तिर्जगत्प्रभो ॥११८॥
 विघातान्मदनाराते रतिप्रीत्यो प्रकुर्वत । वैधव्य ब्रह्मबाणैस्ते क देव हृदये कृपा ॥११९॥
 कृत्स्नकर्मारिसतान धनतो ध्यानमहेषुभि । मोहभूपतिना सार्धं क ते नाथ दया हृदि ॥१२०॥
 त्यक्त्वा बन्धुञ्जिजान् स्वल्पान् जगता बन्धुता पराम् । कुर्वत स्वगुणैर्देव कथ ते बन्धुविच्युति ॥१२१॥
 भोगान् मुजङ्गभोगाभास्यक्त्वा दक्ष प्रकुर्वत । शुक्लध्यानसुधापान कुतस्ते प्रोषधत्रतम् ॥१२२॥
 विध्यापितजगत्तापा पुण्यधारेव पावनी । त्वदीयेय महादीक्षा न पुनातु बुधार्चिता ॥१२३॥
 प्रव्रज्या जगता शुद्धा पवित्रीकरणक्षमाम् । त्रिशुद्ध्या दधते तुभ्य नमो मुक्तिस्पृहयालवे ॥१२४॥
 नि स्पृहायाङ्गशर्मादौ सस्पृहाय शिवाध्वनि । तप श्रीसजुषे त्यक्तद्विधासङ्गाय ते नम ॥१२५॥
 सम्यग्दृ जादचारित्ररत्नत्रितयभूषणै । अनर्घ्यैर्भूषितायेश नमो निर्भूषणात्मने ॥१२६॥

राशि आज मेघ-रहित सूर्यकी किरणोके समान प्रकाशमान हो रही है ॥११२॥ हे भगवन्, आवि और अन्तमे दु खोसे मिश्रित, चचल विषय-जनित सुखको छोड़कर स्वात्मज उत्कृष्ट सुखकी इच्छा करनेवाले आपके नि स्पृहपना कहाँ सम्भव है ॥११३॥ अत्यन्त दुर्गन्धियुक्त स्त्रियोके खोटे शरीरमे रागको छोड़कर मुक्तिरमणीमे महारागको करनेवाले आपके राग-रहित (वीतराग) कैसे माना जाये ॥११४॥ हेय और उपादेयको स्पष्ट जानकर हेयको छोड़कर उपादेय निज आनन्दको स्वीकार करनेवाले आपके हे नाथ, समभावना कहाँ है ॥११५॥ रत्न नामवारी पत्थरोको छोड़कर सम्यग्दर्शनादि अमूल्य महामणियोंको ग्रहण करनेवाले आपके हे देव, लोभ-मुक्ति कैसे मानी जाये ॥११६॥ क्षण-भगुर, और पाप-वर्षक इस लौकिक राज्यको छोड़कर नित्य और अनुपम तीन जगत्के साम्राज्य की इच्छा करनेवाले आपका मन नि स्पृह कैसे माना जा सकता है ॥११७॥ हे जगत्प्रभो, लौकिक चचल लक्ष्मीको छोड़कर सर्वोत्कृष्ट लोकाग्रनिवासिनी मुक्ति लक्ष्मीको चाहनेवाले आपके ससारमे आश-रहितपना कैसे सम्भव है ॥११८॥ कामदेवरूपी शत्रुको ब्रह्मचर्यरूप बाणोके द्वारा मार देनेसे रति और प्रीतिको विधवा बनानेवाले आपके हृदयमे हे देव, दया कहाँ है ॥११९॥ ध्यानरूपी महाबाणोके द्वारा समस्त कर्मशत्रुओकी सन्तानका मोह-भूपतिके साथ विनाश करनेवाले आपके हृदयमे हे नाथ, करुणा कहाँ है ॥१२०॥ अपने थोडे-से बन्धुओको छोड़कर अपने गुणोके द्वारा सारे जगत्के जीवोके साथ परम बन्धुताको करनेवाले आपके हे देव, बन्धु-वियुक्तता कैसे सम्भव है ॥१२१॥ हे दक्ष, सर्पफणाके सदृश विषयुक्त भोगोको छोड़ करके शुक्लध्यानरूपी अमृतपानको करते हुए आपके प्रोषधत्रत कैसे सम्भव है ॥१२२॥ पुण्यधाराके समान जगत्के सन्तापोको शान्त करनेवाली, पवित्र और विद्वत्पूजित आपकी यह महादीक्षा हम सब लोगोको पवित्र करे ॥१२३॥ तीनों लोकोको पवित्र करनेमे समर्थ ऐसी शुद्ध दीक्षाको मन-वचन कायकी शुद्धिसे धारण करनेवाले और मुक्तिके इच्छुक आपके लिए नमस्कार है ॥१२४॥ शारीरिक सुखादिमे निःस्पृह और शिवमार्गमे सस्पृह, तपःश्रीसे सयुक्त और द्विविध परिग्रहके त्यागी हे भगवन्, आपको नमस्कार है ॥१२५॥ अनमोल सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रय-आभूषणोसे भूषित हे ईश, निर्भूषण आत्मस्वरूपवाले तुम्हारे लिए हमारा

निरस्ताखिलवस्त्राय दिगम्बरधराय च । नमस्तुभ्य महैश्वर्यसाधनोद्यतचेतसे ॥१२७॥
 सवसङ्गविमुक्ताय युक्ताय गुणसपदा । महते मुक्तिकान्ताय नमस्तुभ्य जिनेश्वर ॥१२८॥
 नमोऽक्षातीतशर्माक्तमानसाय विरागिणे । उपोषिताय ते नाथ शुक्लध्यानामृताशिने ॥१२९॥
 नमोऽद्य दीक्षितायाच्य ते चतुर्ज्ञानचक्षुषे । स्वयंबुद्धाय तीर्थेशे सद्बालब्रह्मचारिणे ॥१३०॥
 विमुखायाखिलाक्षादौ सम्मुखाय चिदात्मनि । निश्चिन्ताय नमस्तुभ्य मुक्तौ चिन्ताविधायिनि ॥१३१॥
 नम कर्मारिसतानघातिने गुणसिन्धवे । नमस्तुभ्य महाक्षान्त्यादिसुलक्षणशालिने ॥१३२॥
 अनेन स्तवनेनेच्छ्य जगदाशाप्रपूरण । नार्थयामो जगल्लक्ष्मी त्वा वय किं तु देव न ॥१३३॥
 भवदीयाभिमा शक्ति तपोदीक्षाविधायिनीम् । बालत्वे त्वद्गुणै सार्धं देहि मुक्त्यै भवे भवे ॥१३४॥
 इति स्तुत्वा तमभ्यर्च्य मुहुर्नत्वा सुराधिपा । उपाज्य बहुधा पुण्य नम पूजास्तवादिभि ॥१३५॥
 कृतकार्या सुरै सार्धं सर्वे धर्मात्तमानसा । स्वस्वास्पद मुदा जरमुस्तत्कल्याणकथारता ॥१३६॥
 अथासौ कर्मशत्रुघ्न ध्यान योगनिरोधकम् । निश्चलाङ्गो विधायोच्चैस्नस्थौ ह्यश्मोत्थमूतिवत् ॥१३७॥
 तदेव तेन योगेन चतुर्थज्ञानमूर्जितम् । प्रादुरासीद्विभोर्नून केवलज्ञानसूचकम् ॥१३८॥
 इति विगतविकारो राज्यभोगादिलक्ष्मी नरसुरगतिजाता योऽत्र बात्ये विरक्त्या ।
 तृणमिव खलु हित्वा मङ्क्षु जग्राह दीक्षा तमसमगुणकीर्त्या वीरनाथ स्तुवेहम् ॥१३९॥

नमस्कार है ॥१२६॥ समस्त प्रकारके वस्त्रोंके त्यागी और दिशारूप अम्बर (वस्त्र) के धारक, तथा महान् ऐश्वर्यके साधनमे उद्यत चित्तवाले आपके लिए नमस्कार है ॥१२७॥ सर्वसगसे विमुक्त, गुण सम्पदासे युक्त, मुक्तिके महाकान्त हे जिनेश्वर,आपके लिए नमस्कार है ॥१२८॥ अतीन्द्रिय सुखसे युक्त चित्तवाले, विरागी, उपवासी और शुक्लध्यानामृतभोजी आपके लिए हे नाथ, नमस्कार है ॥१२९॥ हे पूज्य, आजके दीक्षित, चार ज्ञानरूप नेत्रके धारक, स्वयंबुद्ध, तीर्थके स्वामी और उत्तम बालब्रह्मचारी, समस्त इन्द्रियसुखोंसे विमुख, चैतन्य आत्माके सम्मुख, निश्चिन्त और मुक्ति प्राप्तिमे चिन्ता करनेवाले, आपके लिए नमस्कार है ॥१३० १३१॥ कर्म शत्रुओकी सन्तानका घात करनेवाले, गुणोंके सागर, उत्तमक्षमादि दश लक्षण धर्मके धारण करनेवाले, आपको नमस्कार है ॥१३२॥ हे पूज्य, हे जगदाशाप्रपूरक, इस स्तवनके द्वारा हम आपसे किसी सासारिक लक्ष्मीकी प्रार्थना नहीं करते है । किन्तु हे देव, बालपनेमे भी तपोदीक्षाविधायिनी अपनी इस शक्तिको अपने गुणोंके साथ मुक्तिके लिए भव-भवमे हमे दीजिए ॥१३३-१३४॥

इस प्रकार वे देवोंके स्वामी वीर प्रभुकी स्तुति करके, पूजा करके और बार-बार नमस्कार करके नमन, पूजन और स्तवनादिके द्वारा बहुत प्रकारका पुण्य उपार्जन करके कर्तव्य कार्यको पूर्ण करनेवाले, धर्ममे सलग्न चित्तवाल, और भगवान्के दीक्षा-कल्याणककी कथामे निरत वे सभी इन्द्र देवोंके साथ अपने-अपने स्थानोंको चले गये ॥१३५-१३६॥

अथानन्तर वे वीर प्रभु निश्चल अग होकर, कर्मशत्रुओका विनाशक, योग-निरोधक ध्यानको धारण करके पाषाणमे उत्कीर्ण मूर्तिके समान ध्यानस्थ हो गये ॥१३७॥ उसी समय ही उस ध्यानयोगके द्वारा वीर प्रभुके उत्कृष्ट चतुर्थ मन-पर्यय ज्ञान प्रकट हुआ जो कि निश्चय-से केवलज्ञानकी प्राप्तिका सूचक है ॥१३८॥

इस प्रकार विकारोंसे रहित जिस वीर प्रभुने बालकालमे ही विरक्त होकर मनुष्य और देवगतिमे उत्पन्न हुई राज्य और भोग आदिकी लक्ष्मीको निश्चयसे तृणके समान छोड़कर शीघ्र ही दीक्षाको ग्रहण किया उस वीरनाथकी मै अनुपम गुणोंके कीर्तन द्वारा स्तुति करता हूँ ॥१३९॥

वीरो वीरगणाग्रणीगुणनिधिर्वीर हि वीरा श्रिता
 वीरेणाशु समाप्यते वरसुख वीराय भक्त्या नम ।
 वीरान्नास्त्यपरोऽत्र वीरपुरुषो वीरस्य वीरा गुणा
 वीरे ध्यानमह भजेऽप्यनुदिन मा वीर वीर कुरु ॥१४०॥

इति श्रीभट्टारकमकलकीर्तिविरचिते श्रीवीरवर्धमानचरिते भगवद्दीक्षाकल्याणवर्णनो
 नाम द्वादशोऽधिकार ॥१२॥

वीर प्रभु वीर जनोमे अग्रणी है, गुणोके निधान है, ऐसे वीरनाथको वीर पुरुष ही आश्रित होते है, वीरके द्वारा शीघ्र ही उत्तम सुख प्राप्त होता है, ऐसे वीर प्रभुके लिए भक्तिसे मेरा नमस्कार है। इस ससारमे वीरनाथसे भिन्न और कोई पुरुष नहीं है, उस वीरके गुण भी वीर ही है, ऐसे वीर जिनेन्द्रमे मै अपना प्रतिदिन ध्यान लगाता हूँ, हे वीर प्रभो, मुझे वीर करो ॥१४०॥

इति श्री भट्टारक सकलकीर्तिविरचित श्री वीरवर्धमान चरितमे भगवान्की दीक्षा-
 कल्याणकका वर्णन करनेवाला बारहवाँ अधिकार पूर्ण हुआ ॥१२॥

त्रयोदशोऽधिकार

नि मङ्ग विगताबाध मुक्तिकान्तासुखोत्सुकम् । ध्यानारूढ महावीर वन्दे वीरगुणास्रये ॥१॥
 अथैषोऽतीव शक्तोऽपि षण्मासादितपोविधौ । तथाप्यन्यमुनीना सच्चर्यामार्गप्रवृत्तये ॥२॥
 पारणाहनि योगीन्द्रो धृतिधैर्यबलाधिक । निरीहोऽत्यन्तभोगादौ मति चक्रे तनुस्थितौ ॥३॥
 ततो ब्रजन् प्रयत्नेन स्वीर्यापथात्तलोचन । निर्धनोऽय धनी चैष मनाग् हृदीत्यचिन्तयन् ॥४॥
 भावयन् त्रिकसवेग कुर्वन्तोष सुदानिनाम् । कृतादिदूरमाहार शुद्धमन्वेषयन् स्वयम् ॥५॥
 नातिमन्द न शीघ्र च न्यसन् पाद दयार्द्रधी । क्रमादसौ पुर रम्य प्राविशत्कूलसञ्जकम् ॥६॥
 तत्र कूलाभिधो राजा वीक्ष्य पात्रोत्तम जिनम् । निधानमिव दुष्प्राप्य प्राप्यानन्द पर हृदि ॥७॥
 त्रि परीत्य प्रणम्याशु दृत्वाङ्गपञ्चक भुवि । तिष्ठ तिष्ठ मुदेत्युक्त्वा प्रतिजग्राह धर्मधी ॥८॥
 ततस्तमुपवेश्योच्चै स्थान प्रासुकमूजितम् । तत्पादपङ्कजौ शुद्ध तलै प्रक्षाल्य तज्जलम् ॥९॥
 पवित्रमभिवन्द्यानु प्रपूज्याष्टविधार्चनै । भक्तिभारेण भूपोऽसौ ननाम शिरसा तत ॥१०॥
 अद्याह सुकृतीभूतो गार्हस्थ्य सफल च मे । पात्रलाभाद्विचिन्त्येति मन शुद्धि चकार स ॥११॥
 धन्योऽह देव नाथाद्य सपवित्रीकृतस्त्वया । स्वागमेन गृहश्चेदमुक्त्वा शुद्धि व्यधाद् गिर ॥१२॥

सर्व प्रकारके परिग्रहसे रहित, बाधाओसे रहित, मुक्तिकान्ताके सुख पानेके लिए उत्सुक और ध्यानावस्थित श्री महावीरको मैं वीर-जैसे गुणोंकी प्राप्तिके लिए वन्दन करता हूँ ॥१॥ अथानन्तर यह महावीर स्वामी छहमासी उपवास आदि तपोके करनेमे अतीव समर्थ थे, तो भी अन्य मुनियोंको उत्तम चर्यामार्ग बतलानेके लिए पारणाके दिन वृत्ति और धैर्यसे बलशाली, शरीर-भोगादिमे अत्यन्त निःस्पृह उन योगीन्द्र महावीरने शरीर स्थितिमे बुद्धि की अर्थात् गोचरीके लिए उद्यत हुए ॥२-३॥ तब प्रयत्नके साथ उत्तम ईर्यापथपर दृष्टि रखकर 'यह निर्धन है, और यह धनी है' ऐसा मनमे जरा भी चिन्तवन नहीं करते, ससार, शरीर और भोग इन तीनोंमे सवेग भाते, उत्तम दानियोंको सन्तोष करते, कृत, कारित, उद्दिष्ट आदि दोषोसे रहित शुद्ध आहारका स्वय अन्वेषण करते, न अति मन्द और न अति शीघ्र पाद-विन्यास रखते वे दयार्द्र चित्त महावीर प्रभु क्रमसे विचरते हुए कूल नामक रमणीक पुरमे पहुँचे ॥४-६॥ वहाँपर कूल नामक वर्मबुद्धि राजाने सर्व पात्रोमे श्रेष्ठ वीर जिनको देखकर दुष्प्राप्य निधानको पानेके समान हृदयमे परम आनन्द मानकर उन्हे तीन प्रदक्षिणा देकर और शीघ्र पंच अगोको भूमिपर रखते हुए नमस्कार करके 'हे भगवन्, तिष्ठ तिष्ठ' ऐसा कहकर अतिहृषित होते हुए उन्हे पडिगाहा ॥७-८॥ तत्पश्चात् उस राजाने भगवानको प्रासुक, श्रेष्ठ उच्चस्थान पर बैठाकर शुद्ध जलसे उनके चरण कमलोको प्रक्षालन करके उस जलको पवित्र मानकर उसे मस्तकपर लगाया और भक्तिभारसे आठ द्रव्योंके द्वारा उनकी पूजा की और उन्हे नमस्कार किया ॥९-१०॥ पुनः उसने 'हे भगवन्, आपके पदार्पणसे मैं पवित्र हो गया हूँ, मेरा यह गार्हस्थ्य जीवन सफल हो गया है, पात्रके लाभसे मैं धन्य हूँ, इस प्रकार विचार करते हुए अपनी मनःशुद्धि की ॥११॥ पुनः उसने 'हे देव, मैं धन्य हूँ, हे नाथ, आज आपने मुझे पवित्र कर दिया और आपके आगमनसे यह घर पवित्र हो गया' ऐसा कहकर

पवित्रमद्य गात्र ये सफलौ करसत्तमौ । पात्रदानेन मत्वेति वपु शुद्धि दधे नृप ॥१३॥
 कृतादिदोषनिर्मुक्तामेषणाशुद्धिमूर्जिताम् । प्रासुकान्नमवा सारा योग्या चक्रे स निर्मलाम् ॥१४॥
 इत्येतैर्विधिभेदै सत्पुण्यार्जननिबन्धनै । नवमिस्तत्क्षण भूपो महत्पुण्यमुपार्जयत् ॥१५॥
 मन्नाग्येनात्र सपूर्ण पात्रदान सुदुर्लभम् । इदं जातु विचिन्त्येति श्रद्धा दाने परा व्यवात् ॥१६॥
 स्वशक्ति प्रकटीकृत्य पात्रदाने स उद्ययौ । श्रीरत्नवृष्टिकीर्त्यादीस्तद्दानान्मुक्तप्रस्त्यजत् ॥१७॥
 शुश्रूषाज्ञायरागाद्यैस्तद्भक्तितत्परोऽजनि । त्यक्त्वाखिलान्यकार्याणि धर्मसिद्धयै नृपोत्तम ॥१८॥
 अयं प्रासुक आहारो दानवेलेयमूर्जिता । विधिनानेन दान देय ज्ञानमाप चेत्यसौ ॥१९॥
 बहूपवाससङ्केशान् सहतेऽसौ कथं यमी । विचार्येति कृपा सोऽधात्परया क्षमया समम् ॥२०॥
 इति दातृगुणान् सप्तमहाफलकरान् परान् । गृहस्थाना तदा राजा स्वीचकार विशारद ॥२१॥
 ततस्तस्मै सुपात्राय हिताय दातृदेहिनाम् । त्रिशुद्ध्या विधिना भक्त्या क्षीरान्नदानमूर्जितम् ॥२२॥
 प्रासुक मधुर भूप सरस दोषदूरगम् । तपोवृद्धिकर शुद्ध ददौ क्षुत्तृड्विनाशकम् ॥२३॥
 तदा तद्दानतस्तुष्टा निर्जरा शुभयोगत । राजाज्ञणे नभोभागाद्रत्नवृष्टि परा व्यधु ॥२४॥
 अनर्घ्यमणिकोटीना स्थूलैर्धाराव्रजेर्घनै । अखण्डे पुष्पगन्धोदकमिश्रैश्च तमोपहै ॥२५॥
 दुन्दुभीना निनादा जजृम्भरे गगने तदा । घोषयन्त इवानेका दातु पुण्य यशो महत् ॥२६॥
 पर पात्रमिदं दातुस्तारकं मां भवाम्बुवे । अयं दाता महान् धन्यो यद्गोहमागतो जिनेत् ॥२७॥

उसने अपनी वचनशुद्धि की ॥१२॥ आज मेरा शरीर आपके चरण-स्पर्शसे पवित्र हो गया, पात्रदानसे मेरे ये दोनो श्रेष्ठ हाथ सफल हो रहे हैं, ऐसा मानकर उस राजाने कायशुद्धि की ॥१३॥ पुनः उसने यह कहते हुए आहारशुद्धि प्रकट की कि यह भोजन कृत आदि दोषोंसे रहित है, प्रासुक अन्नसे निष्पन्न हुआ है, सार, योग्य और निर्मल है ॥१४॥ इस प्रकार उत्तम पुण्यके उपार्जनके कारणभूत इन नव प्रकारके भक्तिभेदोंके द्वारा राजाने उस समय महान् पुण्यका उपार्जन किया ॥१५॥ मेरे भाग्यसे आज यहाँ पर यह अत्यन्त दुर्लभ सम्पूर्ण पात्र दानका सुअवसर प्राप्त हुआ है, जो कि अन्यत्र कदाचित् सम्भव नहीं, ऐसा विचार कर उस राजाने दान देनेमें परम श्रद्धा प्रकट की ॥१६॥ अपनी शक्तिको प्रकट करके वह पात्रदानमें उद्यत हुआ । मुक्तिके लिए दान देनेके भावसे उसने लौकिक लक्ष्मी, रत्नवृष्टि और कीर्ति आदि की इच्छाको छोड़ दिया ॥१७॥ उस समय धर्म-सिद्धिके लिए अन्य समस्त कार्योंको छोड़कर शुश्रूषा, आज्ञा-पालन, पुण्य-राग आदिके द्वारा वह उत्तम राजा भगवान्की भक्तिमें तत्पर हुआ ॥१८॥ यह आहार प्रासुक है, यह उत्तम दान-वेला है, इस विधिसे मुझे दान देना चाहिए, इस प्रकारके आहारदान देनेके ज्ञानको वह राजा प्राप्त हुआ ॥१९॥ सयमी साधु अनेक उपवास-जनित क्लेशको कैसे सहन करते हैं? इस प्रकार विचार कर उस राजाने परम क्षमाके साथ कृपाको धारण किया ॥२०॥ इस प्रकार गृहस्थोंके महाफल-कारक इन उत्तम सात दातारके गुणोंको उस विद्वान् राजाने अगीकार किया ॥२१॥ तत्पश्चात् उस राजाने वीर प्रभु-जैसे उत्तम सुपात्रके लिए दाताजनोके हितार्थ मन-वचन-कायकी शुद्धिपूर्वक विधिसे भक्तिके साथ उत्तम, प्रासुक, मधुर, सरस, निर्दोष, तपकी वृद्धि करनेवाला और क्षुधा-नृषाका विनाशक क्षीरान्नका उत्कृष्ट दान दिया ॥२२-२३॥ उस समय उस दानसे सन्तुष्ट हुए देवोंने पुण्ययोगसे राजाके अगणमें अन्वकार-नाशक अनमोल करोड़ों मणियोंकी स्थूल, अखण्ड, सघन, धारा-समूहोंसे, फूलोंकी सुगन्धिसे मिश्रित जलवर्षाके साथ आकाशसे भारी रत्नवर्षा की ॥२४-२५॥ उस समय दाताके महापुण्य यशकी घोषणा करते हुए अनेक दुन्दु-भियोंका शब्द आकाशमें व्याप्त हो गया ॥२६॥ अहो, दाताको ससार-समुद्रसे तारनेवाले यह जिनेन्द्र परम पात्र है, और यह महान् दाता धन्य है, कि जिसके घर जिनराज पवारे

एतद्दान पर पुसा स्वगमुक्तिनिबन्धनम् । इच्युस्तु सद्गिरो देवा जयादिघोषणै समम् ॥२८॥
 अहो यथेह लभ्यन्ते पात्रदानेन भूतल । रत्नाना कोटयोऽनर्घ्या शुभ्रा कीर्त्यादिय परा ॥२९॥
 तथामुत्र श्रियोऽनर्घ्या स्वर्गभोगधरादिषु । नून बह्व्यश्च जायन्ते महाभोगादिसपद ॥३०॥
 तदा राजाङ्गण सर्व पूरित रत्नराशिभि । विलोक्य निपुणा केचिदित्थमाहु परस्परम् ॥३१॥
 अहो पश्येदमत्रैव दानस्य प्रवर फलम् । येनाद्य पूरित राजमन्दिर रत्नवर्षणै ॥३२॥
 तच्छ्रुत्वान्ये चिद् प्राहु कियन्मान्निद फलम् । किन्तु स्वमुक्तिसौख्याद्या लभ्यन्ते दानत परा ॥३३॥
 आरुण्यं तद्रुच केचित्प्रत्यक्ष वीक्ष्य तत्फलम् । पात्रदाने मति चक्रु स्वर्गश्रीभोगदायिनि ॥३४॥
 श्रीवर्धमानतीर्थेशो वीतरागहृदा तदा । रागादीन् दूरतस्त्यक्त्वा पाणिपात्रेण सस्थित ॥३५॥
 तनु स्थित्यै तदाहार गृहीत्वातो यथौ वनम् । पवित्र तद्गृह भूप कृत्वा दानफलेन च ॥३६॥
 तत्सुदानेन भूषोऽपि स्वस्य जन्म गृहाश्रमम् । धन च सफल मेने महापुण्यकर परम् ॥३७॥
 तस्य दानानुमोदेन बहवो दानिनोऽपरे । दातृपात्रस्तवाद्यैश्च तत्सम पुण्यमार्जयन् ॥३८॥
 जिनेशोऽपि बहून् दशान् नानाग्रामपुराटवी । वायुवद्विहरन्नित्य निर्ममत्व प्रयत्नत ॥३९॥
 एकाकी सिंहवद् रात्रावसद् ध्यानादिभिद्धये । गिरिकन्दरदुर्गश्मशानेषु निर्जनेषु च ॥४०॥
 बहून् षष्ठाष्टमादीश्च षण्मासान्तास्तपोविधोन् । कुर्याद्देवोऽवमोदर्थं कदाचित्पारणाहनि ॥४१॥
 सप्तृत्तिपरिसख्यान क्वचिद्वत्ते तपोऽद्भुतम् । अलाभायाघहान्यै चतु पथादिप्रतिज्ञया ॥४२॥

है ॥२७॥ यह परमदान पुरुषोको स्वर्ग और मोक्ष का कारण है, इस प्रकार देवोने जय-जयकारकी घोषणाके साथ सद् वचन कहे ॥२८॥ अहो, जैसे इस भूतलपर पात्रदानसे अनमोल रत्नोकी कोटियाँ प्राप्त हाती है और उत्तम निर्मल कीर्ति आदि प्राप्त होती है, उसी प्रकार परलोकमे भी स्वर्ग और भोगभूमि आदिमे निश्चयसे अनेक अनमोल महाभोगादि सम्पदाएँ प्राप्त होतो है ॥२९-३०॥ उस समय रत्नोकी राशियोसे सारे राजागणको पूरित देखकर कितने ही निपुण पुरुष परस्परमे इस प्रकार कहने लगे ॥३१॥ अहो, दानका उत्कृष्ट फल यहीपर ही देखो कि आज यह राजभवन रत्नोकी वर्षासे परिपूर्ण हो रहा है ॥३२॥ इस बातको सुनकर अन्य ज्ञानीजन बोले— अरे, यह कितना-सा दानका फल है ? दानसे तो स्वर्ग और मोक्षके परम सुखादिक प्राप्त होते है ॥३३॥ उनके ये वचन सुनकर और दानके प्रत्यक्ष फलको देखकर कितने ही पुरुषोने स्वर्गलक्ष्मीके भोगोको देनेवाले पात्रदानमे अपनी बुद्धिको किया । अर्थात् पात्रदान देनेका निश्चय किया ॥३४॥ उस समय श्रीवर्धमान तीर्थेश रागादिको दूरसे ही छोडकर वीतराग हृदयसे अवस्थित रहते हुए शरीरकी स्थितिके लिए पाणिपात्र द्वारा आहारको ग्रहण कर और दानके फलसे राजाको और उसके घरको पवित्र करके वनको चले गये ॥३५-३६॥ इस उत्तम दानसे राजाने भी अपना जन्म, अपना गृहाश्रम और महापुण्यकारी अपना धन सफल माना ॥३७॥ उसके दानकी अनुमोदनासे अन्य बहुतसे दानियोने दाता और पात्रके स्तवन, गुण-गान आदिके द्वारा राजाके समान ही पुण्यका उपार्जन किया ॥३८॥

अथानन्तर वीर जिनेश नाना ग्राम, पुर, अटवी और अनेक देशोमे वायुके समान निर्ममत्व होकर प्रयत्नके साथ (जीव रक्षा करते) और नित्य विहार करते हुए विचरने लगे ॥३९॥ वे वीर जिन ध्यानादिकी सिद्धिके लिए भयकर गिरि-गुफा, दुर्ग, श्मशान आदिमे और निर्जन वन-प्रदेशोमे सिंहके समान एकाकी रात्रिमे निवास करते थे ॥४०॥ वे जिनदेव वेला-तेलाको आदि लेकर लह मास तकके उपवासोको करने लगे । कभी पारणाके दिन अवमोदर्थ (ऊनोदर) तप करते, कभी अलाभ परीषहको जीतनेके लिए चतुष्पथ आदिकी प्रतिज्ञा करके

रसत्याग तपो दध्यान्निर्विद्वत्यादिना क्वचित् । ध्यानाय वनादौ च विविक्त शयनासनम् ॥४३॥
 प्रावृट्काले विधत्तेऽसौ झञ्जावातादिसकुले । महायोग तरोर्मूले धृतिकम्बलवेष्टित ॥४४॥
 चतुष्पथे सरितीरे शीतकाले स्थिति भजेत् । ध्यानाग्निध्वस्तशीतौ शीतदग्धद्रुमत्रजे ॥४५॥
 मानुतीक्ष्णाशुसतसे पर्वताप्रशिलातले । उष्णकाले प्रभुस्तिष्ठेत्सिक्तो ध्यानामृताम्बुभि ॥४६॥
 कायक्लेश भजन्नेव शरीरसुखहानये । इत्यसौ षड्विध चक्रे तपो बाह्य सुदुस्सहम् ॥४७॥
 प्रायश्चित्तातिगो देवो नि प्रमादो जितेन्द्रिय । निविकल्प मन कृत्वा कायोत्सर्ग विधाय च ॥४८॥
 सर्वत्र स्वात्मनो ध्यान कृत्स्नकर्मवनानलम् । कुर्यात्कर्मरिघाताय परमानन्दकारणम् ॥४९॥
 अभ्यन्तर तप सर्वं सपूर्णं तस्य जायते । तेनात्मध्यानयोगेन विश्वासवनिरोधनात् ॥५०॥
 इति तेपे चिर वीर सत्तपसि पराणि च । स्ववीर्यं प्रकटीकृत्य द्वादशैव प्रयत्नत ॥५१॥
 आसीत्क्षमागुणेनासावकम्प पृथिवीसम । प्रसन्नेन स्वभावेन निर्मलोऽच्छाम्बुवत्सदा ॥५२॥
 दुष्कर्मरिण्यदाहे स ज्वलदग्निनिभोऽभवत् । दुर्जय शत्रुतुल्यश्च कषायाक्षरिघातने ॥५३॥
 धर्मबुद्ध्या भजेन्नित्य महाधर्मविधायिन । इहामुत्र सुखाब्धीन् स क्षान्त्यादीन् दशलक्षणान् ॥५४॥
 क्षुत्तृषादिभवान् सर्वान् जयेद् घोरान् परीषहान् । वनस्थोपद्रवान् शक्त्या वीरोऽतुलपराक्रम ॥५५॥
 महाव्रतानि पञ्चैव भावनासहितानि स । अतीचारादृते दक्षो महाज्ञानाय पालयेत् ॥५६॥

अद्भुत वृत्तिपरिसख्यान तपको करते, कभी निविकृति आदिकी प्रतिज्ञा करके रसपरित्याग तपको करते और कभी ध्यानके लिए वनादि निर्जन प्रदेशोमे विविक्तशयनासन तपको करते थे ॥४१-४३॥ वे वीरजिन वर्षाकालमे झञ्जावात आदिसे व्याप्त वृक्षके मूलमे वैर्यरूप कम्बलसे वेष्टित होकर निवास करते, कभी शीतकालमे चौराहोपर और नदीके किनारे ध्यानरूपी अग्निके द्वारा शीत पुजको ध्वस्त करते हुए निवास करते थे, जिस शीतकालमे कि प्रचण्ड शीतके द्वारा वृक्षोके समूह जल जाते थे ॥४४-४५॥ उष्णकालमे वीर प्रभु सूर्यकी तीक्ष्ण किरणोसे सन्तप्त पर्वतके शिखरपर अवस्थित शिलातलपर ध्यानामृतरूप जलसे सिंचित रहकर ठहरते थे ॥४६॥ इस प्रकार शारीरिक सुखको दूर करनेके लिए वीर जिनेन्द्र कायक्लेश तपको धारण करते थे । इन उपर्युक्त लहो प्रकारके सुदु सह बाह्य तपको वीर प्रभुने किया ॥४७॥ वीर जिनेन्द्र सदा प्रमाद-रहित होकर इन्द्रियोको जीतते थे, अतः प्रायश्चित्त लेनेकी उन्हे कभी आवश्यकता नहीं थी । वे मनको सर्व प्रकारके सकल्प विकल्पोसे रहित करके और कायोत्सर्ग करके सर्वकर्मरूप वनको जलानेके लिए अग्निके समान अपनी आत्माका सर्वत्र ध्यान करते थे । इस प्रकार कर्म शत्रुके विघातके लिए परम आनन्दका कारणभूत सर्व प्रकारका अभ्यन्तर तप आत्मध्यानके योगसे और समस्त आस्रवोके निरोधसे उनके सदा होता रहता था ॥४८-५०॥ इस प्रकार वीर भगवान्ने अपने वीर्यको प्रकट करके प्रयत्नपूर्वक बारहो ही उत्तम तपको चिरकाल तप ॥५१॥

उत्तम क्षमागुणके द्वारा वे वीर भगवान् पृथिवीके समान सदा अकम्प रहते थे । और प्रसन्न स्वभावके द्वारा वे सदा स्वच्छ जलके समान निर्मल चित्त रहते थे ॥५२॥ दुष्कर्मरूप वनको जलानेमे वे जलती हुई अग्निके समान थे, कषाय और इन्द्रिय-शत्रुओको घात करनेमे वे दुर्जय शत्रुके तुल्य थे ॥५३॥ वे भगवान् धर्मबुद्धिसे सदा परमधर्मका आचरण करते थे और इस लोक तथा परलोकमे सुखके सागर ऐसे क्षमादि दश लक्षणधर्मको वारण करते थे ॥५४॥ वे अतुल पराक्रमी वीर प्रभु अपनी शक्तिसे क्षुधा तृषादि जनित सर्वघोर परीषहोको तथा वनमे होनेवाले सभी उपद्रवोको सहन करते थे ॥५५॥ वे दक्षप्रभु भावनाओके साथ, अतीचार-रहित पाँचो ही महाव्रतोको परम केवलज्ञानकी प्राप्तिके लिए पालन करते थे ॥५६॥

मातृ प्रवचनस्यैष श्रयेदष्टौ मुदान्वहम् । समित्याद्या हि गुपयन्ता कर्मपाशुविनाशिनी ॥५७॥
 विश्वोत्तरगुणै सार्धं सर्वान्मूलगुणान् सुधी । अतन्द्रितो नयेन्नैव स्वप्नेऽपि मलसनिधिम् ॥५८॥
 इत्यादिपरमाचारगलकृतो विहरन्महीम् । उज्जयिन्या इमशान देवोऽतिमुक्तकाख्यमागमत् ॥५९॥
 तत्र रौद्रे इमशानेऽसौ त्यक्त्वा काय शिवाप्तये । प्रतिमायोगमाधाय वीरोऽस्थादचलोपम ॥६०॥
 परात्मध्यानसलीन मेरुशृङ्गनिभ जिनम् । स्थाणुनामान्तिमो रुद्रोऽधोगामी वीक्ष्य पापधी ॥६१॥
 दौष्ट्यात्तद्वैर्यसामर्थ्यं परीक्षितुमभान्मतिम् । उपसर्गं जिनेन्द्रस्य पापपाकेन तत्क्षणम् ॥६२॥
 विकृत्य स्थूलवेतालरूपाण्येषोऽप्यनेकश । स्वविद्यया जिन ध्यानाच्चालयितु समुद्ययौ ॥६३॥
 तैर्भयानकरूपाद्यैस्तर्जयद्भिर्दुरीक्षणै । अट्टहासै स्फुरद्ध्वानैर्नृत्यद्भिर्विविधैर्लैथै ॥६४॥
 व्यात्ताननैश्च तीक्ष्णास्त्रपलहस्तैर्गुरोर्निशि । ध्यानध्वसकर चक्रे ह्युपसर्गं सुदु करम् ॥६५॥
 तस्मिन्नुपद्रवे वीरो मेरुशृङ्ग इवाभवत् । न मनाक् चलितो ध्यानात्तैरुपद्रवकोटिभि ॥६६॥
 तत पापी स जिज्ञाय ह्यचल श्रीजिनाधिपम् । परै फणीन्द्रसिहेममरुद्वह्यचारिकै शठ ॥६७॥
 स्वकृतैर्वर्धमानस्य व्यधात्कातरभीतिदम् । उपसर्गं महाघोरमन्यैर्वाक्त्र्यैर्भयकरै ॥६८॥
 तदापि न मनाग्देव स्वस्वरूपाच्चाल स । तरा निजात्मनो ध्यानमालम्ब्यास्थानमहीन्द्रवत् ॥६९॥
 ततस्त धीरतापन्न ज्ञात्वा दुष्टो महाधियम् । परीषहाश्चकारास्य पापार्जनैरुपण्डित ॥७०॥
 किरातसैन्यरूपाद्यै शस्त्रहस्तैर्भयानकै । दु संहैर्विधाकारैरन्यै कातरभीतिदै ॥७१॥

वे कर्म-पाशकी विनाशक पाँच समिति और तीन गुप्तिरूप आठो प्रवचन-माताओका सदा ही हर्षसे आश्रय ले रहे थे ॥५७॥ वे महाबुद्धिमान् वीर भगवान् समस्त उत्तर गुणोके साथ सर्व मूलगुणोको अप्रमादी होकर पालन करते थे और स्वप्नमे भी कभी मलो (अतीचारो) को पास नहीं आने देते थे ॥५८॥ इत्यादि परम आचारसे अलकृत वीर जिनेन्द्र पृथ्वीपर विहार करते हुए उज्जयिनीके अतिमुक्तक नामके इमशानमे आये ॥५९॥ उस रौद्र इमशानमे वीर जिनेश शिव प्राप्तिके लिए कायका त्याग कर और प्रतिमायोगको वारण कर पर्वतके समान अचल होकर ध्यानस्थ हो गये ॥६०॥ परम आत्मध्यानमे सलीन, मेरु शिखरके समान स्थिर जिनराजको देखकर अधोगामी और पापबुद्धिवालो—स्थाणु नामक अन्तिम रुद्रने दुष्टताके कारण उनके वैर्यके सामर्थ्यकी परीक्षाके लिए पापके उदयसे उसी क्षण उनके ऊपर उपसर्ग करनेका विचार किया ॥६१-६२॥ तब वह अपनी विद्यासे अनेक प्रकारके विशाल वेताल रूपोको बनाकर जिनदेवको ध्यानसे चलानेके लिए उद्यत हुआ ॥६३॥ उन भयानक रूपादिके द्वारा, तर्जना करनेसे, खोटी दृष्टिसे देखनेसे, अट्टहासोसे, घोर ध्वनि करनेसे, विविध प्रकार से लययुक्त नृत्योसे, फाड़े हुए मुखोसे, तीक्ष्ण शस्त्र और मासको लिये हुए हाथोसे उस रात्रिमे उसने जगद् गुरुके ध्यानको नष्ट करनेवाला अति दुष्कर उपसर्ग किया ॥६४-६५॥ उस उपद्रवके समय वीर जिनेन्द्र मेरु शिखरके समान अचल रहे और उसके उन करोडो उपद्रवोके द्वारा ध्यानसे रचमात्र भी विचलित नहीं हुए ॥६६॥ तब उस पापी शठ रुद्रने श्री जिनराजको अविचल जानकर अपनी विक्रियासे बनाये हुए बड़े-बड़े फणावाले साँपोंसे, सिहोसे, हाथियोसे, प्रचण्ड वायुसे और जलती हुई ज्वालाओसे, इसी प्रकारके अन्य भयकर रूपोसे और दुष्ट वाक्योसे कायरको भयभीत करनेवाला महाघोर उपसर्ग श्री वर्धमान जिनेन्द्रके ऊपर किया ॥६७-६८॥ तो भी वीर जिनदेव अपने ध्यानावस्थित स्वरूपसे रचमात्र भी चल-विचल नहीं हुए । किन्तु निज आत्माके ध्यानका आलम्बन करके सुमेरुके समान अचल बने रहे ॥६९॥ तब पाप-उपार्जन करनेमे अति पण्डित वह दुष्ट रुद्र धीरता युक्त महावीरको जानकर अनेक प्रकारके परीषह और उपसर्गोको करने लगा ॥७०॥ उसने अपनी विक्रियासे भीलोकी विकराल सेना बनायी, जिनके हाथोमे भयानक शस्त्र थे, जो दुःसह और

इत्याद्युपद्रवैर्वैर्वेष्टितोऽप जगत्पति । तथापि न मनाक् क्लेश मनसागान्धगेन्द्रवत् ॥७२॥
 चलत्यचलमालेयमहो दैवात् क्वचिद्भुवि । न जातु योगिना चित्त ध्यानाद् धौरूपद्रवै ॥७३॥
 धन्यास्त एव लोकेऽस्मिन् येषां याति न विक्रियाम् । मनाग्मन स्थित ध्याने ह्युपसर्गशतादिभि ॥७४॥
 ततो ज्ञात्वा महावीरमचलाकृतिमूर्जितम् । लज्जापन्न स एवेत्य तत्स्तुति कर्तुमुद्ययौ ॥७५॥
 देव त्वमेव लोकेऽस्मिन् वीर्यशाली जगद्गुरु । वीराग्रणीर्महावीरो महाध्यानी महातपा ॥७६॥
 महातेजा जगन्नाथो जिताशेषपरीषहा । नि सङ्गो वायुवद्धीरो ह्यचलोऽत्र कुलाद्रिवत् ॥७७॥
 क्षमया भूसमो दक्षो गम्भीर इव सागर । स्वच्छाम्बुवत्प्रसन्नात्मा कर्मरण्येऽनलोपम ॥७८॥
 वर्धमानस्त्वमेवात्र वर्धमानाज्जगत्त्रये । सन्मति साथकस्त्व च परमात्मा महाबल ॥७९॥
 अत्र नाथ नमस्तुभ्यमचलाकृतिधारिणे । नम परात्मने नित्य प्रतिमायोगशालिने ॥८०॥
 इति कृत्वा स्तुतिं तस्य मुहुर्नत्वा पदाम्बुजौ । स महातिमहावीराख्या विधाय ह्यमत्सर ॥८१॥
 उमयाकान्तया सार्धं नत्तित्वानन्दनिर्भर । चारित्रचलितो रुद्रो जगाम निजमाश्रयम् ॥८२॥
 दुर्जना अप्यहो वीक्ष्य साहस महता महत् । तुष्यन्ति योगज नून मूतले का कथा सताम् ॥८३॥
 अथ चेटकराजस्य चन्द्रनाख्या सुता सतीम् । वनक्रीडासमासक्ता कश्चिक्कामातुर खग ॥८४॥
 वीक्ष्योपायेन नीत्वाशु गच्छन् पापपरायण । पश्चाद्गीत्वा स्वभार्याया महादव्या व्यसर्जयत् ॥८५॥

अनेक प्रकारके भयावह आकारोको वारण किये हुए थे, और कायरजनको डरानेवाले थे । उनके द्वारा उस रुद्रने भगवान्के ऊपर घोर उपद्रव कराये । किन्तु उनके द्वारा सर्व ओरसे वेष्टित भी जगत्पति वीरनाथ मनसे जरा भी क्लेशको नहीं प्राप्त हुए किन्तु सुमेरुके समान स्थिर बने रहे ॥७१-७२॥ आचार्य कहते हैं कि अहो, ससारमे दैवयोगसे क्वचित् कदाचित् पर्वतमाला भले ही चलायमान हो जाये, किन्तु योगियोका चित्त घोर उपद्रवोके द्वारा ध्यानसे कभी विचलित नहीं होता है ॥७३॥ इस लोकमे वे पुरुष ही वन्य है, जिनका ध्यानमे स्थित मन सैकड़ो-हजारो उपसर्गोके द्वारा भी रवमात्र विकारको नहीं प्राप्त होता है ॥७४॥ तब वह रुद्र महावीरको अत्यन्त अचलाकार जान करके लज्जाको प्राप्त होता हुआ इस प्रकारसे उनकी स्तुति करनेके लिए उद्यत हुआ ॥७५॥

हे देव, आप ही इस लोकमे परम वीर्यशाली है, जगद्-गुरु है, वीर पुरुषोमे अग्रणी है, महान् वीर है, महाध्यानी है, महान् तपस्वी है, महातेजस्वी है, जगत्के नाथ है, समस्त परीषहोके विजेता है, वायुके समान निःसग है, धीर-वीर है और कुलाचलके समान अचल है ॥७६-७७॥ आप क्षमासे पृथ्वीके समान है, दक्ष है, सागरके समान गम्भीर है, स्वच्छ जलके समान प्रसन्न आत्मा है, और कर्मरूप वनको जलानेके लिए अग्निके समान है ॥७८॥ आप तीनों लोकोमे अपने गुणोसे बढ रहे है, अतः आप ही यथार्थमे वर्धमान है, उत्तम बुद्धिको धारण करते है, अतः आप 'सन्मति' इस सार्थक नामवाले है, आप ही परमात्मा हैं और महाबली है ॥७९॥ हे पूज्य स्वामिन्, अविचल देहके धारण करनेवाले आपके लिए मेरा नमस्कार है, नित्य प्रतिमायोगशाली आप परमात्माके लिए मेरा नमस्कार है ॥८०॥ इस प्रकार वर्धमान जिनकी स्तुति करके और बार-बार उनके चरण-कमलोको नमस्कार करके 'महतिमहावीर' इस नामको रखकर मत्सर रहित होकर अपनी उमा कान्ताके साथ आनन्द-निर्भर हो नृत्य करके चारित्रसे चलायमान हुआ वह रुद्र अपने स्थानको चला गया ॥८१-८२॥ आचार्य कहते हैं कि अहो, दुर्जन पुरुष भी महापुरुषोके योग-जनित महान् साहसको देख करके जब सन्तुष्ट होते है, तब भूतलपर सज्जनोकी तो कथा ही क्या है ? अर्थात् वे तो और भी अधिक सन्तोषको प्राप्त होते है ॥८३॥

अथानन्तर चेटक राजाकी वनक्रीडामे आसक्त, चन्द्रना नामकी सती पुत्रीको देखकर

स्वैन कर्मोदय ज्ञात्वा सा तत्रैव महासती । जपन्ती सन्नमस्कारान् धर्मध्यानपराभवत् ॥८६॥
 वनेचरपति कश्चित्तामालोक्य धनेच्छया । नीत्वा वृषभसेनस्य समर्पयद्विगुणकृपते ॥८७॥
 श्रेष्ठिभार्या सुभद्राख्या दृष्ट्वा तद्रूपसपद् । भविता मे सपत्नीयमिति शङ्का व्यधाद् हृदि ॥८८॥
 ततस्तद्रूपहान्यै सा पुराण कोद्रवोदनम् । आरनालेन सम्मिश्र शरावे निहित सदा ॥८९॥
 ददती चन्दनायाश्च शृङ्खलाबन्धन व्यधात् । तत्रापि सा सती दक्षा नात्यजद्धर्मभावनाम् ॥९०॥
 अन्येद्युर्वत्सदेशेऽत्र तर्कोशाम्बीपुर परम् । कायस्थित्यै महावीर प्राविशद्रागद्वर्ग ॥९१॥
 पात्रोत्तम तमालोक्य विच्छिन्नबन्धनाभवत् । तदानाय तदा प्रत्युद्वजन्ती चन्दना शुभात् ॥९२॥
 ततो नीलामाकेशभारस्त्रभूषणाङ्किता । गत्वा सा विधिना नत्वा प्रतिजग्राह सन्मतिम् ॥९३॥
 शीलमाहात्म्यतस्तस्या अभवत्कोद्रवोदनम् । शाल्यन्न तच्छराव च पृथुकाञ्चनभाजनम् ॥९४॥
 अहो पुण्यविधि पुसा विश्वानघटितानपि । घटयत्येव दूरस्थान् मनोऽभीष्टान् सशय ॥९५॥
 ततोऽस्मै परया भक्त्या तदन्नदानमूर्जितम् । नवप्रकारपुण्याढ्या ददौ सा विधिना मुदा ॥९६॥
 तत्क्षणाजितपुण्येन सा चापाश्रयपञ्चकम् । सयोग बन्धुभि सार्धं दानात्कि नाप्यतेऽत्र भो ॥९७॥
 जगद्व्यापि यशस्तस्या अभवच्छशिनिमलम् । इष्टबन्ध्वादिवस्तुना सङ्गमोऽभूत्सुदानत ॥९८॥
 अथासौ भगवान् वर्धमानोऽपि विहरन्महीम् । छद्मस्थेन क्रमान्मौनी नीत्वा द्वादशवत्सरान् ॥९९॥

कोई कामातुर और पाप परायण विद्याधर किसी उपायसे उसे शीघ्र ले उड़ा और आकाश मार्गसे जाते हुए उसने अपनी भार्याके भयसे पीछे किसी महाअटवीमे उसे छोड़ दिया ॥८४-८५॥ तब वह महासती अपने पापकर्मोदयको जानकर पचनमस्कार मन्त्रको जपती हुई उसी अटवीमे धर्मध्यानमे तत्पर होकर रहने लगी ॥८६॥ वहाँपर किसी भीलोके राजाने उसे देखकर धन-प्राप्तिकी इच्छासे ले जाकर वृषभसेन नामके वैश्यपतिको सौप दी ॥८७॥ सुभद्रा नामकी उस सेठकी स्त्री ने उसकी रूप-सम्पदाको देखकर 'यह मेरी सौत बनेगी' ऐसी शकाको मनमे धारण किया ॥८८॥ तब उसने उसके रूपसौन्दर्यकी हानिके लिए (उसके केश मुँडा दिये और) साँकलसे बाँधकर (उसे एक कालकोठरीमे बन्द कर दिया ।) तथा आरनाल (काजी) से मिश्रित कोदोका भात मिट्टीके सिकोरेमे रखकर उसे नित्य खानेको देने लगी । ऐसी अवस्थामे भी उस सतीने अपनी धर्मभावनाको नहीं छोड़ा ॥८९-९०॥

किसी एक दिन उन महावीर प्रभुने रागसे रहित होकर शरीर-स्थितिके लिए वत्स-देशकी इस कौशाम्बीपुरीमे प्रवेश किया ॥९१॥ उन उत्तमपात्र महावीर प्रभुको देखकर चन्दनाके भाव दान देनेके हुए । पुण्योदयसे उसके बन्धन तत्काल टूट गये । सिर काले भौरो-के समान केशभारसे, और शरीर माला-आभूषणसे युक्त हो गया । तब उसने सामने जाकर और उन्हे नमस्कार कर सन्मति प्रभुको पङ्गिगाह लिया ॥९२-९३॥ उसके शीलके माहात्म्यसे कोदोका भात शालि चावलोका हो गया और वह मिट्टीका सिकोरा विशाल सुवर्णपात्र बन गया ॥९४॥ आचार्य कहते हैं कि अहो, यह पुण्य कर्म पुरुषोको समस्त अघटित और दूरवर्ती भी अभीष्ट मनोरथोको स्वयमेव घटित कर देता है, इसमे कोई सशय नहीं है ॥९५॥ तब उस चन्दना सतीने परम भक्तिके साथ नव प्रकारके पुण्योसे युक्त होकर अर्थात् नवधा भक्तिपूर्वक विधिसे हर्षित होते हुए श्री महावीर प्रभुको वह उत्तम अन्नदान दिया ॥९६॥ इस महान् दानके प्रभावसे उसी समय उपाजित पुण्यके द्वारा वह पचाश्रयोंको प्राप्त हुई और तभी बन्धुओके साथ उसका सयोग भी हो गया । अहो, पुण्यसे क्या नहीं प्राप्त होता है ॥९७॥ उस चन्दनाका सुदानके प्रभावसे चन्द्रमाके समान निर्मल यश जगत्से व्याप्त हो गया और इष्ट बन्धुजनों और इष्ट वस्तुओका भी सगम हो गया ॥९८॥

अथानन्तर वर्धमान भगवान् भी महीतलपर विहार करते हुए मौन धारण कर

जृम्भिकाग्रामशाह्यस्थे मनोहरवनान्तरे । ऋजुकूलानदीतीरे महारत्नशिलातले ॥१००॥
 प्रतिमायोगमाध्याधोभागे शालभूरुह । व्यधाद् ध्यान हृदा षष्ठोपवासी ज्ञानसिद्धये ॥१०१॥
 अष्टादशसहस्रौघशोलसन्नाहवर्मित । भूषितो द्विद्विचत्वारिशल्लक्षगुणभूषणै ॥१०२॥
 महाव्रताद्यनुप्रेक्षाभावनाशुक्रमण्डित । सवेगेऽनेन्द्रमारुदश्चारित्ररणमूस्थित ॥१०३॥
 रत्नत्रयमहाबाणतपश्चापकराङ्कित । ज्ञानदृक्कृतसधानो गुण्यादिसैन्यवेष्टित ॥१०४॥
 इत्याद्यपरसामग्र्यालङ्कृतोऽय महाभट । कर्मरार्तान् बहून् रौद्रानुद्ययौ हन्तुमञ्जसा ॥१०५॥
 तत्रादौ कर्महन्तृणा सिद्धाना निष्कलात्मनाम् । इत्यष्टौ तद्गुणान् ध्यायेत्तद्गुणार्थी शिवासये ॥१०६॥
 सम्यक्त्व क्षायिक ज्ञान दर्शन केवल परम् । अनन्त च महद्वीर्यं सूक्ष्मत्व ह्यवगाहनम् ॥१०७॥
 ततोऽगुरुलघुत्व तथान्याबाधगुणोत्तमम् । इत्यत्राष्टौ गुणा ध्येया नित्य सिद्धगुणार्थिभि ॥१०८॥
 पुनर्निर्मलचित्तेन सदाज्ञाविचयादिकान् । धर्मध्यानान्महोऽकृष्टान् ध्यातुमारुधवान् सुधी ॥१०९॥
 आद्या कषायचत्वारो मिथ्यात्वप्रकृतित्रयम् । तिर्यगायुश्च देवायुर्नरकायुर्मो दश ॥११०॥
 कर्मरारथोऽस्य भीत्याश्रयत्नाज्ञाशमगु स्वयम् । तिष्ठतो हि चतुर्थाद्यप्रमत्तान्तगुणे क्वचित् ॥१११॥
 तस्माल्लब्धजयो देवो बृहत्कर्मारिघातनात् । भटोत्तम इवात्यन्त शुक्लध्यानमहायुध ॥११२॥
 द्रुत सक्षपकश्रेणी नि श्रेणी मुक्तिधामनि । आरुरोह महावीर कर्मारिहननोद्यत ॥११३॥
 स्त्यानगृद्ध्याल्यदुष्कर्मनिद्रानिद्राविधिस्तत । प्रचलाप्रचला इवभ्रगतिस्तिर्यङ्गतिस्तथा ॥११४॥
 एकाक्षद्वित्रितुर्येन्द्रियचतुर्जातयोऽशुभा । इवभ्रतिर्यङ्गतिप्रायोग्यानुपूर्व्ये तथातप ॥११५॥

छद्मस्थभावके साथ क्रमसे बारह वर्ष विताकर जृम्भिका ग्रामके बाहर स्थित मनोहर वनके मध्यमे ऋजुकूलानदीके किनारे महारत्नशिलातलपर शालवृक्षके नीचे प्रतिमायोगको धारण कर, बेलाका नियम लेकर ज्ञानकी सिद्धिके लिए ध्यानावस्थित हुए ॥१९९-१०१॥ उस समय अठारह हजार शीलोके समूहरूप कवचको धारण कर, चौरासी लाख उत्तम सद्-गुणरूप भूषणोसे भूषित होकर, महाव्रतादि अनुप्रेक्षाभावनारूप वस्त्रसे मण्डित होकर, सवेगरूपी गजेन्द्रपर आरूढ होकर, चारित्ररूपी रणभूमिसे अवस्थित होकर, रत्नत्रयरूप महाबाणोको और तपरूप धनुषको हाथमे लेकर, ज्ञान-दर्शनके द्वारा सन्धानको साधकर, गुप्ति आदि सेनासे वेष्टित होकर, इसी प्रकारकी अन्य सर्व सामग्रीसे अलंकृत हो वे महासुभट महावीर प्रभु अति रौद्र कर्म-शत्रुओको शीघ्र विनाश करनेके लिए उद्यत हुए ॥१०२-१०५॥ उस समय उन्होंने सर्वप्रथम मोक्षप्राप्तिके लिए सिद्धोके गुणोके इच्छुक होकर कर्म-शत्रुओके हनन करनेवाले निष्कल परमात्मा सिद्धोके क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्त महावीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व और अन्याबाध इन आठ उत्तम महागुणोका ध्यान करना प्रारम्भ किया । जो जीव सिद्धोके उक्त गुणोको प्राप्त करनेके इच्छुक हैं, उन्हें नित्य ही उक्त गुणोका ध्यान करना चाहिए ॥१०६-१०८॥ पुन महाबुद्धिशाली महावीरने निर्मल चित्तसे आज्ञाविचय आदि परम उत्कृष्ट धर्मध्यानके भेदोका चिन्तन करना प्रारम्भ किया ॥१०९॥ उस समय उनके आद्य अनन्तानुबन्धी चार कषाय, दर्शन मोहनीयकी मिथ्यात्व आदि तीन प्रकृतियाँ, तिर्यगायु, देवायु और नरकायु ये दश प्रकृतिरूप कर्मशत्रु डर करके ही मानो बिना प्रयत्नके स्वय ही शीघ्र विनाशको प्राप्त हो गये । जब कि वीरजिन चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर सातवे गुणस्थान तक किसी एक गुणस्थानमे विराजमान थे ॥११०-१११॥ उक्त दश कर्मप्रकृतियोंके जीतनेसे विजयको प्राप्त वे महावीर भगवान् उत्तम सुभटके समान अत्यन्त पवित्र शुक्लध्यानरूप महान् आयुधको धारण कर शेष कर्मशत्रुओको हनन करनेके लिए उद्यत होते हुए मोक्ष-महलमे पहुँचनेके लिए नसैनी स्वरूप क्षपकश्रेणीपर शीघ्र चढे ॥११२-११३॥ क्षपकश्रेणीपर चढते ही वीरजिनने स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचला-

उद्योत स्थावर सूक्ष्म साधारण इमा खला । षोडशप्रकृतीर्वीरो जघानेवारिसचयान् ॥११६॥
 सुभटोत्तमवच्चाद्यशुक्लध्यानासिना स्वयम् । अनिवृत्तिकरणस्थानस्याद्ये भागे स्थितो महान् ॥११७॥
 भागेऽस्यैव द्वितीयेऽष्टौ कषायान् वृत्तवातिन । तृतीये स्त्रीवेदमात्मवान् ॥११८॥
 पञ्चमे किल हास्यादिषट्क भागे च द्वित्रिके । पुवेद सप्तमे सञ्चलनक्रोधमथाष्टमे ॥११९॥
 मान सञ्चलन वै नवमे माया तथान्तिमाम् । शुक्लायुधेन तेनैवाह्वारातीनिवोजित ॥१२०॥
 ततो निहतकर्मारिसतानो बलवान् जिन । जयभूमि पग चाप्य गुणस्थान द्विपञ्चमम् ॥१२१॥
 निहत्य सूक्ष्मलोभ सूक्ष्मसाम्परायसयमी । तुर्यवृत्तेन सोऽभूःक्षीणकषायी तदाहुत ॥१२२॥
 इति मोहमहाराति कर्मणा पतिमूर्जितम् । हत्वा तत्सेनया सार्धं सोऽभाच्छूराग्रणारिव ॥१२३॥
 अथोत्पत्य गुणस्थान प्राप्य द्वादशम जिनेद् । केवलज्ञानसाम्राज्य स्वीकर्तुमुद्ययौ तराम् ॥१२४॥
 निद्रा च प्रचला सोऽक्षयपद्द्विसमयेऽन्तिमे । गुणस्थानस्य तस्यैव द्वितीयशुक्लयोगत ॥१२५॥
 ज्ञानावरणकर्माणि पटतुल्यानि पञ्चरा । दर्शनावरणान्येव शेषचत्वारि पञ्चधा ॥१२६॥
 अन्तराया इमा घातिप्रकृतीश्च चतुर्दश । द्वितीयशुक्लबाणेन जघान त्रिजगद्गुरु ॥१२७॥
 द्विषट्गुण धानस्थान्तिमे समये जिन । इति त्रिषष्टिकर्मप्रकृतीर्हत्वाप केवलम् ॥१२८॥
 ज्ञानमन्वातिग लोकालोकतत्त्वप्रकाशकम् । अनन्तमहिमोपेत मुक्तिसाम्राज्यकारणम् ॥१२९॥
 वैशाखशुक्लपक्षस्य दशम्यामपराह्णके । हस्तोत्तरान्तर याते चन्द्रे योगादिके शुभे ॥१३०॥

प्रचला, नरकगति, तिर्यग्गति, एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रिय-
 जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण
 इन अरिसचयस्वरूप सोलह अशुभ दुष्ट प्रकृतियोंको अनिवृत्तिकरण नामक नवम गुणस्थानके
 प्रथम भागमें स्थित रहते हुए उत्तम सुभटके समान प्रथम शुक्लध्यानरूपी खड्गके द्वारा
 एक साथ ही स्वयं नाश कर दिया ॥११४-११७॥ पुनः उन्होंने इसी नवम गुणस्थानके द्वितीय
 भागमें चारित्रिकी घात करनेवाली दूसरी अपत्याख्यानावरण चतुष्क और तीसरी प्रत्याख्या-
 नावरण चतुष्क इन आठ कषायोंको विनष्ट किया । पुनः तीसरे भागमें नपुसकवेदको, चौथे
 भागमें स्त्रीवेदको, पाँचवें भागमें हास्यादि छह नोकषायोंको, छठे भागमें पुरुषवेदको,
 सातवें भागमें सञ्चलन क्रोधको, आठवें भागमें सञ्चलन मानको और नवें भागमें सञ्चलन
 मायाको उन समर्थ आत्मस्वरूपके धारक वीर प्रभुने उसी प्रथम शुक्लध्यानरूप आयुधके
 द्वारा विनष्ट किया ॥११८-१२०॥ तत्पश्चात् कर्म शत्रुओंकी उक्त सन्तानके विनाश करनेसे
 बलवान् वीरजिनने परम विजयभूमिके समान दशम गुणस्थानको प्राप्त होकर सूक्ष्म
 साम्पराय सयमी होते हुए सञ्चलन सूक्ष्म लोभका भी विनाश कर चौथे सयमके द्वारा वे
 क्षीणकषायी हो गये ॥१२१-१२२॥ इस प्रकार अद्भुत पराक्रमशाली वीरजिन कर्मोंके स्वामी
 प्रबल मोह महाशत्रुका उसकी सेनाके साथ विनाश कर शूराग्रणीके समान शोभाको प्राप्त हुए
 ॥१२३॥ इसके पश्चात् वे जिनराज क्षीणकषाय नामके बारहवें गुणस्थानमें चढकर केवलज्ञान-
 रूपी साम्राज्यको प्राप्त करनेके लिए उद्यत हुए ॥१२४॥ तब उन्होंने इस बारहवें गुणस्थानके
 चरम समयमें निद्रा और प्रचला इन दो कर्मप्रकृतियोंका द्वितीय शुक्लध्यानसे क्षय किया
 ॥१२५॥ पुनः ज्ञानके ऊपर वल्लके समान आवरण डालनेवाली पाँचो ज्ञानावरण प्रकृतियोंको,
 चक्षुदर्शनावरणादि शेष चार दर्शनावरण प्रकृतियोंको और पाँचो अन्तरायोंको इन चौदह
 कर्मप्रकृतियोंको बारहवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें द्वितीय शुक्लध्यानके द्वारा तीन
 जगत्के गुरु महावीर प्रभुने एक साथ विनष्ट किया और इस प्रकार तिरसठ कर्मप्रकृतियों-
 का विनाश करके लोकालोकके तत्त्वोंका प्रकाशक, अनन्त महिमासे युक्त, और मुक्तिरूप
 साम्राज्यकी प्राप्ति का कारण अनन्त केवलज्ञान वैशाख मासकी शुक्लपक्षकी दशमीके अपराह्ण

सम्यक्त्व क्षायिक मोक्षद यथाख्यातस्यमम् । अनन्त केवलज्ञान दर्शन दानमुत्तमम् ॥१३१॥
 लाभभोगोपभोगा वीर्यं चेमा हि च्युतोपमा । नवकेवललब्धी स स्वीचकार जिनाग्रणी ॥१३२॥
 इति भगवति वृत्तान्निजितारौ तदैव नभसि जयनिनादो देवसवैर्जृम्भे ।
 सुरपटहरवौवैरुद्धमासीत्खलोरु भुवनपतिविमानैश्छादित यात्रयास्य ॥१३३॥
 घनकुसुमवृष्टिश्चापतत्खात्सुरेन्द्रा असमपरमभक्त्या श्रीपति प्राणमस्तम् ।
 विगतमलविकारा सबभूतुर्दिशोऽष्टौ गगनममलमासीत् केवलश्रीप्रभावात् ॥१३४॥
 मृदुशिशिरतरोऽस्मान्मातरिश्वा ववौ च सकलसुरपतीना कम्पिरे विष्टराणि ।
 समवसरणमूति यक्षराडाशु चक्रे ह्यसमगुणनिधे श्रीवर्धमानस्य भक्त्या ॥१३५॥
 इत्थ योऽत्र निहत्य घातिकुरिपून् कैवल्यराज्यश्रिय
 स्वीचक्रेऽनुपमै परैर्गुणगणै अन्तातिगै क्षायिकै ।
 तन्पन् विश्रसता प्रमोदमतुल भव्यैकचूडामणि
 त लोकरत्रयतारणैकचतुर तद्भूतये सस्तुवे ॥१३६॥

इति श्रीभट्टारकसकलकीर्तिविरचिते श्रीवीरवर्धमानचरिते केवलज्ञानोत्पत्ति-
 वर्णन नाम त्रयोदशोऽधिकार ॥१३॥

कालमे हस्त और उत्तरा नक्षत्रके मध्यमे शुभचन्द्रयोगके समय शुभलग्न योगादिके होनेपर उन्होंने प्राप्त किया ॥१२६-१३०॥ उसी समय मोक्षको देनेवाला क्षायिक सम्यक्त्व, यथाख्यात सयम, अनन्त केवलज्ञान, अनन्त केवलदर्शन, उत्तम अनन्त दान लाभ भोग उपभोग और अनन्तवीर्य इन उपमारहित नव केवललब्धियोंको जिनोमे अग्रणी वीरप्रभुने स्वीकार किया ॥१३१-१३२॥

इस प्रकार चारित्रिके प्रभावसे भगवान्के कर्मशत्रुओके जीत लेनेपर आकाशमे उसी समय देवसमूहके द्वारा जय जयकार शब्द व्याप्त हो गया । तथा देवदुन्दुभियोंके शब्दोंसे आकाश व्याप्त हो गया । भगवान्की दर्शन-यात्रार्थ आनेवाले भुवनपति-देवोंके विमानोंसे आकाश आच्छादित हो गया ॥१३३॥ केवललक्ष्मीके प्रभावसे आकाशसे सघन पुष्पवृष्टि होने लगी और देवेन्द्रोंने आकर उन श्रीपति महावीर जिनेन्द्रको अनुपम परम भक्तिसे नमस्कार किया । उस समय आठो ही दिशाएँ मल-विकारसे रहित (निर्मल) हो गयी और आकाश भी निर्मल हो गया ॥१३४॥ उस समय मृदु शीतल समीर मन्द-मन्द बहने लगी और सभी देवेन्द्रोंके आसन कम्पायमान हुए । तभी यक्षराजने आकर अनन्त गुणोंके निधान श्रीवर्धमान जिनेन्द्रकी भक्तिसे शीघ्र समवसरण विभूतिकी रचना की ॥१३५॥

इस प्रकार यहाँ पर जिन्होंने खोटे घातिया कर्मशत्रुओको मार करके अनुपम, अनन्त क्षायिक गुण-समूहके साथ कैवल्यराज्य-लक्ष्मीको प्राप्त किया, जो ससारके समस्त सज्जनोंको अतुल आनन्दके विस्तारनेवाले हैं, भव्य जनोमे अद्वितीय चूडामणिरत्नके समान हैं, तीनों लोकोंके तारनेमे एक मात्र कुशल हैं, ऐसे श्रीवीरजिनेन्द्रकी मैं उनकी विभूति पानेके लिए स्तुति करता हूँ ॥१३६॥

इति श्रीभट्टारक सकलकीर्तिविरचित श्रीवीरवर्धमानचरितमे केवलज्ञानकी उत्पत्तिका
 वर्णन करनेवाला तेरहवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥१३॥

चतुर्दशोऽधिकारः

श्रीवीर त्रिजगन्नाथ केवलज्ञानभास्करम् । अज्ञानध्वान्तहन्तार वन्दे विश्वार्थदर्शिनम् ॥१॥
 अथ तत्केवलोत्पत्तिप्रभावादभवत्स्वयम् । नादो जिताब्धिनिर्घोषो घण्टोत्थो मधुरोऽद्भुत ॥२॥
 पुष्करै स्वैस्तथोत्क्षिप्तपुष्करार्धा सुरद्विपा । सानन्दा ननुतु स्वर्गे चलन्त पर्वता इव ॥३॥
 पुष्पाञ्जलीनिवातेन पुष्पवृष्टी सुराङ्घ्रिपा । रजस्त्यक्ता दिशोऽभूवन्नम्बर निर्मल ह्यभूत् ॥४॥
 विष्टराणि सुरेशाना सहसा प्रचकम्पिरे । अक्षमाणीव तद्गर्वं सोढुं श्रीकेवलोल्लसवे ॥५॥
 मौलयो नाकिनाथाना नम्रीभावमगुस्तराम् । इत्यासन् स्वयमाश्चर्या नाके तःसूचका इव ॥६॥
 विज्ञायैतै परैश्चिह्नैरिन्द्रास्तकेवलोदयम् । मुदोऽथायासनान्नप्रास्तद्भवत्यासन् वृषोऽसुका ॥७॥
 ज्योतिर्लोकै तदैवासीन्महान् सिंहस्वरोऽद्भुत । बभूवु स्वर्गवत्सिंहासनकम्पादथोऽखिला ॥८॥
 शङ्खध्वनिरभूद्दीर्घा भावनाधिपधामसु । अभूवन् सकञ्चाश्चर्या मौल्यासनचलादय ॥९॥
 भेरीरव परो जात स्वय व्यन्तरवेश्मसु । आश्चर्यमभवत्सर्वं तद्वत्तज्ज्ञानसूचकम् ॥१०॥
 इत्याश्चर्यैर्विबुध्यै न प्राप्तकेवलोल्लवनम् । नत्वा मूर्ध्नाखिला शक्रास्तत्कल्याणे मति व्यधु ॥११॥
 अथ तज्ज्ञानपूजायै निश्चक्रामामरैर्वृत । प्रयाणपटहेषूच्चै प्रध्वनत्स्वादिकल्पराट् ॥१२॥
 तदा बलाहकाकार विमान कामकाभिधम् । जम्बूद्वीपप्रम रम्य मुक्तालम्बनशोभितम् ॥१३॥
 नानारत्नमय दिव्य तेजसा व्याप्तदिग्मुखम् । किङ्किणीस्वनवाचाल चक्रे देवो बलाहक ॥१४॥

तीन जगत्के नाथ, अज्ञानरूप अन्धकारके नाशक, केवलज्ञानरूप सूर्यसे समस्त पदार्थों-
 के दर्शक श्रीवीर भगवान् की मैं वन्दना करता हूँ ॥१॥

अथानन्तर वीरप्रभुके केवलज्ञानकी उत्पत्तिके प्रभावसे देवलोकमे समुद्रकी गर्जनाको
 भी जीतनेवाला, घण्टाओसे स्वय उत्पन्न हुआ अद्भुत मधुर नाद हुआ ॥२॥ देवगज अपनी
 सूडोमे कमलोको लेकर और उन्हे आधी उपर उठाकर चलते हुए पर्वतके समान स्वर्गमे
 सानन्द नाचने लगे ॥३॥ देवलोकके कल्पवृक्षोने पुष्पाजलिके समान पुष्पवृष्टि की । सर्व
 दिशाएँ रज-रहित हो गयी और आकाश निर्मल हो गया ॥४॥ भगवान्की केवलोत्पत्तिके
 उत्सवमे इन्द्रोके गर्वको सहनेमे असमर्थ होकर मानो देवेन्द्रोके सिंहासन सहसा काँपने
 लगे ॥५॥ सुरेन्द्रोके मुकुट स्वय ही नम्रीभूत हो गये । इस प्रकार स्वर्गमे भगवान्के केवलो-
 त्पत्तिके सूचक आश्चर्य हुए ॥६॥ इन तथा इसी प्रकारके अन्य चिह्नोसे भगवान्के केवलज्ञान-
 के उदयको जानकर इन्द्रगण अपने-अपने आसनोसे उठकर हर्षित होते हुए धर्मोत्सुक
 हो भगवद्-भक्तिसे नम्रीभूत हो गये ॥७॥ उस समय ज्योतिष्क लोकमे महान् अद्भुत
 सिंहानाद हुआ । तथा स्वर्गके समान सिंहासनोका कम्पन आदि सर्व आश्चर्य हुए ॥८॥
 भवनवासी देवोके भवनोमे शखोकी महाध्वनि हुई और मुकुट नम्रीभूत होना तथा आसनोका
 काँपना आदि शेष समस्त आश्चर्य हुए ॥९॥ व्यन्तरोके निलयोमे भेरियोका भारी शब्द स्वय
 होने लगा और भगवान्के केवलज्ञानकी प्राप्तिके सूचक शेष सर्व आश्चर्य हुए ॥१०॥ इन सब
 आश्चर्योसे सर्व देव और इन्द्रगणोने वीरप्रभुके केवलज्ञानरूप नेत्रको प्राप्त हुआ जानकर
 ज्ञानकल्याणक मनानेका विचार किया ॥११॥ तब आदि सौवर्मकल्पका स्वामी शक्रेन्द्र
 प्रस्थान-भेरियोको उच्च स्वरसे बजवाकर सर्व देवोसे आवृत हो भगवान्के केवलज्ञानकी
 पूजाके लिए निकला ॥१२॥ तब बलाहक नामक आभियोग्य जातिके देवने जम्बूद्वीपप्रमाण
 एक लाख योजन विस्तृत, रमणीक, मुक्तामालाओसे शोभित, किङ्किणी (छोटी घण्टियो) के

उद्भवश महाकाय सुवृत्तोन्नतमस्तकम् । सात्त्विक बलिन युक्त दिव्यैर्व्यञ्जनलक्षणै ॥१५॥
 तिर्यग्लोकौघयितस्थूलदीर्घानेकमहाकरम् । वृत्तगात्र महोत्तुङ्ग कामग कामरूपिणम् ॥१६॥
 सुगन्धिदीर्घनि श्वास दीर्घोष्ठ दुन्दुमिस्वनम् । कल्याणप्रकृति रम्य कर्णचामरशोभितम् ॥१७॥
 महाघण्टाद्वयोपेत ग्रैवेयमालयाङ्कितम् । नक्षत्रदामशोभाढ्य हेमकक्ष वरासनम् ॥१८॥
 जम्बूद्वीपप्रभ दीप्र श्वेतितारखिलदिग्मुखम् । मदनिस्रंरलिसाङ्ग चलन्तमिव पर्वतम् ॥१९॥
 विक्रियाद्विमय विक्रियद्वर्चा चैरावताह्वयम् । नागदत्ताभियोग्येशो व्यधानागेन्द्रमूर्जितम् ॥२०॥
 द्वात्रिंशत्सन्मुखान्यस्य मुख प्रति रदाष्टकम् । दन्त प्रतिसरो रम्यमेक पूर्ण जलै पृथक् ॥२१॥
 सर प्रत्यब्जिनी चैका ह्यब्जिनीमब्जिनी प्रति । द्वात्रिंशत्कमलान्येव प्रत्येक कमल प्रति ॥२२॥
 द्वात्रिंशद्रम्यपत्राणि पृथक् तेष्वायतेषु वै । द्वात्रिंशद्देवनर्तकयो दिव्यरूपा मनोहरा ॥२३॥
 नृत्यन्ति सलयस्मेरमुखान्ना ललितभ्रुव । मृदङ्गगीततालाद्यैविक्रियाङ्गै रसोत्कटा ॥२४॥
 इत्यादिवर्णनोपेत त गजेन्द्रमधिष्ठित । शच्या सहातिपुण्यात्मा सौधर्मेन्द्रो व्यभातराम् ॥२५॥
 निधिवत्तेजसा भूत्या स्वाङ्गभूषणरश्मिभि । गच्छन् श्रीवर्धमानस्य कैवल्यार्चादिहेतवे ॥२६॥
 प्रतीन्द्रोऽपि महाभूत्या ह्यारूढ निजवाहनम् । भक्त्या स्वपरिवारेण शक्रेण सह निर्ययौ ॥२७॥
 आजैश्वर्यादते शक्रसमा सामान्यका गुणै । निर्ययुद्विद्विचत्वारिंशत्सहस्रप्रमा (८४०००) मुदा ॥२८॥

शब्दोसे मुखरित, तेजसे सर्व दिशाओके मुखोको व्याप्त करनेवाला, सर्वमनोरथोका पूरक
 ऐसा नानारत्नमयी बलाहकाकार दिव्य विमान बनाया ॥१३-१४॥ उसी समय नागदत्त नाम-
 के आभियोग्य देवोके स्वामीने एक विशाल ऐरावत हाथीको बनाया, जो उन्नतवशका था,
 विशाल कायवाला था, जिसका मस्तक गोलाकार और उन्नत था, जो सात्त्विक प्रकृतिका था,
 बलशाली था, दिव्य व्यजन और लक्षणो से युक्त था, तिर्यग्लोक जैसे लम्बे, मोटे, विशाल
 अनेक करो (शुण्डादण्डो) को धारण करनेवाला था, गोल शरीरवाला, महाउत्तुंग, इच्छा-
 नुसार गमन करनेवाला, इच्छानुसार अनेक रूप बनानेवाला था । जिसका सुगन्धित दीर्घ
 श्वासोच्छ्वास था, दीर्घ ओठ थे, दुन्दुभिके समान शब्द करनेवाला था, रमणीक था, जिसके
 दोनो कानोपर चामर शोभित हो रहे थे, जिसके दोनो ओर महाघण्टा लटक रहे थे, जिसके
 गलेमे सुन्दर माला अंकित थी, नक्षत्रमालाकी शोभासे युक्त था, सुवर्णमयी सिंहासनसे
 शोभित था, जम्बूद्वीप प्रमाण विस्तृत था, देदीप्यमान था, अपने श्वेत वर्णसे समस्त दिशाओं-
 के मुखोको श्वेत कर रहा था, मदन झरनेसे जिसका सर्व अंग लिप्त था, जो चलते हुए पर्वतके
 समान ज्ञात होता था, ऐसा विक्रियाद्विमय ऐरावत नामक ओजस्वी नागेन्द्रको उसने
 अपनी विक्रिया ऋद्धिसे बनाया ॥१५-२०॥

उस ऐरावत गजके बत्तीस मुख थे, एक-एक मुखमे आठ-आठ दन्त थे, एक-एक
 दन्तके प्रति जलसे पूर्ण एक-एक सरोवर था, एक-एक सरोवरमे एक-एक कमलिनी थी,
 एक-एक कमलिनीमे बत्तीस-बत्तीस कमल खिल रहे थे, प्रत्येक कमलमे बत्तीस रमणीक
 पत्र थे, उन विस्तृत पत्रोपर दिव्यरूप वारिणी मनोहर, लयके साथ स्मितमुख और
 ललित भ्रुकुटिवाली, मृदङ्ग, गीत, ताल आदिके साथ, विक्रियामय अगोसे रस-पूरित
 बत्तीस-बत्तीस देव-नर्तकियाँ नृत्य कर रही थी ॥२१-२४॥ इत्यादि वर्णनसे युक्त उस
 गजराजपर इन्द्राणीके साथ बैठा अपने शरीरके भूषणोकी किरणोसे और विभूतिसे तेजोके
 निधानके समान श्रीवर्धमानस्वामीके कैवल्यज्ञानकी पूजाके हेतु जाता हुआ वह अतिपुण्यात्मा
 सौधर्मेन्द्र अत्यन्त शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥२५-२६॥ प्रतीन्द्र भी अपने वाहनपर आरूढ
 होकर अपने परिवारसे सयुक्त हो महाविभूति और महाभक्तिसे सौधर्मेन्द्रके साथ निकला
 ॥२७॥ जो आज्ञा और ऐश्वर्यके सिवाय शेष सब गुणोमे इन्द्रके समान है, ऐसे चौरासी हजार

त्रयस्त्रिंशत्समास्त्रायस्त्रिंशद्देवा शुभासये । पुरोधोमन्त्र्यमात्याना समा इन्द्रात्तमाययु ॥२९॥
द्विषट्सहस्र (१२०००) देवाद्याभ्यन्तरा परिषत्परा । चतुर्दशसहस्रामरै सयुक्ता च मध्यमा ॥३०॥
निर्जरैरन्विता बाह्या सहस्रषोडशप्रमै । इति त्रिपरिषद्देवा वत्रिरे त सुरेशिनम् ॥३१॥
शिरोरक्षसासमा आत्मरक्षास्तत्सन्निधिं ययु । त्रिरक्षाधिकषट्त्रिंशत्सहस्रसख्यकास्तदा ॥३२॥
दुर्गपालनिभा लोकपाला लोकान्तपालका । वत्रिरे त च सर्वांश स्वपरीवारमण्डिता ॥३३॥
चतुष्टयाधिकाशीतिलक्षसख्या वृषोत्तमा । दिव्यरूपा पुर शक्रस्याद्येऽनीके च निर्ययौ ॥३४॥
आद्याद् द्विगुणसख्याना द्वितीये वृषभा परा । तेभ्यो द्विगुणसख्यातास्तृतीये सासना वृषा ॥३५॥
एव सप्तवृषानीका द्विगुणद्विगुणप्रमा । नानावर्णा सुरैर्युक्ता पुरो जग्मु सुरेशिन ॥३६॥
तत्प्रमास्तुरगास्तुङ्गा सप्तानीकान्विता पृथक् । रथा मणिमया दीप्रा अद्रचाभा दन्तिन परा ॥३७॥
उद्यमेन प्रगच्छन्त शीघ्रगाभिपदातय । दिव्यकण्ठाश्च गन्धर्वा गायन्त श्रीजिनोत्सवम् ॥३८॥
नृत्यन्त्य सुरनर्तक्यो गीतैर्वाद्यैर्जिनोद्भवै । प्रत्येक सप्तकक्षाद्या क्रमादस्याग्रतो ययु ॥३९॥
पौरैश्च सनिभा देवा गतसख्या प्रकीर्णका । आभियोग्याभिधास्तद्दासकर्मकरोपमा ॥४०॥
प्रजाबाह्यसमाना बहव किल्बिषिकामरा । सौधर्मेन्द्रेण भक्त्यामा निर्गतस्तन्महोत्सवे ॥४१॥
अश्ववाहनमारूढ ऐशानेन्द्रोऽपि धर्मधी । तत्सम निर्ययौ भक्त्या स्वत्रिभूतिविराजित ॥४२॥
मृगेन्द्रवाहनारूढ सनत्कुमारनाथक । माहेन्द्र सर्वसामग्र्या दिव्यवृषभमाश्रित ॥४३॥
दीप्तसारसमारूढो ब्रह्मेन्द्रश्चामरैर्वृत । हसवाहनमारूढो लान्तवेन्द्रो महर्दिक ॥४४॥

सामानिक देव भी हर्षसे निकले ॥२८॥ पुरोहित, मन्त्री और अमात्योके समान तैतीस त्रायस्त्रिंश देव भी पुण्य-प्राप्तिके लिए इन्द्रके समीप आये ॥२९॥ बारह हजार देवोसे युक्त आभ्यन्तर परिषद्, चौदह हजार देवोसे सयुक्त मध्यम परिषद् और सोलह हजार देवा सहित बाह्य परिषद्ने आकर उस सुरेन्द्र सौधर्मेन्द्रको घेर लिया। अर्थात् तीनो सभाओके उक्त सख्यावाले सभी देव ज्ञानकल्याणककी पूजा करनेके लिए सौधर्मेन्द्रके समीप आये ॥३०-३१॥ शिरोरक्षकके समान तीन लाख छत्तीस हजार आत्मरक्षक देव उसी समय सौधर्मेन्द्रके समीप आये ॥३२॥ दुर्गपालके समान लोकान्त तक स्वर्गकी पालना करनेवाले लोकपाल देव भी अपने परिवारके साथ सर्व दिशाओको मण्डित करते हुए उसको चारो ओरसे घेरकर आ खड़े हुए ॥३३॥ इन्द्रकी प्रथम वृषभसेनाके चौरासी लाख दिव्यरूपके धारक उत्तम बैल इन्द्रके आगे चलने लगे ॥३४॥ इनसे दूने बैल वृषभोकी दूसरी सेनामे थे, उनसे दूने बैल वृषभोकी तीसरी सेनामे थे। इस प्रकार सातवीं वृषभ सेना तक दूने-दूने प्रमाणवाले, नाना वर्णोके धारक सुन्दर बैल इन्द्रके आगे चलने लगे ॥३५-३६॥ बैलोकी सातो सेनाओकी संख्याके समान ही प्रमाणवाली घोडोकी सात सेनाएँ उनके पीछे-पीछे चली। उनके पीछे मणिमयी दीप्तियुक्त रथ, पर्वतके समान विशाल गज, उद्यमके साथ चलनेवाले शीघ्रगामी पैदल सैनिक, दिव्य कण्ठ-वाले और श्रीजिनोत्सवके गीत गानेवाले गन्धर्व, और जिनेन्द्र सम्बन्धी गीत-वाद्योके साथ नाचती हुई देव-नर्तकियाँ ये सब क्रमसे अपनी-अपनी उक्त सख्यावाली सात-सात कक्षाओके साथ आगे-आगे चलने लगे ॥३७-३९॥ पुरवासी लोगोके सदृश असख्यात प्रकीर्णक देव, दासके समान कार्य करनेवाले आभियोग्य जातिके देव और प्रजासे बाहर रहनेवाले बहुत-से किल्बिषिक देव भक्तिसे सौधर्मेन्द्रके साथ उस महोत्सवमे आगे-आगे चल रहे थे ॥४०-४१॥ धर्मबुद्धिवाला ऐशानेन्द्र भी भक्तिके साथ अपनी विभूतिसे युक्त होकर अश्ववाहनपर आरूढ हो सौधर्मेन्द्रके साथ निकला ॥४२॥ मृगराज (सिंह) के वाहनपर चढकर सनत्कुमारेन्द्र और दिव्य वृषभपर चढकर माहेन्द्र भी सर्व सामग्रीके साथ निकला ॥४३॥ कान्ति युक्त सारसपर आरूढ होकर देवोसे घिरा हुआ ब्रह्मेन्द्र, हसवाहनपर आरूढ होकर महर्दिक लान्तवेन्द्र,

दीसाङ्गगरुडारूढ शुक्रेन्द्रो निर्जरैवृत्त । सामान्यकादिकै स्त्रीभिस्तत्पूजायै च निर्ययौ ॥४५॥
 स्वाभियोग्यसुरोत्पन्नमयूरवाहनान्त्रित । सामर सकलत्रश्च शतारेन्द्रोऽपि निर्गत ॥४६॥
 आनतेन्द्रादय शेषाश्चत्वार कल्पनायका । विमानपुष्पकारुढास्तत्कल्याणाय निर्ययौ ॥४७॥
 इति द्वादश कल्पेन्द्रा स्वस्वभूतिविराजिता । द्विषट्प्रतीन्द्रसयुक्ता स्वस्ववाहनमाश्रिता ॥४८॥
 पटहादिमहाध्वानै पूरयन्तो दिशोऽखिला । तन्वन्त सुरचापानि स्वाङ्गभूषाशुभिश्च खे ॥४९॥
 छादयन्तो नभोभाग ध्वजछत्रादिकोटिभि । जय जीवादिशब्दौघैर्बधिरिकृतदिग्मुखा ॥५०॥
 गीतनर्तनवाद्यादिमहोत्सवशतै समम् । ज्योतिषा पटल प्रापुरवतीर्य दिव शनै ॥५१॥
 चन्द्रा सूर्या ग्रहा सर्वे नक्षत्रास्तारकामरा । स्वस्ववाहनमारुह्य स्वस्वभूतिविमण्डिता ॥५२॥
 असख्याता स्वदेवाद्या धर्मरागरसाङ्किता । जिनकल्याणससिद्धयै जरमुस्तै सह भूतलम् ॥५३॥
 चमर प्रथमोऽथेन्द्रो विरोचनो द्वितीयक । भूतेशो धरणानन्दो वेणुवाख्यो वेणुधायथ ॥५४॥
 शक्र पूर्णोऽवशिष्टश्च जलामो जलकान्तिमान् । हरिषेणोऽमरेन्द्रो हरिकान्तोऽग्निशिखी तत ॥५५॥
 अग्निवाहननामाभितगत्यमितवाहनौ । इन्द्रो घोषो महाघोषो वेलाञ्जनप्रभञ्जनौ ॥५६॥
 अमी विंशतिदेवेन्द्रा प्रतीन्द्राश्च तथाविधा । भवनामरजातीनामसुरादिदशात्मनाम् ॥५७॥
 स्वस्ववाहनभूत्याद्यै स्वदेवीभिरलकृता । धरासुद्धिद्य चाजग्मुस्तत्पूजायै महीतलम् ॥५८॥
 किन्नर प्रथमश्चेन्द्रस्तत किंपुरुषामिध । शक्र सत्पुरुषाख्योऽथ महापुरुषनामक ॥५९॥
 अतिकायो महाकाय इन्द्रो गातरतितत । सुरेन्द्रो रतिकर्तिर्मणिमद्र पूर्णमद्रक ॥६०॥
 भीमनामा महाभीम सुरूप प्रतिरूपक । इन्द्र कालो महाकाल इतीन्द्रा षोडशाङ्गना ॥६१॥

दीप्त शरीरवाले गरुडपर आरूढ और देवोसे घिरा हुआ शुक्रेन्द्र भी अपने सामानिकदि देवोसे तथा देवियोसे युक्त होकर भगवान्की पूजाके लिए निकले ॥४४-४५॥ अपने आभियोग्य देवसे निर्मित मयूर वाहनपर चढकर शतारेन्द्र भी अपने देव और देवी-परिवारके साथ निकला ॥४६॥ आनतेन्द्र आदि शेष चार कल्पोके स्वामी इन्द्र भी अपने-अपने देव-परिवारोके साथ पुष्पक विमानपर आरूढ होकर भगवान्के ज्ञानकल्याणकके लिए निकले ॥४७॥ इस प्रकार बारह कल्पोके इन्द्र अपने बारहो प्रतीन्द्रोसे सयुक्त होकर अपनी-अपनी विभूतिके साथ अपने-अपने वाहनोपर चढकर भेरी आदिके महानादोसे समस्त दिशाओको पूरित करते, अपने भूषणोकी कान्तिपुजसे आकाशमे इन्द्रवनुषकी शोभाको विस्तारते, कोटिकोटि ध्वजा और छत्रोसे नभोभागको आच्छादित करते, जय-जीव आदि शब्द-समूहोसे दिशाओको बधिर करते स्वर्गसे धीरे-धीरे उतरकर गीत नृत्य वादित्र आदिके साथ सैकडो उत्सवोको करते हुए ज्योतिषी देवोके पटलको प्राप्त हुए ॥४८-५१॥ तब ज्योतिष्क पटलके सभी असख्यात चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारागण अपनी-अपनी विभूतिसे मण्डित होकर धर्मानुरागके रससे व्याप्त हो, अपनी अपनी देवियोसे युक्त हो जिनकल्याणकी सिद्धिके लिए उक्त कल्पवासी देवोके साथ भूतलकी ओर चले ॥५२-५३॥ उसी समय असुरकुमारादि दश जातिके भवनवासी देवोके १ चमर, २ वैरोचन, ३ भूतेश, ४ धरणानन्द, ५ वेणुदेव, ६ वेणुधारी, ७ पूर्ण, ८ अवशिष्ट, ९ जलप्रभ, १० जलकान्ति, ११ हरिषेण, १२ हरिकान्त, १३ अग्निशिखी, १४ अग्निवाहन, १५ अमितगति, १६ अमितवाहन, १७ घोष, १८ महाघोष, १९ वेलाञ्जन, और २० प्रभजन ये बीस इन्द्र और बीस ही उनके प्रतीन्द्र अपनी अपनी विभूति, वाहनोसे तथा अपनी-अपनी देवियोसे सयुक्त होकर भूमिको भेदन कर भगवान्की पूजाके लिए इस महीतलपर आये ॥५४-५८॥ उसी समय किन्नर आदि आठो जातिके व्यन्तर देवोके १ किन्नर, २ किम्पुरुष, ३ सत्पुरुष, ४ महापुरुष, ५ अतिकाय, ६ महाकाय, ७ गातरति, ८ रतिकीर्ति (गीतयश), ९ मणिमद्र, १० पूर्णमद्र, ११ भीम, १२ महाभीम, १३ सरूप, १४ प्रतिरूप,

तावन्तो हि प्रतीन्द्राश्च स्वस्ववाहनसस्थिता । व्यन्तराखिलयोनीना किन्नराद्यष्टधात्मनाम् ॥६२॥
 परया स्वस्वसामग्र्या भूषिता निर्जरावृता । तत्कल्याणाय भूभागमुद्दिद्यागुस्तदाशु हि ॥६३॥
 एते चतुर्णिकायेशा शचीगीर्वाणभूषिता । निमेषोज्जितसन्नेत्रा परमानन्दशालिन ॥६४॥
 कुङ्कुमलीकृतपाण्यब्जा श्रीवीर द्रष्टुमुत्सुका । जयनन्दादिसद्भवानमुखरा शीघ्रगामिन ॥६५॥
 ददृशुर्दूरतो दीप्र विभोरास्थानमण्डलम् । विश्वर्द्धिगणसपूर्ण रत्नाशुभ्यासदिग्मुखम् ॥६६॥
 धनदादिमहाशिल्पिनिर्मितस्य जगद्गुरो । तस्य मुक्त्वा गणेन्द्र को रचना गदितु क्षम ॥६७॥
 तथापि भव्यसार्थाना धर्मप्रोत्यादिसिद्धये । करोमि वर्णन किञ्चित्स्वशक्त्या समवसृते ॥६८॥
 एफ्योजनविस्तीर्ण सुवृत्त भ्राजते तराम् । सुरेन्द्रनीलरत्नौघैस्तस्याद्य पीठमूर्जितम् ॥६९॥
 भो विशतिसहस्राङ्गमणिसोपानराजितम् । सुव वा सार्धद्विगण्यूति भूमेर्नभसि सस्थितम् ॥७०॥
 तस्य पर्यन्तभूभागमलचक्रेऽतिदीप्तिमान् । धूलीशालपरिक्षेपो रत्नपाशुमयो महान् ॥७१॥
 क्वचिद् विद्रुमरम्याम क्वचित्काञ्चनसनिभ । क्वचिदञ्जनपुञ्जाम क्वचिन्लुक्छदच्छवि ॥७२॥
 नानासुवर्णरत्नोत्थपासुतेजश्चयै क्वचित् । तन्त्रिभेन्द्रचापानि हसन् वा खे स राजते ॥७३॥
 चतुर्दिक्ष्वस्य दीप्याढ्या हेमस्तम्भाग्रलम्बिता । तोरणा मकरास्फोटमणिमाला विभान्त्यहो ॥७४॥
 ततोऽन्तरान्तर किञ्चिद्गत्वाचाम्बुपवित्रिता । स्युश्चतस्रो जगत्यो हि वीथीना मध्यभूमिषु ॥७५॥
 चतुर्गोपुरसयुक्तप्राकारत्रयवेष्टिता । हेमषोडशसोपानयुता दीप्रा मनोहरा ॥७६॥

१५ काल और १६ महाकाल ये सोलह अद्भुतरूपधारी इन्द्र अपने सोलहो प्रतीन्द्रोके साथ अपने-अपने वाहनोपर आरूढ होकर अपनी-अपनी परम सामग्रीसे भूषित और अपने-अपने देव-देवी परिवारसे आवृत होकर भूभागको भेदन करके ज्ञानकल्याणक करनेके लिए इस भूतलपर आये ॥५९-६३॥ ये चारों देवनिकायोके स्वामी, अपनी इन्द्राणियो और देवोसे भूषित, निमेष रहित उत्तम नेत्रोके धारक, परम आनन्दशाली, कर-कमलोको जोड़े, जय, नन्द आदि मागलिक शब्दोको बोलते श्रीवीर प्रभुको देखनेके लिए उत्सुक अतएव शीघ्र गमन करते हुए यहाँपर आये ॥६४-६५॥ और उन्होने समस्त ऋद्धियोसे परिपूर्ण, रत्न किरणोसे दिङ्मुखको व्याप्त करनेवाले, देदीप्यमान ऐसे भगवान्के समवशरण मण्डलको दूरसे देखा ॥६६॥

कुबेर आदि महाशिल्पियोके द्वारा निर्मित जगद्गुरुके उस समवशरणकी रचनाको कहनेके लिए गणधरदेवको छोड़कर और कौन समर्थ हो सकता है ॥६७॥ तो भी भव्य जीवोके धर्म प्रेमकी सिद्धिके लिए अपनी शक्तिके अनुसार उस समवशरणका कुछ वर्णन करता हूँ ॥६८॥ वह समवशरण गोलाकार एक योजन विस्तारवाला था, उसका प्रथमपीठ उत्तम इन्द्रनीलमणियोसे रचा गया था, अतः वह अत्यन्त शोभायमान हो रहा था ॥६९॥ हे भव्यो, वह बीस हजार मणिमयी सोपानो (सीढियो) से विराजित था और भूतलसे अढाई कोश ऊपर आकाशमे अवस्थित था ॥७०॥ उसके किनारेके भूभागके सर्व ओर अतिदीप्तिमान्, रत्नधूलिसे निर्मित विशाल धूलिशाल नामका पहला परकोटा था ॥७१॥ वह कहीपर विद्रुम (मूंगा) की सुन्दर कान्तिवाला था, कही सुवर्ण आभावाला था, कही अञ्जन पुजके समान काली आभावाला था और कहीपर शुक (तोता) के पखोके समान हरे रगवाला था ॥७२॥ कहीपर नाना प्रकारके रत्न और सुवर्णोत्पन्न धूलिके तेज-पुजसे आकाश मे इन्द्रधनुषोकी शोभाको विस्तारता अथवा हँसता हुआ शोभित हो रहा था ॥७३॥ उसकी चारो दिशाओमे दीप्ति युक्त सुवर्णस्तम्भोके अग्र भागपर मकराकृति मणिमालावाले चार तोरणद्वार सुशोभित हो रहे थे ॥७४॥ उसके भीतर कुछ दूर चलकर वीथियोकी मध्य-भूमिमे पूजन-सामग्रीसे पवित्रित चार वेदियो थी ॥७५॥ वे चार गोपुरद्वारोसे सयुक्त, तीन प्राकारो (कोटो) से वेष्टित, सुवर्णमयी सोलह सीढियोसे भूषित, देदीप्यमान और मनको

तासा मध्येषु भान्युच्चैस्तत्पमा पीठिका परा । जिनेन्द्रप्रतिमायुक्ता मणितेजोऽर्चनादिभि ॥७७॥
 पीठिकाना च मध्येषु चतु पीठानि म्च्छ्रिया । त्रिमेखलानि दिव्यानि राजन्ते मणिदीप्तिभि ॥७८॥
 तेषा मध्येषु राजन्ते कनकाञ्चननिर्मिता । मध्यभागजिनार्चाख्या मूर्ध्नि छत्रत्रयान्विता ॥७९॥
 तुङ्गा सार्थकनामानो दुदृशा मानखण्डनात् । मानस्तम्भा ध्वजेष्वण्टागीतनृत्यप्रकीर्णकै ॥८०॥
 तेषा पर्यन्तपृथ्वीषु सन्ति वाप्य सहोत्पला । दिश प्रति चतस्रो मणिसोपानमनोहरा ॥८१॥
 नन्दोत्तरादिनामानस्ता नृत्यन्त इवोजिता । ऊमिहस्तैविभाद्भुच्चैर्गण्यन्त्यो वालिगुञ्जचै ॥८२॥
 तासा तटेषु विद्यन्ते कुण्डान्यम्बुभृतानि च । तद्यात्रागतभव्याना पादप्रक्षालनाय च ॥८३॥
 स्तोकांतर ततोऽतीत्य वीथी वीथी च ता धराम् । चिताम्बुखातिका वने द्विरेफै कमलाकरै ॥८४॥
 भाति सा वातसघट्टोत्थतरङ्गै रवोत्करै । नृत्यन्तीव मुदा गायन्तीव वा तन्महोत्सवे ॥८५॥
 तदन्त स्थ महीभागमवृणोत्सल्लतावनम् । वटलीगुल्मद्रुमौघोत्थसर्वतुङ्गकुसुमान्वितम् ॥८६॥
 रम्या क्रीडाद्रयो यत्र सशय्याश्च लतालया । पुष्पप्रकरसकीर्णा धृतये दवयोषिताम् ॥८७॥
 चन्द्रकान्तशिला यत्र लताभवनमध्यगा । शीतला नाकिनाथाना विश्रामाय मनोहरा ॥८८॥
 तद्वन राजतेऽतीव सुन्दर सफल प्रियम् । अशोकाद्यैर्महावृक्षैस्तुङ्गेद्विरेफगुञ्जै ॥८९॥
 ततोऽध्वान क्रियन्त परित्यज्य महीतलम् । प्राकार प्रथमो वने तुङ्गो हिरण्यमयो महान् ॥९०॥

हरण करनेवाली थी ॥७६॥ उन वेदियोंके मध्यभागमे जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमासहित, मणियोंकी कान्ति और पूजनसामग्रीसे युक्त चार ऊँचे पीठ (सिंहासन) शोभायमान थे ॥७७॥ उन पीठोंके मध्यमे चार और छोटे पीठ थे जो उत्तम शोभासे, मणियोंकी कान्तिसे और दिव्य तीन मेखला-(कटिनी-) युक्त शोभित हो रहे थे ॥७८॥ उनके मध्यमे चमचमाते सुवर्णसे निर्मित, मध्यभागमे जिनप्रतिमासे युक्त, शिखरपर तीन छत्रोंसे शोभित, ध्वजा, घण्टा आदिसे युक्त, उन्नत, मिथ्यादृष्टियोंके मान-खण्डनसे सार्थक नामवाले चारो दिशाओकी वेदियोंपर चार मानस्तम्भ थे, जिनके समीप देव-देवागनाएँ गीत-नृत्य करती हुई चामर ढोर रही थी ॥७९-८०॥

उन मानस्तम्भोंके समीपवाली भूमिपर चारो दिशामे मणिमयी सीढियोंसे मनो-हर, जलभरी और कमलोंसे युक्त ऐसी चार वापियाँ थी ॥८१॥ उन वापियोंके नन्दा, नन्दोत्तरा आदि नाम थे, वे अपने जल-तरगरूपी हाथोंसे नाचती हुई-सी, और कमलोंपर भौरोकी गुजारसे गाती हुईके समान अत्यन्त शोभित हो रही थी ॥८२॥ उन वापियोंके किनारोंपर जलसे भरे हुए कुण्ड विद्यमान थे, जो भगवान्की वन्दना-यात्राके लिए आनेवाले भव्य जीवोंके पाद प्रक्षालनके लिए बनाये गये थे ॥८३॥ वहाँसे थोड़ी दूर आगे चलकर वीथी (गली) थी और वीथी-धराको घेरकर अवस्थित, जलसे भरी, कमलोंके समूहों और भौरोसे व्याप्त खाई थी ॥८४॥ वह खाई पवनके आघातसे उत्पन्न हुई तरगोंसे और तरग-जनित शब्दोंसे भगवान्के ज्ञानकल्याणकके महोत्सवमे नृत्य करती और गाती हुई सी शोभित हो रही थी ॥८५॥ उसके भीतरके भूभागको उत्तम लताओका वन घेरे हुए था और वह लतावन अनेक प्रकारकी बेलों, गुल्मों और वृक्षोंमे लगे हुए सर्व ऋतुओंके फूलोंसे सयुक्त था ॥८६॥ वहाँपर रमणीक अनेक क्रीडा करनेके पर्वत थे, जो उत्तम शय्याओंसे, लतामण्डपोंसे और पुष्प-समूहोंसे व्याप्त थे और जो देवागनाओंके क्रीडा-कौतूहल एव विश्रामके लिए बनाये गये थे ॥८७॥ उन पर्वतोंपर लताभवनोंके भीतर देवेन्द्रोंके विश्रामके लिए शीतल और मनोहर चन्द्रकान्तमयी शिलाएँ रखी हुई थी ॥८८॥ उन पर्वतोंपर अशोक आदिके ऊँचे महावृक्षोंसे और उनके पुष्पोंपर भौरोकी गुजारोंसे युक्त फलशाली, अतीव सुन्दर प्रियवन शोभायमान था ॥८९॥ उसके आगे कुछ दूर चलकर महीतलको घेरे हुए, सुवर्णमयी महान् उन्नत प्रथम

स्वाङ्गोपरितलेऽन्तर्बहिर्लङ्गनमौक्तिकादिभि । तारासततिशङ्का स दधच्छ्रीमान् मनोहर ॥९१॥
 क्वचिद्विद्रुमकान्त्याद्य क्वचिन्नवधनच्छवि । क्वचिच्च सुरगोपाभ इन्द्रनीलच्छवि क्वचित् ॥९२॥
 क्वचिद्विचित्ररत्नाञ्चुरचितेन्द्रधनुर्महान् । विद्युदा पिञ्जरोऽनेकवर्णाशुभिर्बभौ तराम् ॥९३॥
 स हसन्निव द्विपव्याप्रसिंहहसादिदेहिनाम् । वल्लीना नृमयूराणा युग्मरूपैश्चितोऽखिल ॥९४॥
 महान्ति गोपुराण्यस्य शोभन्ते दिक्चतुष्टये । राजितानि त्रिभूमानि प्रहसन्ताव तेजसा ॥९५॥
 पद्मरागमयैस्तुङ्गै शिखरैर्व्योमलङ्घिभि । शृङ्गाणीव महामरोगोपुराणि बभुवुस्ताराम् ॥९६॥
 तीर्थेशस्य गुणानेषु गायन्ति देवगायना । केचिच्छृण्वन्ति नृत्यन्ति केचिदाराधयन्ति च ॥९७॥
 भृङ्गारकलशाब्दाद्या मङ्गलद्रव्यभूतय । प्रत्येक गोपुरत्वासन्नष्टोत्तरशतप्रमा ॥९८॥
 रत्नाभरणनानाभाविचित्रीकृतखाङ्गणा । प्रत्येक तोरणास्तेषु शतसख्या विमान्यहो ॥९९॥
 निसर्गमास्वरे काय विभो स्वानवकाशताम् । मत्वेवाभरणान्यश्चुर्निरुध्य तोरणानि भो ॥१००॥
 द्वारोपान्तेषु राजन्ते शङ्खाद्या निधयो नव । वैराग्येण जिनेन्द्रेण तिष्ठन्तीवावधीरिता ॥१०१॥
 तेषामन्तर्महावाथ्या द्वयो संपार्श्वयोर्भवेत् । प्रत्येक च चतुर्दिक्षु नाट्यशालाद्वय महत् ॥१०२॥
 तिसृभिर्मूमिभिस्तुङ्गै भातस्तौ नाट्यमण्डपौ । मुक्तेस्त्रिधात्मक मार्ग सता वक्तुमिवोद्यतौ ॥१०३॥
 हिरण्यवृहत्स्तम्भौ शुद्धस्फाटिकभित्तिकौ । तेषु मण्डपरङ्गेषु नृत्यन्ति स्माप्सरोवरा ॥१०४॥

प्राकार था ॥९०॥ उस प्राकारके ऊपर, नीचे और मध्यभागमे मोती लगे हुए थे, जिनके द्वारा शोभायुक्त वह मनोहर प्राकार ताराओकी परम्पराकी शकाको वारण कर रहा था ॥९१॥ वह प्राकार कहीपर विद्रुमकी कान्तिसे युक्त था, कहीपर नवीन मेघकी छविको धारण कर रहा था, कहीपर इन्द्रगोप-जैसी लाल शोभासे युक्त था और कहीपर इन्द्रनीलमणिकी नीली कान्तिको धारण कर रहा था ॥९२॥ कही पर नाना प्रकारके रत्नोकी किरणोसे महान् इन्द्रधनुषकी शोभाको विस्तार रहा था और कहीपर अनेक वर्णवाले रत्नोकी किरणोसे युक्त होकर बिजलीकी शोभा दिखा रहा था ॥९३॥ वह समस्त प्राकार हाथी, व्याघ्र, सिंह, हंस आदि प्राणियो, मनुष्यो और मयूरोके जोडोसे, तथा बेलोके समूहोसे हंसते हुएके समान शोभायमान था ॥९४॥ इस प्राकारकी चारो दिशाओमे तीन भूमियो (खण्डो) वाले विशाल रजतमयी चार गोपुर शोभित थे, जो अपने तेजसे हंसते हुएके समान प्रतीत हो रहे थे ॥९५॥ वे गोपुर पद्मरागमयी, ऊँचे आकाशको उल्लघन करनेवाले शिखरोसे ऐसे शोभित हो रहे थे मानो महामेरुके उन्नत शिखर ही हो ॥९६॥ उन शिखरोपर कितने ही गन्धर्व देव तीर्थेश्वरके गुणोको गा रहे थे, कितने ही उन गुणोको सुन रहे थे, कितने ही नृत्य कर रहे थे और कितने ही तीर्थकर देवकी आराधना कर रहे थे ॥९७॥ प्रत्येक गोपुरपर भृङ्गार, कलश, दर्पण आदि आठो जातिके मंगलद्रव्य एक सौ आठ-एक सौ आठकी सख्यामे विराजमान थे ॥९८॥ प्रत्येक गोपुर द्वारपर नाना प्रकारके रत्नोकी कान्तिसे गगनागणको चित्र-विचित्र करनेवाले मौ-सौ तोरण शोभायमान हो रहे थे ॥९९॥ उन तोरणोमे लगे हुए आभूषण ऐसे प्रतीत होते थे, मानो स्वभावसे ही प्रकाशमान प्रभुके शरीरमे रहनेके लिए अवकाशको न पाकर वे अब तोरणोको व्याप्त करके अवस्थित है ॥१००॥ उन द्वारोके समीप रखी हुई शख आदि नवो निधियाँ ऐसी जान पडती थी, मानो जिनेन्द्रदेवके द्वारा वैराग्यसे तिरस्कृत होकर द्वारपर ही ठहरकर भगवान्की सेवा कर रही है ॥१०१॥ इन गोपुर द्वारोके भीतर एक-एक महावीथी थी, जिसके दोनो पार्श्वभागोमे दो-दो नाट्यशालाएँ थी । इस प्रकार चारो दिशाओमे दो-दो महानाट्यशालाएँ थी ॥१०२॥ तीन भूमियो (खण्डो) से युक्त, ऊँचे वे नाट्यमण्डप ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो सज्जनोको मुक्तिका रत्नत्रयस्वरूप त्रिधात्मक मार्ग कहनेके लिए उद्यत है ॥१०३॥ उन नाट्यमण्डपोके विशाल स्तम्भ सुवर्णमयी थे, उनकी भित्तियाँ निर्मल

वीणया सह गायन्ति काश्चिच्च विजय त्रिभो । दिव्यकण्ठाश्वगन्धर्वा केवल्यादिभवान् गुणान् ॥१०५॥
 ततो धूपघटौ द्वौ द्वौ वीथीनामुभयोर्दिशो । धूपधूमैस्ततामोदै सुगन्धीकृतयाज्ञयो ॥१०६॥
 तत्र वध्यन्तरेष्वासश्चतस्रो वनवीथय । सर्वतु फलपुष्पाढ्या नन्दनाद्या इवापरा ॥१०७॥
 अशोकसप्तपर्णाख्यचम्पकाभ्रमहीरुहाम् । वनानि तानि मान्युच्चैरुत्तुङ्गै पादपत्रजै ॥१०८॥
 वनाना मध्यभागेषु क्वचिद्राप्यो लसज्जला । त्रिकोण्यश्च चतुष्कोणा पुष्करिण्य क्वचित्परा ॥१०९॥
 क्वचिद्भ्रम्याणि रम्याणि क्वचिदाक्रीडमण्डरा । क्वचिःप्रेक्षालयास्तुङ्गाश्चित्रगाला क्वचिच्छुभा ॥११०॥
 पुष्पशाला द्विशालाद्या दीप्रा प्रामादपङ्क्तय । क्वचिःक्रीडाप्रदेशा स्यु क्वचिच्च कृतकाद्रय ॥१११॥
 अशोकवनमध्ये स्यादशोकश्चैत्यपादप । पीठ त्रिमेखल हैम रम्य तुङ्गमधिष्ठित ॥११२॥
 चतुर्गोपुरसबद्धत्रिशालपरिवेष्टित । त्रयच्छत्राङ्कितो मूर्ध्नि रणद्धण्टोऽतिसुन्दर ॥११३॥
 ध्वजचामरमाङ्गल्यद्रव्यश्रीप्रतिमादिभि । भाति देवार्चनै सोऽत्र जम्बूवृक्ष इवान्नत ॥११४॥
 चतुर्दिक्ष्वस्य या सन्ति दीप्रा श्रीजिनमूर्तय । ता सुरेन्द्रा स्वपुण्याय पूजयन्ति महार्चनै ॥११५॥
 एव शेषवनेषु स्युश्चैत्यवृक्षा सुरार्चिता । सप्तपर्णादयो रम्याश्छत्रार्हैःप्रतिमादिभि ॥११६॥
 मालाशुकमयूरारब्जहसाना गरुडात्मनाम् । ऋगेशवृषभेभेन्द्रचक्राणा दिव्यरूपिणाम् ॥११७॥
 दशभेदा ध्वजास्तुङ्गा स्युर्मोहारिजयाजिता । प्रभास्त्रिजगदैश्चर्यमैकैकर्तुमिवोद्यता ॥११८॥

स्फटिक मणिमयी थी । उन मण्डपोके भीतर उत्तम अप्सराएँ नृत्य कर रही थी ॥१०४॥
 कितनी ही देवियों वीणाके साथ प्रभुके विजयका गान कर रही थी और कितने ही दिव्य
 कण्ठवाले गन्धर्व भगवान्के केवल्यप्राप्तिसे उत्पन्न हुए गुणोको गा रहे थे ॥१०५॥ उन
 वीथियोकी दोनो दिशाओमे दो-दो धूपघट थे, जिनके धूपकी सुगन्धीको विस्तारनेवाले धुएँके
 द्वारा गगनागण सुगन्धित हो रहा था ॥१०६॥ उसके आगे कुछ दूर चलकर वीथियोके मध्यमे
 चार वनवीथियाँ थी, जो सर्व ऋतुके फल-फूलोसे युक्त दूसरे नन्दनादि वनोके समान मालूम
 पडती थी ॥१०७॥ उन वनवीथियोमे अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आम्रवृक्षोके वन थे, जो
 कि अति उन्नत वृक्षसमूहोसे शोभित हो रहे थे ॥१०८॥ उन वनोके मध्यभागमे जलसे भरी
 हुई वापियाँ थी और कहीपर तिकोन और चतुष्कोनवाली पुष्करिणियाँ थी ॥१०९॥ उन
 वनोमे कहीपर सुन्दर भवन थे, कहीपर सुन्दर क्रीडामण्डप थे, कहीपर दर्शनीय प्रेक्षागृह
 थे और कहीपर उन्नत शोभायुक्त चित्रशालाएँ थी ॥११०॥ कहीपर एक खण्डवाले और कही-
 पर दो खण्डवाले देदीप्यमान प्रासादोकी पंक्तियाँ थी, कहीपर क्रीडास्थल थे और कहीपर
 कृत्रिम पर्वत थे ॥१११॥ वहाँ अशोक वनके बीचमे अशोक नामका चैत्यवृक्ष था, जिसका
 पीठ रम्य, सुवर्णमयी तीन मेखलाओवाला था और वह चैत्यवृक्ष बहुत ऊँचा था ॥११२॥
 चैत्यवृक्ष तीन शाला (कोटो) से वेष्टित था, प्रत्येक शालमे चार-चार गोपुर द्वार थे ।
 वह चैत्यवृक्ष तीन छत्रोसे युक्त था और उसके शिखरपर शब्द करता हुआ अतिसुन्दर
 घण्टा अवस्थित था ॥११३॥ वह चैत्यवृक्ष ध्वजा, चामर आदि मंगल द्रव्योसे और
 श्री जिनदेवकी प्रतिमा आदिसे युक्त था, देवगण जहाँपर पूजन कर रहे थे और वह
 जम्बूवृक्षके समान उन्नत था ॥११४॥ इस चैत्यवृक्षके ऊपर चारो दिशाओमे दीप्तियुक्त
 श्री जिनमूर्तियाँ थी, जहाँपर आकर अपने पुण्योपार्जनके लिए देवेन्द्र महान् द्रव्योसे
 उनकी पूजा कर रहे थे ॥११५॥ इसी प्रकार शेष वनोमे भी देवोसे पूजित, छत्र-
 चामर और अर्हत्प्रतिमाओसे युक्त रमणीय सप्तपर्णादि चैत्यवृक्ष थे ॥११६॥ माला, शुक,
 मयूर, कमल, हंस, गरुड, सिंह, वृषभ, हाथी और चक्र इन दश चिह्नोकी धारक दिव्य
 रूपवाली ऊँची ध्वजाएँ फहराती हुई ऐसी ज्ञात होती थी मानो मोह-शत्रुको जीत लेनेसे
 उपार्जित प्रभुके तीन लोकके ऐश्वर्यको एकत्रित करनेके लिए उद्यत हुई हो ॥११७-११८॥

एकैकस्या दिशि ज्ञेया प्रत्येक पालिकेतव । अष्टोत्तरशत रम्यास्तरङ्गा इव खाम्बुधे ॥११९॥
 मरुदान्दोलितस्तेषा खे भ्रमन्नशुक्रोत्कर । व्याजुहूर्धुरिवाभाति जिनाचार्या जगज्जनान् ॥१२०॥
 स्रक्केतुषु स्रजो रम्या सौमनस्यो ललम्बिरे । वस्त्रवजेषु दिव्यानि सूक्ष्मवस्त्राणि च स्फुटम् ॥१२१॥
 इति वर्हादिकेष्वेषु ध्वजेषु सुरशक्तिपिभि । राजन्ते निर्मिता दिव्या मयूराद्या सुमूर्तय ॥१२२॥
 अशीत्यग्र लहस्य स्युदिश्यकस्या च पिण्डिता । चतुर्दिक्षु नमोद्वित्रिचतुरङ्गप्रमा ध्वजा ॥१२३॥
 ततोऽभ्यन्तरभूभागो शालोऽस्ति द्वितीयो महान् । श्रोमानर्जुननिर्माण प्राक्शालवर्णनासम ॥१२४॥
 पूर्ववद्गोपुराण्यस्य राजतानि भवन्ति वै । तेष्वामरणविन्यस्ततोरणानि महान्ति च ॥१२५॥
 निधयो मङ्गलद्रव्या नाट्यशालाद्वय भवेत् । तद्वद्भूपघटौ द्वौ द्वौ महावीथुभय तयो ॥१२६॥
 स्यान्नाट्यशालयोर्गीतनर्तनादिकदम्बकम् । शेषोऽत्रापि विधिर्ज्ञेय आद्यशालसमोऽखिल ॥१२७॥
 ततो वीथ्यन्तरेष्वस्या कक्षाया मास्वर वनम् । नानारत्नप्रभोत्कर्षैरासीकल्पमहोरुहाम् ॥१२८॥
 रम्या कल्पद्रुमास्तुङ्गा सच्छाया सफला वरा । दिव्यस्त्रयस्त्रभूषाढ्या राजायन्तेऽत्र सपदा ॥१२९॥
 देवोदककुरवोऽत्रेशमागता इव सेवितुम् । शोभन्ते दशभेदै स्त्रै सहाल कल्पशाखिभि ॥१३०॥
 नेपथ्यानि फलान्येषा पल्लवा अशुकानि च । माला शाखाग्रलम्बिन्यो दासा प्रारोहयष्टय ॥१३१॥
 ज्योतिष्का ज्योतिरङ्गेषु दीपाङ्गेषु च नारुजा । भावनेन्द्रा स्त्रगङ्गेषु धृति क्रोडा प्रकुवते ॥१३२॥
 अस्मिन् वनान्तरेऽभूत्तन् दिव्या सिद्धार्थपादपा । सिद्धार्थाधिष्ठिताश्छत्रचामरादिराजिता ॥१३३॥

एक-एक दिशामे प्रत्येक चिह्नवाली एक सौ आठ रमणीय ध्वजाएँ जानना चाहिए । वे ऐसी प्रतीत होती थी, मानो आकाशरूप समुद्रकी तरंगे ही हो ॥११९॥ उन ध्वजाओके पवनसे हिलते और चारो ओर घूमते हुए वस्त्र ऐसे मालूम होते थे मानो जिनराजके पूजनके लिए जगत्के जनोको बुला ही रहे हो ॥१२०॥ उन दश चिह्नवाली ध्वजाओमे-से माला चिह्नवाली ध्वजाओमे रमणीक फूलोकी मालाएँ लटक रही थी । वस्त्र चिह्नवाली ध्वजाओमे सूक्ष्म चिकने वस्त्र लटक रहे थे ॥१२१॥ इसी प्रकार मयूर आदि चिह्नवाली ध्वजाओमे देव-शिल्पियो द्वारा निमित्त सुन्दर मूर्तिवाले मयूर आदि शोभित हो रहे थे ॥१२२॥ वे ध्वजाएँ एक एक दिशामे एक हजार अस्सी (१०८०) थी और चारो दिशाओकी मिलाकर चार हजार तीन सौ बीस (४३२०) थी ॥१२३॥ उससे आगे चलकर भीतरी भूभागमे चौँदीसे बना हुआ, लक्ष्मीयुक्त दूसरा महान् शाल (कोट) था, जिसका वर्णन प्रथम शालके समान ही जानना चाहिए ॥१२४॥ इस शालमे भी पूर्वशालके समान ही रजतमयी गोपुर द्वार थे और वहाँपर आभूषणोसे युक्त बड़े-बड़े तोरण थे ॥१२५॥ यहाँपर भी पूर्वके समान नवनिवियाँ, अष्ट-प्रकारके मगलद्रव्य, दो दो नाट्यशालाएँ और दो-दो धूपघट महावीथीके दोनो ओर थे ॥१२६॥ उन दोनो नाट्यशालाओमे गीत-नृत्य आदि तथा शेष समस्त विधि भी प्रथम शालके समान जानना चाहिए ॥१२७॥ इससे आगे वीथीके अन्तरालमे नाना प्रकारके रत्नोकी प्रभासे शोभित कल्पवृक्षोका एक देदीप्यमान वन था । जिसमे दिव्य माला, वस्त्र, आभूषण आदिकी सम्पदासे युक्त ऊँचे, फलवाले, और उत्तम छायावाले रमणीक कल्पवृक्ष शोभायमान हो रहे थे ॥१२८-१२९॥ उन्हें देखकर ऐसा ज्ञात होता था मानो देवकुरु और उत्तरकुरु ही अपने दश जातिके कल्पवृक्षोके साथ भगवान्की सेवा करनेके लिए यहाँपर आये है ॥१३०॥ उन कल्पवृक्षोके फल आभूषणोके समान, पत्ते वस्त्रोके समान, और शाखाओके अग्रभागपर लटकती हुई देदीप्यमान मालाएँ वट वृक्षकी जटाओके समान प्रतीत होती थी ॥१३१॥ इन कल्पवृक्षोमे-से ज्योतिरग कल्पवृक्षोके नीचे ज्योतिष्क देव, दीपाग कल्पवृक्षोके नीचे कल्पवासी देव, और मालाग कल्पवृक्षोके नीचे भवनवासी इन्द्र क्रीडा करते हुए विश्राम कर रहे थे ॥१३२॥ इन कल्पवृक्षोके वनके मध्यमे दिव्य सिद्धार्थ वृक्ष थे, जो कि सिद्ध प्रतिमाओसे

पूर्वोक्ता वर्णना चैत्यवृक्षेऽत्रापि योज्यताम् । किं कल्पवृक्षिणा एते सकल्पितसुभोगदा ॥१३४॥
 पर्यन्तेऽथ वनानां सद्रम्यास्ति वनवेदिका । चामीकरमयै रत्नै खचिताङ्गी प्रभास्वरा ॥१३५॥
 राजतानि विराजन्ते तस्या सद्गोपुराणि वै । मुक्ताभ्रमन्त्रनदामौघैर्वण्टाजालप्रलम्बनै ॥१३६॥
 सङ्गीतातोद्यनृत्तैश्च पुष्पमालाष्टमङ्गलैः । उत्तुङ्गशिखरैर्दीपै रत्नाभरणतोरणैः ॥१३७॥
 ततो वीथ्यन्तरालस्था विविधा ध्वजपङ्क्तयः । परा महोमलचक्रुर्हस्तमभाग्ररुम्बिता ॥१३८॥
 मणिपीठेषु सुस्थास्ते शोभन्ते स्वोन्नतिश्रिया । कर्मारिविजय भर्तुं पुसा वक्तुमिवोद्यता ॥१३९॥
 अष्टाशीत्यङ्गुलान्येषा स्न्द्रत्व गणिभिर्मतम् । पञ्चविंशतिचापानि स्तम्भानामन्तर विदुः ॥१४०॥
 मानस्तम्भा ध्वजास्तम्भा सिद्धार्थचैत्यपादपा । स्तूपा सतोरणा सर्वे प्राकारा वनवेदिका ॥१४१॥
 प्रोक्तास्तीर्थरुरोऽस्त्रेधादुत्प्रेषेण द्विषड्गुणा । आयामयोग्यमेतेषा विस्तार ज्ञानिनो विदुः ॥१४२॥
 वनानां सर्वहर्म्याणां पर्वतानां तथैव च । तुङ्गत्वमेतदेवोक्त द्वादशाङ्गाब्धिपारगौ ॥१४३॥
 विस्तीर्णा अद्रय सन्ति स्वोच्छ्वायादष्टमगुणम् । स्तूपानां रौन्ध्रमुत्प्रेषात्सातिरेक भवेद् ध्रुवम् ॥१४४॥
 वदन्ति वेदिनादीनामुत्प्रेषाच्च चतुर्थकम् । विस्तार विद्वत्त्वज्ञा गणाधीशा सुरार्चिता ॥१४५॥
 क्वचिन्नद्य क्वचिद्वाप्य क्वचित्सैः फनमण्डलम् । क्वचित्सभागुहादीनि भवन्त्यत्र वनान्तरे ॥१४६॥
 वनवीथीमिमामन्तर्प्रेऽसौ वनवेदिका । कलधौतमयी तुङ्गा चतुर्गोपुरभूषिता ॥१४७॥
 अम्यास्तोरणमाङ्गल्यद्रव्याभरणमपद् । गीतनर्तनवाद्याद्या विज्ञेया पूर्ववर्णिता ॥१४८॥

अधिष्ठित और छत्र-चामरादि विभूतिसे विराजित थे ॥१३३॥ पूर्वमे जो चैत्यवृक्षोका वर्णन किया गया है वह इन सिद्धार्थ वृक्षोमे भी समझना चाहिए। किन्तु ये कल्पवृक्ष सकल्पित सभी उत्तम भोगोको देनेवाले थे ॥१३४॥ इन कल्पवृक्षोके वनोके चारो ओर एक रमणीक वनवेदिका थी जो कि सुवर्ण-निमित्त, रत्नोसे जड़ी हुई और अति प्रभायुक्त थी ॥१३५॥ उस वनवेदिकामे मोतियोकी लटकती हुई मालाओके पुजसे और लटकते हुए घण्टा-समूहसे युक्त रजतमयी चार उत्तम गोपुर द्वार थे ॥१३६॥ वे सब सगीत, वादित्र और नृत्योसे, पुष्पमाला आदि अष्टमगलद्रव्योसे, ऊँचे शिखरोसे तथा देदीप्यमान रत्नोके आभूषणवाले तोरणोसे शोभित थे ॥१३७॥ उससे आगे वीथीके अन्तरालमे सोनेके स्तम्भोके अग्रभागपर फहराती हुई अनेक प्रकारकी ध्वजापक्तियाँ वहाँकी श्रेष्ठ भूमिको अलङ्कृत कर रही थी ॥१३८॥ मणिमयी पीठोपर अवस्थित वे ध्वजस्तम्भ अपनी उन्नत शोभासे ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो स्वामीकी कर्म-शत्रुकी जीतको पुरुषोसे कहनेके लिए ही उद्यत हो रहे हैं ॥१३९॥ उन ध्वजास्तम्भोकी मोटाई अठासी (८८) अगुल और स्तम्भोका पारस्परिक अन्तराल पचीस (२५) धनुष गणधरोने बताया है। समवशरणमे स्थित सर्व मानस्तम्भ, ध्वजास्तम्भ, सिद्धार्थ-वृक्ष, चैत्यवृक्ष, स्तूप, तोरण-सहित प्राकार और वनवेदिकाएँ तीर्थकरके शरीरकी ऊँचाईसे बारह गुनी ऊँचाईवाली कही गयी है। इनका आयाम और विस्तार ज्ञानियोको इनके योग्य जान लेना चाहिए ॥१४०-१४२॥ समवशरणमे स्थित वनोकी, सर्व भवनोकी तथा पर्वतोकी ऊँचाई भी इतनी ही द्वादशांग श्रुत-सागरके पारगामी गणधर देवोने कही है ॥१४३॥ पर्वत अपनी ऊँचाईसे आठ गुणित विस्तीर्ण है, और स्तूपोकी मोटाई उनकी ऊँचाईसे निश्चयतः कुछ अधिक है ॥१४४॥ विद्वत्त्वोके ज्ञाता, देव-पूजित गणधरदेव वनवेदिकादिकी चौडाई ऊँचाईसे चौथाई कहते हैं ॥१४५॥ इस वनके मध्यमे कही नदियाँ, कही बापियाँ, कही सिकता-(बालुका-) मण्डल, और कहीपर सभागृह आदि थे ॥१४६॥ इन वनवीथीको घेरे हुए सुवर्णमयी, उन्नत और चार गोपुर द्वारोसे भूषित वनवेदिका थी ॥१४७॥ इसके तोरणद्वार, मागलिक द्रव्य, आभूषण सम्पदा, और गीत-नृत्य वादित्रादिकी शोभा पूर्वोक्त वर्णनके समान ही जाननी चाहिए ॥१४८॥

अथोल्लङ्घ्य प्रतोली ता परित् परिवीर्यभूत् । नानाप्रासादपङ्क्तिभिर्निर्मिता देवशिल्पिभि ॥१४९॥
 हिरण्मयमहास्तम्भा वज्राधिष्ठानबन्धिता । चन्द्रकान्तशिला दिव्यभित्तयो मणिचित्रिता ॥१५०॥
 महर्म्यद्वितला केचित्केचिच्च त्रिचतुस्तला । चन्द्रशालयुता केचिद्बलभित्तन्दशोभिता ॥१५१॥
 प्रासादा भान्ति ते तुङ्गा स्वतेजोम्बुविमध्यगा । दीप्रा उत्तुङ्गकूटाग्रैर्योत्सनाया निर्मिता इव ॥१५२॥
 कूटागारसमागेहप्रेक्षशाला बभु कचित् । शय्यासनयुतास्तुङ्गा सोपाना श्वेतिताम्बरा ॥१५३॥
 सगन्तरी सुरा व्यन्तरा ज्योतिष्का खगेऽत्ररा । पन्नगा किन्नरै सार्व रमन्ते तेषु चान्वहम् ॥१५४॥
 केचित्तद्गीतगावैश्च केचिद्वादित्रवादनै । नृत्तधर्मादिगोष्ठीभिर्जिनमाराधयन्ति ते ॥१५५॥
 पद्मरागमयास्तुङ्गाश्चिता स्तूपा नवोद्यु । वीथीना मध्यभूभागे सिद्धार्हत्प्रतिमाव्रजे ॥१५६॥
 स्तूपानामन्तरेष्वेषा मणितोरणमालिका । विचित्रितनभोभागा भान्तीवेन्द्रधनुर्निभा ॥१५७॥
 द्विधाचर्चोर्वर्ध्वजच्छत्रसर्वमङ्गलसपदा । धर्ममूर्तय एवैव राजन्ते ते स्वतेजसा ॥१५८॥
 तत्राभिषिच्य सपूज्य मव्यास्ता प्रतिमा परा । तत् प्रदक्षिणीकृत्य स्तुत्वाऽर्जयन्ति सद्वृषम् ॥१५९॥
 स्तूपहर्म्यावलीरुद्धामुल्लङ्घ्य ता गही तत् । नभ स्फटिकशाङ्गोऽभूत्स्फुरज्ज्योत्सनात्तदिकट ॥१६०॥
 त्रिभ्रजन्तेऽस्य शालस्य दिव्यानि गोपुराणि च । पद्मरागमयान्युच्चैर्भव्यरागमयानि च ॥१६१॥
 अत्रापि पूर्ववद्ज्ञेया मङ्गलद्रव्यसपदा । नेपथ्यतोरणा सर्वे निधयो नर्तनादय ॥१६२॥

इसके पश्चात् इस प्रतोलीको उल्लघन करके उससे आगे सर्व ओर एक और वीथी थी जो देव-शिल्पियोसे निमित्त नाना प्रकारके प्रासाद-(भवन)-पक्तियोसे शोभित हो रही थी ॥१४९॥ उन प्रासादोके सुवर्णमयी महास्तम्भ थे, उनका वज्रमय अधिष्ठान बन्धन था, चन्द्रकान्तमणिमयी शिलावाली उनकी दिव्य भित्तियाँ थी और वे नाना प्रकारकी मणियोसे जड़ी हुई थी ॥१५०॥ उस प्रासाद-पक्तिमे कितने ही भवन दो खण्डवाले, कितने ही तीन खण्डवाले और कितने चार खण्डवाले थे। कितने ही चन्द्रशाला (छत) से युक्त थे और कितने ही बलभी (छज्जा और गेलेरी) से शोभित थे ॥१५१॥ देदीप्यमान, ऊँचे कूटाग्रोसे शोभित, अपने तेजकान्तिरूपी समुद्रके मध्यमे अवस्थित वे प्रासाद ऐसे शोभा दे रहे थे, मानो चन्द्रकी चन्द्रिकासे ही निमित्त हुए हो ॥१५२॥ वे प्रासाद कूटागार, मभागृह, प्रक्षणशाला, शय्या और आसनोसे युक्त एव उत्तुग थे। उनके सोपान अपनी धवलिमासे आकाशको धवलित कर रहे थे ॥१५३॥ उनमे गन्धर्व, व्यन्तर, ज्योतिष्क और पन्नगदेव, तथा विद्यावर किन्नरोके साथ सदा क्रीडा कर रहे थे ॥१५४॥ उनमे से कितने ही गीत-गायनोसे, कितने ही वादित्र बजानेसे, कितने ही नृत्योसे और कितने ही धर्मगोष्ठी आदिके द्वारा जिनभगवान्की आरावना कर रहे थे ॥१५५॥ उन वीथियोके मध्य भूभागमे पद्मराग मणिमयी, नौ ऊँचे स्तूप थे जो सिद्ध और अरहन्तदेवकी प्रतिमाओके समूहसे युक्त थे ॥१५६॥ इन स्तूपोके अन्तरालमे नभोभागको चित्र-विचित्रित करनेवाली मणिमयी तोरणमालिकाएँ इन्द्रवनुषके समान शोभित हो रही थी ॥१५७॥ वे अर्हन्त सिद्धोकी प्रतिमासमूहसे, ध्वजा-छत्रादि सर्व सम्पदासे और अपने तेजसे धर्ममूर्तियोके समान शोभायमान हो रही थी ॥१५८॥ वहाँपर जाकर भव्य जीव उन उत्तम प्रतिमाओका अभिषेक कर, पूजन कर, प्रदक्षिणा देकर और स्तुति करके उत्तम धर्मका उपार्जन कर रहे थे ॥१५९॥ इस स्तूप और प्रासादोकी पक्तिसे व्याप्त वीथीवाली भूमिका उल्लघन कर उससे कुछ आगे अपनी स्फुरायमान शुभ्र ज्योत्सनासे दिग्भागको आलोकित करनेवाला, आकाशके समान स्वच्छ स्फटिकमणिमयी एक शाल (प्राकार) था। इस शालके पद्मरागमणिमयी, ऊँचे दिव्य गोपुरद्वार शोभित हो रहे थे, जो ऐसे प्रतीत होते थे, मानो भव्य जीवाका धर्मानुराग ही एकत्रित हो गया है ॥१६०-१६१॥ यहाँपर भी पूर्वके समान ही मङ्गलद्रव्यसम्पदा, आभूषणयुक्त तोरण, नवो निधियाँ और गीत-वादित्र-नर्तन

भान्ति चामरतालाब्दध्वजछत्रै सहोजिता । सुप्रतिष्ठिकभृङ्गारकलशा गोपुर प्रति ॥१६३॥
 द्वारेषु त्रिकशालाना गदादिपाणय सुरा । द्वारपाला क्रमादासन् भौमभावननाकजा ॥१६४॥
 तत्राच्छस्फटिकाच्छालादापीठान्त समायता । भित्तय षोडशाभूवन् महावीध्यन्तराश्रिता ॥१६५॥
 तासा स्फटिकभित्तीना मूर्ध्नि श्रीमण्डपोऽभवत् । वियद्गन्तमयस्तुङ्गो रत्नस्तम्भै समुद्भूत ॥१६६॥
 सत्य श्रीमण्डपोऽत्राय जगच्छ्रीमद्गिराभृत । यत्रार्हद्भ्वनिना मव्या लभन्ते बुशिवश्रियम् ॥१६७॥
 तन्मध्ये राजते तुङ्गा प्रथमा पीठिका तराम् । वैदूर्यरत्ननिर्माणा तेजसा व्याप्तदिग्मुखा ॥१६८॥
 तस्या षोडशसोपानमार्गा स्यु षोडशान्तरा । चतुर्दिक्षु द्विषट्कोष्ठप्रवेशेषु च विस्तृता ॥१६९॥
 पीठिका तामलचक्रुरद्यौ मङ्गलभूतय । यक्षैश्च धर्मचक्राणि प्रोद्भूतानि स्वमूर्धिभि ॥१७०॥
 सहस्राराणि तान्युच्चैर्वदन्तीवाञ्जुवाक्चयै । धर्मं जगत्सता भान्ति जिनाश्रयाद्दसन्ति वा ॥१७१॥
 तस्या उपरि स-पीठमभवद्द्वितीय परम् । तुङ्ग हिरण्यमय कान्त्या जितादित्येन्दुमण्डलम् ॥१७२॥
 चक्रेभेन्द्रवृषाम्भोजदिव्याशुकमृगेशिनाम् । गरुडस्य च माल्यस्य ध्वजा अष्टौ मनोहरा ॥१७३॥
 तस्योपरितले तुङ्गा राजन्ते दीप्रविग्रहै । दिक्ष्वष्टासु सुपीठस्य सिद्धाष्टगुणसनिमा ॥१७४॥
 तस्योपरि स्फुरद्गन्तरोचिर्विध्वस्तमश्चयम् । सर्वरत्नमय ह्यासीत्तृतीय पीठमूजितम् ॥१७५॥

आदि सब साज-बाज थे ॥१६२॥ प्रत्येक गोपुर द्वारपर चामर, तालवृन्त, दर्पण, ध्वजा, और छत्रोके साथ प्रकाशमान सुप्रतिष्ठिक, भृङ्गार और कलश ये अष्ट मंगलद्रव्य शोभित हो रहे थे ॥१६३॥

उक्त तीनों ही शालोके द्वारोपर गदा आदिको हाथोमे लिये हुए व्यन्तर, भवनवासी और कल्पवासी देव क्रमसे द्वारपाल बनकर खड़े हुए थे ॥१६४॥ वहाँपर उक्त स्वच्छ स्फटिक मणिमयी शालसे लेकर पीठ-पर्यन्त लम्बी, चारो महावीथियोके अन्तरालके आश्रित सोलह भित्तियाँ थीं ॥१६५॥

उन स्फटिकमणिमयी भित्तियोंके शिखरपर रत्नमयी स्तम्भोसे उठायी हुआ, निर्मल रत्न-निर्मित, उत्तुग श्रीमण्डप था ॥१६६॥ यह सत्यार्थमे श्रीमण्डप ही था, क्योंकि यह तीन जगत्की सर्वोत्कृष्ट श्री (लक्ष्मी) से भर-पूर था और जहाँपर आकर भव्यजीव अर्हन्तदेवकी दिव्यध्वनिसे स्वर्ग और मोक्षकी श्रीको प्राप्त करते थे ॥१६७॥ उस श्रीमण्डपके मध्यमे ऊँची प्रथम पीठिका अति शोभित हो रही थी, जो कि वैदूर्यरत्नोसे निर्माण की गयी थी और अपने तेजसे सर्व दिशाओके मुखोंको व्याप्त कर रही थी ॥१६८॥

उस प्रथम पीठिकाके सर्व ओर सोलह अन्तराल-युक्त सोलह सोपानमार्ग थे । जिनमे से चार सोपानमार्ग तो चारो दिशाओमे थे और बारह सोपानमार्ग बारह कोठोके प्रवेशद्वारोकी ओर फैले हुए थे ॥१६९॥

इस प्रथम पीठिकाको आठो मंगलद्रव्य अलकृत कर रहे थे और यक्षदेव अपने मस्तकोपर धर्मचक्रोको धारण किये हुए खड़े थे । वे धर्मचक्र एक-एक हजार आरेवाले थे और ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो अपनी किरणरूप वचन समूहसे जगत्के सज्जनोको धर्मका स्वरूप ही कह रहे हो, अथवा जिनदेवके आश्रयसे हँस ही रहे हो ॥१७०-१७१॥

इस प्रथम पीठके ऊपर हिरण्यमयी अति उन्नत द्वितीय पीठ था, जो अपनी कान्तिसे चन्द्रमण्डलको जीत रहा था ॥१७२॥ इस दूसरे पीठके उपरितलपर चक्र, गजराज, वृषभ, कमल, दिव्याशुक, सिंह, गरुड और मालाकी आठ मनोहर ऊँची ध्वजाएँ आठों दिशाओमे शोभायमान हो रही थी, जो अपने प्रदीप आकारोसे सिद्धोके आठ गुणोके सदृश प्रतीत हो रही थी ॥१७३-१७४॥ इस द्वितीय पीठके ऊपर अपनी स्फुरायमान रत्नकिरणोके द्वारा

भाति तत्परम पीठ जित्वा तेजासि नाकिनाम् । स्वाशुभिर्हसतीवात्रानेकमङ्गलसपदा ॥१७६॥
 तस्योपरि जगत्सारा पृथ्वी गन्धकुटी पराम् । रैराड् निवेशयामास तेजोमूर्तिमिवाद्भुताम् ॥१७७॥
 भाति सार्थकनाम्नी सा सुगन्धीकृतखाङ्गणा । दिव्यगन्धमहाधूपनानास्रकूपुष्पवर्णनै ॥१७८॥
 तस्या या यक्षराट्चक्रे दिव्या हि रचना पराम् । नानाभरणविन्यासैर्मुक्ताजालैर्गतोपमै ॥१७९॥
 हैमैर्जालैस्तरा स्थूलै स्फुरद्रत्नैस्तमोपहै । ता को वर्णयितु शक्तो बुध श्रीगणिन विना ॥१८०॥
 तस्या मध्ये व्यधाद् रैद परावर्धमणिभूषितम् । हैम सिहासन दिव्य स्वप्रभाजितभास्करम् ॥१८१॥
 विष्टर तदलचक्रे कीट्यादित्याधिकप्रभ । भगवान् श्रीमहावीरस्त्रिजगद्भव्यवेष्टित ॥१८२॥
 अनन्तमहिमारुढो विश्वाङ्गचुद्धरणक्षम । चतुर्भिरङ्गुलै स्वेन महिम्नाऽस्पृष्टतत्तल ॥१८३॥
 इत्थ श्रीजिनपुङ्गवो बुधनुतो विश्वैकचूडामणि सप्राप्त परमा विभूतिमतुला बाह्या सुरै कल्पिताम् ।
 अन्तातीतगुणै सम निरुपमै कैवल्यभूत्या च यस्त लोकैकपिताऽह गुणगणै श्रीवर्धमान स्तुवे ॥१८४॥
 यो लोकत्रयतारणैकचतुर कर्मारिविध्वसक
 आस्ते दिव्यसभागणै परिवृतो धर्मोपदेशोद्यत ।
 नो निष्कारणवान्धवस्त्रिजगति श्रीवीरनाथो महा
 तलब्धानन्तचतुष्टय स्वशिरसा तद्भूतये नोमि तम् ॥१८५॥

अन्धकारके समूहको विध्वस्त करनेवाला, सर्वरत्नमयी तेजस्वी तृतीय पीठ था ॥१७५॥ यह परम पीठ अपनी उज्ज्वल किरणोंके द्वारा और अनेक मागलिक सम्पदासे देवोंके तेजोको जीतकर हँसता हुआ शोभित हो रहा था ॥१७६॥ इस तीसरे पीठके ऊपर कुबेरराजने जगत्मे सारभूत उत्कृष्ट गन्धकुटी नामकी पृथ्वीको रचा था जो कि अद्भुत तेजोमूर्तिके समान थी ॥१७७॥

वह दिव्य सुगन्धीवाले धूपोंसे, और नाना प्रकारके पुष्पोंकी वर्षासे गगनागणको सुगन्धित करती हुई अपना 'गन्धकुटी' यह नाम सार्थक कर रही थी ॥१७८॥ यक्षराजने उस गन्धकुटीकी दिव्य रचना नाना प्रकारके आभरण-विन्यासोंसे, उपमा-रहित मुक्ताजालोंसे, सुवर्ण-जालोंसे, स्थूल, स्फुरायमान और अन्धकार-विनाशक रत्नोंसे की थी, उसकी शोभाका वर्णन करनेके लिए श्री गणधरदेवके बिना और कौन बुद्धिमान् समर्थ है ॥१७९-१८०॥

उस गन्धकुटीके मध्यमे यक्षराजने अनमोल उत्कृष्ट मणियोंसे भूषित, अपनी प्रभासे सूर्यकी प्रभाको जीतनेवाला, स्वर्णमयी दिव्य सिंहासन बनाया था ॥१८१॥ उस सिंहासनको कोटिसूर्यकी प्रभासे अधिक प्रभावले और तीन लोकके भव्यजीवोंसे वेष्टित श्री महावीर प्रभु अलङ्कृत कर रहे थे ॥१८२॥

उसपर अनन्त महिमाशाली, विश्वके सर्वप्राणियोंके उद्धार करनेमे समर्थ, और अपनी महिमासे सिंहासनके तलभागको चार अंगुलोंनेही स्पर्श करते हुए भगवान् अन्तरिक्षमे विराजमान थे ॥१८३॥

इस प्रकार विद्वज्जनोंसे नमस्कृत, विश्वके एकमात्र चूडामणि, जिनश्रेष्ठ श्रीवीरप्रभुने देवोंद्वारा रचित बाहरी अतुल उत्कृष्ट समवशरण विभूतिको, तथा अनुपम अनन्त गुणोंके साथ केवल विभूतिको प्राप्त किया, उन लोकके अनुपम पितामह श्री वर्धमान जिनेन्द्रकी मै गुणगणोंके द्वारा स्तुति करता हूँ ॥१८४॥ जो श्री वीरनाथ तीनों लोकोंके तारनेमे कुशल है, कर्म-शत्रुओंके विध्वंसक है, दिव्य सभागणोंसे परिवृत है, धर्मोपदेश देनेके लिए उद्यत है, जो तीन जगत्के जीवोंके अकारण बन्धु है, और अनन्त चतुष्टयको जिन्होंने प्राप्त किया है और जो महान् है, ऐसे श्री महावीर प्रभुको मै उनकी विभूति पानेके लिए अपना मस्तक

असमगुणनिधानं केवलज्ञाननेत्रं त्रिभुवनपतिसेव्यं विश्वलोकैकबन्धुम् ।
निहतसकलदोषं धर्मचिन्तार्थकर्तारमिह शिवगुणाप्त्यै सस्तुवे वीरनाथम् ॥१८६॥

इति श्रीभट्टारकसकलकीर्तिविरचिते श्रीवीरवर्धमानचरिते देवागमन-
भगवत्समवशरणरचनावर्णनो नाम चतुर्दशोऽधिकार ॥१४॥

झुंकार नमस्कार करता हूँ ॥१८५॥ जो अनुपम गुणोंके निधान है, केवलज्ञानरूप नेत्रके धारक है, त्रिभुवनके स्वामियो द्वारा सेवित है, समस्त विश्वके एकमात्र बन्धु है, सर्व दोषोंके नाशक है, इस भूतलपर धर्मतीर्थके कर्ता है, ऐसे श्री वीरनाथकी मैं शिवके गुणोंकी प्राप्तिके लिए स्तुति करता हूँ ॥१८६॥

इति श्री भट्टारक सकलकीर्ति-विरचित श्री वीरवर्धमानचरितमे देवोका आगमन और भगवान्के समवशरण-रचनाका वर्णन करनेवाला चौदहवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥१४॥

पञ्चदशोऽधिकार

श्रीमते केवलज्ञानसाम्राज्यपदशालिने । नमो वृताय भव्योवैर्धर्मतीर्थप्रवर्तिने ॥१॥
परितस्त जिनाधीश व्याप्य स्वास्थानभूतलम् । सर्वं कुसुमवृष्टी प्रकुर्वन्ति सुरवारिदा ॥२॥
आयान्ती सा नमोभागाद्गन्धाकृष्टालिगुञ्जनै । गायन्तीव जगन्नाथ भाति दिव्या तताम्बरा ॥३॥
सार्धंकारुणाधरस्तुङ्गो जगच्छोकापनोदनात् । आसीदशोकवृक्षोऽत्र जिनाभ्यासेऽतिदीधिमान् ॥४॥
विचित्रैर्मणिपुष्पैर्मरकतादिसुपल्लवै । चलच्छाखैर्महान् भाति भव्यानाह्वयतीव स ॥५॥
विभो शिरसि दीप्राङ्ग मुक्तालम्बनभूषितम् । नानारत्नव्रजैर्दिव्यै पिनद्धदण्डमूर्जितम् ॥६॥
श्वेतछत्रत्रय दीप्त्या जितचन्द्र विराजते । त्रैलोक्याधिपतित्व हि सता सूचयतीव भो ॥७॥
क्षीराब्धिर्वीचिसादृश्यैश्चतु षष्टिप्रकीर्णकै । यक्षपाण्यापितैर्दिव्यैर्वीज्यमानो जगद्गुरु ॥८॥
त्रिजगद्भव्यमध्यस्थो लक्ष्म्याऽलकृतविग्रह । वरोत्तम इवाभाति मुक्तिनार्यं सुरुपवान् ॥९॥
सार्धंद्वादशकोटिप्रमा जिताम्बुदगर्जना । देवदुन्दुभयो देवकरैराताडिता परा ॥१०॥
तर्जयन्त इवानेककर्मारतीन् जगत्सताम् । कुर्वन्ति विविधान् शब्दान् सुजिनोत्सवसूचकान् ॥११॥
दिव्यौदारिकदेहोत्थ दीप्त भामण्डल प्रभो । कान्त विराजते रम्य कोटिसूर्याधिकप्रभम् ॥१२॥
निराबाध निरौपम्य प्रिय विश्वाङ्गिचक्षुषाम् । यशसा पुञ्ज एवैव निधिर्वा तेजसा परम् ॥१३॥
जिनेन्द्रश्रीमुखसद्दिव्यध्वनिर्विश्वहितकर । निर्याति प्रत्यह सर्वतत्त्वधर्मादिसूचक ॥१४॥

केवलज्ञानरूप साम्राज्यपदके भोक्ता, भव्य जीवासे वेष्टित, और धर्मतीर्थके प्रवर्तक श्रीमान् महावीर स्वामीके लिए नमस्कार है ॥१॥ जिस गन्वकुटीमे भगवान् विराजमान थे उस स्थानके सर्व भूभागको व्याप्त कर देवरूपी मेघ पुष्पोकी वर्षा कर रहे थे ॥२॥ गगनमण्डलसे आती हुई वह दिव्य पुष्पवृष्टि अपनी सुगन्धिसे आकृष्ट हुए भ्रमरोकी गुजारसे जगत्के नाथ वीर जिनेश्वरके गुणोको गाती हुई-सी प्रतीत हो रही थी ॥३॥ जिनदेवके समीपमे अति उन्नत दीप्तिमान् अशोकवृक्ष था, जो कि जगत्के जीवोके शोकको दूर करनेसे अपने नामको सार्धक कर रहा था ॥४॥ वह महान् अशोकवृक्ष मणिमयी विचित्र पुष्पोसे, मरकतमणि-जैसे वर्णवाले उत्तम पत्तोसे, तथा हिलती हुई शाखाओसे भव्य जीवोको बुलातासा प्रतीत होता था ॥५॥ प्रभुके शिरपर दीप्त कान्तिवाला, मुक्तामालाओसे भूषित, दिव्य नाना रत्न-समूहसे जटित दण्डवाला, और अपनी कान्तिसे चन्द्रमाकी कान्तिको जीतनेवाला छत्रत्रय सज्जनोको भगवान्के तीन लोकके स्वामीपनेकी सूचना देते हुएके समान शोभित हो रहा था ॥६-७॥ क्षीरसागरकी तरगोके सदृश शुभ्र वर्णवाले, यक्षोके हस्तो द्वारा चौसठ चामरोसे वीज्यमान, तीन लोकके भव्य जीवोके मध्यमे स्थित, और लक्ष्मीसे अलकृत शरीरवाले, उत्तम रूपवाले जगद्-गुरु श्री वर्धमान स्वामी मुक्तिरमाके उत्तम वरके समान शोभित हो रहे थे ॥८-९॥ मेघोकी गर्जनाको जीतनेवाली, देवोके हाथोसे बजायी जाती हुई साढे बारह करोड उत्तम देव-दुन्दुभियोँ अनेक कर्म-शत्रुओकी तर्जना करती हुई और जगत्के सज्जनोको उत्तम जिनोत्सवकी सूचना करती हुई नाना प्रकारके शब्दोको कर रही थी ॥१०-११॥ भगवान्के दिव्य औदारिक शरीरसे उत्पन्न हुआ देदीप्यमान कोटि सूर्यसे भी अधिक प्रभावाला रम्य भामण्डल शोभित हो रहा था ॥१२॥ वह भामण्डल सर्वबाधाओसे रहित, अनुपम, सर्व प्राणियोके नेत्रोको प्रिय, यशोका पुञ्ज अथवा तेजोका निधान-सा ही प्रतीत हो रहा था ॥१३॥ वीरजिनेन्द्रके श्रीमुखसे निकलनेवाली, विश्वहित-कारिणी, सर्व-

एकरूपो यथा मेघजलौघ पात्रयोगत । चित्ररूपो द्रुमादीना जायते फलभेदकृत् ॥१५॥
 तथा दिव्यध्वनिश्चादावेकरूपोऽप्यनक्षर । नानाभाषामयो व्यक्तरूपोऽक्षरमयो महान् ॥१६॥
 जायतेऽनेकदेशोऽप्यनाना नृणा च नाकिनाम् । पशूना धर्मचिद्वक्त्रा विश्वसदेहनाशकृत् ॥१७॥
 रत्नपीठत्रयाग्रस्थ सिंहासनमनुत्तरम् । आरूढो जगता नाथो धर्मराजैव भात्यहो ॥१८॥
 इत्यनर्घ्यैर्महादिव्यै प्रातिहार्याष्टभि परै । अलकृतो महावीरो समाथा राजते तराम् ॥१९॥
 विभो प्राग्दिशमारभ्य सत्कोष्ठे प्रथमे शुभे । गणीन्द्राद्या मुनीशौघा स्थितिं चक्रे शिवाप्तये ॥२०॥
 द्वितीये कल्पनार्थश्चोन्द्राणीप्रमुखाश्चिदे । तृतीये चार्थिका सर्वा श्राविकाभि सम मुदा ॥२१॥
 चतुर्थे ज्योतिषा देव्य पञ्चमे व्यन्तराङ्गना । षष्ठे भावनदेवाना पद्मावत्यादिदेवता ॥२२॥
 सप्तमे धरणेन्द्राद्या सर्वे च भावनामरा । अष्टमे व्यन्तरा सेन्द्रा नवमे ज्योतिषा सुरा ॥२३॥
 चन्द्रसूर्यादय सेन्द्रा दशमे कल्पवासिन । एकादशसत्कोष्ठे च खगेशप्रमुखा नरा ॥२४॥
 कोष्ठे द्वादशमे तिर्यञ्चोऽहिसिंहमृगादय । इति द्वादशकोष्ठेषु परीत्य त्रिजगद्गुरुम् ॥२५॥
 द्विषड्भेदा गणा भक्त्या कृताञ्जलिपुटा शुभा । तिष्ठन्त्यग्निदाहार्ता पातु तद्गचनामृतम् ॥२६॥
 वेष्टितस्तैजगद्गर्ता मासतेऽत्यन्तसुन्दर । सर्वेषा धर्मिणा मध्ये धर्ममूर्तिरिवोच्छ्रित ॥२७॥
 अथ ते सामरा देवाधीशा धर्मरसोक्तया । भाले कृतकराब्जा जयजयादिप्रघोषका ॥२८॥

तत्त्व और धर्मको प्रकट करनेवाली दिव्य ध्वनि प्रतिदिन प्रकट होती थी ॥१४॥ जैसे मेघोसे बरसा हुआ एक रूपवाला, जलसमूह वृक्षादिकोके पात्र-योगसे विविध प्रकारके फलोका उत्पन्न करनेवाला होता है, उसी प्रकार भगवान्की एक रूपवाली भी अनक्षरी दिव्यध्वनि नाना भाषामयी और व्यक्त अक्षरवाली होकर अनेक देशोमे उत्पन्न हुए मनुष्यो, पशुओ और देवोके समस्त सन्देहोका नाश करनेवाली और धर्मका स्वरूप कथन करनेवाली थी ॥१५-१७॥ तीन रत्नपीठोके अग्रभागपर स्थित अनुपम सिंहासनपर विराजमान ऐसे तीन जगत्के नाथ वीरजिनेन्द्र धर्मराजाके समान शोभित हो रहे थे ॥१८॥ इस प्रकार इन अमूल्य उत्कृष्ट आठ महाप्रातिहार्योसे अलकृत भगवान् महावीर समवशरण-सभामे अत्यन्त शोभायमान हो रहे थे ॥१९॥

इस समवशरण-सभामे बारह कोठे थे । उनमे-से भगवान्की पूर्वदिशासे लेकर प्रथम शुभ प्रकोष्ठमे गणधरादि मुनीश्वरोका समूह शिवपदकी प्राप्तिके लिए विराजमान था ॥२०॥ दूसरे कोठेमे इन्द्राणी आदि कल्पवासिनी देवियाँ विराजमान थीं । तीसरे कोठेमे सर्व आर्थिकाएँ श्राविकाओके साथ हर्षसे बैठी हुई थी ॥२१॥ चौथे कोठेमे ज्योतिषी देवोकी देवियाँ बैठी थी । पाँचवे कोठेमे व्यन्तर देवोकी देवियाँ और छठे कोठेमे भवनवासी देवोकी पद्मावती आदि देवियाँ बैठी थी ॥२२॥ सातवे कोठेमे धरणेन्द्र आदि सभी भवनवासी देव बैठे थे । आठवे कोठेमे अपने इन्द्रोके साथ व्यन्तर देव बैठे थे । नवमे कोठेमे चन्द्र-सूर्यादि ज्योतिषी देव बैठे थे ॥२३॥

दशवे कोठेमे कल्पवासी देव बैठे थे । ग्यारहवे कोठेमे विद्याधर आदि मनुष्य बैठे थे और बारहवे कोठेमे सर्प, सिंह, मृगादि तिर्यञ्च बैठे थे । इस प्रकार बारह कोठोमे बारह गणवाले जीव भक्तिसे हाथोकी अजलि बाँधे हुए, ससारतापकी अग्निसे पीडित होनेसे उसकी शान्तिके लिए भगवान्के वचनामृतका पान करनेके इच्छुक होकर त्रिजगद्-गुरुको घेरकर बैठे हुए थे ॥२४-२६॥ उक्त बारह गणोसे वेष्टित, अत्यन्त सुन्दर, जगद्-भर्ता श्री वर्धमान भगवान् सर्वधर्मीजनोके मध्यमे उन्नत धर्ममूर्तिके समान शोभायमान हो रहे थे ॥२७॥

अथानन्तर धर्मरूप रसके पान करनेके उत्कट अभिलाषी वे सौधर्मादि इन्द्र अपने-

त्रि परीत्य जिनास्थानमण्डल शरण सताम् । प्रविशन् परया भक्त्या द्रष्टुकामा जगद्गुरुम् ॥२९॥
 मानस्तम्भमहाचैत्यदुमस्तूपेषु सस्थितान् । जिनेन्द्रसिद्धविम्बौघान् पूजयन्तो महार्चनै ॥३०॥
 लोकयन्तो निरापम्या दिव्या तद्रचना पराम् । देवै कृता क्रमाच्छक्रास्तत्समा विविशुर्मुदा ॥३१॥
 तत्रोत्तुङ्गपदारूढ तुङ्गसिंहासनाश्रितम् । तुङ्गकाय महातुङ्गमुत्तुङ्गैर्गुणकोटिभि ॥३२॥
 चतुर्वक्त्र महावीर वीज्यमान प्रकीर्णकम् । ददृशु परया भूत्वा शक्रा विस्फारितेक्षणा ॥३३॥
 ततस्त त्रि परीत्योच्चैर्भक्तिमारवशीकृता । भक्त्या विन्यस्य भूमार्गे स्वजानून् कर्महानये ॥३४॥
 भुवनत्रयससेव्यौ जिनेन्द्रस्य पदाम्बुजौ । नाकिनाथा स्फुरन्मूर्ध्ना प्रणेमुर्निर्जरै समम् ॥३५॥
 शच्याद्या सरूला देव्य स्वाप्सरोमि सम मुदा । पञ्चाङ्ग सत्प्रणाम त्रिजगन्नाथाय चक्रिरे ॥३६॥
 तत्प्रणामे सुरेन्द्राणा रत्नशेखररश्मिभि । विचित्रिताविवाभाता जिनेन्द्रचरणाम्बुजौ ॥३७॥
 अकृच्छायामराधीशास्तद्गुणग्रामरञ्जिता । परया दिव्यसामग्र्या तत्पूजा कर्तुमुद्ययु ॥३८॥
 कनकाञ्चनभृङ्गारनालेभ्य स्वच्छवारिजा । धारा स्वाघविशुद्धयै ते तत्क्रमाग्रे न्यपातयन् ॥३९॥
 तथाचैर्यन् महाभक्त्या दिव्यगन्धैर्विलेपनै । इन्द्रा भगवतो रम्य पीठाग्र मुक्तिमुक्तये ॥४०॥
 मुक्ताफलमयैर्दिव्यैरक्षते श्वेतिताम्बरै । व्यधु पञ्चोन्नतान् पुञ्जास्तदग्रेऽक्षयशर्मणे ॥४१॥
 दिव्यै कल्पद्रुमोद्भूतै पुष्पमालादिकोटिभि । चक्रुस्ते महती पूजा विभो सर्वार्थसधिनीम् ॥४२॥
 सुधापिण्डजनैवेद्यान् रत्नथालापितान् सुरा । प्रमो पादाम्बुजे भक्त्याऽऽदौक्यन् स्वसुखाप्तये ॥४३॥

अपने देव-परिवारके साथ मस्तकपर कर-कमलोको रखे और जय-जय आदि घोषणा करते हुए समवशरणमे प्रविष्ट हुए। उन्होंने सज्जनोको शरण देनेवाले उस समवशरण मण्डलकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं। पुनः जगद् गुरु श्री वीरजिनेन्द्रके दर्शनोके इच्छुक उन देवेन्द्रादिकोने परम भक्तिके साथ मानस्तम्भ, महाचैत्यवृक्ष और स्तूपोमे विराजमान जिनेन्द्र और सिद्ध भगवन्तोके विम्ब-समूहकी महान् द्रव्योसे पूजा की। पुनः समवशरणकी देवो द्वारा रचित अनुपम दिव्य रचनाको देखते हुए वे हर्षके साथ उस सभामे प्रविष्ट हुए ॥२८-३१॥ वहाँपर उत्तु ग स्थानपर रखे हुए उन्नत सिंहासनपर विराजमान, अति उत्तम कोटि-कोटि गुणोसे उत्तुग कायवाले, चार मुखोके धारक, चामरोसे वीज्यमान महावीर भगवानको विस्फारित नेत्रवाले इन्द्रादिकोने परम विभूतिके साथ देखा ॥३२-३३॥ तब भक्तिभारसे नम्रीभूत होकर उन सबने अति भक्तिके साथ भगवानकी तीन प्रदक्षिणाएँ देकर भूमि-भागपर अपनी जानुओ (घुटनो)को रखकर कर्माँके नाश करनेके लिए तीन लोकके जीवोसे सेवित जिनेन्द्रदेवके चरण-कमलोको इन्द्रोने समस्त देवोके साथ मस्तकसे नमस्कार किया ॥३४-३५॥ शची आदि सभी देवियोने अपनी-अपनी अप्सराओके साथ त्रिजगदीश्वरको अति हर्षसे पचाग नमस्कार किया ॥३६॥ उनके नमस्कार करते समय इन्द्रोके रत्नमयी मुकुटोकी किरणोसे चित्र विचित्र शोभाको धारण करते हुए जिनेन्द्रदेवके चरण-कमल अत्यन्त शोभायमान हो रहे थे ॥३७॥ जिनके शरीरकी छाया नहीं पडती है, ऐसे वे देवोके स्वामी इन्द्रादिक भगवान्-के गुण-ग्रामसे अनुरजित होकर उत्कृष्ट दिव्य सामग्रीके द्वारा वीरजिनेन्द्रकी पूजा करनेके लिए उद्यत हुए ॥३८॥ उन्होने चमकते हुए सुवर्ण-निर्मित शृंगार नालोसे स्वच्छ जलकी धारा अपने पापोकी विशुद्धिके लिए भगवान्के चरणोके आगे छोडी ॥३९॥ पुनः महाभक्तिसे उन इन्द्रोने भुक्ति और मुक्तिकी प्राप्तिके लिए भगवान्के रमणीक पीठके आगे दिव्य गन्ध-विलेपनसे पूजा की ॥४०॥ पुन अपनी स्वच्छतासे आकाशको धवल करनेवाले मुक्ताफलमयी दिव्य अक्षतोसे उन्होने अक्षय सुख पानेके लिए भगवान्के आगे पाँच उन्नत पुज बनाये ॥४१॥ पुनः कल्पवृक्षोसे उत्पन्न हुए दिव्य कोटि-कोटि पुष्पमालादिसे सर्व अर्थोको सिद्ध करनेवाली भगवान्की महापूजा की ॥४२॥ पुनः उन देवोने रत्नोके थालोमे रखे हुए अमृत

स्फुरद्रत्नमयैर्दीपैर्विश्वोद्योतनकारणै । तेऽद्योतयन् जगन्नाथक्रमाब्जौ स्वश्रिदासये ॥४४॥
 कालागुर्वादिसद्-द्रव्यजातैर्धूमोत्करैर्वरै । ततामोदैर्जिनाद्घ्नी तेऽधूपयन् धर्मसिद्धये ॥४५॥
 कल्पशाखिमवैर्नानाफलैर्नेत्रप्रियैर्वरै । तेऽपूजयन् जिनेन्द्राद्घ्नी महाफलप्रसिद्धये ॥४६॥
 पूजान्ते ते सुराधीशा कुसुमाञ्जलिकोटिभि । पुष्पवृष्टिं मुदा चक्रु परितस्त जगद्गुरुम् ॥४७॥
 पञ्चरत्नोद्भवैश्चूर्णैर्विचित्र बलिमूर्जितम् । स्वहस्तेनालिखद्भक्त्या विभोरग्रे शची तदा ॥४८॥
 तत प्रणम्य तीर्थेश तुष्टास्ते देवनायका । ईषन्नन्ना महाभक्त्या स्वहस्तकुड्मलीकृता ॥४९॥
 दिव्यवाचा जिनेन्द्रस्य गुणैरन्तातिगै परै । आरेमिरे स्तुति कर्तुमित्थ तद्गुणहेतवे ॥५०॥
 त्व देव जगता नाथो गुरुणा त्व महागुरु । पूज्याना त्व महापूज्यो वन्द्यस्त्व वन्द्यनानाकिनाम् ॥५१॥
 योगिना त्व महायोगी व्रतिना त्व महाव्रती । ध्यानिना त्व महाध्यानी धीमता त्व महासुधी ॥५२॥
 ज्ञानिना त्व महाज्ञानी यतीना त्व जितेन्द्रिय । स्वामिना त्व पर स्वामी जिगाना त्व जिनोत्तम ॥५३॥
 ध्येयाना त्व सदा ध्येय स्तुत्य स्तुत्यात्मना त्रिभो । दातृणा त्व महादाता गुणिना त्व महागुणी ॥५४॥
 धर्मिणा त्व परो धर्मा हिताना त्व परो हित । त्राता त्व भवभीरुणा हन्ता त्व स्वान्यकर्मणाम् ॥५५॥
 शरण्यो नि शरण्याना सार्थवाह शिवाध्वनि । नि कारणमहाबन्धुरबन्धुना त्व जगद्धित ॥५६॥
 लोभिना त्व महालोभी विश्वाप्रराज्यकाङ्क्षणात् । रागिणा त्व महारागी मुक्तिस्त्रीसङ्गचिन्तनात् ॥५७॥

पिण्डमयी नैवेद्यको अपने सुखकी प्राप्तिके लिए भक्तिके साथ प्रभुके चरण-कमलोमे चढाया ॥४३॥ पुनः स्फुरायमान रत्नमयी, विश्वके प्रकाश करनेमे कारणभूत दीपोके द्वारा अपने चैतन्यस्वरूपकी प्राप्तिके लिए उन इन्द्रोने जगत्के नाथ वीरजिनेन्द्रके चरण-कमलोको प्रकाशित किया ॥४४॥ तत्पश्चात् उन इन्द्रोने कालागुरु आदि उत्तम द्रव्योसे निर्मित, सुगन्धित श्रेष्ठ धूप-समूहसे जिनदेवके चरण-कमलोको धूपित किया ॥४५॥ तदनन्तर कल्पवृक्षोसे उत्पन्न हुए, नेत्र-प्रिय, श्रेष्ठ अनेक महाफलोसे उन्होने मुक्तिरूप महाफलकी सिद्धिके लिए जिनेन्द्रके चरण-कमलोकी पूजा की ॥४६॥ इस प्रकार अष्टद्रव्योसे पूजा करनेके अन्तमे उन इन्द्रोने कोटि-कोटि कुसुमाञ्जलियोसे जगद्-गुरुके सर्व ओर हषित होकर पुष्पवृष्टि की ॥४७॥ तत्पश्चात् इन्द्राणीने प्रभुके आगे पाँच जातिके रत्नोके चूर्णों द्वारा अपने हाथसे भक्तिके साथ अनेक प्रकारके उत्तम साधिया आदिको लिखा ॥४८॥ तदनन्तर पूजा करनेसे अति सन्तुष्ट हुए उन देवोके नायक इन्द्रोने कुछ नन्नीभूत होकर महाभक्तिसे अपने हाथोको जोडकर तीर्थकर प्रभुको नमस्कार कर दिव्य वचनोसे जिनेन्द्रदेवके अन्त-रहित (अनन्त) गुणोके द्वारा उन गुणोकी प्राप्तिके लिए इस प्रकार स्तुति करना प्रारम्भ किया ॥४९-५०॥

हे देव, तुम सारे जगत्के नाथ हो, तुम गुरुजनोके महागुरु हो, पूज्योके महापूज्य हो, वन्दनीय देवेन्द्रोके भी तुम वन्दनीय हो, ॥५१॥ तुम योगियोमे महायोगी हो, व्रतियोमे महाव्रती हो, ध्यानियोमे महाध्यानी हो, और बुद्धिमानोमे तुम महाबुद्धिमान् हो ॥५२॥ ज्ञानियोमे तुम महाज्ञानी हो, यतियोमे तुम जितेन्द्रिय हो, स्वामियोके तुम परम स्वामी हो और जिनोमे तुम उत्तम जिन हो ॥५३॥

ध्यान करने योग्य पुरुषोके तुम सदा ध्येय हो, स्तुति करने योग्य पुरुषोके तुम स्तुत्य हो, दाताओमे तुम महादाता हो और हे प्रभो, गुणीजनोमे तुम महागुणी हो ॥५४॥ धर्मीजनोमे तुम परमधर्मी हो, हितकारकोमे तुम महान् हितकारक हो, भव-भीरुजनोके तुम त्राता (रक्षक) हो और अपने तथा अन्य जीवोके कर्मोके नाश करनेवाले हो ॥५५॥ अशरणोको आप शरण देनेवाले है, शिवमार्गमे सार्थवाह है, अबन्धुओके आप अकारण बन्धु है और जगत्के हितकर्ता है ॥५६॥ लोभीजनोमे आप महालोभी है, क्योकि विश्वके अग्रभागपर स्थित मुक्तिसाम्राज्यकी आकाक्षासे युक्त है । रागियोमे आप महारागी है, क्योकि मुक्ति स्त्रीके

सग्रन्थानां सुसग्रन्थो दृगादिरत्नसग्रहात् । हन्तूणां त्व महाहन्ता कर्मारतिनिकन्दनात् ॥५८॥
 जेतूणां त्व महाजेता कषायाक्षारिनिर्जयात् । निरीहस्त्व स्वकायादौ विश्वाग्रश्रीसमीहक ॥५९॥
 देवीनिकरमध्यस्थो ब्रह्मचारी परोऽसि च । एववक्त्रोऽपि देवस्त्व चतुर्वक्त्रो विलोक्यते ॥६०॥
 श्रिया विश्वातिशायिन्याऽलकृतस्त्व जगद्गुरो । महानिर्ग्रन्थराडत्राद्वितीयोऽसि गणाग्रणी ॥६१॥
 अद्य देव वय धन्या सफल नोऽद्य जीवितम् । कृतार्थाश्चरणा अद्य त्वद्यात्रागमनाद्विभो ॥६२॥
 अद्य न सफला हस्तास्तवेशार्चनतो गुरो । सफळान्यद्य नेत्राणि त्वत्पादाम्बुजवीक्षणात् ॥६३॥
 सार्थकानि शिरास्यद्य त्वत्क्रमाब्जप्रणामत । पवित्राण्यद्य गात्राणि नो भवत्पादसेवनात् ॥६४॥
 सफला अद्य नो वाण्यो देव ते गुणभाषणात् । मनासि निर्मलान्यद्य नाथ ते गुणचिन्तनात् ॥६५॥
 देव ते या महत्स्योऽत्र ह्यनन्ता गुणराशय । अशक्या स्तोतुमस्यर्थं गौतमादिगणेशिनम् ॥६६॥
 स्तुत्यास्ता कथमस्माभि परमा गुणखानय । मत्वेति त्वस्तुतौ नाथ न कृत श्रम ऊर्जित ॥६७॥
 अतो देव नमस्तुभ्य नमोऽनन्तगुणात्मने । नमो विश्वाग्रभूताय नमस्ते गुरवे सताम् ॥६८॥
 नम परात्मने तुभ्य नमो लोकोत्तमाय ते । केवलज्ञानसाम्राज्यभूषिताय नमोऽस्तु ते ॥६९॥
 अनन्तदर्शिने तुभ्य नमोऽनन्तसुखात्मने । नमस्तेऽनन्तवीर्याय मित्राय त्रिजगत्सताम् ॥७०॥
 नम श्रीवर्धमानाय विश्वमागल्यकारिणे । नम सन्मतये तुभ्य महावीराय ते नम ॥७१॥

सगमका चिन्तन करते हैं ॥५७॥ सग्रन्थों (परिग्रहीजनो) में आप महासग्रन्थ हैं, क्योंकि आपने सम्यग्दर्शनादि रत्नोका सग्रह किया है । घातकजनोंमें आप महाघातक हैं, क्योंकि आपने कर्मरूपी महाशत्रुओका घात किया है ॥५८॥ विजेताजनोंमें आप महाविजेता हैं, क्योंकि आपने कषाय और इन्द्रियरूपी शत्रुओको जीत लिया है । अपने शरीरादिमें इच्छा-रहित हो करके भी आप विश्वके अग्रभागपर स्थित मुक्तिलक्ष्मीके वालक हैं ॥५९॥ चतुर्निकाय-वाली देवियोंके समूहके मध्यमें स्थित हो करके भी आप परम ब्रह्मचारी हैं तथा एक मुखवाले हो करके भी आप चार मुखवाले दिखाई देते हैं ॥६०॥ हे जगद्गुरो, आप विश्वातिशायिनी लक्ष्मीसे अलकृत हैं, आप महान् निर्ग्रन्थराज हैं, आपके समान संसारमें कोई दूसरा नहीं है और आप गणके अग्रणी हैं ॥६१॥ हे देव, आज हम लोग धन्य हैं, आज हमारा जीवन सफल हुआ है, और हे प्रभो, आज आपके दर्शनार्थ यात्रामें आनेसे हमारे चरण कृतार्थ हो गये हैं ॥६२॥ हे गुरो, आपका पूजन करनेसे आज हमारे हाथ सफल हो गये हैं और आपके चरण-कमलोको देखनेसे हमारे नेत्र भी सफल हुए हैं ॥६३॥ आपके चरण-कमलोंको प्रणाम करनेसे हमारे ये शिर सार्थक हो गये हैं और आपके चरणोंकी सेवासे हमारे ये शरीर आज पवित्र हुए हैं ॥६४॥ हे देव, आपके गुणोंको कहनेसे हमारी वाणी आज सफल हुई है और हे नाथ, आपके गुणोंका चिन्तन करनेसे हमारे मन आज निर्मल हो गये हैं ॥६५॥ हे देव, आपकी जो अनन्त महागुणराशि है, उसकी सम्यक् प्रकारसे स्तुति करनेके लिए गौतमादि गणधरदेव भी अशक्य हैं, तब हम-जैसे अल्पज्ञानियोंके द्वारा आपकी परम गुणराशि कैसे स्तवनीय हो सकती है । ऐसा समझकर हे नाथ, आपकी स्तुतिमें हमने अधिक श्रम नहीं किया है ॥६६-६७॥ इसलिए हे देव, आपको नमस्कार हैं, अनन्त गुणशाली, आपको नमस्कार हैं, विश्वके शिरोमणि, आपके लिए नमस्कार हैं और सन्तजनोंके गुरु, आपके लिए हमारा नमस्कार है ॥६८॥ हे परमात्मन्, आपके लिए नमस्कार हैं, हे लोकोत्तम, आपके लिए नमस्कार हैं, हे केवलज्ञान साम्राज्यसे विभूषित भगवन्, आपके लिए हमारा नमस्कार है ॥६९॥ हे अनन्तदर्शिन्, आपके लिए नमस्कार हैं, हे अनन्त सुखात्मन्, आपके लिए नमस्कार हैं, हे अनन्तवीर्यशालिन्, आपके लिए नमस्कार हैं, और तीन लोकके सन्तोंके मित्र आपके लिए हमारा नमस्कार है ॥७०॥ संसारका मगल करनेवाले श्री वर्धमान स्वामीके लिए नमस्कार हैं, हे सन्मते आपके

नमो जगत्त्रयीनाथ स्वामिना स्यामिनेऽनिशम् । नमोऽतिशयपूर्णाय दिव्यदेहाय ते नम ॥७२॥
 नमो धर्मात्मने तुभ्य नम सद्धर्ममूर्तये । धर्मोपदेशदात्रे च धर्मचक्रप्रवतिने ॥७३॥
 इति स्तुतिनमस्कारभक्त्याद्यजितपुण्यत । त्वत्प्रसादाज्जगन्नाथ सकला गुणराशय ॥७४॥
 त्वदीया द्रुतमस्माक सन्तु त्वत्पदसिद्धये । यान्तु कर्मारयो नाश सन्मृत्याद्या मवन्तु च ॥७५॥
 इति स्तुत्वा जगन्नाथ मुहुर्नत्वा चतुर्विधा । कृत्वेष्टप्रार्थना भक्त्या सामरा वासवास्तदा ॥७६॥
 ते धर्मश्रवणाय स्वस्वकोष्ठेषु ह्युपाविशान् । जिनेन्द्रसन्मुख्वा भक्त्या देव्योऽपि च हितासये ॥७७॥
 प्रस्तावेऽस्मिन् विलोक्याशु गणान् द्वादशसख्यकान् । स्वस्वकोष्ठेषु चासीनान् सद्धर्मश्रवणोऽसुकान् ॥
 यामत्रये गतेऽप्यस्यार्हंतो न ध्वनिनिर्गम । हेतुना केन जायेतादीन्द्रो हृदीत्यचिन्तयत् ॥७९॥
 तत स्वावधिना ज्ञात्वा गणेशाचरणाक्षमम् । मुनिवृन्द पुनश्चेत्थ देवेन्द्रश्चिन्तयेत्सुधी ॥८०॥
 अहो मध्ये मुनीशाना मुनीन्द्र कोऽपि तादृश । नास्ति योऽर्हन्मुखोद्भूतान् विश्वतत्त्वार्थसचयान् ॥८१॥
 श्रुत्वा सकृत्करोत्यत्र द्वादशाङ्गश्रुतात्मनाम् । सम्पूर्णा रचना शीघ्र योग्यो गणभृत पदे ॥८२॥
 विचिन्त्येत्यनुविज्ञाय गौतम विप्रमूर्जितम् । गणेन्द्रपदयोग्य च गौतमान्वयभूषणम् ॥८३॥
 केनोपायेन सोऽप्यत्रागमिष्यति द्विजोत्तम । इति चिन्ता चकारोच्चै सौधर्मेन्द्र प्रसन्नधी ॥८४॥
 अहो एष मयोपायो ज्ञात आनयन प्रति । विद्यादिगर्वितस्यास्य किञ्चित्पृच्छामि दुर्घटम् ॥८५॥
 काव्यादिमङ्क्षु गत्वाह पुर ब्रह्माभिध किल । तदज्ञानात्स वादार्थी स्वयमत्रागमिष्यति ॥८६॥

लिए हमारा नमस्कार है, हे महावीर, आपके लिए नमस्कार है ॥७१॥ हे जगत्त्रयी नाथ, आपके लिए नमस्कार है, हे स्वामियोके स्वामिन्, आपके लिए नमस्कार है, हे अतिशय सम्पन्न आपके लिए नमस्कार है, और हे दिव्य देहके धारक, आपके लिए हमारा नमस्कार है ॥७२॥ हे धर्मात्मन्, आपके लिए नमस्कार है, हे सद्धर्ममूर्ते, आपके लिए नमस्कार है, हे धर्मोपदेशदातः, आपके लिए नमस्कार है, और हे धर्मचक्रके प्रवर्तन करनेवाले भगवन्, आपके लिए हमारा नमस्कार है ॥७३॥ हे जगन्नाथ, इस प्रकार स्तुति करने, नमस्कार और भक्ति आदिके करनेसे उपाजित पुण्यके द्वारा आपके प्रसादसे आपकी यह सकल गुणराशि आपके पदकी सिद्धिके लिए शीघ्र ही हमें प्राप्त हो, हमारे कर्मशत्रुओका नाश हो और हमें समाधिमरण, बोधिलाभ आदिकी प्राप्ति हो ॥७४-७५॥

इस प्रकार वे चतुनिकायके इन्द्र अपने-अपने देवोके साथ जगन्नाथ श्री वीरप्रभुकी स्तुति करके बार-बार नमस्कार करके और भक्तिके साथ इष्ट प्रार्थना करके धर्मोपदेश सुननेके लिए अपने-अपने कोठोमे जिनेन्द्रकी ओर मुख करके जा बैठे तथा अन्य भव्य जीव और देवियों भी अपनी हितकी प्राप्तिके लिए इसी प्रकार अपने-अपने कोठोमे जिनेन्द्रके सम्मुख जा बैठे ॥७६-७७॥ इसी अवसरमे सम्यक् धर्मको सुननेके लिए उत्सुक और अपने-अपने कोठोमे बैठे हुए बारह गणोको शीघ्र देखकर, तथा तीन प्रहरकाल बीत जानेपर भी इन अर्हन्तदेवकी दिव्यध्वनि किस कारणसे नहीं निकल रही है, इस प्रकारसे इन्द्रने अपने हृदयमे चिन्तवन किया ॥७८-७९॥ तब अपने अवधिज्ञानसे बुद्धिमान् इन्द्रने गणधरपदका आचरण करनेमे असमर्थ मुनिवृन्दको जानकर इस प्रकार विचार किया ॥८०॥ अहो, इन मुनीश्वरोंके मध्यमे ऐसा कोई भी मुनीन्द्र नहीं है, जो कि अर्हन्मुख कमल-विनिर्गत सर्व तत्त्वार्थसचयको एक बार सुनकर द्वादशाङ्ग श्रुतकी सम्पूर्ण रचनाको शीघ्र कर सके और गणधरके पदके योग्य हो ॥८१-८२॥ ऐसा विचार कर गौतमगोत्रसे विभूषित गौतमविप्रको उत्तम एव गणधर पदके योग्य जानकर किस उपायसे वह द्विजोत्तम गौतम यहाँपर आयेगा, इस प्रकार प्रसन्नबुद्धि सौधर्मेन्द्रने गम्भीरतापूर्वक चिन्तवन किया ॥८३-८४॥ कुछ देर तक चिन्तवन करनेके पश्चात् वह मन ही मन बोला—अहो, उसके लानेके लिए मैंने यह उपाय जान लिया है कि विद्या

इत्यालोच्य हृदा धीमान् यष्टिकान्वितसत्करम् । वृद्धब्राह्मणवेष स कृत्वा तन्निकट ययौ ॥८७॥
 विद्यामदोद्धत वीक्ष्य गौतम प्रत्युवाच स । विप्रोत्तमात्र विद्वास्त्व मत्काव्यैक विचारय ॥८८॥
 मद्गुरुश्रीवर्धमानाख्यो मौनालम्बी स विद्यते । ब्रूते मया सम नाह काव्यार्थार्थी त्विहागत ॥८९॥
 काव्यार्थो नात्र जायेताजीविका मम पुष्कला । उपकारश्च भग्याना तव ख्यातिर्भविष्यति ॥९०॥
 तदाकर्ण्य द्विज प्राह वृद्ध त्वत्काव्यमञ्जसा । यदि व्याख्याम्यह सत्य ततस्त्व किं करिष्यसि ॥९१॥
 तत शक्रो जगावित्थ विप्र त्व यदि निश्चितम् । याथातथ्येन मत्काव्य व्याख्यास्याशु तत स्फुटम् ॥९२॥
 तव शिष्यो भवाम्येव नो चेत्त्व किं करिष्यसि । ततोऽवादीत्स रे वृद्ध शृणु मे निश्चित वच ॥९३॥
 व्याख्यामि यद्यह न त्वत्काव्यार्थं मद्दक्षहो स्फुटम् । तर्ह्यह त्वद्गुरो शिष्यो भविष्यामि न सशय ॥९४॥
 एतै पञ्चशतै शिष्यै स्वभ्रातृभ्या सह द्रुतम् । अधुनैव जगत्ख्यातस्यक्त्वा वेदादिज मतम् ॥९५॥
 अस्या मम प्रतिज्ञाया साक्ष्येत्पुरपालक । काश्यपाख्यो द्विजोऽभी च साक्षिणो निखिला जना ॥९६॥
 तच्छ्रुत्वा तेऽवदन् सर्वे क्वचिद्वाचलेदहो । मन्दरो नास्य सद्वाक्य सन्मतेरिव चाहंत ॥९७॥
 इत्यन्योन्यमहो वाचो जाते सति निबन्धने । तयोर्निद्रस्ततो दिव्यगिरेद काव्यमाह स ॥९८॥

त्रैकाल्य द्रव्यषट्क सकलगतिगणा सत्पदार्था नवैव

विश्व पञ्चास्तिकाया व्रतसमितिचिद सप्ततत्त्वानि धर्मा ।

आदिके गर्वसे युक्त उससे कुछ दुर्घट (अति कठिन) काव्यादिके अर्थको शीघ्र उस ब्राह्मणके आगे जाकर पूछूँ ? उस काव्यके अर्थको नहीं जाननेसे वह वाद (शास्त्रार्थ) का इच्छुक होकर स्वय ही यहाँपर आ जायेगा ॥८५-८६॥ हृदयमे ऐसा विचारकर वह बुद्धिमान् सौधर्मेन्द्र लकडी हाथमे लिये हुए वृद्ध ब्राह्मणका वेष बना करके उस गौतमके निकट गया ॥८७॥ विद्याके मदसे उद्धत गौतमको देखकर उसने उनसे कहा—हे विप्रोत्तम, आप विद्वान् हैं, अतः मेरे इस एक काव्यका अर्थ विचार करे ॥८८॥ मेरे गुरु श्री वर्धमान स्वामी हैं, वे इस समय मौन धारण करके विराज रहे हैं और मेरे साथ नहीं बोल रहे हैं । अतः काव्यके अर्थको जाननेकी इच्छावाला होकर मैं आपके पास यहाँ आया हूँ ॥८९॥ काव्यका अर्थ जान लेनेसे यहाँ मेरी बहुत अच्छी आजीविका हो जायेगी, भव्य जनोका उपकार भी होगा और आपकी ख्याति भी होगी ॥९०॥

उसकी इस बातको सुनकर गौतम विप्र बोला—हे वृद्ध, यदि तेरे काव्यकी मैं शीघ्र सत्य अर्थ-व्याख्या कर दूँ, तो तुम क्या करोगे ॥९१॥ तब इन्द्रने यह कहा—हे विप्र, यदि तुम निश्चित यथार्थरूपसे शीघ्र मेरे काव्यकी स्पष्ट अर्थ-व्याख्या कर दोगे, तब मैं तुम्हारा शिष्य हो जाऊँगा । और यदि ठीक अर्थ-व्याख्या नहीं कर सके तो तुम क्या करोगे ? यह सुनकरके गौतम बोला—रे वृद्ध, तू मेरे निश्चित वचन सुन—‘यदि मैं तेरे काव्यके अर्थकी स्पष्ट व्याख्या न कर सकूँ, तो जगत्प्रसिद्ध मैं गौतम अपने इन पाँच सौ शिष्योके तथा अपने इन दोनो भाइयोके साथ शीघ्र ही वेदादिके मतको छोड़कर अभी तत्काल ही तेरे गुरुका शिष्य हो जाऊँगा, इसमे कोई सशय नहीं है ॥९२-९५॥ मेरी इस प्रतिज्ञामे इस नगरका पालक यह काश्यप नामक द्विज साक्षी है और ये समस्त लोग भी साक्षी हैं ॥९६॥ गौतमकी यह बात सुनकर वे सब उपस्थित लोग बोले—अहो, क्वचित्-क्वदाचित् दैववश सुमेरु चल जावे, किन्तु इसके सद्बचन सन्मति अर्हन्तके समान कभी नहीं चल सकते हैं ॥९७॥ इस प्रकार उन दोनोमे परस्पर प्रतिज्ञा-बद्ध वचनालाप होने पर उस इन्द्रने दिव्य वाणीसे यह काव्य कहा ॥९८॥

“त्रैकाल्य द्रव्यषट्क सकलगतिगणाः सत्पदार्था नवैव,

विश्व पञ्चास्तिकाया व्रतसमितिचिदः सप्ततत्त्वानि धर्माः ।

सिद्धेर्मार्गं स्वरूप विधिजनितफल जीवषट्कायलेऽया

एतान् य श्रद्धधाति जिनवचनरतो मुक्तिगामी स भव्य ॥९९॥

तदाकर्ण्यैष साश्चर्यस्तदर्थं ज्ञातुमक्षम । मानभङ्गभयादित्थ मानसे हि वितर्कयेत् ॥१००॥

भोरिद दुर्घट काव्य नास्यार्थो ज्ञायते मनाक् । त्रैकाल्य किं भवेदत्र दिनोत्थ वाब्दसम्भवम् ॥१०१॥

अथ कालत्रयोत्पन्न यत्तज्जानाति सववित् । वा यस्तदागमज स नान्यो मादृग्जन क्वचित् ॥१०२॥

षड्द्रव्या केऽत्र कथ्यन्ते कस्मिन् शास्त्रे निरूपिता । सकला गतय का भोस्नासा किं लक्षण भुवि ॥१०३॥

ये पदार्था न श्रुता पूर्वमेतान् को ज्ञातुमर्हति । विश्व किं कथ्यते सर्वं त्रैलोक्य वा न वेद्यग्रहम् ॥१०४॥

केऽत्र पञ्चास्तिकाया हि व्रतानि कानि भूतले । का भो समितयो ज्ञान केनोक्त तस्य किं फलम् ॥१०५॥

कानि सप्तैव तत्त्वानि के धर्मा वात्र कीदृशा । सिद्धेश्च कार्यनिष्पत्तेर्वात्र मार्गोऽप्यनेकधा ॥१०६॥

किं स्वरूप विधि कोऽत्र किं तस्य जनित फलम् । के षड्जीवनिकाया का षड्लेऽया न श्रुता क्वचित् ॥

एतेषा लक्षण जातु न श्रुत प्राग्मया मनाक् । नास्मच्छास्त्रेषु वेदे वा स्मृत्यादिषु निरूपितम् ॥१०८॥

अहो मन्येऽहमत्रैव सर्वं सिद्धान्तवारिधे । रहस्य दुर्घट यत्तत्सर्वं पृच्छति मामयम् ॥१०९॥

मन्यते मन्मनोऽत्रेद काव्य गूढ विनोर्जितम् । सर्वज्ञ वा हि तच्छिष्य व्याख्यातु कोऽपि न क्षम ॥११०॥

अधुना यद्यनेनामा विवाद वितनोग्यहम् । ततो मे मानभङ्ग स्यात्सामान्यद्विजवादत ॥१११॥

सिद्धेर्मार्गं. स्वरूप विधिजनितफल जीवषट्कायलेऽया

एतान् य. श्रद्धधाति जिनवचनरतो मुक्तिगामी स भव्यः ॥९९॥”

इस काव्यको सुनकर आश्चर्ययुक्त हो और उसके अर्थको जाननेमें असमर्थ होकर वह गौतम मान-भगके भयसे मनमें इस प्रकार विचारने लगा ॥१००॥ अहो, यह काव्य बहुत कठिन है, इसका जरा-सा भी अर्थ ज्ञात नहीं होता है। इस काव्यमें सर्वप्रथम जो 'त्रैकाल्य' पद है, सो उससे दिनमें होनेवाले तीन काल अभीष्ट है, अथवा वर्ष सम्बन्धी तीन काल अभीष्ट है ? ॥१०१॥ यदि भूत, भविष्यत् और वर्तमान सम्बन्धी तीन काल अभीष्ट है, तो जो इन तीनों कालोंमें उत्पन्न हुई वस्तुओंको जानता है, वही सर्वज्ञ है और वही उसके आगमका ज्ञाता हो सकता है, मुझ सरीखा कोई जन कभी उसका ज्ञाता नहीं हो सकता ॥१०२॥ काव्यमें जो षड्द्रव्योंका उल्लेख है, सो वे छह द्रव्य कौनसे कहे जाते हैं, और वे किस शास्त्र-में निरूपण किये गये हैं ? समस्त गतियाँ कौन-सी हैं, और उनका क्या लक्षण है ? ससारमें अरे, जिन नौ पदार्थोंका नाम भी नहीं सुना है, उन्हें जाननेके लिए कौन योग्य है ? विश्व किसे कहते हैं, सबको या तीन लोकको, यह भी मैं नहीं जानता हूँ ॥१०३॥ इस काव्यमें पठित पाँच अस्तिकाय कौन से हैं, इस भूतलमें कौन-से पाँच व्रत हैं, और कौन-सी पाँच समितियाँ हैं ? ज्ञान किसके द्वारा कहा गया है और उसका क्या फल है ॥१०५॥ सात तत्त्व कौन-से हैं, दश धर्म कौन-से हैं, और उनका कैसा स्वरूप है ? सिद्धि और कार्य-निष्पत्तिका मार्ग भी ससारमें अनेक प्रकारका है ॥१०६॥ विधिका क्या स्वरूप है और उसका क्या फल उत्पन्न होता है ? छह जीवनिकाय कौन-से हैं ? छह लेऽयाएँ तो कभी कभी पर सुनी भी नहीं हैं ॥१०७॥ काव्योक्त इन सबका लक्षण मैंने पहले कभी जरा-सा भी नहीं सुना है और न हमारे वेदमें, शास्त्रोंमें अथवा स्मृति आदिमें इनका कुछ निरूपण ही किया गया है ॥१०८॥ अहो, मैं समझता हूँ कि इस काव्यमें सिद्धान्तसमुद्रका सारा कठिन रहस्य भरा हुआ है, और उसे ही यह बुढ़ा ब्राह्मण मुझसे पूछ रहा है ॥१०९॥ मेरा मन यह मानता है कि यह काव्य गूढ अर्थवाला है, उसे सर्वज्ञके अथवा उनके उत्तमज्ञानी शिष्यके बिना अन्य कोई भी मनुष्य अर्थ-व्याख्यान करनेके लिए समर्थ नहीं है ॥११०॥ अब यदि मैं इसके साथ विवाद करता हूँ तो साधारण ब्राह्मणके साथ बात करनेसे मेरा मान भग होगा ?

अतो गत्वा करोम्याशु विवाद गुरुणा सह । त्रिजगत्स्वामिनास्यैव चमत्कारकर भुवि ॥११२॥
 तेनोत्तमविवादेन महाख्यातिर्भव्यति । सर्वथा न मनागहानिर्भे जगद्गुरुसश्रयात् ॥११३॥
 विचिन्त्येति स कालादिलब्धिप्रेरित आह वै । वाद विप्र त्वया सार्वं न कुर्वे त्वद्गुरु विना ॥११४॥
 इत्युक्त्वासौ समामध्ये शिष्यै पञ्चशतैर्वृत । भ्रातृभ्या च ततो वेगान्निर्धयौ सन्मति प्रति ॥११५॥
 क्रमात्सुधीर्ब्रजन् मार्गं हृदये चिन्तयेदिति । असाध्योऽयमहो त्रिप्रो गुरु साध्योऽस्य मे कथम् ॥११६॥
 अथवा महती योगाद्भावि यत्तन्ममास्तु भो । किन्तु वृद्धिर्न हानिर्भे श्रीवर्धमानसश्रयात् ॥११७॥
 इत्थ स चिन्तयन् दूरान्मानस्तम्भान्महोन्नतान् । ददर्श पुण्यपाकेन जगदाश्चर्यकारिण ॥११८॥
 तेषा दर्शनवज्रेण मानाद्भि शतचूर्णताम् । अगात्तस्य शुभो भाव प्रादुरासीच्च मार्दव ॥११९॥
 ततोऽतिशुद्धभावेन पश्यन् साश्चर्यमानस । विभूति महती दिव्या प्राविशत्सत्सभा द्विज ॥१२०॥
 तत्रान्त स्थ जगन्नाथ विश्वधिगणवेष्टितम् । दिव्यविष्टरमासीनमपश्यत्स द्विजोत्तम ॥१२१॥
 ततोऽसौ परया भक्त्या त्रि परीत्य जगद्गुरुम् । स्वकरौ कुडमलीकृत्य नत्वा तच्चरणाम्बुजौ ॥१२२॥
 मूर्ध्ना भक्तिभरेणैव नामाद्यै षड्विधै परै । सार्थकै स्तुतिनिक्षेपै स्वसिद्धयै स्तोतुमुद्ययौ ॥१२३॥
 भगवस्त्व जगन्नाथ सार्थैर्नामभिरुर्जितै । अष्टोत्तरसहस्रै समूषितो नामकर्मभित् ॥१२४॥
 नाम्नैकेनाखिलार्थज्ञो यस्त्वा स्तौति मुदा सुधी । सोऽचिरात्स्वस्मानानि नामान्याप्नोति तत्फलात् ॥

अतः इसके त्रिजगत्स्वामी गुरुके समीप शीघ्र जाकर ससारमे चमत्कार करनेवाले विवादको करूँगा । उस उत्तम विवादसे मेरी महाप्रसिद्धि होगी और जगद्-गुरुके आश्रय लेनेसे मेरी मान-हानि भी कुछ नहीं होगी ॥१११-११३॥

इस प्रकार विचारकर और काललब्धिसे प्रेरित हुआ वह गौतम बोला—हे विप्र, निश्चयसे तेरे गुरुके बिना मैं तेरे साथ वाद-विवाद नहीं करता हूँ । अर्थात् तेरे गुरुके साथ ही बात करूँगा ॥११४॥ इस प्रकार सभाके मध्यमे कहकर अपने पाँच सौ शिष्यों और दोनो भाइयोंसे घिरा हुआ वह गौतम विप्र सन्मति प्रभुके समीप जानेके लिए वहाँसे वेगपूर्वक निकला ॥११५॥ वह बुद्धिमान् क्रमशः मार्गमे जाते हुए हृदयमे इस प्रकार सोचने लगा कि जब यह बूढ़ा ब्राह्मण ही असाध्य है, तब इसके गुरु मेरे लिए साध्य कैसे हो सकता है ॥११६॥ अथवा महापुरुषके योगसे जो कुछ होनेवाला है, वह मेरे होवे । किन्तु श्री वर्धमानस्वामीके आश्रयसे मेरी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं हो सकती है ॥११७॥ इस प्रकार चिन्तवन् करते और जाते हुए गौतमने दूसरे ही ससारमे आश्चर्य करनेवाले अति उन्नत मानस्तम्भको पुण्योदयसे देखा ॥११८॥ उनके दर्शनरूप वज्रसे उसका मानसरूपी पर्वत शतधा चूर्ण-चूर्ण हो गया और उसके हृदयमे शुभ मृदुभाव उत्पन्न हुआ ॥११९॥ तब वह गौतम आश्चर्ययुक्त चित्तवाला होकर अति शुद्ध भावसे महान् दिव्य विभूतिको देखता हुआ उस समवशरणसभामे प्रविष्ट हुआ ॥१२०॥ वहाँपर सभाके मध्यमे स्थित, समस्त ऋद्धि-गणसे वेष्टित, और दिव्य सिंहासनपर विराजमान श्री वर्धमानस्वामीको उस द्विजोत्तम गौतमने देखा ॥१२१॥

तब वह परम भक्तिसे जगद्-गुरुकी तीन प्रदक्षिणा देकर और अपने दोनो हाथोंको जोड़कर उनके चरण-कमलोको मस्तकसे नमस्कार कर भक्तिभारसे अवनत हो नाम, स्थापना आदि छह प्रकारके सार्थक स्तुति-निक्षेपोंके द्वारा अपनी सिद्धिके अर्थ स्तुति करनेके लिए उद्यत हुआ ॥१२२-१२३॥ हे भगवन्, आप जगत्के नाथ हैं, उत्तम, सार्थक एक हजार आठ नामोंसे विभूषित हैं और नामकर्मके विनाशक हैं ॥१२४॥ सब नामोंके अर्थोंको जाननेवाला जो बुद्धिमान् पुरुष आपके एक नामसे भी हर्षके साथ आपकी स्तुति करता है, वह उसके फलसे आपके समान ही एक हजार आठ नामोंको शीघ्र प्राप्त कर

मत्वेति देव भक्त्याह त्वन्नामार्थी सुनाममि । करोमि ते स्तव भक्त्या ह्यष्टोत्तरशतप्रमै ॥१२६॥
 धर्मराड् धर्मचक्री त्व धर्मी धर्मक्रियाग्रणी । धर्मतीर्थकरो धर्मनेता धर्मपदेश्वर ॥१२७॥
 धर्मकर्ता सुधर्माढ्यो धर्मस्वामी सुधर्मवित् । धर्म्याराध्यश्च धर्मीशो धर्मीढ्यो धर्मवान्धव ॥१२८॥
 धर्मिज्येष्ठोऽतिधर्मात्मा धर्मभर्ता सुधर्मभाक् । धर्मभागी सुधर्मज्ञो धर्मराजोऽतिधर्मधी ॥१२९॥
 महाधर्मी महादेवो महानादो महेश्वर । महातेजा महामान्यो महापूतो महातपा ॥१३०॥
 महात्मा च महादान्तो महायोगी महाव्रती । महाध्यानी महाज्ञानी महाकारुणिको महान् ॥१३१॥
 महाधीरो महावीरो महार्हाह्वो महेशता । महादाता महात्राता महाकर्मा महीधर ॥१३२॥
 जगन्नाथो जगद्भर्ता जगत्कर्ता जगत्पति । जगज्ज्येष्ठो जगन्मान्यो जगत्सेव्यो जगन्नुत ॥१३३॥
 जगत्पूज्यो जगत्स्वामी जगदीशो जगद्गुरु । जगद्बन्धुर्जगज्जेता जगन्नेता जगत्प्रभु ॥१३४॥
 तीर्थकृत्तीर्थभूतात्मा तीर्थनाथ सुतीर्थवित् । तीर्थकर सुतीर्थात्मा तीर्थेशस्तीर्थकारक ॥१३५॥
 तीर्थनेता सुतीर्थज्ञ तीर्थाह्वस्तीर्थनायक । तीर्थराज सुतीर्थाङ्गस्तीर्थभृत्तीर्थकारण ॥१३६॥
 विश्वज्ञो विश्वतत्त्वज्ञो विश्वव्यापी च विश्ववित् । विश्वाराध्यो हि विश्वेशो विश्वलोकापितामह ॥१३७॥
 विश्वाग्रणीर्हि विश्वात्मा विश्वाचर्यो विश्वनायक । विश्वनाथो हि विश्वेशो विश्वधृत्विश्वधर्मकृत् ॥१३८॥
 सर्वज्ञ सर्वलोकज्ञ सर्वदर्शी च सर्ववित् । सर्वात्मा सर्वधर्मेश सार्व सर्वबुधाग्रणी ॥१३९॥
 सर्वदेवाधिप सर्वलोकेश सर्वकर्महृत् । सर्वविघ्नेश्वर सर्वधर्मकृत्सर्वधर्मभाक् ॥१४०॥
 एतैर्भूतार्थानामौघै स्तुतस्त्व त्रिजगत्पते । स्तोतार मा स्वकारुण्यत्वंनामसदृश कुरु ॥१४१॥

लेता है, अर्थात् आप-जैसा बन जाता है ॥१२५॥ ऐसा मानकर हे देव, आपके नामोको पानेका इच्छुक मैं भक्तिसे एक सौ आठ उक्तम नामोके द्वारा आपका स्तवन करता हूँ ॥१२६॥
 हे भगवन्, आप धर्मराजा, धर्मचक्री, धर्मी, धर्मक्रियामे अग्रणी, धर्मतीर्थके प्रवर्तक, धर्मनेता और धर्मपदके ईश्वर है ॥१२७॥ आप धर्मकर्ता, सुधर्माढ्य, धर्मस्वामी, सुधर्मवेत्ता, धर्मीजनोके आराध्य, धर्मीजनोके ईश्वरधर्मी जनोके पूज्य और सर्वप्राणियोके धर्मबन्धु है ॥१२८॥ आप धर्मीजनोमे ज्येष्ठ है, अतिधर्मात्मा है, धर्मके स्वामी है और सुधर्मके धारक एव पोषक है । धर्मभागी है, सुधर्मज्ञ है, धर्मराज है और अति धर्मवृद्धिवाले है ॥१२९॥ महाधर्मी है, महादेव हैं, महानाद, महेश्वर, महातेजस्वी, महामान्य, महापवित्र और महातपस्वी है ॥१३०॥ आप महात्मा है, महादान्त (जितेन्द्रिय), महायोगी, महाव्रती, महाध्यानी, महाज्ञानी, महाकारुणिक (दयालु) और महान् है ॥१३१॥ आप महाधीर, महावीर, महापूजाके योग्य और महान् ईशत्वके धारक है । आप महादाता, महात्राता, महान् कर्मशील और महीधर है ॥१३२॥ आप जगन्नाथ, जगद् भर्ता, जगत्कर्ता, जगत्पति, जगज्ज्येष्ठ, जगन्मान्य, जगत्सेव्य और जगन्मस्कृत है ॥१३३॥ आप जगत्पूज्य, जगत्स्वामी, जगदीश, जगद्गुरु, जगद्बन्धु, जगज्जेता, जगन्नेता और जगत्के प्रभु है ॥१३४॥ आप तीर्थकृत्, तीर्थस्वरूपात्मा, तीर्थनाथ, सुतीर्थवेत्ता, तीर्थकर, सुतीर्थात्मा, तीर्थेश और तीर्थकारक है, ॥१३५॥ आप तीर्थनेता, सुतीर्थज्ञ, तीर्थ-पूज्य, तीर्थनायक, तीर्थराज, सुतीर्थाङ्ग, तीर्थभृत् और तीर्थकारण है ॥१३६॥ आप विश्वज्ञ, विश्वतत्त्वज्ञ, विश्वव्यापी, विश्ववेत्ता, विश्वके आराध्य, विश्वके ईश और विश्व (समस्त) लोकके पितामह है ॥१३७॥ आप विश्वके अग्रणी है, विश्वस्वरूप है, विश्वपूज्य, विश्वनायक, विश्वनाथ, विश्वाचर्य, विश्वधृत् और विश्वधर्मकृत् है ॥१३८॥ हे भगवन्, आप सर्वज्ञ हैं, सर्व लोकके ज्ञाता है, सर्वदर्शी और सर्ववेत्ता है । आप सर्वात्म-स्वरूप है, सर्वधर्मके ईश है, सार्व (सबके कल्याणकारी) है और सर्व बुधजनोमे अग्रणी है ॥१३९॥ आप सर्वदेवोके अधिपति है, सर्वलोकके ईश है, सर्वकर्मोके हर्ता है, सर्वविद्याओके ईश्वर है, सर्वधर्मके कर्ता और सर्व सुखोके भोक्ता है ॥१४०॥ हे त्रिजगत्पते, इन यथार्थ

एतान्यथ प्रतिबिम्बानि कृत्रिमाकृत्रिमाणि च । हेमरत्नाश्मजातानि यानि सन्ति जगत्त्रये ॥१४२॥
 तानि सर्वाणि वन्देऽह भक्तिरागवशीकृत । स्तुवेऽर्चयेऽनिश भक्त्या भवत्स्मरणहेतवे ॥१४३॥
 त्वदीया प्रतिमा देव येऽर्चयन्ति स्तुवन्ति च । नमन्ति भक्तिभारेण ते स्युर्लोकत्रयाधिपा ॥१४४॥
 साक्षात्त्वा मूर्तिमन्त ये नुतिस्तुत्यर्चनादिभि । सेवन्तेऽहनिश तेषा फलसख्या न वेद्म्यहम् ॥१४५॥
 यावन्त सन्ति लोकेऽस्मिन् शुभा स्निग्धा पराणव । तैर्विनिर्मित कायो देव दिव्योऽतिसुन्दर ॥१४६॥
 यतस्तेऽङ्ग निरौपम्य राजते जगता प्रियम् । कोटीनाधिकतेजोभिरुद्योतितदिगन्तरम् ॥१४७॥
 प्रदीप्त साम्यतापन्न वक्त्र ते विक्रियातिगम् । आत्यन्तिकी मन शुद्धि वदतीवेश मासते ॥१४८॥
 भवत्पादाम्बुजाभ्या याश्रिता भूमिजगद्गुरो । सात्रैव तीर्थता प्राप्ता वन्द्यासीन्मुनिनाकिभि ॥१४९॥
 क्षेत्राणि तानि पूज्यानि पवित्रितानि यानि भो । त्वया जन्मादिकल्याणैर्नाथ प्राप्तानि तीर्थताम् ॥१५०॥
 काल स एव धन्योऽत्र यत्र प्रादुरभूच्च ते । विभो गर्भादिकल्याण नि क्रान्ति केवलोदय ॥१५१॥
 अनन्त केवलज्ञान त्वदीय विश्वदीपकम् । लोकालोकनभोव्याप्य ज्ञेयाभावात्स्थित विभो ॥१५२॥
 अतस्त्व त्रिजगत्स्वामी सर्वज्ञ सर्वतत्त्ववित् । विश्वव्यापी जगन्नाथो देवात्र सम्मत सताम् ॥१५३॥
 केवल दर्शन स्वामिन्नन्तातीत जगन्नुतम् । लोकालोक विलोक्येश तवास्थाऽज्ञानवत्तराम् ॥१५४॥

नामोके समूहसे आपकी स्तुति की है, अतः स्तुति करनेवाले मुझे भी अपनी करुणासे आप अपने नामके सदृश कीजिए ॥१४१॥

हे नाथ, तीन लोकसे जितनी भी सुवर्ण, रत्न और पाषाणमयी कृत्रिम-अकृत्रिम जिन-प्रतिमाएँ हैं उन सबकी मैं भक्तिरागके वश होकर वन्दना करता हूँ और आपके स्मरणके लिए नित्य भक्तिसे पूजन करता हूँ ॥१४२-१४३॥ हे देव, जो लोग भक्तिभावसे आपकी इन प्रतिमाओकी पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं और नमस्कार करते हैं, वे तीन लोकके स्वामी होते हैं ॥१४४॥ और जो मूर्तिमान् आपकी नमस्कार, स्तवन और पूजनादिसे साक्षात् अहर्निश (रात-दिन) सेवा करते हैं, उनको प्राप्त होनेवाले फलोकी सख्या को मैं नहीं जानता हूँ ॥१४५॥

हे भगवन्, इस लोकमे जितने भी शुभ और स्निग्ध परमाणु हैं, उनके द्वारा ही आपका यह अतिसुन्दर दिव्य देह रचा गया है ॥१४६॥ क्योंकि आपका यह उपमा-रहित और जगत्प्रिय शरीर अति शोभायमान हो रहा है । आपका तेज कोटि सूर्योंके तेजसे भी अधिक है और समस्त दिशाओके अन्तरालको प्रकाशित कर रहा है ॥१४७॥ हे ईश, आपका सर्व विकारोसे रहित साम्यताको प्राप्त और प्रदीप्त यह मुख आपकी आत्यन्तिक हृदय-शुद्धिको कहते हुएके समान प्रतीत हो रहा है ॥१४८॥ हे जगद्-गुरो, आपके चरण-कमलोसे जो भूमि आश्रित हुई और हो रही है, वह यहाँपर ही तीर्थपनेको प्राप्त हुई है और मुनिजन एव देवगणसे वन्दनीय हो रही है ॥१४९॥ हे नाथ, आपके गर्भ-जन्मादि कल्याणकोंके द्वारा जो क्षेत्र पवित्र हुए हैं, वे सब तीर्थपनेको प्राप्त हुए हैं, अतः पूज्य हैं ॥१५०॥ हे प्रभो, वही काल धन्य है, जिस कालमे आप पैदा हुए, गर्भ-कल्याणक हुआ, निष्क्रमण (दीक्षा) कल्याणक हुआ और केवलज्ञानका उदय हुआ है ॥१५१॥ हे विभो, आपका यह अनन्त केवलज्ञान विश्वका दीपक है, क्योंकि वह लोकाकाश और अलोकाकाशको व्याप्त करके अवस्थित है, उसके जानने योग्य पदार्थका अभाव है, अर्थात् आपके ज्ञानने जानने योग्य सभी पदार्थोंको जान लिया है ॥१५२॥ इसलिए हे देव, आप तीन जगत्के स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वतत्त्ववेत्ता हैं, विश्वव्यापी हैं, और सन्तजनोने आपको जगन्नाथ माना है ॥१५३॥ हे स्वामिन्, आपका अन्त-रहित और जगत्से नमस्कृत यह केवलदर्शन लोकालोकको अवलोकन करके अवस्थित है, अतः हे ईश, वह आपके ज्ञानके समान ही अत्यन्त शोभाको प्राप्त हो रहा है ॥१५४॥

वीर्यं तेऽन्तातिग नाथ सति विश्वार्थदर्शने । सर्वदोषविनि क्रान्त निरौपम्य विराजते ॥१५५॥
 अनन्त परम सौख्य निराबाध च्युतोपमम् । अत्यक्ष तेऽभवद्देवागोचर विश्वदेहिनाम् ॥१५६॥
 अनन्यविषया एते ते दिव्यातिशया परा । सर्वासाधारणा वीर विभ्राजन्ते महोदया ॥१५७॥
 एतास्ते नि स्पृहस्याष्ट प्रातिहार्यविभूतय । कृत्स्नविश्वातिशायिन्य शोभन्तेऽत्र च्युतोपमा ॥१५८॥
 अन्ये ते गणनातीता गुणा लोकत्रयाग्रणा । निरौपम्याश्च शक्यन्ते स्तोतु मादृग्विधे कथम् ॥१५९॥
 मेघधारानभस्तारावाध्यूर्म्यनतदेहिनाम् । यथा न ज्ञायते सख्या तथा ते गुणवारिधे ॥१६०॥
 मत्वेति स्वस्तुतौ देव मया नातिक्रत श्रम । भाषणे ते गुणाना चागोचराणा गणेशिनाम् ॥१६१॥
 अतो देव नमस्तुभ्य नमस्ते दिव्यमूर्तये । सर्वज्ञाय नमस्तुभ्य नमोऽनन्तगुणात्मने ॥१६२॥
 नमस्ते हतदोषाय नमोऽबान्धवबन्धवे । नमो मङ्गलभूताय नमो ङ्कोत्तमाय ते ॥१६३॥
 नमो विश्वशरण्याय नमस्ते मन्त्रमूर्तये । नमस्ते वर्धमानाय महावीराय ते नम ॥१६४॥
 नम सन्मतये तुभ्य नमो विश्वहितात्मने । त्रिजगद्गुरवे देव नमोऽनन्तसुखाधये ॥१६५॥
 इति स्तवननमस्कारभक्तिरागोत्थधर्मत । दातार परम त्वा न याचे लोकत्रयश्रियम् ॥१६६॥
 किन्तु देहि भवद्भूर्ति सर्वा कर्मक्षयोद्भवाम् । मेऽनन्तशर्मकर्त्री च नाथ नित्या जगन्नुताम् ॥१६७॥
 यतस्त्व परमो दाताऽत्राह लोभी महान् भुवि । अतो मे सफलैषास्तु प्रार्थना त्वत्प्रसादत ॥१६८॥

हे नाथ, सर्वदोषोसे रहित आपका अनुपम यह अनन्तवीर्य विश्वके समस्त पदार्थोंके देखनेमे समर्थ हो रहा है ॥१५५॥ हे देव, आपका बाधारहित, अनुपम और अतीन्द्रिय अनन्त परम सुख विश्वके समस्त प्राणियोंके अगोचर हैं ॥१५६॥ हे वीर प्रभो, दूसरोमे नहीं पाये जानेवाले ऐसे असाधारण ये सर्व दिव्य और महान् उदयवाले परम अतिशय आपमे शोभायमान हो रहे हैं ॥१५७॥

हे भगवन्, सर्वविश्वातिशायिनी, उपमा-रहित ये आठ प्रातिहार्य-विभूतियाँ सर्व इच्छाओसे रहित आपके शोभित हो रही हैं ॥१५८॥ इनके अतिरिक्त अन्य जो आपमे गणनातीत और त्रिलोक के अग्रगामी अनन्त निरूपम गुण हैं, उनकी स्तुति करने के लिए मेरे समान जन कैसे समर्थ हो सकते हैं ॥१५९॥ हे गुणसमुद्र, जैसे मेघवाराकी बिन्दुएँ, आकाशके तारे, समुद्रकी तरंगे और अनन्त प्राणियोंकी सख्या हमारे-जैसोके द्वारा नहीं जानी जा सकती है, उसी प्रकार आपके गुण समुद्र की सख्या नहीं जानी जा सकती हैं ॥१६०॥ ऐसा मानकर हे देव, आपकी स्तुति करनेमे और गणधरोके भी अगोचर आपके गुणोंके कहनेमे मैंने अधिक श्रम नहीं किया है ॥१६१॥ अतः हे देव, आपको नमस्कार है, हे दिव्य मूर्तिवाले, आपको नमस्कार है, हे सर्वज्ञ, आपको नमस्कार है और हे अनन्तगुणशालिन्, आपको नमस्कार है ॥१६२॥

दोषोंके नाशक आपको नमस्कार है, अबान्धवोंके बन्धु हे भगवन्, आपको नमस्कार है, हे लोकोत्तम, आपको नमस्कार है ॥१६३॥ विश्वको शरण देनेवाले आपको मेरा नमस्कार है, हे मन्त्रमूर्ति, आपको नमस्कार है, हे वर्धमान, आपको नमस्कार है, हे सन्मते, आपको नमस्कार है, हे विश्वात्मन्, आपको नमस्कार है, हे त्रिजगद्-गुरो, आपको नमस्कार है और अनन्त सुखके सागर हे देव, आपको मेरा नमस्कार है ॥१६४-१६५॥ इस प्रकार स्तवन, नमस्कार और भक्तिरागसे उत्पन्न हुए धर्मके द्वारा हे भगवन्, मैं आपसे तीन लोककी लक्ष्मीको नहीं माँगता हूँ, किन्तु हे नाथ, कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होनेवाली, अनन्त सुखकारी, जगन्नमस्कृत, अपनी नित्य विभूतिको मुझे दीजिए, क्योंकि आप इस ससारमे परमदाता है और मैं महान् लोभी हूँ । अतः आपके प्रसादसे मेरी यह प्रार्थना सफल ही होवे ॥१६६-१६८॥

त्व देव त्रिदशेश्वराञ्चितपदस्त्व धर्मतीर्थोद्धार-
 स्त्व कर्मारिनिकन्दनोऽतिसुमटस्त्व विश्वदीपोऽमल ।
 त्व लोकत्रयतारणैकचतुरस्त्व सद्गुणाना निधि
 ससाराम्बुधिमज्जनाजिनपते त्व रक्ष मा सर्वथा ॥१६९॥
 इति विबुधपतीढ्यो दृष्टिचिद्रत्नमाप्तो
 निहतकुमतशत्रुर्ज्ञातिसद्धर्ममार्ग ।
 जिनपतिपदपद्मौ गौतम सप्रणम्य
 स्तवनकरणभक्त्या स्व कृतार्थं च मेने ॥१७०॥
 वीरो वीरजिनाग्रणीर्गुणनिधिर्वीर भजन्ते बुधा
 वीरेणैवमवाप्यते शिवपद वीराय शुद्धयै नम ।
 वीरान्नात्स्यपर परार्थजनको वीरस्य तथ्य वचो
 वीरेऽह विदधे मन स्वसदृश मा वीर शीघ्र कुरु ॥१७१॥

इति भट्टारक-श्रीसकलकीर्तिविरचितेऽश्रीवीरवर्धमानचरिते श्रीगौतमागमन-
 स्तुतिकरणवर्णनो नाम पञ्चदशोऽधिकार ॥१५॥

हे देव, आप स्वर्गके अधीश्वर इन्द्रोंके द्वारा पूजित पदवाले है, आप धर्मतीर्थके उद्धारक है, कर्म-शत्रुके विध्वंसक हैं, अतः आप महासुभट हैं, आप विश्वके निर्मल दीपक है, आप तीनों लोकोको तारनेमे अद्वितीय चतुर है और सद्गुणोंके निधान है, अतएव हे जिनपते, ससार सागरमे डूबनेसे आप मेरी सर्व प्रकारसे रक्षा कीजिए ॥१६९॥ इस प्रकार विद्वानोंके अधिपतियोंसे पूज्य, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानरूप रत्नको प्राप्त, मिथ्यामतरूप शत्रुके नाशक और सद्-धर्मके मार्गके ज्ञाता गौतमने जिनेन्द्रदेवके चरणकमलोको नमस्कार करके और स्तुति करनेकी भक्तिसे अपने आपको कृतार्थ माना ॥१७०॥

वीर भगवान् वीर जिनोमे अग्रणी है, गुणोंके निधान है, ऐसे वीर जिनेन्द्रकी ज्ञानी-जन सेवा करते है। वीरके द्वारा ही शिवपद प्राप्त होता है, ऐसे वीरके लिए आत्म-शुद्धयर्थ नमस्कार है। वीरसे अतिरिक्त अन्य कोई मनुष्य परमार्थका जनक नहीं है, वीरके वचन सत्य है, ऐसे वीर जिनेशमे मैं अपने मनको वरता हूँ, हे वीर, मुझे अपने सदृश शीघ्र करो ॥१७१॥

इस प्रकार भट्टारक श्रीसकलकीर्ति-विरचित श्रीवीर-वर्धमानचरितमे श्री गौतमके आने और स्तुति करनेका वर्णन करनेवाला यह पन्द्रहवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥१५॥

षोडशोऽधिकार

श्रीमते विश्वनाथाय केवलज्ञानभानवे । अज्ञानध्वान्तहन्त्रेऽत्र नमो विश्वप्रकाशिने ॥१॥
 अथासौ गौतमस्वामी प्रणम्य शिरसा मुदा । हित जगत्सतामिच्छन् स्वस्थ श्रीतीर्थनायकम् ॥२॥
 अज्ञानोच्छित्तये ज्ञानप्राप्त्यै सर्वज्ञगोचराम् । प्रश्नमालामिमामप्राक्षीद्विश्वान्निहिता पराम् ॥३॥
 देवादेर्जीवतत्त्वस्य लक्षण कीदृश भुवि । कावस्था च कियन्तो हि गुणा भेदा द्विधात्मका ॥४॥
 के पर्याया कियन्तो वा सिद्धससारिगोचरा । अजीवस्यापि तत्त्वस्य के प्रकारा गुणादय ॥५॥
 शेषास्त्रवादितत्त्वानां के दोषगुणकारणा । कस्य तत्त्वस्य क कर्ता कि फल लक्षण च किम् ॥६॥
 केन तत्त्वेन कि वात्र साध्यते कार्यमञ्जसा । कीदृशैश्च दुराचारैर्नरक यान्ति पापिन ॥७॥
 केन दुष्कर्मणा मूढास्तिर्यग्योनि च दुष्कराम् । कीदृशैश्च सदाचारै स्वर्गं गच्छन्ति धर्मिण ॥८॥
 शुभेन कर्मणा केन नृगतिं श्रीसुखाश्रिताम् । केन दानेन वा यान्ति भोगभूमि शुभाशया ॥९॥
 केन चाचरणेनात्र स्त्रीलिङ्ग जायते नृणाम् । पुवेद पुण्यनारीणां स्त्रीत्व वा दुरात्मनाम् ॥१०॥
 पद्मवो बधिराश्चान्धा मूका विकलमूर्तय । केन पापेन जायन्ते प्राणिनो व्यसनाकुला ॥११॥
 रोगिणो रोगहीनाश्च रुपिणोऽतिकुरूपिण । सुभगा दुर्भगा केन विधिनात्र भवन्ति च ॥१२॥
 सुधियो दुर्धियो मूर्खा नरा विद्वांस एव च । शुभाशयाश्च दुश्चित्रा भवेयु केन कर्मणा ॥१३॥
 धर्मिण पापिनो भोगभागिनो भोगवर्जिता । धनिनो निर्धना स्युश्च कीदृशाचरणोत्करै ॥१४॥

विश्वके नाथ, अज्ञानान्धकारके विनाशक और जगत्के प्रकाशक ऐसे केवलज्ञानरूप सूर्य श्रीवर्धमानस्वामीके लिए नमस्कार है ॥१॥

अथानन्तर उन गौतमस्वामीने तीर्थनायक श्री महावीरप्रभुको हर्षके साथ सिरसे प्रणाम करके अपने और जगत्के सन्तजनोके हितार्थ अज्ञानके विनाश और ज्ञानकी प्राप्तिके लिए समस्त प्राणियोंका हित करनेवाली यह सर्वज्ञ-गम्य उत्तम प्रश्नावली पूछी ॥२-३॥ हे देव, सात तत्त्वोमे जो ससारमे जीवतत्त्व है उसका कैसा लक्षण है, कैसी अवस्था है, कितने गुण है, उनके विभागात्मक कितने भेद है, कितनी पर्याय है, सिद्ध और ससारी-विषयक उसके कितने भेद है ? इसी प्रकार अजीवतत्त्वके भी कितने भेद, गुण और पर्याय आदि है ॥४-५॥ तथा आस्त्रवादि शेष तत्त्वोके दोष और गुणोके कारण कौन है ? किस तत्त्वका कौन कर्ता है, उसका क्या लक्षण है, क्या फल है और किस तत्त्वके द्वारा इस ससारमे निश्चयसे क्या कार्य सिद्ध किया जाता है ? किस प्रकारके दुराचारोसे पापी लोग नरकमे जाते है, किस दुष्कर्मसे मूढ लोग दुःखकारी तिर्यग्योनिको जाते है, और किस प्रकारके सदाचरणोसे धर्मीजन स्वर्ग जाते है ॥६-८॥ किस शुभकर्मसे जीव लक्ष्मी और सुखसे सम्पन्न मनुष्यगतिको जाते है और किस दानसे उत्तम भाववाले जीव भोगभूमिको जाते है ॥९॥ किस प्रकारके आचरणसे इस ससारमे मनुष्योके पुरुषवेद, पुण्यशीला नारियोके स्त्रीवेद और पापाचारी दुरात्माओके नपुंसक वेद होता है ॥१०॥ किस पापसे प्राणी लँगडे, बहरे, अन्धे, गँगे, विकलाङ्ग और अनेक प्रकारके दुःखोसे पीडित होते है ॥११॥ किस प्रकारके कर्म करनेसे जीव यहाँ पर रोगी-निरोगी, सुरुपी-कुरुपी, सौभाग्यवान् और दुर्भाग्य होते है ॥१२॥ किस कर्मसे मनुष्य सुबुद्धि-कुबुद्धि, विद्वान्-मूर्ख, शुभाशय और दुराशयवाले होते है ॥१३॥ किस प्रकारके आचरण करनेसे मनुष्य वर्मात्मा-पापात्मा, भोगशाली-भोगविहीन, धनी और

लभ्यन्ते कर्मणा केन वियोगा स्वजनादिभि । सयोगाश्रेष्ठबन्ध्वाद्यै सम वेहितवस्तुभि ॥१५॥
दातृत्व कृपणत्व च गुणित्व गुणहीनताम् । परकिङ्करता स्वामित्व श्रयेत् केन कर्मणा ॥१६॥
न जीवन्ति नृणा पुत्रा विधिना केन भूतले । बन्ध्यत्व वा भवेन्निन्य स्यु सुताश्चिरजीविन ॥१७॥
कातरत्व च धीरत्व निन्द्यत्व निर्मल यश । प्राप्यते विधिना केन नि शीलत्व सुशीलता ॥१८॥
सत्सङ्गश्चातिदु सङ्गो विवेकित्व च मूढता । कुलश्रेष्ठ जनैर्निन्द्य लभ्यते केन हेतुना ॥१९॥
मिथ्यामार्गानुरागित्व जिनधर्मातिरक्तताम् । दृढ काय च नि शक्त लभन्ते केन कर्मणा ॥२०॥
मुक्ते को मार्ग एवात्र फल किं वा सुलक्षणम् । यतीना क परो धर्म कोऽन्यो वा गृहमेधिनाम् ॥२१॥
तयो किं सत्फल पुसा कानि वा कारणान्यपि । धर्मोत्पत्तिविधातृणि शुभान्याचरणानि च ॥२२॥
द्विषट्कालस्वरूप च कीदृश कीदृशी स्थिति । त्रैलोक्यस्य शलाका पुरुषा के स्युर्हंहीतले ॥२३॥
किमत्र बहुनोक्तेन भूत भावि च साम्प्रतम् । त्रिकालविषय ज्ञान द्वादशाङ्गभव च यत् ॥२४॥
तत्सर्वं त्व कृपानाथ दिव्येन ध्वनिना दिश । भव्यानामुपकाराय स्वर्गमुक्तिवृषासये ॥२५॥
इति प्रश्नवशाद्देवो विश्वभव्यहितोद्यत । तत्त्वादिप्रश्नराशीना सद्भाव च तदीप्सितम् ॥२६॥
दिव्येन ध्वनिना तीर्थेत् स्वर्गमुक्तिसुखासये । प्रारम्भे वक्तुमित्थ च मुक्तिमार्गप्रवृत्तये ॥२७॥
शृणु धीमन् मन कृत्वा स्थिर सर्वगणै समम् । प्रोच्यमानमिद सर्वं त्वदभिप्रेतसाधनम् ॥२८॥
प्रोक्तुविभोर्मनाग नासीदोष्ठादिस्पन्दविक्रिया । मुखाब्जे साम्यतापन्ने तथापि तन्मुखाम्बुजात् ॥२९॥

निर्धन होते है ॥१४॥ किस कर्मसे जीव अपने इष्ट जनादिकोसे वियोग पाते है और किस कर्मसे इष्ट-बन्धु आदिके तथा अभीष्ट वस्तुओके साथ सयोग प्राप्त करते है ॥१५॥ किस कर्मसे मनुष्य दानशीलता, कृपणता, गुणशालिता-गुणहीनता, स्वामित्व और परदासत्वको प्राप्त होता है ॥१६॥ किस कर्मसे इस ससारमे मनुष्योके पुत्र नही जीते है और किस कर्मसे चिरजीवी पुत्र उत्पन्न होते है ? तथा कैसे कर्म करनेसे स्त्रियोके निन्द्य बन्ध्यापन होता है ॥१७॥ किस कर्मसे जीवोके कायरता-धीरता, अपयश निर्मल यश और कुशीलता-सुशीलता प्राप्त होती है ॥१८॥ किस कारणसे जीव सत्सग-कुसग, विवेकिता-मूढता, श्रेष्ठकुल और निन्द्यकुल प्राप्त करते है ॥१९॥ किस कर्मसे मनुष्य मिथ्यामार्गानुरागी और जिनधर्मानुरक्त होते है, तथा दृढ (सबल) काय और निर्बल कायको पाते है ॥२०॥ इस ससारमे मुक्तिका क्या मार्ग है, उसका क्या लक्षण और क्या फल है ? साधुओका परम धर्म कौन सा है और गृहस्थोका अपर धर्म क्या है ॥२१॥ पुरुषोको इन दोनो धर्मोके सेवनसे क्या सत्फल प्राप्त होता है ? धर्मकी उत्पत्ति करनेवाले कौनसे कारण है और शुभ आचरण कौनसे है ॥२२॥ उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके छहो कालोका क्या स्वरूप है, उसकी स्थिति कैसी है, और इस महीतलपर तीन लोकमे प्रसिद्ध शलाका (गण्य-मान्य) कौन होते है ॥२३॥ इस विषयमे बहुत कहनेसे क्या ? हे कृपानाथ, जो पहले हो चुका है, वर्तमानमे हो रहा है और आगे होगा ? ऐसा त्रिकाल-विषयक द्वादशाङ्गश्रुतजनित जो ज्ञान है, वह सब कृपा करके भव्य-जीवोके उपकारके लिए और उन्हे स्वर्गमुक्तिके कारणभूत धर्मकी प्राप्तिके लिए अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा उपदेश दीजिए ॥२४-२५॥

इस प्रकार गौतमस्वामीके प्रश्नके वशसे ससारके समस्त भव्य जीवोके हित करनेके लिए उद्यत, तीर्थंकर वर्धमानदेवमे मुक्तिमार्गकी प्रवृत्तिके लिए सप्त तत्त्वादि-विषयक समस्त प्रश्न-समूहोका सद्भाव और उनका अभीष्ट अभिप्राय जीवोको स्वर्ग और मोक्षके सुख प्राप्त करानेके लिए दिव्य ध्वनिसे इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया ॥२६-२७॥ भगवान्ने कहा— हे धीमन्, सर्वगणके साथ मनको स्थिर करके तुम्हारे सर्व अभीष्ट साधक मेरा यह वक्ष्यमाण (उत्तर)—सुनो ॥२८॥ जब भगवान्ने उत्तर देना प्रारम्भ किया, तब बोलते समय प्रभुके

निर्णयौ भारती रम्या सर्वसशयनाशिनी । मन्दराद्रिगुहोत्पन्नप्रतिच्छन्दनिभा शुभा ॥३०॥
 अहो तीर्थेशिनामेषा योगजा शक्तिरुज्जिता । यथा जगत्सतामत्रोपकार क्रियते महान् ॥३१॥
 हे गौतमात्र याथात्म्य तथ्य यत्प्रोच्यते बुधे । सर्वज्ञोक्तपदार्थाना तत्त्व विद्धि निश्चितम् ॥३२॥
 द्वेषा जीवा भवन्त्यत्र मुक्तससारिभेदत । मुक्ता भेदविनि क्रान्ता बहुभेदा भवाध्वगा ॥३३॥
 अष्टकर्मज्ञनिर्मुक्ता गुणाष्टकविभूषिता । एकभेदा जगद्ध्येया समानसुखसागरा ॥३४॥
 सर्वदुःखातिगा ज्ञेया सिद्धा लोकाग्रवासिन । अनन्ता विगताबाधा ज्ञानदेहाश्च्युतोपमा ॥३५॥
 द्वेषा ससारिणो जीवा स्थावरत्रससङ्गा । विकलैकाक्षपञ्चाक्षभेदैस्त्रेषाङ्गिनो मता ॥३६॥
 चतुर्धा देहिनो नून गतिभेदेन कीर्तिता । एकद्वित्रिचतु पञ्चेन्द्रियै पञ्चविधाश्च ते ॥३७॥
 त्रसस्थावरभेदाभ्या षड्विधा प्राणिन स्मृता । सता षड्जीवरक्षायै जिनेनातिदयालुना ॥३८॥
 पृथ्व्याद्या स्थावरा पञ्च विकलाक्षाङ्गिराशय । पञ्चाक्षा इति विज्ञेया सप्तधा जीवजातय ॥३९॥
 पञ्चधा स्थावरा एकभेदा विकलदेहिन । सञ्जिनोऽसञ्जिनोऽत्रेति ह्यष्टधा जीवयोनय ॥४०॥
 पञ्चैव स्थावरा द्वित्रिचतु पञ्चेन्द्रियाङ्गिन । इति स्युर्नवधा जीवप्रकारा श्रीजिनागमे ॥४१॥
 पृथ्व्यसैजोमरुत्प्रत्येकसाधारणदेहिन । द्वित्रितुर्याक्षपञ्चाक्षा इत्यत्र दशधाङ्गिन ॥४२॥

साम्यताको प्राप्त मुख-रुमलमे रचमात्र भी ओष्ठ आदि चलनेकी विक्रिया (विशेष-क्रिया) नहीं हुई । तथापि उनके मुख कमलसे सर्व सशयोका नाश करनेवाली मन्दराचलकी गुफामेसे निकली प्रतिध्वनिके समान गम्भीर, शुभ और रमणीय वाणी निकली ॥२९-३०॥ आचार्य कहते हैं कि अहो, तीर्थकरोकी यह योग जनित ऊर्जस्विनी शक्ति है कि जिसके द्वारा इस ससारमे समस्त सज्जनोका महान् उपकार होता है ॥३१॥ भगवान् बोले—हे गौतम, इस ससारमे ज्ञानी जन जिसे यथार्थ सत्य कहते हैं, वह सर्वज्ञोक्त पदार्थोका वास्तविक स्वरूप है, वही तत्त्व कहलाता है, यह तू निश्चित समझ ॥३२॥ उस प्रयोजनभूत तत्त्वके सात भेद हैं । उनमे प्रथम जीवतत्त्व है । ससारी और मुक्तके भेदसे जीव दो प्रकारके हैं । मुक्त जीव भेदोसे रहित है, अर्थात् सभी एक प्रकारके हैं । किन्तु भव-भ्रमण करनेवाले ससारी जीव अनेक भेदवाले हैं ॥३३॥ इनमे मुक्त (सिद्ध) जीव आठ कर्मरूप शरीरसे रहित है, सम्यक्त्वादि आठ गुणोसे विभूषित है, एक भेदवाले है, जगत्के भग्य जीवोके ध्येय है, समान सुखके सागर है, सर्वदुःखोसे रहित है, लोकके अग्रभागपर निवास करते हैं, सर्वबाधाओसे विमुक्त है, ज्ञानशरीरी है, सर्व उपमाओसे रहित है और उनकी अनन्त सख्या है । ऐसे ससारसे मुक्त हुए जीवोको सिद्ध जानना चाहिए ॥३४-३५॥ त्रस और स्थावर नामके भेदसे ससारी जीव दो प्रकारके हैं, विकलेन्द्रिय, एकेन्द्रिय और पचेन्द्रियके भेदसे वे तीन प्रकारके माने गये हैं ॥३६॥

नरक आदि चार गतियोके भेदसे वे निश्चयतः चार प्रकारके कहे गये हैं, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रियके भेदसे वे पाँच प्रकारके हैं ॥३७॥ पृथिवीकायादि पाँच स्थावर और त्रसकायके भेदसे ससारी प्राणी छह प्रकारके कहे गये हैं, अतिदयालु जिनेन्द्रोने इन छह कायके जीवोकी रक्षाके लिए सज्जनोको उपदेश दिया है ॥३८॥ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिसे पाँच स्थावरकाय, विकलेन्द्रिय जीवराशि और पचेन्द्रिय इस प्रकार सात भेदरूप जीव-जातियाँ जानना चाहिए ॥३९॥ पाँच प्रकारके स्थावर, एक भेदरूप विकलेन्द्रिय और सञ्जी-असञ्जीरूप दो प्रकारके पचेन्द्रिय, इस प्रकार इस ससारमे आठ जातिकी जीवयोनियाँ हैं ॥४०॥ पाँचो ही स्थावर, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ये तीन विकलेन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीव, इस प्रकार श्री जिनागममे ससारी जीव नौ प्रकारके कहे गये हैं ॥४१॥ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक और

सूक्ष्मबादरभेदाभ्या दशधा स्थावरास्तथा । त्रसा सर्वे बुधैर्जेया इत्येकादश देहिन ॥४३॥
 दशधा स्थावरा सूक्ष्मबादराभ्या च वर्गिता । विकलाक्षा हि पञ्चाक्षा अमी जीवा द्विषड्विधा ॥४४॥
 भूजलाग्निसमीरा सर्वे वनस्पतयोऽखिला । सूक्ष्मबादरभेदाभ्या दशधा स्थावरास्तथा ॥४५॥
 विकलाङ्गभृत पञ्चेन्द्रिया हृदयवर्जिता । सञ्चिनोऽत्रेति मन्तव्यास्त्रयोदशविधाङ्गिन ॥४६॥
 समनस्का मनोहीना द्वित्रितुर्येन्द्रियास्तथा । एकाक्षा बादरा सूक्ष्मा एते सप्तविधाङ्गिन ॥४७॥
 पर्याप्तैतरभेदाभ्या ते सर्वे गुणिता बुधैः । ज्ञातव्यास्तद्व्यायै जीवसमासाश्चतुर्दश ॥४८॥
 अष्टानवतिभेदादिबहुधा जीवजातयः । श्रीवीरस्वामिना प्रोक्ता गौतमाद्यान् गणान् प्रति ॥४९॥
 भूम्यसेजोमरुत्काया नित्येतरनिगोदका । प्रत्येक सप्तलक्षाश्च दशलक्षा महीरुहा ॥५०॥
 षड्लक्षा विकलाक्षाणा द्विषड्लक्षाश्च योनयः । तियङ्गारकदेवाना नृणा लक्षाश्चतुर्दश ॥५१॥
 एव चतुरशीतिप्रमलक्षा जीवजातयः । सम च कुलकोटीभिः प्रोक्ता देवेन तान् प्रति ॥५२॥
 चतुर्धा गतयः पञ्चविधा इन्द्रियमार्गणा । षट्काया हि तथा पञ्चदशयोगाश्च विस्तरात् ॥५३॥
 त्रिधा वेदा कषायाश्च पञ्चविंशतिसंख्यका । अष्टौ ज्ञानानि सप्तैव सयमाश्च शुभेतरा ॥५४॥
 चत्वारि दर्शनान्येव षड्लेख्या हि वरेतरा । भव्येतरा द्विधा जीवा सम्यक्त्व षड्विध तथा ॥५५॥

पचेन्द्रिय, इस प्रकार ससारमे दश प्रकारके जीव है ॥४२॥ पाँच प्रकारके स्थावर जीव सूक्ष्म और बादरके भेदसे दश प्रकारके है, तथा द्वीन्द्रियादि सर्व त्रसकाय, इस प्रकार ग्यारह जातिके ससारी प्राणी ज्ञानियोको जानना चाहिए ॥४३॥ सूक्ष्म-बादरके भेदसे वर्गीकृत दश प्रकारके स्थावर जीव, विकलेन्द्रिय और पचेन्द्रिय (सकलेन्द्रिय) ये सब मिलकर बारह प्रकारके ससारी जीव होते हैं ॥४४॥ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और सर्व वनस्पति, ये सब स्थावर जीव सूक्ष्म बादरके भेदसे दश प्रकारके है, तथा विकलेन्द्रिय, मान-रहित असञ्जी पचेन्द्रिय और मन-सहित सञ्जी पचेन्द्रिय इस प्रकारसे ससारी जीव तेरह प्रकारके समझना चाहिए ॥४५-४६॥ समनस्क (सञ्जी) पचेन्द्रिय मन-रहित अमनस्क (असञ्जी) पचेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरीन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एकेन्द्रिय, ये सात प्रकारके प्राणी पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे गुणित होकर चौदह प्रकारके हो जाते हैं। ये ही चौदह जीव-समास उनकी दया (रक्षा) करनेके लिए ज्ञानियोको जाननेके योग्य है ॥४७-४८॥ इस प्रकार विवक्षा-भेदसे उत्तरोत्तर बढ़ते हुए अष्टानवे आदि अनेक भेद रूप बहुत प्रकार की जीव जातियाँ श्रीवीर स्वामीने गौतमादि सर्व गणोके लिए कही ॥४९॥

पुनः वर्धमानदेवने गौतमादि सर्व गणोको चौरासी लाख योनियोका वर्णन इस प्रकारसे किया—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति रूप नित्यनिगोद, इतरनिगोद इन छहो जातिके जीवोकी सात-सात लाख योनियाँ हैं (६×७=४२) प्रत्येक वनस्पतिरूप वृक्षोकी दश लाख योनियाँ हैं। विकलेन्द्रियोकी छह लाख योनियाँ हैं, तिर्यच, नारक और देवोकी बारह लाख योनियाँ हैं और मनुष्योकी चौदह लाख योनियाँ हैं। इस प्रकार भगवान्ने कुल कोटियोके साथ चौरासी लाख प्रमाण जीव जातियाँ कही ॥५०-५२॥

पुनः भगवान्ने जीवोकी जातियोके अन्वेषण करानेवाली चौदह मार्गणाओका वर्णन करते हुए बतलाया—गति मार्गणा चार प्रकार की है, इन्द्रियमार्गणा पाँच प्रकार की है, कायमार्गणा छह प्रकारकी है, योगमार्गणा विस्तारसे पन्द्रह प्रकारकी है (और सक्षेपसे तीन प्रकारकी है) ॥५३॥ वेदमार्गणा तीन प्रकारकी है, कषायमार्गणा (सक्षेपसे क्रोधादि चार भेदरूप है और विस्तारसे) पन्चीस भेदवाली है। ज्ञानमार्गणा आठ प्रकारकी है, सयम-मार्गणा शुभ और अशुभ (असयम) के भेदसे सात प्रकारकी है, दर्शनमार्गणा चार भेद रूप है, लेख्यामार्गणा तीन शुभ और तीन अशुभके भेदसे छह प्रकारकी है, भव्यमार्गणा भव्य और

सञ्च्यसञ्च्यभिवा जीवा द्विधाहारकदेहिन । इत्युक्तास्तीर्थनाथेन मार्गणा हि चतुर्दश ॥५६॥
 मृग्या ससारिणो जीवा आशुमार्गणकोविदै । चतुर्गतिगता यत्नाञ्जनाय दृग्विशुद्धये ॥५७॥
 मिथ्यासासादनौ मिश्रोऽविरतो देशसयत । प्रमत्ताख्योऽप्रमत्ताभिधोऽपूर्वकरणाह्वय ॥५८॥
 गुणस्थानोऽनिवृत्त्यादिकरणो नवमस्तत । सूक्ष्मादिसाम्परायाख्यो ह्युपशान्तकषायक ॥५९॥
 तत क्षीणकषाय सयोग्ययोगिजिनाविति । चतुर्दशगुणस्थाना व्याप्तेनोक्ताश्चतुर्दश ॥६०॥
 निर्वाण ये गता भव्या यान्ति यास्यन्ति भूतले । केवल ते गुणैरेताश्चाख्य नान्यथा क्वचित् ॥६१॥
 यताऽत्रैकादशाज्ञार्थविदोऽभव्यस्य सर्वदा । दीक्षितस्यैक एवाहो गुणस्थानो न चापर ॥६२॥
 यथा कालोरग शर्करादुग्ध च पिवन् विषम् । न मुञ्चति तथाभव्यो मिथ्यात्व चागमामृतम् ॥६३॥
 अतोऽत्रासननभव्याना गुणस्थानास्त्रयोदश । भवन्त्येव न वान्येषा दूरभव्यात्मना क्वचित् ॥६४॥
 इत्याख्यायादिम तत्त्व वीरश्चागमभाषया । पुन प्रोक्तु समारेभे सतामध्यात्मभाषया ॥६५॥
 बहिरात्मान्तरात्मा तु परमात्मातिनिर्मल । इति त्रिधाङ्गिनो दुक्षे कथ्यन्ते गुणदोषत ॥६६॥
 विचारविकलो योऽत्र तत्त्वातत्त्वे गुणागुणे । सद्गुरौ कुगुरौ धर्मे पापे मार्गे शुभाशुभे ॥६७॥
 जिनसूत्रे कुशास्त्रे च देवादेवे विचारणे । हेयादेये परीक्षादौ बहिरात्मा स उच्यते ॥६८॥

अभव्यके भेदसे दो प्रकारकी है, सम्यक्त्वमार्गणा छह प्रकार की है, सज्ञामार्गणाकी अपेक्षा जीव सज्ञी और असज्ञीके भेदसे दो प्रकारकी है, तथा आहारमार्गणा आहारक-अनाहारकके भेदसे दो प्रकारकी है । इस प्रकार तीर्थ-नायक वीरनाथने चौदह मार्गणाओका उपदेश दिया ॥५४-५६॥ मार्गणाओके जानकार विद्वानोको अपने ज्ञानकी वृद्धिके लिए तथा सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके लिए चारो गतियोमे रहनेवाले ससारी जीवोका इन मार्गणाओके द्वारा शीघ्र यत्नसे मार्गण (अन्वेषण) करना चाहिए ॥५७॥

पुन. जीवोके क्रमशः विकासको प्राप्त होनेवाले चौदह गुणस्थानोका उपदेश दिया । उनके नाम इस प्रकार है—मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत, देशसयत, प्रमत्तसयत, अप्रमत्तसयत, अपूर्वकरणसयत, नवम अनिवृत्तिकरणसयत, सूक्ष्मसाम्परायसयत, उपशान्त-कषायसयत, क्षीणकषायसयत, सयोगिजिन और अयोगिजिन । इन चौदहो गुणस्थानोका भगवान्ने विस्तारसे वर्णन किया ॥५८-६०॥ जो भव्य जीव इस ससारमे निर्वाण (मोक्ष) को गये है, जा रहे है और भविष्यमे जावेगे, वे इन गुणस्थानोपर आरोहण करके ही गये, जा रहे और जावेगे । यह नियम क्वचित् कदाचित् भी अन्यथा नहीं हो सकता है ॥६१॥ अभव्य-जीवके सदा केवल पहला ही गुणस्थान होता है, भले ही वह यहाँपर ग्यारह अगोका वेत्ता हो और दीर्घकालका दीक्षित हो । उसके पहलेके सिवाय अन्य गुणस्थान नहीं हो सकता ॥६२॥ जैसे काला साँप शक्कर-मिश्रित दूधको पीता हुआ भी अपने विषको नहीं छोडता है, उसी प्रकार आगमरूप अमृतका पान करके भी अभव्यजीव मिथ्यात्वरूप विषको नहीं छोडता है ॥६३॥ इसलिए निकट भव्यजीवोके ऊपरके तेरह गुणस्थान होते है, अभव्योके और दूर भव्यजीवोके कभी भी ये गुणस्थान नहीं होते है ॥६४॥

इस प्रकार वीर जिनेन्द्रने आगम भाषासे आदिके जीवतत्त्वको कहकर पुन. सज्जनो-को उसका उपदेश अध्यात्म भाषासे देना प्रारम्भ किया ॥६५॥ ज्ञान-कुशल जनोने गुण और दोषके कारण प्राणियोको तीन प्रकारका कहा है—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । इनमे परमात्मा अति निर्मल है, (अन्तरात्मा अल्प निर्मल है और बहिरात्मा अति मलयुक्त है ।) ॥६६॥ इनमेसे जो जीव तत्त्व-अतत्त्वमे, गुण-अगुणमे, सुगुरु-कुगुरुमे, धर्म-अधर्ममे, शुभमार्ग-अशुभमार्गमे, जिनसूत्र-कुशास्त्रमे, देव-अदेवमे, और हेय-उपादियके विचार करनेमे तथा उनकी परीक्षा आदि करनेमे विचार-रहित होता है, वह बहिरात्मा कहा जाता है

पदार्थान् स्वेच्छयादत्ते सत्येतरप्ररूपितान् । यो त्रिचारादृते मूढो बहिरात्माग्रिमोऽत्र स ॥६९॥
 हालाहलनिभ घोर सुख वैषयिक शठ । योऽत्रोपादेयबुद्ध्या सेवते स बहिरात्मक ॥७०॥
 ऐक्य जानाति यो मूढ ससर्गाद्देहदेहिनी । जडचिन्मययो सोऽत्र जडात्मा ज्ञानदूरग ॥७१॥
 तप श्रुतव्रताढ्योऽपि ध्यान य स्वपरात्मन । न वेत्ति बहिरात्मासौ स्वविज्ञानबहि कृत ॥७२॥
 पाप पुण्य परिज्ञाय बहिरात्मा कुबुद्धित । कृत्वा क्लेश च पुण्याय भ्रमेत्तेन भवादवीम् ॥७३॥
 मत्वेति सर्वथा हेयो बहिरात्मा कुमार्गग । स्वप्नेऽप्यत्र न कर्तव्यस्तत्सङ्गो जातु धीधनै ॥७४॥
 तस्माद्यो विपरीतात्मा त्रिवेकी जिनसूत्रवित् । स्फुट वेत्ति विचार च तत्त्वातत्त्वे शुभाशुभे ॥७५॥
 देवादेवे मते सत्यासत्ये धर्मादिथोगिषु । दुष्पथे मुक्तिमार्गादौ सोऽन्तरात्मा जिनैर्मत ॥७६॥
 हालाहलविषाद्योऽत्र वेत्ति वैषयिक सुखम् । सर्वानर्थाकरीभूत मुमुक्षु सोऽन्तरात्मवान् ॥७७॥
 कर्मभ्य कर्मकार्येभ्य पृथग्भूत गुणाकरम् । मोहाक्षद्वेषरागाङ्गादिभ्य स्वात्मानमञ्जसा ॥७८॥
 निष्कल सिद्धसादृश्य योगिगम्य च्युतौपमम् । ध्यायेदभ्यन्तरे सोऽत्र ज्ञानी स्वात्मरतो महान् ॥७९॥
 स्वात्मद्रव्यान्यदेहादिद्रव्याणामन्तर महत् । यो जानाति महाप्राज्ञ सकल सोऽन्तरात्मभाक् ॥८०॥
 किमत्र विस्तरोक्तेन निकषग्रावसनिभम् । सद्विचारे मन सार यस्यासौ ज्ञानवान् पर ॥८१॥
 सर्वार्थसिद्धिपर्यन्तसुखश्रीजिनवैभवम् । मजेत्सुचरणज्ञानादिभिश्चान्तरात्मवान् ॥८२॥

॥६७-६८॥ जो जीव इस लोकमे दूसरोके द्वारा प्ररूपित सत्य-असत्यका विचार न करके स्वेच्छासे यद्वा-तद्वा पदार्थोको जानता है और उन्हे उसी प्रकारसे ग्रहण करता है, वह पहला बहिरात्मा है ॥६९॥ जो शठ पुरुष इन्द्रिय-विषय-जनित, हालाहल विष सदृश भयकर वैषयिक सुखको यहाँपर उपादेय बुद्धिसे सेवन करता है, वह बहिरात्मा है ॥७०॥ जो मूढ जड शरीर और चेतन आत्माको शरीरके ससर्गमात्रसे एक मानता है, वह सद्-ज्ञानसे रहित बहिरात्मा है ॥७१॥ तप, श्रुत और व्रतसे युक्त हो करके भी जो पुरुष स्व-पर आत्माके विवेकको नहीं जानता है, वह स्वविज्ञानसे बहिष्कृत बहिरात्मा है ॥७२॥ बहिरात्मा जीव पुण्य-पापको जानकर कुबुद्धिसे पुण्यके लिए क्लेश करके उसके फलसे भव-वनमे परिभ्रमण करता है ॥७३॥ ऐसा जानकर बुद्धिमानोको कुमार्गमे ले जानेवाला बहिरात्मपना सर्वथा छोड़ देना चाहिए और उसकी सगति यहाँ स्वप्नमे भी कभी नहीं करनी चाहिए ॥७४॥

इस ऊपर बतलाये गये बहिरात्माके स्वरूपसे जो विपरीत स्वरूपका धारक है, अर्थात् देह और देहीका विवेकवाला है, जिनसूत्रका वेत्ता है, जो तत्त्व-अतत्त्व और शुभ-अशुभके विचारको स्पष्ट जानता है, देव-अदेवको, सत्य-असत्य मतको, धर्म-अधर्मयोगी कार्योको, कुमार्ग और मुक्तिमार्ग आदिको भलीभाँतिसे जानता है, उसे जिनराजोने अन्तरात्मा माना है ॥७५-७६॥ जो इन्द्रिय-विषयजनित सुखको हालाहल विषके समान सर्व अनर्थोकी खानि मानता है और जो ससारके बन्धनोसे छूटना चाहता है, वह अन्तरात्मा कहा जाता है ॥७७॥ जो निश्चयत कर्मोसे, कर्मोके कार्योस, मोह, इन्द्रिय और राग-द्वेषादि अपनी अनन्तगुणाकर आत्माको पृथग्भूत (भिन्न) निष्कल (शरीर रहित) सिद्ध-सदृश, योगि गम्य और उपमा-रहित अपने भीतर ध्यान करता है, वह स्वात्म रत ज्ञानी और महान् अन्तरात्मा है ॥७८-७९॥

जो अपने आत्मद्रव्य और देहादि अन्य द्रव्योके सर्व महान् अन्तरको जानता है, वह महाप्राज्ञ अन्तरात्मा है ॥८०॥ इस विषयमे अधिक कहने से क्या, जिसका मन सद्-विचारमे कसौटीके पाषाण-तुल्य है, जो असार असद्-विचारका त्याग कर सद्-विचारको ही ग्रहण करता है, वह परम ज्ञानवान् अन्तरात्मा है ॥८१॥ यह अन्तरात्मा अपने उत्तम चारित्र और ज्ञानादिगुणोके द्वारा इस ससारमे सर्वार्थसिद्धि तकके सुखको और जिनेन्द्रके

विज्ञायेति परित्यज्य मूढत्व निखिलात्मसु । अन्तरात्मपद ग्राह्य परमात्मपदाप्तये ॥८३॥
 सकलेतरभेदेन परमात्मा द्विधा भवेत् । सकलो दिव्यदेहस्थो निष्कलो देहवर्जित ॥८४॥
 यो घातिकर्मनिर्मुक्तो नवकेवललब्धिवान् । त्रिजगन्नृसुरै सेव्यो ध्येयो नित्य मुमुक्षुभि ॥८५॥
 धर्मोपदेशहस्ताभ्या भव्यानुद्धर्तुमुद्यत । भवाब्धौ पतनादक्ष सर्वज्ञो महता गुरु ॥८६॥
 धर्मतीर्थकरोऽन्यो वा केवली विश्ववन्दित । दिव्यौदारिककायस्थ समस्तातिशयाङ्कित ॥८७॥
 धर्माभृतमयी वृष्टि कुर्वल्लोकेऽप्यनारतम् । स्वर्गमुक्तिफलाप्त्यै परमात्मा सकलो हि स ॥८८॥
 अयमेव जगन्नाथ सेव्यस्तत्पदाङ्क्षिभि । अनन्यशरणीभूय तत्पदाय जिनाग्रणी ॥८९॥
 कृत्स्नकर्माङ्गनिर्मुक्तोऽमूर्तो ज्ञानमयो महान् । त्रिजगच्छिखरावासो गुणाष्टकविभूषित ॥९०॥
 त्रिजगन्नाथससेव्य सिद्धो वन्द्यो मुमुक्षुभि । निष्कल परमात्मा स जगच्चूडामणिर्महान् ॥९१॥
 ध्येयोऽय मुक्तिसिद्धयर्थं मन कृत्वातिनिश्चलम् । सिद्धो विश्वाग्रिमो नित्य परमेष्ठी शिवार्थिभि ॥९२॥
 यादृश परमात्मान ध्यायेद्योगी गतभ्रम । तादृश परमात्मान शिवीभूत लभेत मो ॥९३॥
 उत्कृष्टो बहिरात्मा गुणस्थाने प्रथमे मत । द्वितीये मध्यमो दक्षैर्जघन्यस्त्वृतीये शठ ॥९४॥
 जघन्योऽन्तरात्मा स्याद्गुणस्थाने चतुर्थके । ज्येष्ठो द्वादशमेऽनन्तकेवलज्ञानकारक ॥९५॥
 तयोर्मध्ये गुणस्थाना सन्ति सप्तैव ये शुभा । तेष्वनेकविधो मध्यमोऽन्तरात्मा शिवाध्वग ॥९६॥

वैभवको भोगता है ॥८२॥ ऐसा जानकर सर्व आत्माओमें मूढपना छोडकर परमात्मपदकी प्राप्तिके लिए अन्तरात्माका पद ग्रहण करना चाहिए ॥८३॥

सकल (शरीर-सहित) और निष्कल (शरीर-रहित) के भेदसे परमात्मा दो प्रकारका है । परमौदारिक दिव्य देहमें स्थित अरिहन्त सकल परमात्मा है और देह-रहित सिद्ध भगवन्त निष्कल परमात्मा है ॥८४॥ जो चार घातिया कर्मोंसे विमुक्त है, अनन्तज्ञान आदि नौ केवल-लब्धियोंके धारक है, तीन लोकके मनुष्य और देवोंसे सेव्य है, मुमुक्षुजनोंके द्वारा नित्य ध्यान किये जाते हैं, धर्मोपदेशरूपी हाथोंसे भव-सागरमें गिरते हुए भव्य जीवोंके उद्धार करनेके लिए उद्यत है, दक्ष है, सर्वज्ञ है, महात्माओके गुरु है, धर्मतीर्थके स्थापक तीर्थकर केवली है, अथवा सामान्य केवली है, विश्ववन्दित है, दिव्य औदारिकदेहमें स्थित है, समस्त अतिशयो-से युक्त है और जो भव्य जीवोंको स्वर्ग-मुक्तिका फल प्राप्त करानेके लिए लोकमें निरन्तर धर्माभृतमयी वृष्टिको करते रहते हैं, वे सकल परमात्मा है ॥८५-८८॥ यही जिनाग्रणी जगन्नाथ सकल परमात्मपदके आकाक्षी लोगोंके द्वारा उस पदकी प्राप्तिके लिए अनन्यशरण होकर सेवनीय है ॥८९॥

जो सर्व कर्मोंसे और शरीरसे रहित है, अमूर्त है, ज्ञानमय है, महान है, तीन लोकके शिखरपर जिनका निवास है, क्षायिकसम्यक्त्व आदि आठ गुणोंसे विभूषित है, तीन लोकके अधीश्वरोंके द्वारा ससेव्य है, मुमुक्षु जनोके द्वारा वन्द्य है और जगच्चूडामणि है, ऐसे महान् सिद्ध भगवान् निष्कल परमात्मा है ॥९०-९१॥ शिवार्थी जनोको मुक्तिकी सिद्धिके लिए मनको अति निश्चल करके विश्वके अग्रणी यही सिद्ध परमेष्ठी नित्य ध्यान करनेके योग्य है ॥९२॥ हे गौतम, भ्रम-रहित होकर योगी पुरुष जैसे परमात्माका ध्यान करता है, वह उसी प्रकार शिवस्वरूप परमात्माको प्राप्त करता है ॥९३॥

जो शठ प्रथम गुणस्थानमें निवास करता है, वह उत्कृष्ट अर्थात् सबसे निकृष्ट बहिरात्मा है । जो द्वितीय गुणस्थानमें रहता है, वह मध्यम जातिका बहिरात्मा है । और जो तृतीय गुणस्थानमें वास करता है, उसे दक्ष पुरुषोंने जघन्य बहिरात्मा कहा है ॥९४॥ चौथे गुण-स्थानमें रहनेवाला जघन्य अन्तरात्मा है, बारहवें गुणस्थानमें रहनेवाला और अन्तर्मुहूर्तमें ही केवलज्ञानको उत्पन्न करनेवाला है, वह उत्कृष्ट अन्तरात्मा है । चौथे और बारहवें इन दोनों

विज्ञेय परमात्मासौ गुणस्थानद्वयेऽन्तिमे । त्रिजगज्जनताराध्य सयोग्ययोगिसञ्जक ॥९७॥
 द्रव्यभावामिधै प्राणैर्यतोऽजीवञ्च जीवति । जीविष्यति ततो जीव कथ्यते सार्थनामक ॥९८॥
 पञ्चेन्द्रियाह्वया प्राणा मनो वाक्कायजास्त्रय । आयुरुच्छ्वासनि श्वास प्राणा दशेतिसञ्जिनाम् ॥९९॥
 नव प्राणा मता सद्भिरसञ्जिना मनो विना । कर्णादृते भवन्त्यष्टौ चतुरिन्द्रियदेहिनाम् ॥१००॥
 नश्वनेन विना सप्त प्राणास्त्रीन्द्रियजन्मिनाम् । नासिकामन्तरेण स्यु षड्प्राणा द्वीन्द्रियात्मनाम् ॥१०१॥
 एकाक्षणा चतु प्राणा वाङ्मुखाभ्या विना स्मृता । विज्ञेया आगमे पर्याप्ताना प्राणा अनेकधा ॥१०२॥
 उपयोगमथो जीवश्चेतनालक्षणो महान् । अकर्ता कर्मनोकर्मबन्धमोक्षादिकर्मणाम् ॥१०३॥
 असख्यातप्रदेशी क्लिामूर्त सिद्धसनिभ । परद्रव्यातिगो दक्षैर्निश्चयेनात्र कथ्यते ॥१०४॥
 अशुद्धनिश्चयनासौ रागादिभावकर्मणाम् । कर्ता च तत्फळभोक्ता स्वात्मज्ञानबहिस्थित ॥१०५॥
 कर्मनोकर्मणा कर्ता त्यक्तोपचरितान्नयात् । व्यवहारादसद्भूतात्स्वात्मध्यानपराङ्मुख ॥१०६॥
 व्यवहारनयेनासद्भूतोपचरितात्मना । कर्ता घटपटादीना ससारी स्वाक्षवञ्चित ॥१०७॥
 कायप्रमाण आत्माय समुद्घात विना भवेत् । युक्त सहारविस्ताराभ्या प्रदीप इवान्वहम् ॥१०८॥
 वेदनाख्य कषायाभिधो विकुर्वणनामक । मारणान्तिकनामा तैजस आहारकाह्वय ॥१०९॥
 तत केवलिसञ्ज्ञोऽमी समुद्घाता हि सप्त च । त्रयस्ते योगिना ज्ञेया शेषा सर्वात्मना मता ॥११०॥

गुणस्थानोके मध्यमे जो सात शुभ गुणस्थान है, उनमे रहनेवाले शिवमार्गगामी क्रमशः विकसित गुणवाले, अनेक प्रकारके मध्यम अन्तरात्मा है ॥९५-९६॥ अन्तिम दो गुणस्थानोमे रहनेवाले परमात्मा जानना चाहिए। उनमे जो तेरहवे गुणस्थानवर्ती है, वे सयोगिजिन है और चौदहवे गुणस्थानवर्ती अयोगिजिन कहलाते है। ये दोनो प्रकारके परमात्मा तीन लोककी जनताके आराध्य है ॥९७॥

यतः जीव द्रव्यप्राणो और भावप्राणोसे भूतकालमे जीता था, वर्तमानकालमे जी रहा है और भविष्यकालमे जीवेगा, अतः उसका 'जीव' यह सार्थक नाम कहा जाता है ॥९८॥ स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पाँच इन्द्रियाँ, मन, वचन, काय ये तीन योग, आयु और श्वासोच्छ्वास ये दश द्रव्यप्राण सञ्ज्ञी पचेन्द्रिय जीवोके होते है ॥९९॥ मनके विना शेष नौ उक्त प्राण असञ्ज्ञी पचेन्द्रिय जीवोसे सन्त पुरुषोने माने है। उक्त नौ प्राणोमे-से कर्णेन्द्रियके विना शेष आठ प्राण चतुरिन्द्रिय जीवोके होते है ॥१००॥ इनमेसे नेत्रेन्द्रियके विना शेष सात प्राण त्रीन्द्रिय प्राणियोके होते है। इनमेसे घ्राणेन्द्रियके विना शेष छह प्राण द्वीन्द्रिय जीवोके होते है ॥१०१॥ उनमेसे रसनेन्द्रिय और वचनके विना शेष चार प्राण एकेन्द्रिय जीवोके आगममे माने गये है। इस प्रकार पर्याप्त जीवोके ये अनेक प्रकारके प्राण जानना चाहिए ॥१०२॥ ज्ञान और दर्शनरूप चेतना भावप्राण है। निश्चय नयसे जीव चेतना लक्षणवाला है, उपयोगमयी है, महान् है, कर्म नोकर्म और बन्ध-मोक्षादि कार्योंका अकर्ता है, असख्यात प्रदेशी है, अमूर्त है, सिद्ध भगवान्के सदृश है और सर्व परद्रव्योसे रहित है ऐसा दक्षपुरुष निश्चयनयकी अपेक्षासे कहते है ॥१०३-१०४॥ अशुद्धनिश्चयनयकी अपेक्षासे वह जीव रागादि भावकर्मोंका कर्ता और उनके फलका भोक्ता है और अपने आत्मीय ज्ञानसे बहिर्भूत है ॥१०५॥ अपने आत्मध्यानसे पराङ्मुख हुआ जीव उपचरित व्यवहारनयसे ज्ञानावरणादि कर्मोंका, और औदारिकादि शरीररूप नोकर्मोंका कर्ता है, तथा असद्भूतोपचरित व्यवहारनयसे यह अपनी इन्द्रियोसे उगाया हुआ ससारी जीव घट-पट आदि द्रव्योका भी कर्ता कहा जाता है ॥१०६-१०७॥ समुद्घात अवस्थाके सिवाय यह जीव सदा शरीर प्रमाण रहता है। सकोच-विस्तारगुणके निमित्तसे यह छोटे-बड़े शरीरमे प्रदीपके समान निरन्तर अचग्राहको प्राप्त होता रहता है ॥१०८॥ मूल शरीरको नहीं छोड़ते हुए कुछ आत्म-

स्वभावाख्या गुणा अस्य केवलावगमादय । मतिज्ञानादयो ज्ञेया विभावाख्या विधिप्रजा ॥१११॥
 विभावाख्याश्च पर्याया नृनारकसुरादय । शुद्धास्तस्य प्रदेशा स्यु स्वभावाख्या वपुश्च्युता ॥११२॥
 विनाश प्राक्शरीरस्य प्रादुर्भावोऽपरस्य च । ध्रौव्य एव स आत्मेति तस्योत्पादादयस्त्रय ॥११३॥
 इत्यादिबहुधा जीवतत्त्व जिनेन्द्र आदिशत् । विचित्रैर्नयभङ्गाद्यैर्दृग्विशुद्धयै गणान् प्रति ॥११४॥
 अथ पुद्गल एवात्र धर्मोऽधर्मो द्विधा नभ । कालश्च पञ्चधैवेत्यजीवतत्त्व जगौ जिन ॥११५॥
 वर्णगन्धरसस्पर्शमयाश्चानन्तपुद्गला । पूरणाद्गलनादत्र सप्राप्तान्वर्थनामका ॥११६॥
 अणुस्कन्धविभेदाभ्या सामान्यात्पुद्गला द्विधा । अविभागी ह्यणु स्कन्धा बहुभेदा सुविस्तरात् ॥११७॥
 अथवा सूक्ष्मसूक्ष्मादिभेदैस्ते षड्विधा मता । सूक्ष्मसूक्ष्मास्तत सूक्ष्मा सूक्ष्मस्थूलाश्च पुद्गला ॥
 स्थूलसूक्ष्मास्तथा स्थूला स्थूलस्थूला इति स्फुटम् । पुद्गला षड्विधा ज्ञेया स्निग्धसूक्ष्मगुणान्विता ॥
 एकोऽणु सूक्ष्मसूक्ष्म स्याददृश्यो जनचक्षुषाम् । अष्टकर्ममया स्कन्धा सूक्ष्मा भवन्ति पुद्गला ॥१२०॥
 शब्दा स्पर्शा रसा गन्धा सूक्ष्मस्थूलाख्यपुद्गला । विज्ञेया स्थूलसूक्ष्मास्ते दृष्टाज्योत्स्नातपादय ॥
 जलज्वालादयोऽनेकश स्थूला पुद्गला मता । भूमिमानाद्रिधामाद्या स्थूलस्थूला हि रूपिण ॥१२२॥
 स्पर्शाद्या विशतिर्ये स्युरणौ च निमला गुणा । ते स्वभावाभिधा स्कन्धे विभावाख्या गुणा परे ॥१२३॥

प्रदेशोके बाहर निकलनेको समुद्घात कहते हैं । वह सात प्रकारका है—१ वेदना, २ कषाय, ३ वैक्रियिक, ४ मारणान्तिक, ५ तैजस, ६ आहारक और ७ केवलिसमुद्घात । इन सात समुद्घातोमेसे अन्तके तीन समुद्घात योगियोके जानना चाहिए और प्रारम्भके शेष चार समुद्घात सर्व ससारी जीवोके माने गये हैं ॥१०९-११०॥ जीवके केवलज्ञान, केवलदर्शन आदि स्वाभाविक गुण है और मतिज्ञानादि कर्म-जनित वैभाविक गुण जानना चाहिए ॥१११॥ मनुष्य नारक और देवादि वैभाविक पर्याय है और शरीर-रहित शुद्ध आत्मप्रदेश स्वाभाविक पर्याय है ॥११२॥ ससारी जीव जन्म-मरण करता रहता है, अतः मरण-समय पूर्व शरीरका विनाश होता है, जन्म लेते हुए नवीन शरीरका उत्पाद होता है और आत्मा तो दोनो ही अवस्थाओमे वही का वही ध्रौव्यरूपसे रहती है, अतः जीवके उत्पाद व्यय और ध्रौव्य ये तीनों ही हैं ॥११३॥ इस प्रकारसे जिनेन्द्रदेवने अनेक नय-भगादिकी विवक्षासे मनुष्य-देवादि गणोको सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके लिए जीवतत्त्वका अनेक प्रकारसे उपदेश दिया ॥११४॥

तत्परचात् जिनदेवने अजीवतत्त्वका उपदेश देते हुए कहा कि वह पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोक-अलोकरूप आकाश और कालके भेदसे पाँच प्रकारका है ॥११५॥ पुद्गल अनन्त है और वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शमय है । पूरण और गलन होनेसे यह 'पुद्गल' ऐसा सार्थक नामवाला है ॥११६॥ सामान्यत अणु और स्कन्धके भेदसे पुद्गल दो प्रकारका है । पुद्गलके अविभागी अणुको अणु कहते हैं । दो या दो से अधिक अणुओके समुदायको स्कन्ध कहते हैं । विस्तार की अपेक्षा वह अनेक भेदवाला है ॥११७॥ अथवा सूक्ष्मसूक्ष्म आदिके भेदसे पुद्गलके छह भेद माने गये हैं, जो इस प्रकार है—१ सूक्ष्मसूक्ष्म, २ सूक्ष्म, ३ सूक्ष्मस्थूल, ४ स्थूलसूक्ष्म, ५ स्थूल और ६ स्थूलस्थूल । ये छहो प्रकारके पुद्गल स्निग्ध और रूक्ष गुणसे सयुक्त जानना चाहिए ॥११८-११९॥ एक अणु सूक्ष्मसूक्ष्म पुद्गल है, जो कि मनुष्योकी आँखोसे अदृश्य है । आठ कर्ममयी स्कन्ध सूक्ष्म पुद्गल है ॥१२०॥ शब्द, स्पर्श, रस और गन्ध ये सूक्ष्मस्थूल पुद्गल है । छाया, चन्द्रिका, आतप आदि स्थूलसूक्ष्म पुद्गल है ॥१२१॥ जल, अग्निज्वाला आदि अनेक प्रकार स्थूल पुद्गल माने गये हैं और भूमि, विमान, पर्वत, मकान आदि स्थूलस्थूल पुद्गल जानना चाहिए ॥१२२॥ (पुद्गलमे जो स्पर्शादि चार गुण कहे गये हैं, उनमे स्पर्शके आठ भेद है, रसके पाँच, गन्धके दो और वर्णके पाँच भेद होते हैं ।) स्पर्शादिके ये बीस गुण अणुमे निर्मल स्वाभाविक है और स्कन्धमे वे स्पर्शादि

शब्दोऽनेकविधो बन्ध सूक्ष्म स्थूलो ह्यपेक्षया । सस्थान षड्विध भेदस्तमश्छायातपस्तथा ॥१२४॥
 उद्योताद्या अमी स्युर्विभावपर्यायसञ्ज्ञका । पुद्गलाना स्वभावाख्या पर्याया अणुषु स्थिता ॥१२५॥
 शरीरवाङ्मन प्राणापाना स्यु पुद्गलात्मनाम् । पर्यायेण भवन्त्येव देहिना पञ्चेन्द्रियादय ॥१२६॥
 मृत्युजीवितशर्माशर्मादीन्ननेकशोऽङ्गिनाम् । उपग्रहान् प्रकुर्वन्ति पुद्गला विविधा भुवि ॥१२७॥
 एकाण्वपेक्षया न स्यात्कायोऽत्र पुद्गलात्मनाम् । बह्वण्वपेक्षया स्कन्धे ह्युपचारात्स उच्यते ॥१२८॥
 जीवपुद्गलयोर्धर्म सहकारी गतेर्मत । अमूर्तो निष्क्रियो नित्यो मत्स्याना जलवद्भुवि ॥१२९॥
 स ह्यकर्ताप्यधर्म स्याज्जीवपुद्गलयो स्थिते । नित्योऽमूर्त क्रियाहीनश्छायेव पथिकाङ्गिनाम् ॥१३०॥
 लोकालोकनमोभेदाकाशोऽत्र द्विधा भवेत् । अवकाशप्रद सर्वद्रव्याणा मूर्तिवर्जित ॥१३१॥
 धर्माधर्मयुता कालपुद्गला जीवपूर्वका । खे यावत्थत्र तिष्ठन्ति लोकाकाश स उच्यते ॥१३२॥
 तस्माद्बहिरनन्तोऽस्याकाशोऽन्यद्रव्यवजित । नित्योऽमूर्त क्रियाहीन सर्वज्ञदृष्टिगोचर ॥१३३॥
 नवजीर्णादिपर्यायैर्द्रव्याणा य प्रवर्तक । समयादिमय कालो व्यवहाराभिधोऽस्ति स ॥१३४॥
 लोकाकाशप्रदेशे ह्येकैका अणव स्थिता । भिन्नभिन्नप्रदेशस्था रत्नानामिव राशय ॥१३५॥
 तेषामसख्यकालाणूना निष्क्रियमयात्मनाम् । जिनैर्निश्चयकालाख्यसञ्ज्ञात्र कथ्यते सताम् ॥१३६॥
 धर्माधर्मैकजीवाना लोकाकाशस्य कीर्तिता । असख्याता प्रदेशा किन्त्वत कालस्य जातु न ॥१३७॥
 अत काल विना ते पञ्चास्तिकाया भवन्ति च । कालेन सह षट्द्रव्या कथ्यन्ते श्रीजिनागमे ॥१३८॥

विभावरूप गुण है ॥१२३॥ अनेक प्रकारका शब्द, स्थूल-सूक्ष्मकी अपेक्षासे दो प्रकारका बन्ध, छह प्रकारका सस्थान, भेद, अन्धकार, छाया, आतप तथा उद्योत आदि पुद्गलकी विभाव सञ्ज्ञावाली पर्याय है, (जो कि स्कन्धोमे होती है) । पुद्गलकी स्वभावपर्याय अणुओमे होती है ॥१२४-१२५॥ शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास, और पाँच इन्द्रियाँ आदि सब पुद्गलकी पर्याय है, जो कि प्राणियोंके होती है ॥१२६॥ ये पुद्गल ससारमे जीवोंके जीवन, मरण, सुख, दुःख आदि अनेक प्रकारके उपकारोंको करते है ॥१२७॥ एक अणुकी अपेक्षा ससारमे शरीर नहीं बन सकता है, किन्तु बहुत अणुओकी अपेक्षासे शरीर बनता है, अत स्कन्धमे अणुके उपचारसे शरीरको पुद्गलकी पर्याय कहा जाता है ॥१२८॥

धर्मास्तिकाय द्रव्य जीव और पुद्गलकी गतिका सहकारी कारण माना गया है । कर्ता या प्रेरक नहीं है । जैसे ससारमे जल मत्स्यकी गतिका सहकारी कारण माना जाता है । यह धर्मास्तिकाय अमूर्त, निष्क्रिय और नित्य है ॥१२९॥ अधर्मास्तिकाय द्रव्य जीव और पुद्गलकी स्थितिका सहकारी कारण है, जैसे पथिकजनोके ठहरनेमे छाया सहकारी कारण मानी जाती है । यह अधर्मास्तिकाय द्रव्य भी स्थितिका कर्ता या प्रेरक नहीं है और नित्य अमूर्त और क्रियाहीन है ॥१३०॥ लोकाकाश और अलोकाकाशके भेदसे यहाँ आकाश दो प्रकारका है । यह सर्व द्रव्योंको ठहरनेके लिए अवकाश देता है । यह भी मूर्ति-रहित और निष्क्रिय है ॥१३१॥ जितने आकाशमे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीव रहते है, वह लोकाकाश कहा जाता है ॥१३२॥ उससे बाहर जितना भी अनन्त आकाश है, वह अलोकाकाश कहलाता है । उसमे आकाशके सिवाय अन्य कोई द्रव्य नहीं पाया जाता है । यह दोनो भेदरूप आकाश नित्य, अमूर्त, क्रियाहीन और सर्वज्ञके दृष्टिगोचर है ॥१३३॥ जो द्रव्योंका नवीन जीर्ण आदि पर्यायोंके द्वारा परिवर्तन करता है, वह समयादिरूप व्यवहार-काल है ॥१३४॥ लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर रत्नोंकी राशिके समान जो एक-एक कालाणु भिन्न-भिन्न प्रदेशरूपसे स्थित है, उन निष्क्रिय स्वरूपवाले असख्य कालाणुओको सन्तोके लिए जिनेन्द्रोने 'निश्चयकाल' इस नामसे कहा है ॥१३५-१३६॥ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, एक जीव और लोकाकाश, इनके असख्यात प्रदेश कहे गये है, किन्तु कालके प्रदेश कभी नहीं

यावानाकाश एवात्र व्याप्तो ह्येकाणुना बुधै । तावानाकाश एकप्रदेश प्रोक्तोऽवगाहद ॥१३९॥
 रागादिदूषितेनैव येन भावेन रागिणाम् । भास्वन्त्यत्र कर्माणि स भावास्त्रव एव हि ॥१४०॥
 दुर्भावकलिते जीवे पुद्गलाना य आगम । प्रत्ययै कर्मरूपेण द्रव्यास्त्रवो मतोऽत्र स ॥१४१॥
 विस्तरेणास्त्रवस्यास्य मिथ्यात्वाद्याश्च हेतव । प्रागुक्ता एव विज्ञेया अनुप्रेक्षास्थले मया ॥१४२॥
 चेतनापरिणामेन रागद्वेषमयेन च । येन कर्माणि बध्यन्ते भावबन्ध स एव हि ॥१४३॥
 भावबन्धनिमित्तेन सश्लेषो जीवकर्मणो । योऽसौ चतु प्रकारोऽत्र द्रव्यबन्धो बुधै स्मृत १४४॥
 प्रकृति स्थितिबन्धोऽनुभाग प्रदेशसजक । इति चतुर्विधो बन्ध सर्वानर्थान्करोऽशुभ ॥१४५॥
 प्रकृत्यादिप्रदेशाख्यौ बन्धौ योगौ प्रकीर्तितौ । कषायैर्मुनिभि स्थित्यनुभागौ देहिना खलौ ॥१४६॥
 ज्ञानावरणकर्माणि मतिज्ञानादिसद्गुणान् । आच्छादयन्ति जीवाना देवास्थानि यथा पटा ॥१४७॥
 दर्शनावरणान्यत्र चक्षुरादिसुदर्शनान् । वारयन्ति स्वकार्यादो द्वारपाला यथागतान् ॥१४८॥
 मधुलिप्तासिधारेव वेदनीयविधिर्नृणाम् । सर्षपाम सुख दत्ते दु ख मेरुसम परम् ॥१४९॥
 मद्यवद्विकलान् कुर्यान्मोहनीय शठात्मन । दृष्टिजानविचारादौ चारित्रे धर्मकर्मणि ॥१५०॥
 कायबन्दिगृहाज्जीवान् गन्तुमायुर्ददाति न । दु खशोकादिसपूर्णां शृङ्खलावाशुभाकारान् ॥१५१॥
 चित्रकार इवानेकरूपान् कुर्याच्च जन्मिनाम् । नामकर्महिमार्जारसिहेभन्सुरादिकान् ॥१५२॥
 गोत्रकर्मनृणा दध्याद् गोत्र लोकत्रयार्चितम् । उत्तम च जनैर्निन्द्य कुम्भकार इवान्वहम् ॥१५३॥

होते है । अतएव कालके बिना शेष पाँच द्रव्य 'अस्तिकाय' कहलाते है । कालके साथ वे ही सब श्री जिनागममे षट्द्रव्य कहे गये है ॥१३७-१३८॥ इस लोकमे जितना आकाश एक अणुके द्वारा व्याप्त है, उतना आकाश ज्ञानियोके द्वारा एक प्रदेश कहा गया है । वह एक प्रदेश भी अपनी अवगाहनाशक्तिसे समस्त परमाणुओको अवगाह देने की शक्ति रखता है ॥१३९॥

रागी जनोके रागादिसे दूषित जिस भावके द्वारा कर्म आत्माके भीतर आते है, वह भावास्त्रव है ॥१४०॥ दुर्भाव-सयुक्त जीवमे मिथ्यात्व आदि कारणोसे पुद्गलोका कर्मरूपसे जो आगमन होता है, वह जैनागममे द्रव्यास्त्रव माना गया है ॥१४१॥ इस आस्त्रवके मिथ्यात्व आदि कारण विस्तारसे मैने पहले अनुप्रेक्षाके स्थलपर कहे है, उन्हे जान लेना चाहिए ॥१४२॥ जीवके राग-द्वेषमयी जिस चेतन परिणामसे कर्म बँधते है, वह भावास्त्रव है ॥१४३॥ उस भावबन्धके निमित्तसे जीव और कर्मका जो परस्पर सश्लेष होता है, वह ज्ञानियोके द्वारा द्रव्यबन्ध माना गया है । यह चार प्रकारका है—१ प्रकृतिबन्ध, २ स्थितिबन्ध, ३ अनुभाग-बन्ध और ४ प्रदेशबन्ध । यह चारो ही प्रकारका बन्ध अशुभ हे और समस्त अनर्थोकी खानि है ॥१४४-१४५॥ इनमेसे प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योगोसे होते है और स्थितिबन्ध तथा अनुभागबन्ध कषायोसे होते है, ये सब प्राणियोको दु ख देते हे । ऐमा मुनिजनोने कहा है ॥१४६॥ ज्ञानावरणकर्म जीवोके मतिज्ञानादि सद्-गुणोको आच्छादित करता है । जैसे कि वस्त्र देवमूर्तियोके मुखोको आच्छादित करते है ॥१४७॥ दर्शनावरणकर्म चक्षुदर्शन आदि दर्शनोको रोकता है । जैसे कि द्वारपाल राजासे मिलनेके लिए आये हुए लोगोको अपने कार्य आदि करनेमे रोकता है ॥१४८॥ मधुलिप्त खड्गधाराके समान वेदनीय कर्म मनुष्योको सुख तो सरसोके समान अल्प देता है और दुःख मेरुके समान भारी देता है ॥१४९॥ मोहनीयकर्म मूढजनोको मदिराके समान सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और धर्म-कर्मादिके विचारमे विकल करता है ॥१५०॥ आयुर्कर्म शरीररूपी बन्दीगृहसे जीवोको इच्छानुसार अभीष्ट स्थानपर नही जाने देता है और साँकलसे जकडे हुए के समान दुःख शोक आदि समस्त अशुभ वेदनाओ-का आकर है ॥१५१॥ नामकर्म चित्रकारके समान जीवोके साँप, मार्जार, सिंह, हाथी, मनुष्य और देवादिके अनेक रूपोको करता है ॥१५२॥ गोत्रकर्म कुम्भकारके समान कभी तोन

दानलाभादिपञ्चाना पुसा विघ्न करोत्यहो । अन्तरायामिध कर्म भाण्डागारीव सर्वदा ॥१५४॥
 इत्याद्या बहुधा ज्ञेया स्वभावा अष्टकर्मणाम् । प्रतिक्षणभवा नृणा कर्मागमनहेतव ॥१५५॥
 दृक्चिदावृतिवेद्यानामन्तरायस्य चोत्तमा । स्यात्त्रिंशत्कोटिकोटी सागराणा प्रमिता स्थिति ॥१५६॥
 कोटीकोटिसमुद्राणा चोत्कृष्टा सप्ततिप्रमा । स्थितिदुर्मोहनीयस्य विशतिर्नामगोत्रयो ॥१५७॥
 त्रयत्रिंशत्पयोराशिरायुष स्थितिरुजिता । इत्यष्टकर्मणामाह जिनेन्द्र स्थितिमुत्तमाम् ॥१५८॥
 वेदनीयस्य च द्वादशमुहूर्तप्रमा स्थिति । जघन्याष्टमुहूर्तप्रमाणान्न नामगोत्रयो ॥१५९॥
 स्थितिरन्तर्मुहूर्तप्रमा शेषपञ्चकर्मणाम् । मध्यमा बहुधा ज्ञेया सर्वेषा कर्मणा नृणाम् ॥१६०॥
 अशुभप्रकृतीना स्यादनुभागश्चतुर्विध । निम्बकाज्जीरसादृश्यो त्रिषहालाहलोपम ॥१६१॥
 शुभप्रकृतिस्वर्वासामनुभाग शुभो भवेत् । गुडखण्डसम शर्करासुधासनिभोऽङ्गिनाम् ॥१६२॥
 इति क्षणक्षणोत्पन्नोऽनुभागोऽखिलकर्मणाम् । सुखदुःखादिदोऽनेकधा ससाराध्वगामिनाम् ॥१६३॥
 सर्वेष्व्वात्मप्रदेशेषु सम्बन्ध यान्ति पुद्गला । अनन्तानन्तसख्या सूक्ष्मा प्रदेशावगाहिन ॥१६४॥
 रागिणोऽणुभृते ह्येकक्षेत्रे य च निरन्तरम् । प्रदेशबन्ध एव स्यात् सोऽखिलाशर्मसागर ॥१६५॥
 इति चतुर्विधो बन्धो विश्वदुःखनिबन्धन । हन्तव्य शत्रुवद्दृक्चिद्वृत्तपशरै ॥१६६॥
 चैतन्यपरिणामो यो रागद्वेषातिगो महान् । कर्मास्त्रवनिराधस्य हेतु स भावसवर ॥१६७॥

लोकपूजित उच्चगोत्रमे जीवोको उत्पन्न करता है और कभी मनुष्योसे निन्दित नीचकुलमे उत्पन्न करता है ॥१५३॥

अन्तरायकर्म भण्डारीके समान सदा ही जीवोके दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य इन पाँचोकी प्राप्तिमे विघ्न करता है ॥१५४॥ इत्यादि प्रकारसे आठो कर्मोके अनेक जातिरूप स्वभाव जानना चाहिए । जीवोके ये कर्मागमनके कारण प्रति समय होते रहते हैं, अतः जीव उनसे बँधता रहता है ॥१५५॥ (यह प्रकृतिबन्धका स्वरूप कहा । अब कर्मोके स्थितिबन्धको कहते हैं)—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तरायकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागर-प्रमाण है ॥१५६॥ दर्शनमोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोडाकोडी सागर-प्रमाण है । नाम और गोत्रकर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस सागर-प्रमाण है । इस प्रकार जिनेन्द्र देवने आठो कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति कही ॥१५७-१५८॥ वेदनीय-कर्मकी जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त-प्रमाण है । नाम और गोत्र कर्मकी जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त-प्रमाण है और शेष पाँच कर्मोकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण है । मध्यम स्थिति सर्व कर्मोकी मनुष्योके (जीवोके) अनेक प्रकारकी जाननी चाहिए ॥१५९-१६०॥ (अब कर्मोका अनुभागबन्ध कहते हैं—) अशुभ कर्म प्रकृतियोका अनुभागबन्ध निम्ब-सदृश, काजीर सदृश, विप-सदृश और हालाहालके सदृश चार प्रकारका अशुभ होता है ॥१६१॥ सभी शुभकर्म प्रकृतियोका अनुभागबन्ध गुड-सदृश, खँड-सदृश, शर्कर-सदृश और अमृतके सदृश प्राणियोके शुभ होता है ॥१६२॥ इस प्रकार ससारी प्राणियोको सुख-दुःखादिका देने-वाला सर्वकर्मोका अनेक जातिवाला अनुभाग क्षण-क्षणमे उत्पन्न होता रहता है ॥१६३॥ (अब प्रदेशबन्ध कहते हैं—) रागी जीवके सर्व आत्म-प्रदेशो पर अनन्तानन्त सख्यावाले सूक्ष्म कर्म पुद्गल परमाणु सम्बन्धको प्राप्त होते हैं और वे परमाणुओसे भरे हुए एक क्षेत्रमे निरन्तर एक प्रदेशावगाही होकर अवस्थित होते रहते हैं । यह प्रदेशबन्ध ही समस्त दुःखोका सागर है ॥१६४-१६५॥ यह चारो प्रकारका कर्म-बन्ध सर्व दुःखोका कारण है, अतः दक्ष पुरुषोको चाहिए कि वे दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपरूप बाणोके द्वारा उसका शत्रुके समान विनाश करे ॥१६६॥

राग द्वेषसे रहित जो महान् चैतन्य-परिणाम कर्मास्त्रके विरोधका कारण है, वह

सर्वास्त्रनिरोधा य क्रियते तेन योगिभि । महाव्रतादिसद्व्याचैर्द्रव्याख्य स सुखाकर ॥१६८॥
 सवरस्य मया पूर्वमुक्ता ये सद्ब्रतादय । परीषहजयाद्याश्च ज्ञेयास्ते हेतवो बुधै ॥१६९॥
 सविपाकाविपाकाभ्या द्विधा स्यान्निर्जराङ्गिनाम् । अविपाका मुनीद्राणा सविपाकाखिलात्मनाम् ॥१७०॥
 प्रागुक्त निर्जराया प्रवर्णन विस्तरेण च । पुनरुक्तादिदोषस्य भयाल्करोमि नाधुना ॥१७१॥
 सर्वेषा कर्मणा योऽत्र क्षयहेतु शिवार्थिन । परिणामोऽतिशुद्ध स भावमोक्षो जिनैर्मत ॥१७२॥
 कृत्स्नेभ्य कर्मजालेभ्यो विश्लेषो यश्चिदात्मन । चरमध्यानयोगेन द्रव्यमोक्ष स कथ्यते ॥१७३॥
 आपादमस्तकान्त च यथा बन्धनकोटिभि । बद्धस्य मोचनात्सौख्य परम जायतेऽन्वहम् ॥१७४॥
 तथा सर्वाङ्गबद्धस्य ह्यसख्यै कर्मबन्धनै । मोक्षात्सौख्य निराबाधमनन्त जायतेतराम् ॥१७५॥
 ततोऽत्रात्मा व्रजेदूर्ध्वस्वभावेनातिनिर्मल । अमूर्तो ज्ञानवान् मोक्ष कृत्स्नकर्माङ्गनाशनात् ॥१७६॥
 तत्र भुङ्क्ते निराबाध निरौपम्य निजात्मजम् । विषयातीमत्यर्थ सर्वद्वन्द्वपरिच्युतम् ॥१७७॥
 वृद्धिहासादिनिष्कान्त शाश्वत सुखमुल्बणम् । अनन्त सकलोत्कृष्ट सिद्धो ज्ञानवपुर्महान् ॥१७८॥
 अहमिन्द्रादयो देवा नराश्चक्रिखगादय । भोगभूमिभवाश्चार्या पशवो व्यन्तरादय ॥१७९॥
 सर्वे यद्बुभुजु सौख्य पर भुञ्जन्ति चान्वहम् । मोक्षयन्ति विषयोत्पन्न तत्सर्वं पिण्डित भुवि ॥१८०॥
 तस्मात् पिण्डीकृतात्सौख्यादनन्त विषयातिगम् । एकस्मिन् समये भुङ्क्ते सिद्ध कर्माङ्गवर्जित ॥१८१॥
 मत्वेति धीधना मोक्ष साधयन्त्वप्रसादत । अनन्तगुणशर्माप्त्यै तपोरत्नत्रयादिभि ॥१८२॥

भावसवर है ॥१६७॥ इसलिए योगी पुरुष महाव्रतादिके पालन और उत्तम ध्यानके द्वारा जो कर्मास्त्रवका निरोध करते है, वह सुखोका आकर द्रव्यसवर है ॥१६८॥ सवरके कारण जो व्रत समिति गुप्ति आदिक और परीषहजयादिक मैने पहले कहे हैं, वे बुधजनोके द्वारा जाननेके योग्य है ॥१६९॥ कर्मोके आत्माके भीतरसे झडनेको निर्जरा कहते हैं । वह जीवोके सविपाक और अविपाकके भेदसे दो प्रकारकी होती है । इनमेसे अविपाकनिर्जरा तपस्वी मुनियोके होती है और सविपाकनिर्जरा सर्व प्राणियोके होती है ॥१७०॥ निर्जराका विस्तारसे वर्णन पहले कहा है, अतः पुनरुक्तादि दोषके भयसे अब नहीं करता हूँ ॥१७१॥

शिवार्थी मनुष्यका जो अत्यन्त शुद्ध परिणाम सर्व कर्मोके क्षयका कारण होता है, वह जिनेन्द्रोके द्वारा भावमोक्ष माना गया है ॥१७२॥ अन्तिम शुक्लध्यानके योग द्वारा सर्व कर्मजालोसे आत्माका विश्लेष (सम्बन्धविच्छेद) होता है, वह द्रव्यमोक्ष कहा जाता है ॥१७३॥ जिस प्रकार पैरोसे लगाकर मस्तक-पर्यन्त कोटि-कोटि बन्धनोसे बँधे हुए जीवके बन्धनोके विमोचनसे परम सुख होता है, उसी प्रकार असख्य कर्म-बन्धनोके द्वारा सर्वाङ्गमे बँधे हुए जीवके भी उनके विमोक्षसे निराबन्ध चरम सीमाको प्राप्त अनन्त सुख प्रति समय होता है ॥१७४-१७५॥ जब यह आत्मा समस्त कर्म-बन्धनोसे विमुक्त होता है, तभी वह अमूर्त ज्ञानवान् और अति निर्मल आत्मा ऊर्ध्वगामी स्वभाव होनेसे ऊपरको जाता है, अर्थात् लोकान्तमे जाकर अवस्थित हो जाता है ॥१७६॥ वहाँपर वह महान् ज्ञानशरीरी मुक्तजीव आत्मोत्पन्न, निराबाध, निरुपम, विषयातीत, सर्व द्वन्द्व-विमुक्त, आत्यन्तिक, वृद्धि हानिसे रहित, शाश्वत और सर्वोत्कृष्ट सुखको भोगता है ॥१७७-१७८॥ इस ससारमे जो अहमिन्द्रादि देव है, चक्रवर्ती आदि मनुष्य है, भोगभूमिज आर्य और पशु है, तथा व्यन्तरादिक है, इन सबने जितना सुख आज तक भोगा है, वर्तमानमे प्रतिदिन भोग रहे है और भविष्यकालमे भोगेगे, वह सब विषय जनित सुख यदि एकत्र पिण्डित कर दिया जाये, तो उस पिण्डीकृत सुखसे अनन्त-गुणित विषयातीत सुखको कर्मशरीरसे रहित सिद्ध जीव एक समयमे भोगते है ॥१७९-१८१॥ ऐसा जानकर बुद्धिमान् लोग उस अनन्त गुणवाले सुखकी प्राप्तिके लिए तप और रत्नत्रयके द्वारा मोक्षकी प्रसाद-रहित होकर साधना करते है ॥१८२॥

इति शिवगतिहेतून् सप्ततत्त्वान् समग्रान् दृगवगमसुबीजान् भव्यजीवैकयोग्यान् ।
 निखिलगुणगणानां दृग्विशुद्धिचै जिनेन्द्रो नृखगसुरपतीन्द्रो दिव्यवाण्या समाख्यत् ॥१८३॥
 यो देवेन्द्रनरेन्द्रवन्दितपदो ध्यायन्ति य योगिनो
 येनासा प्रभुता जगत्त्रयनुता यस्मै नमन्तीश्वरा ।
 यस्मान्नास्त्यपरो गुरुस्त्रिभुवने यस्याप्यनन्ता गुणा
 यस्मिन् मुक्तिवधू स्पृहा प्रकुर्वते तत्तद्विभृत्यै स्तुवे ॥१८४॥

इति भट्टारकश्रीसकलकीर्तिविरचिते श्रीवीरवर्धमानचरिते गौतमपृच्छा-
 सप्ततत्त्ववर्णनो नाम षोडशोऽधिकार ॥१६॥

इस प्रकार शिवगतिके कारणभूत सात तत्त्वोंको और भव्यजीवोंके योग्य दर्शन ज्ञानके समग्र बीजोंको समस्त देव-मनुष्यादिगणोंकी दृग्विशुद्धिके लिए नरपति, खगपति और सुरपति से पूजित वीर जिनेन्द्रने दिव्यध्वनिसे कहा ॥१८३॥

जिनके चरण देवेन्द्रो और नरेन्द्रोसे वन्दित है, योगीजन जिनका ध्यान करते हैं, जिनके द्वारा त्रिलोक नमस्कृत प्रभुता प्राप्त की गयी है, जिसके लिए ससारके समस्त अधीश्वर नमस्कार करते हैं, जिससे बडा कोई दूसरा त्रिभुवनमे गुरु नहीं है, जिसके गुण अनन्त है, और जिसके विषयमे मुक्ति वधू इच्छा करती है उन वीर प्रभुको उनकी विभूति पानेके लिए मैं उनकी स्तुति करता हूँ ॥१८४॥

इस प्रकार भट्टारक श्रीसकलकीर्ति-विरचित श्रीवीरवर्धमानचरितमे गौतमके प्रश्न और उनके उत्तरमे सात तत्त्वोंका वर्णन करनेवाला यह सोलहवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥१६॥

सप्तदशोऽधिकारः

वन्दे जगत्त्रयीनाथ केवलश्रीविभूषितम् । विश्वतत्त्वाय वक्तार वीरेश विश्वबान्धवम् ॥१॥
 अथ ते सप्ततत्त्वा हि पुण्यपापद्वयान्विता । पदार्था नव कथ्यन्ते सम्यक्त्वज्ञानहेतव ॥२॥
 ततो व्यासेन तीर्थेश सर्वविष्णुपापयो । हेतून् फलानि भव्याना सवेगायेत्युवाच स ॥३॥
 मिथ्यात्वपञ्चमि क्रूरै कषायैश्चाप्यसयमै । प्रमादै सकलैर्निन्द्यैर्योगै कौटिल्यकर्मभि ॥४॥
 आर्तरोद्रातिदुर्ध्यानैर्दुर्लेश्याभिश्च दुधिया । शल्यदण्डत्रिकैर्मिथ्यागुरुदेवादिसेवनै ॥५॥
 धर्मादिकारणै पापदेशनै पापिना सदा । अन्यैर्वात्र दुराचारैर्जायते पापमूर्जितम् ॥६॥
 परस्त्रीवनवस्त्रादिलम्पट रागदूषितम् । क्रोधमोहाग्निमतस निर्विचार च निर्दयम् ॥७॥
 मिथ्यात्ववासित पापशास्त्रचिन्तापर मन । सूते घोर नृणा पाप विषयैर्व्याकुलीकृतम् ॥८॥
 परनिन्दापर निन्द्य स्वप्रशसाकर भुवि । असत्यदूषित वाक्य पापकर्मप्ररूपकम् ॥९॥
 कुशास्त्राभ्याससलीन तपोधर्मादिदूषकम् । जिनसूत्रातिग पुसा तनोति पापसचयम् ॥१०॥
 क्रूरकर्मकर क्रूरो वधबन्धविधायक । दुर्धरो विक्रियापन्नो दानपूजादिवर्जित ॥११॥
 स्वेच्छाचरणशीलश्च तपोव्रतपराङ्मुख । जनयेत्पापिना कायोऽघ महच्छ्वभ्रकारणम् ॥१२॥
 जिनेन्द्रजिनसिद्धान्तनिग्रन्थधर्मधारिणाम् । निन्दनैर्दुधिया निन्द्य महापाप प्रजायते ॥१३॥

त्रिलोकके नाथ, केवलज्ञानरूपी लक्ष्मीसे विभूषित, समस्त तत्त्वोके उपदेशक और विश्वके बन्धु ऐसे श्री वीरजिनेश की मैं वन्दना करता हूँ ॥१॥

अथानन्तर वीरनाथने बतलाया कि ये जीवादि सात तत्त्व ही पुण्य और पाप इनसे सयुक्त होनेपर नौ पदार्थ कहे जाते हैं । ये पदार्थ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिके कारण हैं ॥२॥ तत्पश्चात् तीर्थेश सर्वज्ञ वीरनाथने विस्तारसे पुण्य-पापके कारण और फल भव्य जीवोके सवेगकी प्राप्तिके लिए इस प्रकारसे कहे ॥३॥ एकान्त विपरीत आदि पाँच प्रकारके मिथ्यात्वोसे, क्रोधादि चार क्रूर कषायोसे-षट्कायिक जीवोकी हिसादि करने रूप असयमो-से, पन्द्रह प्रमादोसे, सर्व निन्दनीय मन-वचन-कायरूप तीन योगोसे, कुटिलकर्मोसे, अति आर्त, रौद्ररूप दुर्ध्यानोसे, कृष्णादि अशुभ लेश्याओसे, तीन शल्योसे, तीन दण्डोसे, कुगुरु-कुदेवादिकी सेवा करनेसे, धर्मादिके कर्मोको रोकनेसे और पापोंके करनेका उपदेश देनेसे, तथा इसी प्रकारके अन्य दुराचारोसे इस लोकमे पापियोमे सदा उत्कृष्ट पापकर्मोका सचय होता रहता है ॥४-६॥

परस्त्री, परधन और परवस्त्रादिमे लम्पट, रागसे दूषित, क्रोधमोहरूप अग्निसे सन्तप्त, विवेक-विचारसे रहित, निर्दय, मिथ्यात्ववासनासे वासित, और कुशास्त्रोका चिन्तवन करनेवाला और विषयोसे व्याकुलित मन मनुष्योके घोर पाप उत्पन्न करता है ॥७-८॥ ससारमे पर-निन्दाकारक, स्वप्रशसाकारक, निन्दनीय, असत्यसे दूषित, पाप प्ररूपक, कुशास्त्राभ्यास-सलग्न, तपोधर्मादि-दूषक और जिनागम-बाह्य वचन पुरुषोके महापापका सचय करते हैं ॥९-१०॥ क्रूर, क्रूरकर्म कारक, वध-बन्ध-विधायक, दुःखद कार्य करनेवाला, विकारको प्राप्त, दान-पूजादिसे रहित, स्वेच्छाचरणशीलवाला, और व्रत-तपसे पराङ्मुख काय पापी जनोके नरकके कारणभूत महापापको उपार्जन करता है ॥११-१२॥ जिनेन्द्र देव, जिन सिद्धान्त, और निग्रन्थ धर्मधारक गुरुजनोकी निन्दा करनेसे दुर्बुद्धि लोगोके निन्द्य महापाप

इत्यादि निन्द्यकर्माणि प्रचुराणि जिनाधिप । महापापनिमित्तानि प्रादिशङ्गीतये नृणाम् ॥१४॥
 क्रूरा भार्या जगन्निन्द्या शत्रुतुल्याश्च बान्धवा । सुता दुर्व्यसनोपेता स्वजना प्राणघातिन ॥१५॥
 रोगक्लेशदरिद्राद्या वधबन्धादयोऽखिला । पापोदयेन दुःखाद्या उत्पद्यन्ते च पापिनाम् ॥१६॥
 अन्धा मूका कुरूपाश्च विकलाङ्गा सुखातिगा । पङ्गवो बधिरा कुब्जका दासा परधामनि ॥१७॥
 दीनाश्च दुर्धियो निन्द्या क्रूरा पापपरायणा । पापसूत्ररता पापाद्भवन्ति प्राणिनो भुवि ॥१८॥
 सप्तैव नरकाण्येव विश्वदुःखाकराणि च । सर्वदुःखखनीस्तिर्यग्योनी जन्म सुखातिगम् ॥१९॥
 मातङ्गादिकुल निन्द्य म्लेच्छजातिं ह्यघावनिम् । लभन्ते पापिनोऽमुत्र दुःख वाचामगोचरम् ॥२०॥
 अधोमध्योर्ध्वलोकेषु यत्किञ्चिद्दुःखमुल्बणम् । क्लेशदुर्गतिदुःखादि तत्सर्वं लभ्यते ह्यघात ॥२१॥
 इति पापफल ज्ञात्वा प्राणान्तेऽपि कदाचन । सुखार्थिभिर्न तत्कार्यं कार्यं कोटिशते सति ॥२२॥
 इत्थ पापफलादीन् स सभ्यानां भीतिहेतवे । व्याख्याय पुनरित्याह पुण्यस्य कारणादिकान् ॥२३॥
 सर्वेभ्य पापहेतुभ्योऽप्यन्यथाचरणै शुभै । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैरगुणव्रतमहाव्रतै ॥२४॥
 कषायेन्द्रिययोगाना निग्रहैर्नियमादिभि । सहानपूजनैश्चार्हद्गुरुभक्त्यादिसेवनै ॥ ५॥
 शुभभावनया ध्यानाध्ययनादिसुकर्मभि । धर्मोपदेशनै पुण्य लभ्यते परम बुधै ॥२६॥
 निर्वेदतत्पर धर्मवासित पापदूरगम् । परचिन्तातिग स्वात्मचिन्ताव्रतपरायणम् ॥ ७॥
 गुरुदेवापशास्त्राणा परीक्षाकरणक्षमम् । कृपाक्रान्त मन पुसा जनयेत्पुण्यमूर्जितम् ॥२८॥
 परमेष्ठिजपस्तोत्रगुणख्यापनतत्परम् । स्वनिन्दाकरमन्येषा निन्दादूर सुकोमलम् ॥२९॥

उत्पन्न होता है ॥१३॥ इत्यादि महापाप के निमित्तभूत प्रचुर निन्द्यकर्माका श्री जिनेश्वर देवने मनुष्योको पापोसे डरनेके लिए उपदेश दिया ॥१४॥ पापकर्मके उदयसे ही क्रूर स्त्री, लोकनिन्द्या और शत्रुतुल्य बान्धव, दुर्व्यसनोसे युक्त पुत्र, प्राण-घातक स्वजन, रोग-क्लेश-दरिद्रतादि तथा वध बन्धनादि और सर्व प्रकारके दुःखादिक पापियोके उत्पन्न होते हैं ॥१५-१६॥ पापकर्मके उदयसे ही प्राणी ससारमे अन्धे, गूंगे, कुरूप, विकलाङ्गी, सुख-रहित, पगु, बहिरे, कुबडे, पर-घरमे दास बनकर काम करनेवाले, दीन, दुर्बुद्धि, निन्द्य, क्रूर, पाप-परायण, और पापवर्धक शास्त्रोमे निरत होते हैं ॥१७-१८॥ समस्त दुःखोके भडार जो सात नरक हैं, सर्व दुःखोकी खानि जो तिर्यग्योनि है, मातग आदिके जो नीच कुल है और पापोंकी भूमि जो म्लेच्छजाति है, पापी जीव परभवमे उनमे उत्पन्न होकर वचन-अगोचर दुःखोंको पाते हैं ॥१९-२०॥ अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्व लोकमे जितने कुल भी महान् दुःख है, क्लेश, दुर्गति गमन और शारीरिक मानसिक आदि दुःख है, वे सब पापसे ही प्राप्त होते हैं ॥२१॥ इस प्रकारसे पाप कर्मके फलको जानकर सुखार्थीजनोको कोटिशत कर्मोंके होने पर और प्राणोके वियोग होने पर भी पापके कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए ॥२२॥ इस प्रकार समवशरण सभामे विद्यमान सभ्योको पापोसे डरनेके लिए पापके फलादिका व्याख्यान करके पुन पुण्यके कारणादि-को इस प्रकार कहा ॥२३॥

जितने भी सभी पापके कारण है, उनसे विपरीत आचरण करनेसे, शुभ कार्योंके करनेसे, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रसे, अणुव्रत और महाव्रतोके पालनेसे, कषाय, इन्द्रिय और मनोयोगादिके निग्रह करनेसे, नियमादि धारण करनेसे, उत्तम दान देनेसे, पूजन करनेसे, अर्हद्-भक्ति, गुरुभक्ति आदि करनेसे, शुभ भावना रखनेसे, ध्यान-अध्ययन आदि उत्तम कार्योंसे और धर्मोपदेश देनेसे पण्डित जन परम पुण्यको प्राप्त करते हैं ॥२४-२६॥ वैराग्यमे तत्पर, धर्मवासनासे वासित, पापसे दूर रहनेवाला, पर-चिन्तासे विमुक्त, स्वात्म-चिन्ता और व्रतमे परायण, देव-गुरु-शास्त्रकी परीक्षा करनेमे समर्थ और करुणासे व्याप्त मन उत्कृष्ट पुण्यको उत्पन्न करता है ॥२७-२८॥ पंचपरमेष्ठीके जाप, स्तोत्र और गुण कथनमे तत्पर,

धर्मोपदेशद् मिष्ट सत्यसीमाधिष्ठितम् । वच मूते पर पुण्य सता चार्हत्पदादिजम् ॥३०॥
 कायोत्सर्गासनापन्न जिनेन्द्रयजनोद्यतम् । गुरुसेवापर पात्रदानद् विक्रियातिगम् ॥३१॥
 शुभकर्मकर साम्यतापन्न वपुरद्भुतम् । विश्वशर्मकर पुण्य जनयत्यत्र धीमताम् ॥३२॥
 अनिष्ट यद्भवेत्स्वस्थ तदन्येषा न जातु य । चिन्तयेत्सर्वदा तस्य पर पुण्य न सशय ॥३३॥
 पुण्यकारणभूतानि बहून्याख्याय तीर्थराट् । सवेगाय गणाना तत्फलमाहेत्यनेकधा ॥३४॥
 कामिनी कमनीयाङ्गा कामदेवनिभान् सुतान् । स्वजनान्मित्रतुल्याश्च कुटुम्ब शर्मकारणम् ॥३५॥
 पर्वताभान् गजेन्द्रादीन् कविवाक्यातिग सुखम् । महाभोगोपभोगाश्च वपु कान्त वच शुभम् ॥३६॥
 मानस करुणाक्रान्त रूपलावण्यसपद् । लभन्ते पुण्यपाकेनात्रान्यद्वा दु कर जना ॥३७॥
 जगत्त्रयस्थिता लक्ष्मीर्दुर्लभा पुण्यकारिणी । वश याति स्वय पुण्याद् गृहदासीव धर्मिणाम् ॥३८॥
 त्रिजगन्नाथसेव्यार्च पर सर्वज्ञबैभवम् । पुण्योदयेन जायेत सता मुक्तिनिबन्धनम् ॥३९॥
 विश्वामरगणाभ्यर्च्य विश्वभोगैकमन्दिरम् । विश्वश्रीभूषित पुण्याल्लभेतेन्द्रपद् कृती ॥४०॥
 निधिरत्नादिसपूर्णा षट्खण्डप्रभवा श्रिय । पुण्योदयेन जायन्ते पुण्यभाजा सुखाकरा ॥४१॥
 यत्किञ्चिद् दुर्लभ लोके दुर्घट वा जगत्त्रये । सार सद्रस्तु सर्वं मोस्तत्क्षण लभ्यते शुभात् ॥४२॥
 इत्यादिविविध ज्ञात्वा पुण्यस्य प्रवर फलम् । शर्मकामा प्रयत्नेन कुरुध्व पुण्यमूजितम् ॥४३॥
 इत्यमा पुण्यपापाभ्या तत्त्वान्युक्त्वा जिनाग्रणी । हेयादेयादिकर्तृणि तेषा प्राह गणान् प्रति ॥४४॥
 मध्येऽत्र जीवराशीना पञ्चैव परमेष्ठिन । उपादेया सता ज्ञेया विश्वमव्यहितोद्यता ॥४५॥

स्वनिन्दाकारक, पर-निन्दासे दूर रहनेवाला, सुकोमल, धर्मका उपदेश देनेवाला, मिष्ट और सत्यकी सीमा आदिसे युक्त वचन अरिहन्तपद आदिको उत्पन्न करनेवाले पुण्यको सज्जनोके उत्पन्न करता है ॥२९-३०॥ कायोत्सर्ग आसनको प्राप्त, जिनेन्द्र पूजनमे उद्यत, गुरुसेवामे तत्पर, पात्रदान करनेवाला, विकारसे रहित, शुभ कार्य करनेवाला और समता भावको प्राप्त काय बुद्धिमानोके सर्व सुख उत्पन्न करनेवाले अद्भुत पुण्यको उत्पन्न करता है ॥३१ ३२॥ जो बात अपना अनिष्ट करनेवाली है, उसे कभी भी, जो दूसरोके लिए नहीं चिन्तवन करता है, उसके सर्वदा परम पुण्यका उपार्जन होता रहता है, इसमे कोई सशय नहीं है ॥३३॥ इस प्रकारसे तीर्थके सम्राट् वर्धमान स्वामीने पुण्यके कारणभूत बहुतसे कार्योंको कहकर द्वादशगणके जीवोको सवेग प्राप्तिके लिए पुन उन्होंने पुण्यके अनेक प्रकारके फलोको कहा ॥३४॥ पुण्यके फलसे जीव सुन्दर शरीरवाली स्त्रियोको, कामदेवके समान सुपुत्रोको, मित्र-तुल्य स्वजनोको, सुन्दर शरीरको, मिष्ट शुभ वचनको, करुणासे व्याप्त मनको, और रूप-लावण्य-सम्पदाको तथा अन्य भी दुर्लभ वस्तुओको प्राप्त करते हैं ॥३५-३७॥ पुण्यके उदयसे तीन लोकमे स्थित, पुण्यकारिणी लक्ष्मी गृहदासीके समान धर्मी पुरुषोके वशमे होकर स्वय प्राप्त होती है ॥३८॥ पुण्यके उदयसे सज्जनोको मुक्तिका कारण तथा तीन लोकके स्वामियोसे पूज्य उत्कृष्ट सर्वज्ञबैभव प्राप्त होता है ॥३९॥ पुण्यके उदयसे सुकृती पुरुष समस्त देवोसे पूज्य, सर्व भोगोका एक मात्र मन्दिर, और ससारकी श्रेष्ठ लक्ष्मीसे भूषित इन्द्रपद् प्राप्त होता है ॥४०॥ पुण्यसेवी पुरुषोके पुण्यके उदयसे नौ निधि और चौदह रत्नोसे परिपूर्ण, षट् खण्ड भूमिमे उत्पन्न और सुखकी भण्डार ऐसी चक्रवर्ती की सम्पदाएँ प्राप्त होती है ॥४१॥ ससारमे जो कुछ भी दुर्लभ अथवा दुर्घट सार उत्तम वस्तुएँ हैं, वे सब हे भव्यो, शुभ पुण्यसे तत्क्षण प्राप्त होती है ॥४२॥ इत्यादि विविध प्रकारके पुण्यके श्रेष्ठ फलको जानकर सुखके इच्छुक जनोको प्रयत्न पूर्वक उत्कृष्ट पुण्यका उपार्जन करना चाहिए ॥४३॥

इस प्रकारसे जिनाग्रणी जिनराजने पुण्य-पापके साथ सात तत्त्वोको कहकर गणोके लिए उनके हेय-उपादेयादि कारक कर्तव्योको कहना प्रारम्भ किया ॥४४॥ इस ससारमे सर्व

ज्ञानवान् सिद्धसादृश्यो निजात्मा गुणसागर । उपादेयो मुमुक्षूणा निर्विकल्पपदेक्षिणाम् ॥४६॥
 अथवा निखिला जीवा शुद्धनिश्चयतो बुधै । उपादेया परिज्ञेया व्यवहारबहि स्थितै ॥४७॥
 व्यवहारनयेनात्र हेया मिथ्यादृशोऽखिला । अभव्या विषयासक्ता पापिनो जन्तव शठा ॥४८॥
 अजीवतत्त्वमादेय क्वचित्सरागदेहिनाम् । धर्मध्यानाय हेय च विकल्पातिगयोगिनाम् ॥४९॥
 पुण्यास्रवायबन्धौ क्वचिदादेयौ सरागिणाम् । दुःकर्मपेक्षया हेयौ मुमुक्षूणा च मुक्तये ॥५०॥
 पापास्रवाघबन्धौ च विश्वदुःखनिबन्धनौ । अथलजनिता निन्द्यौ सदा हेयौ हि सर्वथा ॥५१॥
 सर्वयत्नेन सर्वत्रादेये सवरनिर्जरे । मोक्ष साक्षादुपादेयो ह्यनन्तसुखकारक ॥५२॥
 इति हेयमुपादेय ज्ञात्वा हेय प्रयत्नत । निहत्य निपुणा सर्वं गृह्णन्त्वादेयमूर्जितम् ॥५३॥
 मुख्यवृत्त्या भवेत्कर्ता पुण्यास्रवायबन्धयो । सम्यग्दृष्टिर्गृहस्थो वा व्रती सरागसयमी ॥५४॥
 पुण्यास्रवायबन्धौ च कुर्याद् भोगासये क्वचित् । मिथ्यादृष्टिर्वपु क्लेशायाति मन्दोदये सति ॥५५॥
 मिथ्यादृष्टिर्विधाता स्यात्पापास्रवाघबन्धयो । मुख्यवृत्त्या दुराचारी कुत्सिताचारकोटिभि ॥५६॥
 सवरादित्रितत्त्वाना कर्तार केवल भुवि । जिताक्षा योगिनो दक्षा रत्नत्रयविभूषिता ॥५७॥
 भव्याना हेतवो ज्ञेया पञ्चात्र परमेष्ठिन । निर्विकल्पनिजात्मानो वा सवरादिसिद्धये ॥५८॥
 मिथ्यादृशो भवन्त्यत्र हेतुभूताश्च ससृते । पापास्रवाघबन्धाय स्वेषा चान्यजडात्मनाम् ॥५९॥
 हेतुभूत परिज्ञेयमजीवतत्त्वमञ्जसा । सम्यग्दृग्ज्ञानधोर्नून पञ्चधाखिलधीमताम् ॥६०॥
 पुण्यास्रवायबन्धौ हेतुभूतौ दृष्टिशालिनाम् । तीर्थेशादिविभूतेश्च मिथ्यादृशाः भवप्रदौ ॥६१॥

जीव-राशियोंके मध्य पाँचो ही परमेष्ठी सज्जनोके उपादेय जानना चाहिए, क्योंकि ये समस्त भव्य जीवोंके हित करनेमें उद्यत हैं ॥४५॥ निर्विकल्पपदके इच्छुक मुमुक्षुजनोंको ज्ञानवान्, सिद्ध-सदृश, और गुणोका सागर ऐसा अपना आत्मा ही उपादेय है ॥४६॥ अथवा शुद्ध निश्चयनयसे, व्यवहारसे परवर्ती ज्ञानियोंको सभी जीव उपादेय जानना चाहिए ॥४७॥ व्यवहारनयकी अपेक्षा इस ससारमें सभी मिथ्यादृष्टि, अभव्य, विषयासक्त, पापी और शठ जीव हेय हैं ॥४८॥ सरागी मनुष्योंको धर्मध्यानके लिए कही पर अजीवतत्त्व उपादेय है और विकल्प त्यागी अर्थात् निर्विकल्प योगियोंके लिए अजीवतत्त्व हेय है ॥४९॥ सरागी जीवोंको क्वचित् कदाचित् पुण्यास्रव और पुण्य बन्ध दुष्कर्मों (पापो) की अपेक्षा उपादेय है और मुमुक्षु जनोको मुक्तिकी प्राप्तिके लिए वे दोनों हेय हैं ॥५०॥ अयत्न-जनित पापास्रव और पापबन्ध समस्त दुःखोंके कारण हैं, निन्द्य हैं, अतः वे सर्वथा ही हेय हैं ॥५१॥ सवर और निर्जरा सर्वयत्नसे सर्वत्र उपादेय हैं ॥५२॥ इस हेय और उपादेय तत्त्वको जानकर निपुण पुरुष प्रयत्नपूर्वक हेयका परित्याग कर सर्व उपादेय उत्तम तत्त्वको ग्रहण करे ॥५३॥ अविरत सम्यग्दृष्टि, देशव्रती गृहस्थ और सकलव्रती सरागसयमी साधु मुख्यरूपसे पुण्यास्रव और पुण्यबन्धका कर्ता होता है ॥५४॥ और कभी मिथ्यादृष्टि जीव भी पापकर्मोंके मन्द उदय होनेपर भोगोंकी प्राप्तिके लिए शारीरिक क्लेशादि सहनेसे पुण्यास्रव और पुण्यबन्धको करता है ॥५५॥ दुराचारी मिथ्यादृष्टि करोड़ों खोटे आचरणोंके द्वारा मुख्य रूपसे पापास्रव और पापबन्धका विधाता होता है ॥५६॥ सवर, निर्जरा और मोक्ष इन तीन तत्त्वोंके कर्ता ससारमें केवल जितेन्द्रिय, रत्नत्रय विभूषित और दक्ष योगी ही होते हैं ॥५७॥ भव्य जीवोंको सवरादि तीन तत्त्वोंकी सिद्धिके लिए व्यवहारनयसे इस लोकमें पंचपरमेष्ठी कारण जानना चाहिए और निश्चयनयसे निर्विकल्प निज आत्मा ही कारण जानना चाहिए ॥५८॥ मिथ्यादृष्टि जीव इस लोकमें अपने और अन्य अज्ञानी जीवोंके पापास्रव और पापबन्धके लिए ससारके कारण भूत होते हैं ॥५९॥ इस प्रकार समस्त बुद्धिमानोंको पाँच प्रकारका अजीव-तत्त्व निश्चयसे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका कारण जानना चाहिए ॥६०॥ दृष्टिशाली

पापास्रवायबन्धौ द्वौ केवल भवकारणौ । शठात्मना च विज्ञेयौ कृत्स्नदु खनिबन्धनौ ॥६२॥
 भवतो हेतुभूतेऽत्र सुक्ते सवरनिर्जरे । साक्षाद्देतुर्भवेन्मोक्षो ह्यनन्तसुखवारिधे ॥६३॥
 इति सर्वपदार्थानां स्वामिहेतुफलादिकान् । सम्यगुक्त्वा तत शेषप्रश्नानित्याह सोऽखिलान् ॥६४॥
 सप्तदुर्व्यसनोऽसक्ता परस्त्रीश्र्यादिकाङ्क्षिण । बह्वारम्भकृतोत्साहा बहुश्रीसप्रहोद्यता ॥६५॥
 क्रूरकर्मकरा क्रूरा निर्दया रौद्रमानसा । रौद्रध्यानरता नित्य विषयामिषलम्पटा ॥६६॥
 निन्द्यकर्मान्विता निन्द्या जिनशासननिन्दका । प्रतिकूला जिनेन्द्राणा धर्मिणा च सुयोगिनाम् ॥६७॥
 कुशास्त्राभ्याससलीना मिथ्यामतमदोद्धता । कुदेवगुरुभक्ता कुकर्माघप्रेरका खला ॥६८॥
 अत्यन्तमोहिना पापपण्डिता धर्मदूरगा । नि शीलाश्च दुराचारा व्रतमात्रपराङ्मुखा ॥६९॥
 कृष्णलेश्याशया रौद्रा महापञ्चाघकारका । इत्यन्यबहुदु कर्मकारिण पापिनोऽखिला ॥७०॥
 ये ते व्रजन्ति दु कर्मजातपापोदयेन च । रौद्रध्यानेन वै मृत्वा नरक पापिना गृहम् ॥७१॥
 आद्यादिसप्तमान्त स्वदुष्कर्मयोग्यमञ्जसा । विश्वदु खाकरीभूत निमेषार्धसुखातिगम् ॥७२॥
 मायाविनोऽतिकौटिल्यकर्मकोटिविधायिन । परश्रीहरणासक्ता अष्टप्रहरभक्षका ॥७३॥
 महामूर्खा कुशास्त्रज्ञा पशुवृक्षादिसेविन । नित्यस्नानकरा झुद्धये कुतीर्थगमनोद्यता ॥७४॥
 जिनधर्मबहिर्भूता व्रतशीलादिदूरगा । निन्द्या कपोतलेश्याख्या आर्तध्यानकरा सदा ॥७५॥

अर्थात् सम्यग्दृष्टि जीवोके पुण्यास्रव और पुण्यबन्ध तीर्थकरादिकी विभूतिके कारणभूत है और मिथ्यादृष्टियोंके पुण्यास्रव और पुण्यबन्ध ससारके कारण है ॥६१॥ अज्ञानी मिथ्यात्वियोंके पुण्यास्रव और पुण्यबन्ध ये दोनों ही केवल ससारके कारण और समस्त दुःखोंके निमित्त जानना चाहिए ॥६२॥ सवर और निर्जरा मुक्तिके परम्परा कारणभूत है और मोक्ष अनन्त सुख-सागरका साक्षात् हेतु है ॥६३॥ इस प्रकार सर्व पदार्थोंके स्वामी, हेतु और फलादिकी कहकर पुनः भगवान्ने गौतमके शेष प्रश्नोका इस प्रकार उत्तर देना प्रारम्भ किया ॥६४॥

जो जीव सप्त दुर्व्यसनोमे आसक्त है, परस्त्री और पर-धन आदिकी आकाक्षा रखते हैं, बहुत आरम्भ-समारम्भ करनेमें उत्साही हैं, बहुत लक्ष्मी और परिग्रहके सग्रहमें उद्यत हैं, क्रूर हैं, क्रूर कर्म करनेवाले हैं, निर्दयी हैं, रौद्र चित्तवाले हैं, रौद्रध्यानमें निरत हैं, नित्य ही विषयोमें लम्पट हैं, मास-लोलुपी हैं, निन्द्य कर्मोंमें सलग्न हैं, निन्दनीय हैं, जैनशास्त्रोंके निन्दक हैं, जिनेन्द्रदेव, जिनधर्म और उत्तम गुरुजनोके प्रतिकूल आचरण करते हैं, कुशास्त्रोंके अभ्यासमें सलग्न हैं, मिथ्यामतोंके मदसे उद्धत हैं, कुदेव और कुगुरुके भक्त हैं, खोटे कर्मों और पापोंकी प्रेरणा देते हैं, दुष्ट हैं, अत्यन्त मोही हैं, पाप करनेमें कुशल हैं, धर्मसे दूर रहते हैं, शील-रहित हैं, दुराचारी हैं, व्रतमात्रसे पराङ्मुख हैं, जिनका हृदय कृष्णलेश्या-युक्त रहता है, जो भयकर हैं, पाँचों महापापोंको करते हैं, तथा इसी प्रकारके अन्य बहुतसे दुष्कर्मोंके करनेवाले हैं, ऐसे समस्त पापी जीव इन दुष्कर्मोंसे उत्पन्न हुए पापके द्वारा, तथा रौद्रध्यानसे मरकर पापियोंके घर नियमसे जाते हैं ॥६५-७१॥ वह पापियोंका घर पहलेसे लेकर सातवें तक सात नरक हैं, वे पापी अपने दुष्कर्मके अनुसार यथायोग्य नरकमें जाते हैं । वे नरक ससारके समस्त दुःखोंके निधानस्वरूप हैं और उनमें अर्ध निमेष मात्र भी सुख नहीं है ॥७२॥

जो मायाचारी है, अति कुटिलतायुक्त कोटि-कोटि कार्योंके विधायक है, पर-लक्ष्मीके अपहरण करनेमें आसक्त है, दिन-रातके आँठों पहरोमें खाते-पीते रहते हैं, महामूर्ख हैं, खोटे शास्त्रोंके ज्ञाता हैं, धर्म मानकर पशुओं और वृक्षोंकी सेवा पूजा करते हैं, शुद्धिके लिए नित्य स्नान करते हैं, कुतीर्थोंकी यात्रार्थ जानेको उद्यत रहते हैं, जिनधर्मसे बहिर्भूत हैं, व्रत-शीलादिसे दूर रहते हैं, निन्दनीय हैं, कपोतलेश्यासे युक्त हैं, सदा आर्तध्यान करते रहते हैं,

इत्याद्यपरदुष्कर्मरता ये मूढमानसा । आर्तध्यानेन ते प्राप्य मरण दु खविह्वला ॥७६॥
 तिर्यग्गती प्रगच्छन्ति बह्विर्दु खखनीर्दु तम् । मरणोत्पत्तिसपूर्णा पराधीना सुखच्युता ॥७७॥
 नास्तिका ये दुराचारा परलोक वृष तप । वृत्त जिनेन्द्रशास्त्रादीन् मन्यन्ते न च दुर्धिय ॥७८॥
 तेऽत्यन्तविषयासक्तास्तीव्रमध्यात्वपूरिता । अन्तातीत निकोत प्रयान्ति दु खैकसागरम् ॥७९॥
 अनन्तकालपर्यन्त महादु ख वचोऽतिगम् । भुञ्जन्ति तत्र ते पापान्मरणोत्पत्तिज खला ॥८०॥
 तीर्थेशा सद्गुरुणा च ज्ञानिना धमिणा सदा । तपस्विना च कुर्वन्ति सेवा भक्ति च येऽर्चनाम् ॥८१॥
 महाव्रतानि चाहन्निरन्थाज्ञा पालयन्ति ये । अणुव्रतानि सर्वाणि मुनय श्रावका मुदा ॥८२॥
 द्विषड्भेदतपास्येव स्वशक्त्या ये प्रकुर्वते । कषायेन्द्रियचौराणा विधाय निग्रह बुधा ॥८३॥
 ध्यायन्ति धर्मशुक्लाख्यध्यानानि जितमानसा । आर्तगैद्राणि चाहत्य शुभलेश्याशयान्विता ॥८४॥
 दधते दृष्टिहार ये हृदये कर्णयोरपि । ज्ञानकुण्डलयुग्मे च मूर्ध्नि चारित्रशेखरम् ॥८५॥
 श्रयन्ति येऽतिसवेग भवभोगाङ्गधामसु । भावयन्ति सदाचाराप्यै भावना शुभा ॥८६॥
 कुर्वन्ति प्रत्यह धर्म क्षमाद्यैर्दशलक्षणै । स्वय ये सर्वशक्त्या च वाचाऽन्येषा दिशन्त्यलम् ॥८७॥
 इत्याद्यन्यै शुभाचारैरर्जयन्ति महावृषम् । ये ते सर्वे शुभमथानामृत्वा यान्ति सुरालयम् ॥८८॥
 श्रावका मुनयो वात्र विश्वसौख्यैकसागरम् । सर्वदु खातिग रम्य पुण्यभाजा कुलालयम् ॥८९॥
 ये दृष्टिभूषिता दक्षा नियमेन व्रजन्ति ते । पर कल्प न जात्येषा मतयो व्यन्तरादिका ॥९०॥
 अज्ञानतपसा मूढा कायक्लेश चरन्ति ये । नीचदेवगति व्यन्तरादिका तेऽपि यान्त्यहो ॥९१॥

तथा इसी प्रकारके अन्य दुष्कर्मोंके करनेमे जो मूढचित्त पुरुष सलग्न रहते हैं, वे आर्तध्यानसे मरण कर दुःखोसे विह्वल हो बहुत दुःखी खानिरूप तिर्यग्गतिमे जाते हैं, जहाँ पर वे उत्पत्तिसे लेकर मरण पर्यन्त पराधीन और दुःखी रहते हैं ॥७३-७७॥ जो नास्तिक हैं, दुराचारी हैं, परलोक, वर्म, तप, चारित्र, जिनेन्द्र शास्त्र आदिको नहीं मानते हैं, दुर्बुद्धि हैं, विषयोमे अत्यन्त आसक्त हैं, तीव्र मिथ्यात्वसे भरे हुए हैं, ऐसे जीव अनन्त दुःखोंके सागर ऐसे निगोदको जाते हैं । और वहाँ पर वे पापी अपने पापसे अनन्त काल पर्यन्त वचनातीत जन्म मरण जनित महादु खोको भोगते हैं ॥७८-८०॥

जो तीर्थकरोकी, सद्-गुरुओकी, ज्ञानियोकी, धर्मात्माओकी, तपस्वियोकी सदा सेवा भक्ति और पूजा करते हैं, जो पच महाव्रतोका और अर्हन्तदेव वा निग्रन्थ गुरुओकी आज्ञाका पालन करते हैं, ऐसे मुनिजन हैं, तथा जो सर्व अणुव्रतोका पालन करते हैं, ऐसे श्रावक हैं, जो हर्षसे अपनी शक्तिके अनुसार बारह प्रकारके तपोको करते हैं, जो ज्ञानी कषाय और इन्द्रियरूप चोरोका निग्रह करके तथा आर्त-रौद्रध्यानको दूर करके धर्मध्यान और शुक्ल-ध्यानको ध्याते हैं, मनको जीतनेवाले हैं, शुभलेश्याओसे जिनका चित्त युक्त है, जो अपने हृदयमे सम्यग्दर्शन रूपी हारको, दोनो कानोमे ज्ञानरूप कुण्डल-युगलको, और मस्तकपर चारित्ररूप मुकुटको धारण करते हैं, जो ससार, शरीर, भोग और भवनादिकमे अतिसवेग भाव रखते हैं, जो सदाचारकी प्राप्तिके लिए सदा शुभ भावनाओको भाते रहते हैं, जो प्रतिदिन क्षमादि दशलक्षणोसे उत्तम धर्मको अपनी शक्तिके अनुसार स्वय करते हैं, और वचनोके द्वारा धर्म-पालनका भली-भाँति उपदेश देते हैं, इन और इसी प्रकारके अन्य शुभ आचरणोसे जो महान् धर्मका उपार्जन करते हैं, वे सब जीव मरकर शुभध्यानके योगसे देवोंके आलय (स्वर्ग) को जाते हैं ॥८१-८८॥ जो ससारमे श्रावक, मुनि और सम्यग्दर्शनसे भूषित दक्ष पुरुष हैं, वे नियमसे कल्पवासी देवोमे उत्पन्न होते हैं, उनकी व्यन्तरादि गति कभी नहीं होती है ॥८९-९०॥ जो मूढ अज्ञान तपसे कायक्लेश करते हैं, वे जीव ही व्यन्तरादिकी नीचगतिको प्राप्त करते हैं ॥९१॥

स्वभावमार्दवोपेता आर्जवाङ्कितविग्रहा । सन्तोषिण सदाचारा नित्य मन्दकषायिण ॥९२॥
 शुद्धाशया विनीताश्च जिनेन्द्रगुरुधर्मिणाम् । इत्याद्यन्यामलाचारैर्मण्डिता येऽत्र जन्तव ॥९३॥
 ते लभन्तेऽन्यपाकेन चार्यखण्डे शुभाश्रिते । नृगति सत्कुलोपेता राज्यादिश्रीसुखान्विताम् ॥९४॥
 भक्त्योत्तमसुपात्रायान्नदान ददतेऽत्र ये । महामोगसुखाकीर्णा भोगभूमिं व्रजन्ति ते ॥९५॥
 येऽत्र मायाविनो मर्त्या अतृप्ता कामसेवने । विकारकारिणोऽङ्गादौ योषिद्वेषादिधारिण ॥९६॥
 मिथ्यादृशश्च रागान्धा नि शीला मूढचेतस । नार्यो भवन्ति ते लोके मृत्वा स्त्रीवेदपाकत ॥९७॥
 शुद्धाचरणशीला या मायाकौटिल्यवर्जिता । विचारचतुरा दक्षा दानपूजादित्पर ॥९८॥
 स्वल्पाक्षशर्मसतोषान्विता दृग्ज्ञानभूषिता । नार्यं पुवेदपाकेन जायन्तेऽत्र च मानवा ॥९९॥
 अतीवकामसेवान्धा परदारदिलम्पटा । अनङ्गक्रीडनासक्ता नि शीला व्रतवर्जिता ॥१००॥
 नीचधमरता नीचा नीचमार्गप्रवर्तिन । ये ते नपुसका स्युश्च क्लीबवेदवशाजडा ॥१०१॥
 कारयन्ति पशूना येऽतिभारारोपण शठा । धनन्ति पादेन सत्त्वाश्चक्षणादृतेऽध्वगामिन ॥१०२॥
 कुतीर्थे पापकर्मादौ गच्छन्ति निर्दयाशया । मृत्या ते पङ्गवो निन्द्या स्युराङ्गोपाङ्गकर्मणा ॥१०३॥
 अश्रुत परदोषादि श्रुत वदन्ति चर्षया । शृण्वन्ति परनिन्दा ये विकथा दु श्रुति जडा ॥१०४॥
 केवलश्रुतसङ्घाना दूषण चात्र धर्मिणाम् । मत्रेयुर्वधिरास्ते कुज्ञानावरणपास्त ॥१०५॥
 ब्रुवन्त्यत्रेभ्ययादृष्टदृष्ट ये परदूषणम् । कुयुर्नेत्रविकार च पश्यन्त्यादरत खला ॥१०६॥
 परस्त्रीस्तनयोन्धास्यान् कुतीर्थदेवलिङ्गिन । तेऽतीवदु सिनोऽन्धा स्युश्चक्षुरावरणोदयात् ॥१०७॥

जो स्वभावसे मृदुता-युक्त है, जिनका शरीर सरलतासे सयुक्त है, सन्तोषी है, सदा-चारी है, सदा जिनकी कषाय मन्द रहती है, शुद्ध अभिप्राय रखते है, विनीत है, जिनेन्द्र देव, निर्ग्रन्थ गुरु और जिनधर्मका विनय करते है, इन तथा ऐसे ही अन्य निर्मल आचरणो-से जो जीव यहाँपर विभूषित होते है, वे पुण्य के परिपाकसे शुभके आश्रयभूत आर्यखण्डमे सत्कुलसे युक्त, राज्यादि लक्ष्मीके सुखसे भरी हुई मनुष्यगतिको प्राप्त करते है ॥९२-९४॥ जो पुरुष भक्तिसे उत्तम सुपात्रोको यहाँपर आहारदान देते है, वे महान् भोगो और सुखोसे भरी हुई भोगभूमिको जाते है ॥९५॥ जो मनुष्य यहाँपर मायावी होते है, काम सेवन करने-पर भी जिनकी तृप्ति नहीं होती, शरीरादिमे विकारी कार्य करते है, स्त्री आदिके वेषको धारण करते है, मिथ्यादृष्टि है, रागान्ध है, शील-रहित है और मूढचित्त है, ऐसे मनुष्य मरकर स्त्री-वेदके परिपाकसे इस लोकमे स्त्री होते है ॥९६-९७॥ जो शुद्धाचरणशाली है, माया-कुटिलतासे रहित है, हेय-उपादेयके विचारमे चतुर है, दक्ष है, दान पूजादिमे तत्पर है, अल्प इन्द्रिय-सुखसे जिनका चित्त सन्तोष-युक्त है, और सम्यग्दर्शन-ज्ञानसे विभूषित है, ऐसी स्त्रियाँ पुरुषवेदके परिपाकसे यहाँपर मनुष्य होती है ॥९८-९९॥ जो पुरुष काम-सेवनमे अत्यन्त अन्ध (आसक्त) होते है, परस्त्री पुत्री आदिमे लम्पट है, हस्तमैथुनादि अनङ्गक्रीडामे आसक्त रहते है, शील-रहित है, व्रत रहित है, नीच धर्ममे सलग्न है, नीच है और नीच मार्गके प्रवर्तक है, ऐसे जड जीव नपुसक वेदके वशसे नपुसक होते है ॥१००-१०१॥

जो शठ पशुओके ऊपर उनकी शक्तिसे अधिक भारको लादते और लदवाते है, पैरोसे प्राणियोको मारते है, विना देखे मार्गपर चलते है, कुतीर्थमे और पाप-कार्यादिमे जाते है, ऐसे निर्दय चित्तवाले निन्द्य जीव मरकर अगोपागनामकर्मके उदयसे पगु (लँगडे) होते है ॥१०२-१०३॥ जो जड लोग नहीं सुने हुए भी पर दोषोको ईर्ष्यासे कहते है, पर-निन्दा, विकथा और कुशास्त्रोको सुनते है, केवली भगवान्, श्रुत सध और धर्मात्माओको दूषण लगाते है, वे कुज्ञानावरणकर्मके विपाकसे बधिर (बहरे) होते है ॥१०४-१०५॥ जो अन्य लोगोके देखे या अनदेखे दूषणोको कहते है, नेत्रो की विकार युक्त चेष्टा करते है, जो दुष्ट

प्रजल्पन्ति वृथा येऽत्र विकथा प्रत्यह शठा । दोषान्निर्दोषिणा चाहं च्छ्रुतसद्गुरुधर्मिणाम् ॥१०८॥
 पठन्ति पापशास्त्राणि स्वेच्छया च जिनागमम् । विनयादि विना लोभख्यातिपूजादिवाञ्छया ॥१०९॥
 धर्मसिद्धान्ततत्त्वार्थानयुक्त्याऽन्यान् दिशन्ति च । ते ज्ञानावृत्तिपाकेन मूका स्यु श्रुतवर्जिता ॥११०॥
 स्वेच्छया ये प्रवर्तन्ते हिंसादिपापपञ्चसु । उन्मत्ता इव गृह्णन्ति तत्त्वार्थान् श्रीजिनोदितान् ॥१११॥
 देवश्रुतगुरुन् धर्माचादीन् सत्यास्तथेतरान् । भवन्ति विकलास्ते मतिज्ञानावरणोदयात् ॥११२॥
 कुबुद्ध्या येऽत्र सेवन्ते सप्त वै व्यसनान्यलम् । विषयामिषलाम्पट्यान्मूर्खा दुर्गतिगामिन ॥११३॥
 मित्रत्व च प्रकुर्वन्ति व्यसनासक्तचेतसाम् । मिथ्यादृशा च साधुभ्यो दूर नश्यन्ति पापिन ॥११४॥
 ते श्वभ्रादिगतीभ्रान्त्वा पुन इवभ्रादिसिद्धये । उत्पद्यन्तेऽतिपापेन खला दुर्व्यसनाकुला ॥११५॥
 तपोयमव्रतादीन् विना येऽतिलम्पटाशया । पोषयन्ति वपुर्नित्य नानाभोगैर्वृषादृते ॥११६॥
 चरन्ति निशि चान्नादीन् पीडयन्त्यङ्गिनो वृथा । भक्षयन्ति ह्यखाद्यानि पापिन करुणातिगा ॥११७॥
 तेऽसातकर्मपाकेन कृत्स्नरोगैकभाजना । जायन्ते रोगिणस्तीव्रवेदना विह्वलाशया ॥११८॥
 शरीरे ममता त्यक्त्वा ये चरन्ति तपोव्रतम् । स्वसमा जीवराशि विज्ञाय ध्वन्ति न जातुचित् ॥११९॥
 आक्रन्ददुःखशोकादीन् स्वान्ययोर्जनयन्ति न । भवेयु सुखिनस्तेऽत्र विश्वरोगातिगा शुभात् ॥१२०॥
 ये न कुर्वन्ति सस्कार वपुषो मण्डनादिभि । तपोनियमयोगाद्यै कायक्लेश श्रयन्ति च ॥१२१॥
 सेवन्ते परया भक्त्या पादाब्जान् जिनयोगिनाम् । शुभप्रकृतिपाकेन दिव्यरूपा भवन्ति ते ॥१२२॥

परस्त्रियोके स्तन, योनि आदि अगोको आदर और प्रेमसे देखते हैं, कुतीर्थी, कुदेवभक्त और कुलिंगी हैं, वे पुरुष चक्षुदर्शनावरणकर्मके उदयसे अतीव दुःख भोगनेवाले अन्धे होते हैं ॥१०६-१०७॥ जो शठ यहाँपर प्रतिदिन वृथा ही विकथाओको कहते रहते हैं, निर्दोष अर्हन्त, श्रुत, सद्-गुरु और वार्मिकजनाके मन-गढन्त दोषोको कहते हैं, पापशास्त्रोको अपनी इच्छासे पढते हैं, और जिनागमको विनय आदिके विना लोभ, ख्याति, पूजा आदिकी इच्छा से पढते हैं, जो धर्म, सिद्धान्त और तत्त्वार्थका कुयुक्तियोसे अन्यथारूप दूसरोको उपदेश देते हैं, वे जीव ज्ञानावरणकर्मके विपाकसे श्रुतज्ञानसे रहित मूक (गूंगे) होते हैं ॥१०८-११०॥ जो जीव हिंसादि पाँचो पापोंमे अपनी इच्छासे प्रवृत्त होते हैं, श्रीजिनेन्द्रदेवसे उपदिष्ट तत्त्वार्थको उन्मत्त पुरुषके समान यद्वा-तद्वा रूपसे ग्रहण करते हैं, तथा सत्य और असत्य देव शास्त्र, गुरु, धर्म, प्रतिमा आदिको भी समान मानते हैं, ऐसे जीव मति ज्ञानावरणकर्मके उदयसे विकलाङ्गी होते हैं ॥१११-११२॥ जो लोग कुबुद्धिसे यहाँपर सातो व्यसनोका भरपूर सेवन करते हैं, वे मूर्ख विषय-लोलुपता और मास-भक्षणकी लम्पटतासे दुर्गतियोमे जाते हैं ॥११३॥ जो लोग नरकादिकी सिद्धिके लिए व्यसनासक्त चित्तवाले मिथ्यादृष्टियोके साथ मित्रता करते हैं, और साधु पुरुषोसे दूर रहते हैं, वे पापी जन विनाशको प्राप्त होते हैं, वे अति पापके उदयसे नरकादि गतियोमे परिभ्रमण कर दुर्व्यसनी और दुःखोसे व्याकुल दुर्गतियोमे उत्पन्न होते हैं ॥११४-११५॥ जो अति लम्पट चित्तवाले पुरुष तप, सयम, व्रतादिके विना धर्मको छोडकर नाना प्रकारके भोगोसे शरीरको सदा पोषण करते रहते हैं, रात्रिमे अन्नादिको खाते हैं, प्राणियोको अकारण वृथा पीडा देते हैं, अभक्ष्य वस्तुओको खाते हैं, और करुणासे रहित हैं, वे पापी असाताकर्मके परिपाकसे सर्व रोगोके भाजन, तीव्र वेदनासे विह्वल चित्तवाले ऐसे महारोगी उत्पन्न होते हैं ॥११६-११८॥ जो पुरुष शरीरमे ममताका त्याग कर तप और व्रतको पालते हैं, अपने समान सर्वजीवराशिको मानकर किसी भी जीवका कभी भी घात नहीं करते हैं, जो आक्रन्दन, दुःख, शोक आदि न स्वयं करते हैं और न दूसरोको उत्पन्न कराते हैं, वे मनुष्य यहाँपर साता कर्मके उदयसे सर्व रोगादिसे दूर रहते हैं, और निरोगी सुखी जीवन यापन करते हैं ॥११९-१२०॥ जो ज्ञानी पुरुष आभूषण आदिसे शरीरका संस्कार

काय मत्वा स्वकीय ये क्षालयन्ति पशूपमा । शुद्धयै च मण्डयन्त्यत्र रागिणो भूषणादिभि ॥१२३॥
 कुदेवगुरुधर्मादीन् मज्जन्ति शुभकाङ्क्षया । कुरुपिणोऽतिबीभत्सा भवेयुस्तेऽशुभोदयात् ॥१२४॥
 ये कुर्वन्ति परा भक्तिं जिनेन्द्रागमयोगिनाम् । आचरन्ति तपोधर्मं व्रतानि नियमादिकान् ॥१२५॥
 हत्या च दुर्ममत्वादीन् जयन्तीन्द्रियतस्करान् । स्युस्ते नेत्रप्रिया लोके सुभगा सुभगोदयात् ॥१२६॥
 मुनौ मलादिलिप्ताङ्गे घृणा कुर्वन्ति ये शठा । रूपादीना मदान् गर्वादीहन्ते परयोषित ॥१२७॥
 उत्पादयन्ति वा प्रीति स्वजनाना मृषोक्तिभि । दुर्भगोदयतस्ते स्युर्दुर्भगा विश्वनिन्दिता ॥१२८॥
 ददसे कुत्सिता शिक्षा येऽन्येषा वञ्चनोद्यता । विचारेण विना भक्तिं पूजा धर्माय कुर्वते ॥१२९॥
 देवशास्त्रगुरूणा च सत्यासत्यात्मना जडा । ते मत्यावरणान्निन्धा जायन्ते दुर्धियोऽशुभा ॥१३०॥
 सुबुद्धि ददतेऽन्येषा तपोधर्मादिकर्मसु । विचारयन्ति ते नित्य तत्त्वातत्त्वादिकान् बहून् ॥१३१॥
 सारान् गृह्णन्ति धर्मादीन् सुञ्चन्त्यन्यान् बुधोत्तमा । मत्यावरणमन्दात्ते सन्ति मेधाविनो विद ॥१३२॥
 पाठयन्ति न पाढाहं ये ज्ञानमदगर्विता । जानन्तोऽपि दुराचारास्तन्वन्ति स्वान्ययो खला ॥१३३॥
 हित जिनागम त्यक्त्वा पठन्ति दु श्रुत चिदे । वदन्ति कटुकालापान् वचचागमनिन्दितम् ॥१३४॥
 परपीडाकर लोके वासत्य धर्मदूरगम् । निन्धा सन्ति महामूर्खास्ते श्रुतावरणोदयात् ॥१३५॥
 पठन्ति पाठयन्त्यन्यान् ये सदा श्रीजिनागमम् । कालाद्यष्टविधाचारैर्व्याख्यान्ति धर्मसिद्धये ॥१३६॥
 बोधयन्ति बहून् मव्यान् धर्मोपदेशनादिभि । प्रवर्तन्ते स्वय शश्वन्निर्मले धर्मकर्मणि ॥१३७॥

नही करते है, और तप नियम-योगादिके द्वारा कायक्लेशको करते है, परम भक्तिसे जिनदेव और योगियोंके चरण-कमलोकी सेवा करते है, वे शुभकर्मके परिपाकसे दिव्यरूपके धारी होते है ॥१२१-१२२॥ जो पशु-तुल्य मूढ जीव यहाँपर शरीरको अपना मानकर उसकी शुद्धिके लिए जलसे प्रक्षालन करते है, जो रागी पुरुष आभूषणादिसे शरीरका शृंगार करते है, जो शुभ (पुण्य) की इच्छासे कुदेव, कुगुरु और कुधर्मादिकी सेवा करते है, वे जीव अशुभ कर्मके उदयसे अति बीभत्स कुरुपके धारक होते है ॥१२३-१२४॥ जो पुरुष जिनदेव, जिनागम और योगियोंकी परम भक्ति करते है, तप, धर्म, व्रत और नियम आदिको धारण करते है, खोटे ममत्व आदिका घात कर इन्द्रियरुम चोरोको जीतते है, ये पुरुष सुभग कर्मके उदयसे लोकमे सौभाग्यशाली और नेत्रप्रिय होते है ॥१२५-१२६॥ जो शठ मल-मूत्रादिसे लिप्त मुनिपर घृणा करते है, जो रूप आदि मदोके गर्वसे परस्त्रियोंकी इच्छा करते है, जो मृषा भाषणोसे स्वजनोके प्रीतिको उत्पन्न करते है, वे पुरुष दुर्भगनामकर्मके उदयसे दुर्भागी और लोक-निन्दित होते है ॥१२७-१२८॥ दूसरोको छलसे ठगनेमे उद्यत जो पुरुष खोटी शिक्षा देते है और जो जड पुरुष सद्-असद् विचारके विना धर्मके लिए सच्चे और झूठे देव शास्त्र गुरुओकी भक्ति-पूजा करते है, वे मतिज्ञानावरणकर्मके उदयसे दुर्बुद्धि और अशुभ प्रवृत्तिवाले होते है ॥१२९-१३०॥ जो पुरुष दूसरोको सद्-बुद्धि देते है, तप और धर्मादि कार्योमे नित्य ही जो तत्त्व-अतत्त्व और सत्य-असत्य आदि अनेक बातोका विचार करते है, जो उत्तम बुधजन धर्मादि सार बातोको ग्रहण करते है और असार बातोको छोड देते हैं, वे पुरुष मत्यावरणके मन्द होनेसे मेधावी और विद्वान् होते है ॥१३१-१३२॥ ज्ञानके मदसे गर्व-युक्त जो पुरुष पढानेके योग्य भी व्यक्तिको नही पढाते है, जो दुष्ट यथार्थ तत्त्वको जानते हुए भी अपने और दूसरोके लिए दुराचारोका विस्तार करते है, हितकारी जैनागमको छोडकर ज्ञान-प्राप्तिके लिए कुशास्त्रको पढते है, लोकमे कटुक वचनालाप करते है, आगम-निन्दित, पर-पीडाकारी, असत्य और धर्मसे पराङ्मुख वचन बोलते है, वे पुरुष श्रुतज्ञानावरणकर्मके उदयसे महामूर्ख और निन्दनीय होते है ॥१३३-१३५॥ जो कालशुद्धि आदि आठ प्रकारके ज्ञानाचारोके साथ सदा श्रीजिनागमको स्वय पढते है, औरोको पढाते है, धर्म-सिद्धिके लिए उसका व्याख्यान करते है,

माषन्तेऽत्र हित सत्य वचोऽसत्य न जातुचित् । ते विद्वांसो जगत्पूज्या स्यु श्रुतावरणात्ययात् ॥१३८
 वैराग्य भवभोगाङ्गे जिनेन्द्रगुरुसद्गुणान् । धर्म धर्माय तत्त्वादीन् चिन्तयन्ति सदा हृदि ॥१३९॥
 त्यक्त्वा ये चार्जवादीन् कौटिल्य दधते क्वचित् । शुभाशया भवेयुस्ते शुभाच्छुभविधायिन ॥१४०॥
 परस्त्रीहरणादौ ये कौटिल्य कुटिलाशया । चिन्तयन्त्यन्वह चित्ते ह्युच्चाटन च धर्मिणाम् ॥१४१॥
 तुष्यन्ति मनसा दृष्ट्वा दुराचाराणि दुर्धियाम् । पापार्जनाय जायन्ते तेऽशुभेनाशुभाशया ॥१४२॥
 ये कुर्वन्ति सदा धर्मं तपोव्रतक्षमादिभि । सत्पात्रदानपूजाद्यैर्दृक्चिद्दृष्टैर्दृगन्विता ॥१४३॥
 ते नाकादौ सुख भुङ्क्त्वा पुनरुच्चै पदाप्तये । धर्मकर्मकरा धर्मादुत्पद्यन्तेऽत्र धर्मिण ॥१४४॥
 येऽर्जयन्ति सदा पाप हिसानृतादिभि खला । दुर्बुद्ध्या विषयासक्त्या मिथ्यादेवादिभक्तिभि ॥१४५॥
 श्वभ्रादौ तत्फलनात्र चिर भुङ्क्त्वाऽसुख महत् । जायन्ते पापिन पापात्तेऽहो तद्गतिहेतवे ॥१४६॥
 ददते येऽन्वह दान सत्पात्रेभ्योऽतिभक्ति । अर्चयन्ति जिनेन्द्राद्वाग्नी गुरुपादाम्बुजौ शुभौ ॥१४७॥
 विद्यमानान् बहून् भोगास्त्यजन्ति धर्मसिद्धये । ते लभन्तेऽत्र धर्मेण महतीर्भोगसपद ॥१४८॥
 सेवन्ते प्रत्यह येऽत्र भोगानन्यायकर्मभि । यान्ति जातु न सतोष बहुभिर्भोगसेवनै ॥१४९॥
 पात्रदानजिनार्चा च नैत्र स्वप्नेऽपि कुर्वते । तेऽवपाकेन जायन्ते दीना भोगादिवर्जिता ॥१५०॥
 ये तन्वन्ति सदा धर्मं पूजन च जिनेशिनाम् । वितरन्ति सुपात्रेभ्यो दान भक्तिभराङ्किता ॥१५१॥
 तपोव्रतयमादीश्चाचरन्ति लोभदूरगा । तान् प्रति स्वयमायान्ति जगत्सारा श्रिय शुभात् ॥१५२॥

धर्मोपदेशादिके द्वारा अनेक भव्यजीवोको बोध देते है, स्वयं सदा निर्मल धर्म-कर्ममे प्रवृत्ति करते है, हितकारी और सत्य वचन ही बोलते है और लोकमे कभी भी असत्य वचन नही बोलते है, वे पुरुष श्रुतज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे विद्वान् और जगत्पूज्य होते है ॥१३६-१३८॥

जिनके हृदयमे ससार, भोग और शरीरसे वैराग्य है, जिनेन्द्र देव और सद्-गुरुके गुणोका, धर्मका और तत्त्वादिका धर्म-प्राप्तिके लिए सदा चिन्तवन करते है, जो आर्जव आदि सद्-गुणोको छोडकर क्वचित्-कदाचित् भी कुटिलता नही करते है, वे शुभ आशयवाले पुरुष पुण्यकर्मके उदयसे शुभ कार्योके करनेवाले होते है ॥१३९-१४०॥ जो कुटिल अभिप्रायवाले मनुष्य परस्त्रीहरण आदि कुटिल प्रवृत्ति करते है, धर्मात्माजनोके उच्चाटनका चित्तमे सदा विचार करते रहते है और दुर्बुद्धियोके दुराचारोको देखकर मनमे सन्तुष्ट होते है, वे अशुभ कर्मके उदयसे पापोपार्जनके लिए अशुभ अभिप्रायवाले उत्पन्न होते है ॥१४१-१४२॥ जो पुरुष तप, व्रत, क्षमादिके द्वारा, सत्पात्रदान पूजादिके द्वारा, दर्शन-ज्ञान और चारित्रिके द्वारा सदा धर्मको करते है, सम्यग्दर्शनसे युक्त है, वे स्वर्गादिमे सुख भोगकर पुनः उच्च पदोकी प्राप्तिके लिए धर्म-कार्य करते है, वे जीव इस लोकमे धर्मके प्रभावसे धर्मात्मा उत्पन्न होते है ॥१४३-१४४॥ जो दुष्ट मनुष्य हिंसा, झूठ आदिके द्वारा दुर्बुद्धिसे, विषयोमे आसक्तिसे और कुदेवादिकी भक्तिसे सदा पापोका उपार्जन करते है, वे जीव इस लोकमे ही चिरकाल तक दुख भोगकर उस पाप कर्मके फलसे नरकादि गतियोमे उत्पन्न होते है। अहो गौतम, वे जीव दुर्गतिओ जानेके लिए पापसे पापी ही उत्पन्न होते है ॥१४५-१४६॥ जो पुरुष सत्पात्रोके लिए अति भक्तिसे प्रतिदिन दान देते है, जिनेन्द्रदेवके और गुरुजनोके शुभ चरण-कमलोको पूजते है, और धर्मकी सिद्धिके लिए विद्यमान बहुत से भोगोको छोडते है, वे मनुष्य इस लोकमे धर्मके द्वारा महा भोग-सम्पदाओको पाते है ॥१४७-१४८॥ जो पुरुष इस लोकमे प्रतिदिन अन्याय और अत्याचार-परिपूर्ण कार्योके द्वारा भोगोको भोगते है, बहुत भोगोके सेवनसे भी कभी सन्तोषको प्राप्त नही होते है, और पात्रदान, जिनपूजा आदिको स्वप्नमे भी नही करते है, वे उस पापके परिपाक द्वारा भोगोसे रहित दीन अनाथ उत्पन्न होते है ॥१४९-१५०॥ जो सदा धर्मका विस्तार करते है, जिनेशोका पूजन करते है, भक्तिभारसे

समर्था अपि ये पात्रदान श्रीजिनपूजनम् । धर्मकार्यं च जैनानामुपकार न कुर्वते ॥१५३॥
 वाञ्छन्ति सकला लक्ष्मीर्लोमाद्धर्मव्रतातिगा । तेऽवपाकेन दुःखाद्या निर्धना स्युर्मवे भवे ॥१५४॥
 पशूना वा मनुष्याणा वियोग ये वितन्वते । बन्ध्वाद्यै परशामाश्रीवस्त्वादीश्व हरन्त्यलम् ॥१५५॥
 नि शीलास्ते लभन्तेऽत्र वियोग च पदे पदे । पुत्रबान्धवकान्ताश्रयादीष्टेभ्यो ह्यशुभोदयात् ॥१५६॥
 दूषयन्ति न जीवान् ये वियोगताडनादिभि । पोषयन्ति सदा जैनास्तदीहितसुसपदा ॥१५७॥
 सेवन्ते यत्नतो धर्मं व्रतदानार्चनादिभि । स्पृहयन्ति न शर्मस्त्रीतुग्धनादीन् शिव विना ॥१५८॥
 सपद्यन्तेऽत्र तेषा च पुण्यभाजा सुपुण्यत । सयोगाश्च मनोऽमीष्टपुत्रस्त्रीधनकोटिभि ॥१५९॥
 पात्रेभ्यो येऽनिश दान धन मक्त्वा च सिद्धये । चैत्यचैत्यालयादीना ददते धर्मकाङ्क्षिण ॥१६०॥
 तेषा सर्वत्र जायेत दातृत्वगुण उत्तम । पूर्वसस्कारयोगेन श्रेयसेऽत्र परत्र च ॥१६१॥
 वितरन्ति न दान ये पात्रेभ्य कृपणा क्वचित् । धन न जिनपूजायै त्रिजगच्छ्रीसुखाथिन ॥१६२॥
 ते दुर्गतौ चिर भ्रान्त्वा तीव्रलोभाकुला ह्यघात् । पुन सर्पादिगत्याप्यै जायन्ते कृपणा भुवि ॥१६३॥
 ध्यायन्ति तद्गुणाप्यै ये गुणालोकोत्तमान् सदा । अर्हता च गणेशाना तद्वाचो मुनिधर्मिणाम् ॥१६४॥
 गुणग्रहणशीलाश्च सर्वत्रागुणदूरगा । गणिनस्ते भवन्त्यत्र बुधाचर्या गुणवृद्धये ॥१६५॥
 दोषान् गृह्णन्ति ये मूढा गुणिना न गुणान् क्वचित् । निर्गुणाना कुदेवादीना स्मरन्ति गुणान् वृथा ॥१६६॥

युक्त होकर सुपात्रोको दान देते हैं, तप, व्रत, सयमादिका आचरण करते हैं, और लोभसे दूर रहते हैं, उनके पास पुण्यकर्मके उदयसे जगत् मे सारभूत लक्ष्मी स्वयं जाती है ॥१५१-१५२॥ जो पुरुष समर्थ होकरके भी पात्रदान, श्री जिनपूजन, धर्म-कार्य और जैनोका उपकार नहीं करते हैं, धर्म और व्रतसे दूर रहते हैं और लोभसे ससारकी सम्पदाओकी वाछा करते हैं, वे जीव पापके परिपाकसे भव-भवमे निर्धन और दुःख भोगनेवाले होते हैं ॥१५३-१५४॥ जो जीव पशुओका अथवा मनुष्योका उनके बन्धु जनोसे वियोग करते हैं, परस्त्री, पर-लक्ष्मी और पर-वस्तु आदिका निरन्तर अपहरण करते हैं, तथा व्रत-शीलसे रहित हैं, वे जीव यहाँ पद पद पर पाप कर्मके उदयसे पुत्र, बान्धव, स्त्री और लक्ष्मी आदि इष्ट वस्तुओसे वियोगको प्राप्त होते हैं ॥१५५-१५६॥ जो पुरुष वियोग, ताडन आदिसे दूसरे जीवोको दुःख नहीं पहुँचाते हैं, सदा जैनोका उनकी अभीष्ट सम्पदासे अर्थात् मनोवाञ्छित वस्तु देकर पोषण करते हैं, यत्नपूर्वक व्रत, दान, पूजनादिके द्वारा धर्मका सेवन करते हैं, मोक्षके विना सासारिक सुख-स्त्री, पुत्र और धनादिकी इच्छा नहीं करते हैं, उन पुण्यशाली लोगोकी सुपुण्यके निमित्तसे मनोभीष्ट पुत्र स्त्री और कोटि-कोटि धनके साथ इस लोकमे सयोग प्राप्त होते हैं ॥१५७-१५९॥ जो धर्मके अभिलाषी जन पात्रोके लिए सदा दान देते हैं, जिन-प्रतिमा और जिनालय आदिके निर्माणके लिए भक्तिके साथ धन देते हैं, उनके पूर्व सस्कारके योगसे सर्वत्र उत्तम दातृत्व गुण प्राप्त होता है, जो उनके इस लोक और परलोकमे कल्याणके लिए कारण होता है ॥१६०-१६१॥ जो कृपण पुरुष क्वचित् कदाचित् भी पात्रोके लिए दान नहीं देते हैं और तीन लोककी लक्ष्मी और सुखके इच्छुक होकरके भी जिनपूजाके लिए धन नहीं देते हैं, वे कृपण अपने इस पापके द्वारा तीव्र लोभसे आकुलित होकर चिरकाल तक दुर्गतियोमे परिभ्रमण कर पुनः सर्प आदिकी गति पानेवाले होते हैं ॥१६२-१६३॥

जो पुरुष अरिहन्तोके, गणधरोके और अन्य मुनिधर्म पालन करनेवालोंके लोकोत्तम गुणोका तथा उनके वचनोंका उन जैसे गुणोकी प्राप्तिके लिए सदा ध्यान करते हैं, गुण-ग्रहण करनेका जिनका स्वभाव है, जो सर्वत्र सर्वदा दुर्गुणोसे दूर रहते हैं, ऐसे पुरुष इस लोकमे गुणवृद्धि के लिए विद्वानो द्वारा पूजित ऐसे गुणवान् होते हैं ॥१६४-१६५॥ जो मूढ पुरुष दोषोको ही ग्रहण करते हैं और गुणी जनोके गुणोको क्वचित् कदाचित् भी ग्रहण नहीं करते

जातु दोषान्न जानन्ति मिथ्यामार्गकुलिङ्गिनाम् । भवेयुनिर्गुणास्तेऽत्र निर्गन्धकुसुमोपमा ॥१६७॥
 मिथ्यादृशा कुदेवाना कुत्सिताना कुलिङ्गिनाम् । सेवा भक्तिं च कुर्वन्ति ये धर्मिय वृषोपमा ॥१६८॥
 न च श्रीजिननाथाना धर्मिणा न सुयोगिनाम् । परकिङ्करता पापात्ते लभन्ते पदे पदे ॥१६९॥
 त्रिजगत्स्वामिनश्चाहृद्गणेन्द्रागमयोगिन । रत्नत्रय तपोधर्ममाराधयन्ति येऽनिशम् ॥१७०॥
 त्रिशुद्ध्या नुतिपूजाद्यैस्त्यक्त्वा सर्वान्मतान्तरान् । उत्पद्यन्तेऽत्र पुण्यात्ते स्वामिनो विश्वरुपदाम् ॥१७१॥
 निर्दया ये व्रतैर्हीना धन्यत्र परबालकान् । तन्वन्ति बहुमिथ्यात्व सतानादिप्रसिद्धये ॥१७२॥
 तेषा शठात्मना मिथ्यात्वाघपाकेन निश्चितम् । स्वल्पायुषो न जीवन्ति पुत्रा पुण्यादिवर्जिता ॥१७३॥
 चण्डिकाक्षेत्रपालादीन् यागगौर्यादिकान् बहून् । दूर्वादीन् पुत्रलाभाय ये भजन्यर्चनादिभि ॥१७४॥
 न चाहंतोऽत्र पुत्रादिसर्वार्थसिद्धिदान् शठा । बन्ध्यत्व ते लभन्तेऽहो मिथ्यात्वेन भवे भवे ॥१७५॥
 स्वसतानसमानमत्वाऽन्यपुत्रान् भ्रन्ति जातु न । मिथ्यात्व शत्रुवत्यक्त्वा येऽहिसादित्रतान्विता ॥१७६॥
 यजन्ति जिनसिद्धान्तयोगिन स्वेष्टसिद्धये । दिव्यरूपा शुभात्तेषा सुता स्युश्चिरजीविन ॥१७७॥
 तपोनियमसद्भ्यानकायोत्सर्गादिकर्मसु । वापरे धर्मकार्यादौ दीक्षादानेऽतिदुष्करे ॥१७८॥
 कातरत्व प्रकुर्वन्ति हीनसत्त्वा हि येऽङ्गिन । कातरास्तेऽत्र जायन्ते सर्वकार्येऽक्षमा ह्यघात् ॥१७९॥
 स्वधैर्यं प्रकटीकृत्य दुष्कराणि तपासि च । ध्यानाध्ययनयोगादीन् कायोत्सर्गं चरन्ति ये ॥१८०॥

है, गुण-हीन कुदेव आदिके गुणोका व्यर्थ स्मरण करते है और मिथ्यामार्ग पर चलनेवाले कुलिगियोके दोषोको कदाचित् भी नहीं जानते है, वे पुरुष इस लोकमे निर्गन्ध कुसुमके समान निर्गुणी होते है ॥१६६-१६७॥ जो पुरुष मिथ्यादृष्टि कुदेवोकी और खोटे आचरण करनेवाले कुलिगियोकी धर्म-प्राप्तिके लिए सेवा और भक्ति करते है और श्री जिननाथोकी, धर्मात्मा सुयोगियोकी सेवा-भक्ति नहीं करते हैं, वे अपने इस उपार्जित पापसे बैलोकके समान पद-पदपर पर-बन्धनमे बद्ध होकर दासपनेको पाते है ॥१६८-१६९॥ जो लोग तीन जगत्के स्वामी अर्हन्तोकी, गणधरोकी, जिनागमकी, योगी जनोकी, रत्नत्रयधर्मकी और तपकी निरन्तर मन वचन कायकी शुद्धिपूर्वक और सर्व मतान्तरको छोडकर आराधना करते है, वे इस लोकमे उस पुण्यसे सर्व सम्पदाओके स्वामी होते है ॥१७०-१७१॥ जो निर्दय, व्रत-हीन मनुष्य इस लोकमे दूसरोके बालकोका घात करते है और सन्तान आदिकी प्राप्तिके लिए अनेक प्रकारका मिथ्यात्व सेवन करते है, उन शठ पुरुषोके मिथ्यात्वपापके परिपाकसे उनके पुत्र अल्प आयुके धारक होते है, वे जीते नहीं है और जितने दिन जीवित रहते है, उतने दिन पुण्य और सौभाग्य आदिसे हीन रहते है ॥१७२-१७३॥ जो मूर्ख पुत्र-लाभके लिए चण्डिका गौरी क्षेत्रपाल आदि देवी-देवताओकी, पूजा-अर्चना आदिसे सेवा करते है, अनेक प्रकारके यज्ञ-यागादिकको करते है, और दूर्वा-पीपल आदिको पूजते है, किन्तु पुत्रादि सर्व अर्थोकी सिद्धि देनेवाले अर्हन्तोकी पूजा-उपासना नहीं करते है, वे पुरुष मिथ्यात्व कर्मके उदयसे भव-भवमे पुत्र हीन होते है, अर्थात् बन्ध्यापने वाली स्त्रियोको पाते है ॥१७४-१७५॥ जो पुरुष अन्यके पुत्रोको अपनी सन्तानके समान मानकर उनका स्वप्नमे भी घात नहीं करते (किन्तु प्रेमसे पालन-पोषण करते है) और मिथ्यात्वको शत्रुके समान जान उसे छोडकर अहिसादि व्रतोको धारण करते है, तथा जो अपनी इष्ट सिद्धिके लिए जिन देव, जिन-सिद्धान्त और जिनानुयायी साधुओकी पूजा-उपासना करते है, उस पुण्यके उदयसे उनके पुत्र चिरकाल तक जीनेवाले और दिव्यरूपके धारक होते है ॥१७६-१७७॥ जो लोग तप, नियम, सद्-ध्यान और कायोत्सर्ग आदि कार्योमे तथा अन्य धार्मिक कार्योमे, एव अतिकठिन दीक्षा लेनेमे कायरता प्रकट करते है, वे हीन सत्त्ववाले जीव उस पापसे इस लोकमे कायर और सर्व कार्योके करनेमें असमर्थ होते है ॥१७८-१७९॥ जो अपने धैर्यको प्रकट कर अति

सहन्ते निजशक्त्याखिलोपसर्गपरीषहान् । क्षमा कर्मारिघातेऽत्र धीरास्तेऽहो भवन्त्ययात् ॥१८१॥
 निन्दा कुर्वन्ति ये दुष्टा जिनेशा च गणेशिनाम् । सिद्धान्तस्य च निर्ग्रन्थश्रावकादिषु धर्मिणाम् ॥१८२॥
 प्रशसा पापिना मिथ्यादेवश्रुततपस्विनाम् । तेऽयं कर्मणा दोषाढ्या निन्द्या स्युर्जगत्त्रये ॥१८३॥
 दिगम्बरगुरुणा च ज्ञानिना गुणिना सताम् । सशीलाना सदा भक्ति सेवा पूजा प्रकुर्वते ॥१८४॥
 पालयन्ति त्रिधा शील सम साराखिलव्रतै । शीलवन्तो भवेयुस्ते धर्मास्त्वमुक्तिगामिन ॥१८५॥
 नि शीलान् कुगुरुन् दुष्टान् कुदेवशास्त्रपापिन । भजन्ते नुतिपूजाद्यैर्नि शीला ये व्रतातिगा ॥१८६॥
 सुख वैषयिक नित्यमीहन्तेऽन्यायकर्मणा । नि शीलास्ते भवन्त्यत्र पापाद्दुर्गतिगामिन ॥१८७॥
 गुणाब्धीना गुरुणा च ज्ञानिना जिनयोगिनाम् । सद्दृष्टीना सदा सङ्ग कुर्वते तद्गुणाय ये ॥१८८॥
 तेषा सपद्यते सार्धं गुर्वादिगुणिभिश्च तै । भवेत्सर्वमहान् सङ्ग स्वर्गमुक्तिगुणादिद ॥१८९॥
 ससर्गमुत्तमाना ये त्यक्त्वा कुर्वन्ति चान्वहम् । गुणध्वसकर सङ्ग मिथ्यादृशा शठात्मनाम् ॥१९०॥
 तेऽधोगामिन एवाहो इहामुत्रासुनाशिनम् । सङ्ग तद्गतिहेतु तैलमन्ते दुर्जनै सह ॥१९१॥
 तत्त्वातत्त्वात्तशास्त्राणा गुरुदेवतपोभृताम् । धर्माधर्मादिदानाना विचार तन्वतेऽनिशम् ॥१९२॥
 सूक्ष्मबुद्ध्यात्र ये तेषा विवेक परमो हृदि । अमुत्र विश्वदेवादिपरीक्षाया क्षमो भवेत् ॥१९३॥
 देवा हि गुरुव सर्वे वन्दनीयाश्च भक्तित । निन्दनीया न कर्तव्या विश्वे धर्मा शिवाप्तये ॥१९४॥
 मत्वेति ये मज्जन्त्यत्र कृत्स्नधर्माभिरादिकान् । दुर्बुद्ध्या मूढता निन्दास्ते लमन्ते भवे भवे ॥१९५॥

दुष्कर तपोको ध्यान, अध्ययन आदि योगोको और कायोत्सर्गको करते है, तथा अपनी शक्तिसे समस्त घोर उपसर्ग और परीषहोको सहन करते है, अहो गौतम, वे पुरुष उस तपस्याके प्रभावसे कर्मरूप शत्रुओके घातनेमे समर्थ ऐसे धीर-वीर होते है ॥१८०-१८१॥ जो दुष्ट पुरुष जिनराजोकी, गणधरोकी, जिनसिद्धान्तकी, निर्ग्रन्थ साधु साध्वी, श्रावक और श्राविकादि धार्मिक जनोकी निन्दा करते है, तथा पापी मिथ्या देव शास्त्र गुरुओकी प्रशसा करते हैं, वे अयश.क्रीर्तिकर्मके उदयसे तीनो लोकोमे निन्दनीय और दु खोसे सयुक्त होते है ॥१८२-१८३॥ जो पुरुष दिगम्बर गुरुओकी, ज्ञानी गुणी सज्जन और शीलवान् पुरुषोकी सदा सेवा भक्ति और पूजा करते है जो त्रियोगसे सदा सारभूत सर्व व्रतोके साथ शीलव्रतको पालते है, वे शीलवान् होते है और शीलधर्मके प्रभावसे स्वर्ग और मुक्ति-गामी होते है ॥१८४-१८५॥ जो व्रत रहित जीव शील-रहित दुष्ट कुगुरुओकी कुदेव, कुशास्त्र और पापियोकी नमस्कार-पूजादि से सेवा-उपासना करते है, स्वयं शीलरहित रहते है, और अन्याययुक्त कार्योंके द्वारा विषय जनित सुखकी नित्य इच्छा करते है, वे लोग इस लोकमे निःशील और दुर्गतिगामी होते हैं ॥१८६-१८७॥

जो मनुष्य गुणोके सागर ऐसे जिन-योगियोकी, ज्ञानी गुरुओकी और सम्य-गृष्टि पुरुषोकी उनके गुण पानेके लिए सदा सगति करते है उन्हे गुणी गुरु अनादि सुजनोके साथ स्वर्ग-मुक्तिका दाता महान् सगम प्राप्त होता है ॥१८८-१८९॥ जो लोग उत्तम जनोका सगम छोडकर अज्ञानी मिथ्यादृष्टियोका गुण-नाशक सगम नित्य करते हैं, वे अवोगामी जीव इस लोक और परलोकमे प्राण-नाशक और दुर्गतिका कारणभूत कुसग—दुर्जनोका साथ सदा पाते है ॥१९०-१९१॥ जो पुरुष अपनी सूक्ष्म बुद्धिसे निरन्तर तत्त्व अतत्त्वका, शास्त्र-कुशास्त्रका, तथा देव, गुरु, तपस्वी, धर्म-अवर्म और दान-कुदान आदिका विचार करते रहते है, परलोकमे उनका विवेक सभी देव-अदेव आदिकी परीक्षा करनेमे समर्थ होता है ॥१९२-१९३॥ जो समझते हैं कि सभी देव और सभी गुरु, भक्ति पूर्वक वन्दनीय है, किसीकी निन्दा नहीं करना चाहिए । तथा सभी धर्म मोक्षके देनेवाले हैं, ऐसा मानकर दुर्बुद्धिसे सभी धर्मोकी और सभी देवादिकी इस लोकमे सेवा करते है, वे भव-भवमे निन्दनीय एव मूढताको प्राप्त

तीर्थेशगुरुसङ्घानामुच्चै पदमयात्मनाम् । प्रत्यह च नुति भक्ति तन्वन्ति गुणकीर्तनम् ॥१९६॥
 स्वस्थ निन्दा च येऽत्रार्या गुणदोषोपगूहनम् । तेऽमुत्र त्रिजगद्वन्द्व गोत्र श्रयन्ति गोत्रत ॥१९७॥
 स्वगुणाख्यापन दोषोद्भावन गुणिना सदा । कुर्वन्ति नीचदेवाश्च नीचधर्मगुरुन् जडा ॥१९८॥
 ये सेवन्ते च धर्माय ते नीचपदभागिन । नीचगोत्र च सप्राप्तुवन्त्यत्र नीचकर्मणा ॥१९९॥
 मिथ्यामार्गानुरागेणात्रैकान्ते कुत्सिते पथि । स्थिता ये कुगुरुन् मिथ्यादेवधर्मान् मजन्ति च ॥२००॥
 दुर्धिय श्रेयसे तेषा पूर्वसस्कारयोगत । मिथ्यामार्गेऽनुरागोऽमुत्र जायेताशुभाकर ॥२०१॥
 जिनशास्त्रगुरुन् धर्म परीक्ष्य ज्ञानचक्षुषा । ये तात्पर्येण सेवन्ते भक्त्या तद्गुणरञ्जिता ॥२०२॥
 अनन्यशरणानन्यान् स्वप्नेऽपि कुपथस्थितान् । जिनधर्मेऽनुरक्तास्ते स्युरमुत्र शिवाध्वगा ॥२०३॥
 व्युत्सर्गं दुष्कर योग तपोमौनव्रतादिकान् । स्वशक्त्या दधते ये च बुधा स्वमुक्तिकाङ्क्षिण ॥२०४॥
 नाच्छादयन्ति सद्दीर्घं तपोधर्मादिकर्मसु । ते लभन्ते दृढ काय तपोभारक्षम शुभम् ॥२०५॥
 शक्ता येऽत्र निज वीर्यं व्यक्त कुर्वन्ति जातु न । कायशर्मरता धर्मतपोव्युत्सर्गसिद्धये ॥२०६॥
 तन्वन्ति पापकर्माणि गृहव्यापारकोटिभि । परत्राघातवेत्तेषा वपुर्निन्द्य तपोऽक्षमम् ॥२०७॥
 इति विशदगिरासौ प्रश्नराजेजिनेन्द्र सुरशिवगतिहेतोरर्थरूपेण युक्त्या ।
 प्रति सगणगणेश प्रादिशब्दोत्तर यस्तमिह परमभक्त्या वीरनाथ स्तुवेऽहम् ॥२०८॥

होते है ॥१९४-१९५॥ जो आर्यजन तीर्थकर, सुगुरु, जिनसघ और उच्चपदमयी पचपरमेष्ठियो-
 की प्रतिदिन पूजा-भक्ति करते है, उनके गुणोका कीर्तन करते है, उन्हें नमस्कार करते है, अपने
 दोषोकी निन्दा करते है और दूसरे गुणी जनोके दोषोका उपगूहन करते हैं, वे पुरुष उच्च गोत्र
 कर्मके परिपाकसे परभवमे त्रिजगद्-वन्द्य गोत्र कर्मका आश्रय प्राप्त करते है अर्थात् तीर्थकर
 होते है ॥१९६-१९७॥ जो जड पुरुष अपने-अपने गुणोको प्रकट करते है और गुणी जनोके
 दोषोको सदा प्रकट करते रहते है, तथा नीच देवोकी, नीच धर्मकी और नीच गुरुओकी
 धर्मके लिए सेवा करते है, वे लोग इस ससारमे नीच गोत्र कर्मके उदयसे नीचगोत्र पाते है
 और नीच पदके भागी होते है ॥१९८-१९९॥ जो दुर्बुद्धि पुरुष इस लोकमे मिथ्यामार्गके
 अनुरागसे एकान्ती मिथ्यामार्गमे स्थित है और कुगुरु कुदेव कुधर्मकी आत्मकल्याणके लिए
 सेवा करते है उनका पूर्व भवके सस्कारके योगसे परभवमे अशुभका भण्डार-ऐसा अनुराग
 मिथ्यामार्गमे होता है ॥२००-२०१॥

जो अपने ज्ञाननेत्रसे यथार्थ जिनदेव, शास्त्र-गुरु और धर्मकी परीक्षा करके
 उनके गुणानुरागी होकर उन गुणोकी प्राप्तिके अभिप्राय से भक्ति पूर्वक उनकी सेवा
 करते है, उन्हें ही अपने अनन्य (एक मात्र) शरण मानते है और कुमार्गमे स्थित अन्य
 कुदेवाडिकी स्वप्नमे भी सेवा नहीं करते है, वे परलोकमे जिनधर्मानुरक्त और शिवमार्गके
 पथिक होते है ॥२०२-२०३॥ जो स्वर्ग-मुक्तिके इच्छुक ज्ञानी पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार
 अति दुष्कर कायोत्सर्गयोगको और मौनव्रत आदिको धारण करते हैं, तपश्चरण और धर्म
 सेवनादि कार्योमे अपने विद्यमान बल-वीर्यको नही छिपाते है, वे परभवमे तपके भारको
 सहन करनेमे समर्थ ऐसे शुभ वज्रवृषभनाराचसहननवाले दृढ शरीरको पाते है ॥२०४-२०५॥
 जो समर्थ होकरके भी धर्म तप व्युत्सर्ग आदिकी सिद्धिके लिए कदाचित् भी अपने बल-
 वीर्यको व्यक्त नही करते है और शरीरके सुखमे मग्न रहते है, तथा घरके व्यापार-
 सम्बन्धी करोडो कार्योके द्वारा पाप कर्मोको करते रहते है, उन जीवोको उस पापसे परभवमे
 तप करनेमे असमर्थ और निन्दनीय शरीर प्राप्त होता है ॥२०६-२०७॥

इस प्रकार जिस वीर जिनेन्द्रने स्वर्ग और मोक्षगतिकी कारणभूत गौतमकी प्रश्नावली
 का विशद वाणी द्वारा अर्थरूपसे युक्तिपूर्वक समस्त गण और गणधरके लिए उत्तर दिया, 'उस

वीरोऽत्रैष नुत स्तुत किल मया वीर श्रयाम्यन्वह
 वीरेणानुचराम्यमा शिवपथ वीराय कुर्वे नुति ।
 वीरान्नास्त्यपरो ममातिहितकृद्दीरस्य पादौ श्रये
 वीरे स्वस्थितिमातनोमि परमा मा वीर तेऽन्त नय ॥२०९॥

इति भट्टारकश्रीसकलकीर्तिविरचिते श्रीवीरवर्धमानचरिते श्रीगौतम-
 स्वामिकृतप्रश्नमालोत्तरवर्णनो नाम सप्तदशोऽधिकार ॥१७॥

वीरनाथकी मैं यहाँ पर परम भक्तिसे स्तुति करता हूँ ॥२०८॥ जो वीरप्रभु मेरे द्वारा यहाँ पर नमस्कृत स्तुतिके विषयभूत है, मैं उन वीरनाथका आश्रय लेता हूँ । वीर प्रभुके साथ मैं भी शिवमार्गका अनुसरण करता हूँ, तथा वीरप्रभुके लिए नमस्कार करता हूँ । वीरसे अतिरिक्त अन्य कोई मेरा हित करनेवाला नहीं है, इसलिए मैं वीर जिनेन्द्रके चरणोका आश्रय लेता हूँ । मैं वीर-भगवान्मे अपने चित्तकी परम स्थितिको करता हूँ । हे वीरभगवान्, आप मुझे अपने समीप ले जाये ॥२०९॥

इस प्रकार भट्टारक श्री सकलकीर्ति-विरचित श्री वीरवर्धमानचरितमे श्री गौतम स्वामी द्वारा पूछे गये प्रश्नमालाके उत्तर वर्णन करनेवाला सत्रहवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥१७॥

अष्टादशोऽधिकारः

श्रीवीरं मुक्तिभर्तारं वन्देऽज्ञानतमोऽपहम् । विश्वदीपं समान्तःस्थं धर्मोपदेशनोद्यतम् ॥१॥
 अथ गौतम धीमंस्त्वं शृणु सार्धं गणैर्बुधैः । मुक्तेर्मार्गं विदो येन शिवं यान्ति न संशयः ॥२॥
 शङ्कादिदोषदूरं यच्छ्रद्धानं तद्गुणान्वितम् । तत्त्वार्थानां शिवाङ्गं तद्ब्यवहाराख्यदर्शनम् ॥३॥
 नार्हद्भ्यो जातु देवोऽन्यो निर्ग्रन्थेभ्यो गुरुर्न च । अहिंसादिब्रतेभ्योऽत्रापरो धर्मो न तत्त्वतः ॥४॥
 जैनशासनतो नान्यच्छासनं प्रवरं क्वचित् । अङ्गपूर्वेभ्य एवान्यन्न ज्ञानं विश्वदीपकम् ॥५॥
 रत्नत्रयात्परो नान्यो मुक्तिमार्गो हि विद्यते । भव्यानां परमेष्ठिभ्यो हितकर्तापरो न च ॥६॥
 पात्रदानात्परं दानं न च श्रेयोनिबन्धनम् । सहगामि सुधर्मान्न पाथेयं परजन्मनि ॥७॥
 नात्मध्यानात्परं ध्यानं केवलज्ञानकारणम् । धर्मवद्भिः समः स्नेहो न महान् धर्मशर्मदः ॥८॥
 द्वादशभ्यस्तपोभ्योऽन्यत्तपो नाधक्षयंकरम् । नमस्कारमहामन्त्रान्मन्त्रो न मुक्तिमुक्तिदः ॥९॥
 कर्माक्षेभ्योऽपरो वैरी नेहामुत्रातिदुःखदः । इत्यादि सकलं विद्धि त्वं दृष्टेर्मूलकारणम् ॥१०॥
 ज्ञानचारित्रयोर्बीजं मुक्तेः सोपानमग्रिमम् । अधिष्ठानं व्रतादीनां जानीहि दर्शनं परम् ॥११॥
 दर्शनेन विना पुसां ज्ञानमज्ञानमेव भोः । दुश्चारित्रं च चारित्रं निष्फलं स्यात्तपोऽखिलम् ॥१२॥
 इति ज्ञात्वा दृढीकार्यं सम्यक्त्वं चन्द्रनिर्मलम् । निःशङ्कादिगुणैर्हत्वा शङ्कामौढ्यादितन्मलान् ॥१३॥

मुक्तिके भर्ता, अज्ञानरूप अन्धकारके हर्ता, विश्वके प्रकाशक, समवशरणके मध्यमें विराजमान और धर्मोपदेश देनेमें उद्यत ऐसे श्री वीर भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ इसके पश्चात् भगवान्ने कहा—हे धीमन् गौतम, तुम सर्व गणोंके साथ सुनो । मैं मोक्षका मार्ग कहता हूँ, जिससे कि ज्ञानी जन मोक्षको जाते हैं इसमें कोई संशय नहीं है ॥२॥ तत्त्वार्थका जो शंकादि दोषोंसे रहित और निःशंकादि गुणोंसे युक्त श्रद्धान है, मोक्षका अंगस्वरूप व्यवहार सम्यग्दर्शन है ॥३॥ इस संसारमें अहन्तोंसे अतिरिक्त कोई श्रेष्ठ देव नहीं है, निर्ग्रन्थ गुरुओंसे बढ़कर कोई उत्तम गुरु नहीं है, अहिंसादि पंच महाव्रतोंसे बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है ॥४॥ जैनशासनसे भिन्न कोई उत्कृष्ट शासन नहीं है, द्वादश अंगों और चतुर्दश पूर्वोंसे बढ़कर अन्य कोई विश्वप्रकाशक ज्ञान नहीं है ॥५॥ रत्नत्रयसे अन्य कोई दूसरा मुक्तिका मार्ग नहीं है, पंच परमेष्ठियोंसे अन्य कोई दूसरा भव्य जीवोंका हितकर्ता नहीं है ॥६॥ पात्रदानसे परे कोई दूसरा कल्याणकारक दान नहीं है, सुधर्मसे अतिरिक्त अन्य कोई पर जन्ममें साथ जानेवाला पाथेय (मार्ग-भोजन, कलेवा) नहीं है ॥७॥ केवल-ज्ञानके कारणभूत आत्मध्यानसे बढ़कर कोई दूसरा ध्यान नहीं है, धर्मात्माओंके साथ स्नेहके समान धर्म और सुखको देनेवाला अन्य कोई स्नेह नहीं है ॥८॥ द्वादश तपोंसे अन्य, पापोंका क्षय करनेवाला अन्य कोई तप नहीं है, पंचनमस्कारमहामन्त्रसे भिन्न स्वर्ग और मोक्षको देनेवाला अन्य कोई मित्र नहीं है ॥९॥ कर्म और इन्द्रियोंके सिवाय इस लोक और परलोकमें अति दुःखोंको देनेवाला और कोई शत्रु नहीं है । इत्यादि सकल कार्योंको हे गौतम, तुम सम्यग्दर्शनका मूलकारण जानो ॥१०॥ यह सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्रिका बीज है, मोक्षका प्रथम सोपान (सीढ़ी) है और व्रतादिका परम अधिष्ठान है, ऐसा तू जान ॥११॥ हे गौतम, सम्यग्दर्शनके विना जीवोंका ज्ञान तो अज्ञान है, चारित्र कुचारित्र है और समस्त तप निष्फल है ॥१२॥ ऐसा जानकर निःशंकादि गुणोंके द्वारा शंका और मूढतादि मलोंको दूर कर सम्यक्त्वको चन्द्रमाके समान निर्मल और दृढ़ करना चाहिए ॥१३॥

तत्त्वार्थानां परिज्ञानं याथातथ्येन यत्सताम् । विपरीतातिगं तज्ज्ञानं व्यवहारसञ्जकम् ॥१४॥
 ज्ञानेन ज्ञायते विश्वं धर्मं पापं हिताहितम् । बन्धो मोक्षं परीक्षा च देवधर्मादियोगिनाम् ॥१५॥
 ज्ञानहीनो न जानाति हेयादेयं गुणागुणम् । कृत्याकृत्यं विवेकं च तत्त्वानामन्धवत् क्वचित् ॥१६॥
 मत्वेति प्रत्यहं यत्नात्स्वमुक्तिसुखकाङ्क्षिणं । जिनागमश्रुताभ्यासं कुरुष्व शिवमिद्वये ॥१७॥
 हिसादिपञ्चपापानां सामस्येन च सर्वदा । त्यजनं यत्त्रिगुप्त्यापञ्चधा समितिपालनैः ॥१८॥
 चारित्र्यं व्यवहाराख्यं मुक्तिमुक्तिनिबन्धनम् । तज्ज्ञेयं शर्मदं सारं कर्मागमनिरोधकम् ॥१९॥
 चारित्र्येण विना जातु तपोऽङ्गेशकोटिमि । कर्मणा सवरं कर्तुं शक्यते न जिनैरपि ॥२०॥
 सवरेण विना मुक्तिं कुतो मुक्तेर्विना सुखम् । कथं च जायते पुसां शाश्वतं परमं यत् ॥२१॥
 वृत्तहीनो जिनेन्द्रोऽपि दृष्टिनिज्ञानभूषितः । सुरार्च्यो जातु पश्येन्नाहो मुक्तिस्त्रीमुखाम्बुजम् ॥२२॥
 चिरप्रव्रजितो ज्येष्ठो मुनिश्चानेकशास्त्रवित् । राजते न विना वृत्तादन्तहीनो गजो यथा ॥२३॥
 विज्ञायेति बुधैर्घार्यं चारित्र्यं शशिनिर्मलम् । न च स्वप्नेऽपि मोक्तव्यं ह्युपसर्गपरीषहैः ॥२४॥
 इदं रत्नत्रयं साक्षात्तीर्थं कृत्वादिसद्विधे । कारणं निश्चयाख्यस्य रत्नत्रयस्य साधकम् ॥२५॥
 सर्वार्थसिद्धिपर्यन्तमहासुखकरं सताम् । निरौपम्यं जगत्पूज्यं भव्यानां परमं हितम् ॥२६॥
 अनन्तगुणवाराशे स्वात्मनोऽभ्यन्तरेऽत्र यत् । श्रद्धानिश्चयाख्यं तत्सम्यक्त्वकल्पनातिगम् ॥२७॥

तत्त्वार्थोंका जो सन्त पुरुषोंके विपरीतपनेसे रहित यथार्थरूपसे ज्ञान होता है, वह व्यवहार सम्यग्ज्ञान है ॥१४॥ ज्ञानके द्वारा ही सर्व धर्म-अधर्म, हित-अहित, बन्ध-मोक्ष ज्ञात होते हैं, एव देव, गुरु और धर्मादिकी परीक्षा जानी जाती है ॥१५॥ ज्ञान-हीन व्यक्ति हेय-उपादेय, गुण-अवगुण, कर्तव्य-अकर्तव्य और तत्त्वोंके विवेकको अन्धेके समान कभी नहीं जानता है ॥१६॥ ऐसा जानकर स्वर्ग और मुक्तिके सुखोंके अभिलाषी तुम सब लोग मोक्षकी सिद्धिके लिए जिनागमश्रुतका अभ्यास करो ॥१७॥

हिसादि पाँचो पापोंका समस्त रूपसे, अर्थात् कृत कारित और अनुमोदनासे, सर्वदाके लिए त्रियोगकी शुद्धि पूर्वक तीन गुप्ति और पंच समितिके परिपालनके साथ त्याग करना व्यवहारचारित्र्य है, यह मुक्ति (सासारिक भोगसुख) और मुक्तिका कारण है, इसे ही कर्मोंके आस्रवका रोकनेवाला और सारभूत सुखका देनेवाला जानना चाहिए ॥१८-१९॥ औरोंकी तो बात ही क्या है, तीर्थकर भी चारित्र्यके विना शरीरको कष्ट देनेवाले कोटि-कोटि तपोके द्वारा कर्मोंका सवर नहीं कर सकते हैं ॥२०॥ सवरके विना मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है और कर्मोंसे मुक्त हुए विना जीवोंको शाश्वत स्थायी परम सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ॥२१॥

सम्यग्दर्शन और तीन ज्ञानसे विभूषित एव देवेन्द्रोसे पूजित भी चारित्र्यहीन तीर्थकर देव अहो मुक्तिस्त्रीके मुख-कमलको नहीं देख सकते हैं ॥२२॥ चिरकालका दीक्षित, अनेक शास्त्रोंका वेत्ता भी ज्येष्ठ मुनि चारित्र्यके विना दन्तहीन हाथीके समान शोभाको नहीं पाता है ॥२३॥ ऐसा जानकर ज्ञानियोंको चन्द्रके समान निर्मल (निर्दोष) चारित्र्य धारण करना चाहिए और उपसर्ग-परीषहोंके आने पर स्वप्नमे भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए ॥२४॥ यह व्यवहार रत्नत्रय तीर्थकर आदि शुभपद देनेवाले शुभकर्मका साक्षात् कारण है और निश्चय रत्नत्रयका साधक है ॥२५॥ यह व्यवहाररत्नत्रय सर्वार्थ-सिद्धि तकके महासुख सन्त जनको प्रदान करता है, उपमा-रहित है, जगत्पूज्य है और भव्योंका परम हितकारी है ॥२६॥

अनन्त गुणोंके सागर ऐसे अपने आत्माका जो भीतर श्रद्धानिश्चय किया जाता है, वह निर्विकल्प निश्चय सम्यक्त्व है ॥२७॥ स्वसवेदन ज्ञानके द्वारा अपने ही परमात्माका जो

स्वसवेदनबोधेन स्वस्यैव परमात्मन । अन्तरे यत्परिज्ञान तज्ज्ञान निश्चयाह्वयम् ॥२८॥
त्यक्त्वाऽन्तर्बाह्यसकल्पान् स्वरूपे यन्निजात्मन । चरण ज्ञानिना तत्स्याच्चारित्र निश्चयाभिधम् ॥२९॥
एतद्रत्नत्रय सर्वबाह्यचिन्तातिग परम् । निर्विकल्प भवेत्साक्षात्तद्भवे मुक्तिद सताम् ॥३०॥
द्वेधाय मुक्तिमार्गोऽत्र मुक्तिस्त्रीजनको महान् । भव्यै सेव्योऽनिश छित्वा मोहपाश मुमुक्षुभि ॥३१॥
निर्वाण ये गता भव्या यान्ति यास्यन्ति भूतले । प्रतिपाल्य द्विधेद ते केवल जातु नान्यथा ॥३२॥
मुक्तेर्नित्य फल ज्ञेयमन्तातीत सुख महत् । सम्यक्त्वादिगुणै साधर्म्यमि परमै परम् ॥३३॥
ससारजलधौ पाताद्य उद्दृष्ट्य स्वय यत । सेव्यमानो विधत्तेऽहो राज्ये लोकत्रयाग्रिमे ॥३४॥
स धर्मोहि द्विधा प्रोक्त स्वर्गमुक्तिसुखप्रद । सुगमा श्रावकाणा स दु करो योगिना पर ॥३५॥
ससव्यसनसत्यक्ता ह्यष्टमूलगुणान्विता । दृग्विशुद्धिश्च या साद्या प्रतिमा दर्शनाभिधा ॥३६॥
पञ्चैवाणुव्रतान्यत्र त्रिधा गुणव्रतानि च । शिक्षाव्रतानि चत्वारि द्वादशेति व्रतानि वै ॥३७॥
मनोवचनकायैश्च त्रसाङ्गिना कृतादिभि । रक्षण क्रियते यत्नाद्यत्तदाद्यमणुव्रतम् ॥३८॥
एतत्सर्वव्रताना च मूल विश्वाङ्गिरक्षकम् । गुणानामाकरीभूत धर्मबीज जिने स्मृतम् ॥३९॥
वच सत्य हित सार ब्रूयते यद्वृषाकरम् । असत्य निन्दित त्यक्त्वा तद्द्वितीयमणुव्रतम् ॥४०॥
सत्येन वचसा कीर्ति प्रादुर्भवति भारती । कलाविवेकचातुर्यगुणै साधं च धोमताम् ॥४१॥
परस्व पतित स्थूल नष्ट वा स्थापित क्वचित् । ग्रामादौ गृह्यते यन्न तृतीय तदणुव्रतम् ॥४२॥

अपने भीतर परिज्ञान है, वह निश्चय सम्यग्ज्ञान है ॥२८॥ अन्तरग और बहिरग सभी प्रकारके सकल्पोको त्याग कर जो अपनी आत्माके स्वरूपमे विचरण करना, वह ज्ञानियोका निश्चय सम्यक् चारित्र है ॥२९॥ यह निश्चय रत्नत्रय सर्व बाह्य चिन्ताओसे रहित और निर्विकल्प है तथा उसी भवमे सज्जनको साक्षात् मोक्षका देनेवाला है ॥३०॥ निश्चय और व्यवहाररूप यह दोनो प्रकारका मोक्षमार्ग मुक्तिस्त्रीका जनक है, महान् है। अतः मोक्षके इच्छुक भव्योको मोक्षकी आशा छोड़कर निरन्तर उसे सेवन करना चाहिए ॥३१॥ इस भूतलपर भूतकालमे जो भव्य जीव मोक्ष गये हैं, वर्तमानमे जा रहे हैं, और आगे जायेंगे, इस द्विविध रत्नत्रयको प्रतिपालन करके ही जायेंगे, अन्य प्रकारसे कभी कोई मोक्ष नहीं जा सकता ॥३२॥ मुक्तिका नित्य फल अनन्त महान् सुख है। वह परम सुख सम्यक्त्व आदि आठ परम गुणोके साथ प्राप्त होता है ॥३३॥

जो ससार-समुद्रसे उद्धार कर सेवन करनेवाले पुरुषको तीन लोकके अग्रिम मुक्ति-राज्यमे स्वय स्थापित करे, वह स्वर्ग और मुक्तिके सुखोको देनेवाला धर्म दो प्रकारका कहा गया है—पहला श्रावकोका धर्म जो पालन करनेमे सुगम है और दूसरा मुनियोका धर्म जो पालन करनेमे कठिन है ॥३४-३५॥ इनमे श्रावक धर्म ग्यारह प्रतिमारूप है। जो सातो व्यसनोके त्यागी है, आठ मूलगुणोसे युक्त है और निर्मल सम्यग्दर्शनके वारक है, वे जीव दर्शन नामकी प्रतिमाके धारी है ॥३६॥ जो इस लोकमे पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इन बारह व्रतोको धारण करते हैं वे श्रावक दूसरी व्रतप्रतिमाके धारी है ॥३७॥ मन वचन कायसे और कृत कारित आदिसे त्रस प्राणियोका रक्षण यत्नसे किया जाता है, वह प्रथम अहिसाणुव्रत है ॥३८॥ यह अहिसाणुव्रत सर्व व्रतोका मूल है, विश्वके प्राणियोका रक्षक है, गुणोका निधान है और धर्मका बीज है, ऐसा जिनेन्द्रोने कहा है ॥३९॥ जो निन्दित असत्य वचनको छोड़कर धर्मके निधानस्वरूप हितकारी सारभूत सत्य वचन बोले जाते हैं वह दूसरा सत्याणुव्रत है ॥४०॥ सत्य वचनसे कला विवेक और चातुर्य आदि गुणोके साथ बुद्धिमानोके कीर्ति और सरस्वती प्रकट होती है ॥४१॥ जो ग्रामादिक मे पतित, नष्ट या कही पर स्थापित परधनको ग्रहण नहीं करता वह तीसरा अचौर्याणुव्रत है ॥४२॥

वधबन्धादय पापात्परद्रव्यापहारिणाम् । जायन्तेऽत्रैव चामुत्र श्वभ्रदु खान्यनेकश ॥४३॥
 सर्पिणीरिव सर्वान्यस्त्रियस्त्यक्त्वा विधीयते । सतोषो य स्वरामाया तद्ब्रह्माणुव्रत मतम् ॥४४॥
 क्षेत्र वास्तु धन धान्य दासीदासाश्चतुष्पदा । आसन शयन वस्त्र भाण्ड्य सङ्गा इमे दश ॥४५॥
 एषा परिग्रहाणा च सख्या या क्रियते बुधै । लोभाशाघविनाशाय पञ्चम तद्गुणव्रतम् ॥४६॥
 परिग्रहप्रमाणेन चाशालोभादय सताम् । विलीयन्तेऽत्र जायन्ते सतोषधर्मभूतय ॥४७॥
 योजनग्रामसीमाद्यैर्मर्यादा या विधीयते । गमनादौ दशाशाना प्रथम तद्गुणव्रतम् ॥४८॥
 विना प्रयोजन यच्च पापारम्भाद्यनेकधा । त्यज्यतेऽनर्थदण्डादिविरतित्तमेव तत् ॥४९॥
 पापोपदेशहिंसादानापध्यानानि दु श्रुति । निन्द्या प्रमादचर्यैते तद्भेदा पञ्च पापदा ॥५०॥
 भोगानामुपभोगाना प्रमाण क्रियतेऽत्र यत् । पञ्चाक्षरिजयायैव तत्तृतीय गुणव्रतम् ॥५१॥
 शृङ्गवेरादय कन्दा अनन्तजीवकायिका । कीटाढ्यफलमूलाद्या कुसुमाथानकादय ॥५२॥
 अमक्ष्या सर्वथा त्याज्या विषविष्टा इवाखिला । व्रताय पापहान्यै च व्रतिभि पापभीरुनि ॥५३॥
 गृहपाटकवीध्याद्यैर्गमनादेदिन प्रति । गृह्यते नियम यत्तद्भ्रत देशावकाशिकम् ॥५४॥
 हत्वा दुर्ध्यान दुर्लेश्या सामायिक प्रपाल्यते । काले काले त्रिवार यत्तच्च सामायिकव्रतम् ॥५५॥
 अष्टम्या यश्चतुर्दश्या त्यक्त्वाऽरम्भान् विधीयते । नियमेनोपवासस्तृतीय शिक्षाव्रत च तत् ॥५६॥
 मुनिभ्यो दीयते दान विधिना यच्चतुर्विधम् । निष्पाप प्रत्यह भक्त्या शिक्षाव्रत तदन्तितम् ॥५७॥

परधनके अपहरण करनेवालोको इस लोकमे ही चोरीके पापसे वध-बन्धनादि दण्ड प्राप्त होते हैं और परलोकमे अनेक बार नरकके दुःख प्राप्त होते हैं ॥४३॥ सर्पिणियोंके समान समझकर जो अन्य सर्व स्त्रियोंका त्याग कर अपनी स्त्रीमे सन्तोष वारण किया जाता है वह चौथा ब्रह्म-चर्याणुव्रत माना गया है ॥४४॥ क्षेत्र, वास्तु, धन-धान्य, दासी दास, चतुष्पद, पशु, आसन, शयन, वस्त्र और भाड ये दश प्रकारके परिग्रह होते हैं । ज्ञानी जनोके द्वारा लोभ और आशा-रूप पापके विनाशके लिए जो इन दशो प्रकारके परिग्रहोकी सख्या स्वीकार की जाती है वह पाँचवाँ परिग्रहपरिमाणुव्रत है ॥४५-४६॥ परिग्रहके परिमाणसे सज्जनोकी आशाएँ और लोभा-दिक विलीन हो जाते हैं, तथा इसी लोकमे सन्तोष धर्मके प्रभावसे अनेक विभूतियाँ प्राप्त होती हैं ॥४७॥ योजन और ग्रामसीमा आदिके द्वारा दशो दिशामे गमनादिकी जो मर्यादा की जाती है वह दिग्ब्रत नामका पहला गुणव्रत है ॥४८॥ विना प्रयोजनके जो अनेक प्रकारके पापारम्भोका त्याग किया जाता है, वह अनर्थदण्डविरति नामका दूसरा गुणव्रत है ॥४९॥ उस पापकारी अनर्थदण्डके पाँच भेद हैं—पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति और निन्दनीय प्रमादचर्या ॥५०॥ पाँच इन्द्रियरूप शत्रुओके जीतनेके लिए भोग उपभोगकी वस्तुओका प्रमाण किया जाता है, वह भोगोपभोगपरिमाण नामका तीसरा गुणव्रत है ॥५१॥ अनन्त जीवकायिक अदरक आदि कन्द, मूली आदि मूल, कीडोसे युक्त फलादिक, कुसुम (फूल), अथाना (अचार-मुरब्बा) आदिक अमक्ष्य है । ये सब पाप भीरु व्रती जनोके द्वारा पापकी हानि और व्रतकी वृद्धिके लिए विष और विष्टाके समान छोडनेके योग्य है ॥५२-५३॥ दिग्ब्रतकी सीमाके अन्तर्गत प्रतिदिन गमनागमनादिकी घर, बाजार, गली, मोहल्ला आदिकी सीमा द्वारा नियम ग्रहण किया है वह देशावकाशिक नामका पहला शिक्षाव्रत है ॥५४॥ दुर्ध्यान और दुर्लेश्याको छोडकर प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीन बार सामायिक पालन किया जाता है, वह सामायिक नामका दूसरा शिक्षाव्रत है ॥५५॥ प्रत्येक मासकी अष्टमी और चतुर्दशीके दिन सर्व गृहारम्भोको छोडकर नियमसे जो उपवास किया जाता है, वह प्रोष-धोपवास नामका तीसरा शिक्षाव्रत है ॥५६॥ मुनियोंके लिए प्रतिदिन विधिपूर्वक भक्तिके जो निर्दोष दान दिया जाता है, वह अतिथिसविभाग नामका चौथा शिक्षाव्रत है ॥५७॥

त्रिशुद्ध्या द्वादशोमानि व्रतानि पालयन्ति ये । अतीचारादृते तेषा द्वितीया प्रतिमा वरा ॥५८॥
 त्यक्त्वाहारकषायादीन् गृहीत्वा मुनिसयमम् । अन्ते सल्लेखना कार्या व्रतिभि सत्पदास्ये ॥५९॥
 सामायिकाभिधा ज्ञेया तृतीया प्रतिमा शुभा । चतुर्थी प्रतिमा प्रोषधोपवासाह्वया परा ॥६०॥
 फलाम्बुबीजपत्रादि सचित्त यत्सचेतनम् । दयायै त्यज्यते सर्वं पञ्चमी प्रतिमात्र सा ॥६१॥
 रात्रौ चतुर्विधाहार यन्निराक्रियते सदा । दिवसे मैथुन मुक्त्यै सा षष्ठी प्रतिमा वरा ॥६२॥
 पालयन्ति त्रिशुद्ध्या येऽत्रेमा षट् प्रतिमा बुधा । ते जघन्या मता सन्नि श्रावका स्वर्गगामिन ॥६३॥
 चर्यते ब्रह्मचर्यं यन्मनोवाक्यायकर्मभि । मत्वाम्नावत् स्त्रिय सर्वा ब्रह्मचर्याभिधा हि सा ॥६४॥
 वाणिज्याद्यखिलो निन्द्यो गृहारम्भोऽशुभार्णव । त्यज्यते पापभीतैर्यै साष्टमी प्रतिमोर्जिता ॥६५॥
 वस्त्र विना समस्ताना सद्धाना पापकारिणाम् । त्रिशुद्ध्या त्यजन यत्सा नवमी प्रतिमा सताम् ॥६६॥
 नवेमा प्रतिमा येऽत्र भजन्ति रागदूरगा । मध्यमा श्रावका प्रोक्तास्ते जिनै पूजिता सुरै ॥६७॥
 गृहारम्भे विवाहादौ स्वाहारे वा धनार्जने । निवृत्तिर्यानुमत्यादेर्दशमी प्रतिमात्र सा ॥६८॥
 त्यक्त्वाखाद्यमिवाशेष सदोषान्न कृतादिजम् । भिक्षया भुज्यतेऽन्न तत्प्रतिमा सा परान्तिमी ॥६९॥
 सर्वयत्नेन सर्वा ये दधते प्रतिमा इमा । उत्कृष्टश्रावका विरागिणस्ते जगदर्चिता ॥७०॥
 इम श्रावकवर्म ये सेवन्ते व्रतिनोऽनिशम् । षोडशस्वर्गपर्यन्ते ते लभन्ते सुखोल्बणम् ॥७१॥

जो पुरुष त्रियोगकी शुद्धि द्वारा अतिचारोसे रहित इन बारह व्रतोको पालते है, उनके यह श्रेष्ठ दूसरी व्रतप्रतिमा होती है ॥५८॥ इस प्रतिमाधारी व्रती श्रावकोको उत्तम पदोकी प्राप्तिके लिए जीवनके अन्तमे आहार और कषायादिका त्याग और मुनियोके सकल सयमको धारण करना चाहिए ॥५९॥

सामायिक नामकी तीसरी और प्रोषधोपवास नामकी चौथी शुभप्रतिमा है । (दूसरी प्रतिमामे बताये गये सामायिक और प्रोषधोपवास शिक्षाव्रतको निरतिचार नियमपूर्वक पालन करने पर ही उन्हे प्रतिमा सज्ञा प्राप्त होती है) ॥६०॥ जीव-दयाके लिए जो सचेतन सर्व फल, जल, बीज और सचित्त पत्र-पुष्पादिका त्याग किया जाता है, वह पाँचवी सचित्त-त्याग प्रतिमा है ॥६१॥ मुक्तिकी प्राप्तिके लिए जो रात्रिमे सदा चारो प्रकारके आहारका और दिनमे मैथुन-सेवनका त्याग किया जाता है, वह श्रेष्ठ रात्रिभुक्तित्याग अथवा दिवा मैथुन त्याग नामवाली छठी प्रतिमा है ॥६२॥ जो ज्ञानीजन इस जीवनमे त्रियोगकी शुद्धिसे इन छह प्रतिमाओका पालन करते है, सन्तोके द्वारा वे ग्यारह प्रतिमाधारियोमे जघन्य श्रावक माने गये है । ये सब स्वर्गगामी होते है ॥६३॥ मन वचन कायसे सर्व स्त्रियोको माताके समान मानकर जो ब्रह्मचर्यका पालन किया जाता है, वह सातवी ब्रह्मचर्य प्रतिमा है ॥६४॥ वाणिज्य, कृषि आदि सभी गृहारम्भ निन्द्य और पापके समुद्र है । पाप-भीरु जनोके द्वारा उनका जो त्याग किया जाता है, वह आरम्भ त्याग नामकी आठवी श्रेष्ठ प्रतिमा है ॥६५॥ एक मात्र वस्त्रके विना पापकारी समस्त परिग्रहोका जो त्रियोगशुद्धिसे त्याग किया जाता है, वह सज्जनोकी परिग्रहत्याग नामवाली नवमी प्रतिमा है ॥६६॥ जो रागभावसे दूर रहकर इन नौ प्रतिमाओका पालन करते है, उन्हे जिनराजोने मध्यम श्रावक कहा है । वे देवोसे पूजे जाते है ॥६७॥ घरके आरम्भमे, विवाहादिमे, अपने आहार-पानादिमे और धनके उपार्जनमे अनुमति देनेका त्याग किया जाता है, वह अनुमतित्याग नामकी दसवी प्रतिमा है ॥६८॥ जो कृत-कारितादि दोष-जनित सदोष सर्व अन्नको अभक्ष्यके समान त्याग कर भिक्षासे भोजन करते है, वह अन्तिम (ग्यारहवी) उत्कृष्ट उद्दिष्टत्याग प्रतिमा है ॥६९॥ जो सर्व प्रयत्नके साथ इन सर्व प्रतिमाओको धारण करते है, वे जगत्पूजित विरागी सन्त उत्कृष्ट श्रावक है ॥७०॥ जो व्रती पुरुष निरन्तर इस श्रावकधर्मका पालन करते है, वे यथायोग्य

सम्यग्दर्शनसञ्चुद्धा धर्मेणानेन भूतले । भुक्त्वा त्रिलोकज सौख्य क्रमान्मोक्ष प्रयान्त्यहो ॥७२॥
 इति गार्हस्थ्यधर्मेण मुदमुत्पाद्य रागिणाम् । तत प्रीत्यै यतीना स आह तद्धर्ममञ्जसा ॥७३॥
 अहिसादीनि साराणि महाव्रतानि पञ्च वै । शुभा समितय पञ्च हीर्याभाषैषणादिका ॥७४॥
 पञ्चेन्द्रियनिरोधाश्च लोचोऽथावश्यकानि षट् । अचेलत्व सुरै पूज्यमस्नान शयन क्षितौ ॥७५॥
 अदतधावन रागदूर च स्थितिभोजनम् । एकभक्तमिमे मूलगुणा धर्मस्य योगिनाम् ॥७६॥
 मूलभूता सदादेया अष्टाविंशतिसख्यका । प्राणान्तेऽपि न भोक्तव्यास्त्रिजगच्छ्रीसुखप्रदा ॥७७॥
 परीषहजयातापनादियोगा अनेकश । बहूपवासमौनाद्या स्युरुत्तरगुणा सताम् ॥७८॥
 आदौ मूलगुणान् सम्यक् प्रतिपाल्यानतिक्रमात् । पालयन्तु ततो योगिनोऽत्रोत्तरगुणव्रजान् ॥७९॥
 उत्तमाद्या क्षमा मार्दवार्जवौ सत्यमुत्तमम् । शौच च सयमो द्वेषा तपस्त्याग परस्तत ॥८०॥
 आर्किचन्य महद्ब्रह्मचर्यं धर्मस्य योगिनाम् । लक्षणानि दशेमानि सर्वधर्माकराणि च ॥८१॥
 मूलोत्तरगुणै सर्वे क्षमादिदशलक्षणै । जायते परमो धर्मो मोक्षदस्तद्भवे सताम् ॥८२॥
 धर्मेणानेन योगीन्द्रा यान्ति मोक्ष निरन्तरम् । भुक्त्वा सर्वार्थसिद्धयन्त सौख्य तीर्थकरादिजम् ॥८३॥
 न धर्मसदृश कश्चिद्वन्धु स्वामी हितकर । पापहन्ता च सर्वत्र सर्वाभ्युदयसाधक ॥८४॥
 अयेह भारतस्यार्यखण्डे कालौ प्रकीर्तितौ । उत्सर्पिण्यवसर्पिण्याख्यौ द्वौ चैरावते तथा ॥८५॥
 कोटीकोटिदशाब्धिप्रमाणाद्योत्सर्पिणी बुधै । उत्सर्पात्कथ्यते रूपबलायुर्देहशर्मणाम् ॥८६॥

सोलहवे स्वर्ग तक उत्पन्न होकर उत्तम सुखोको प्राप्त करते हैं ॥७१॥ इस भूतलपर सम्यग्दर्शन से शुद्ध जीव इस श्रावकधर्मके द्वारा तीन लोकमे उत्पन्न सुखोको भोग कर क्रमसे मोक्षको जाते हैं ॥७२॥ इस प्रकार गृहस्थधर्मके वर्णन-द्वारा सरागी श्रावकोको हर्ष उत्पन्न करके तत्पश्चात् उन वीर प्रभुने साधुओकी प्रीतिके लिए उनका मुनिधर्म निश्चय रूपसे कहा ॥७३॥

अहिसादि सारभूत पच महाव्रत, ईर्या भाषा एषणा आदि पाँच शुभ समितियाँ, पाँचो इन्द्रिय विषयोका निरोध, केशलुच, समता-वन्दनादि छह आवश्यक देवोके द्वारा पूज्य अचेलकपना (नग्नता), स्नान-त्याग, भूमि-शयन, अदन्तवावन, रागसे दूर रहते हुए खड़े-खड़े भोजन करना और एक बार ही खाना, ये योगियोके धर्मके अट्टाईस मूलगुण हैं । ये निश्चयधर्मके मूल स्वरूप हैं । इनको सदा धारण करना चाहिए । ये लोकमे लक्ष्मी और सुख देनेवाले गुण प्राणोका अन्त होने पर भी नहीं छोडना चाहिए ॥७४-७७॥ बाईस प्रकारकी परीषहोका जीतना, आतापन आदि अनेक योगोका धारण करना, अनेक प्रकारके उपवास करना, मौन धारण करना इत्यादि मुनियोके उत्तर गुण हैं ॥७८॥ आदिमे मुनिजन सम्यक् प्रकारसे क्रमका उल्लघन नहीं करके इन अट्टाईस मूलगुणोका पालन कर तत्पश्चात् उत्तरगुण समूहका पालन करे ॥७९॥ उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, उत्तम सत्य शौच, दो प्रकारका सयम, दो प्रकारका तप, उत्तम त्याग, आर्किचन्य और महान् ब्रह्मचर्य ये मुनियोके धर्मके दश लक्षण हैं, और सर्वधर्मके निवान हैं ॥८०-८१॥ सर्व मूल और उत्तर गुणोसे और क्षमादिदशलक्षणोसे सन्तोको उसी भवमे मोक्ष देनेवाला परमधर्म होता है ॥८२॥ इस मुनिधर्मसे योगीन्द्रजन सर्वार्थसिद्धि तकके तथा तीर्थकरादि पद-जनित सुखोको भोग कर सदा मोक्षको जाते रहते हैं ॥८३॥ इस लोकमे सर्वत्र धर्मके सदृश न कोई बन्धु है, न स्वामी है, न हितकारक है, न पाप-विनाशक है और न सर्व अभ्युदय—सुखोका साधक है ॥८४॥

इस प्रकार वीर जिनेन्द्रने श्रावक-मुनिधर्मका उपदेश देकर कालका स्वरूप इस प्रकार-से कहना प्रारम्भ किया—इस मनुष्य लोकमे भरतक्षेत्र-स्थित आर्य खण्डमे प्रवर्तमान उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी नामके दो काल कहे गये हैं । इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्रमे भी दोनो काल प्रवर्तते हैं । इनमे उत्सर्पिणी काल दश कोडाकोडी सागर-प्रमाण होता है । प्राणियोके

अवसर्पात्समास्या अवसर्पिणी तयान्यथा । पृथक्-पृथक्त्थोर्विद्धि षट् काला हि प्रकीर्तिता ॥८७॥
 प्रथमोऽत्रावसर्पिण्या द्विरुक्तसुषमाभिध । कालो भवेच्चतु कोटीकोटिसागरमानक ॥८८॥
 तस्यादौ भवन्त्यार्या पत्यत्रितयजीविन । क्रोशत्रयसमुत्तुङ्गा उदयादित्यभानिभा ॥८९॥
 दिनत्रयगते तेषा बदरीफलमात्रक । दिव्याहारोऽस्ति सर्वेषा नीहारवर्जितात्मनाम् ॥९०॥
 मद्यतूर्यविभूषास्त्रगज्योतिदीपगुहाङ्गका । भोजनाङ्गाश्च वस्त्राङ्गा भोजनाङ्गा दशेत्यहो ॥९१॥
 कल्पवृक्षा सपुण्याना ददते भोगसपद । सकल्पिता महाभूत्योत्तमपात्रसुदानत ॥९२॥
 आर्या आर्यस्वभावेन भुक्त्वा भोगान्निरन्तरम् । सहजन्मात्थनार्यामा सर्वे यान्ति दिवालयम् ॥९३॥
 उत्कृष्टा भोगभूरेषा विज्ञेयाखिलशर्मदा । तत्रैषा रौद्रपञ्चाक्षविकलत्रयवर्जिता ॥९४॥
 ततो द्वितीयकालो मध्यमभोगधरान्वित । त्रिकोटीकोटिवाराशिसमान सुषमाह्वय ॥९५॥
 तदादौ मानवा सन्ति द्विपत्योपमजीविन । गव्यूतिद्वयतुङ्गाङ्गा पूर्णन्दुसमकान्तय ॥९६॥
 दिनद्वयान्तरे दिव्यमाहार तृप्तिकारणम् । भुञ्जन्त्यक्षफलेनात्र तुल्य ते भोगभागिन ॥९७॥
 पश्चात्तृतीयकाल सुषमादिदुषमाभिध । जघन्यभोगभूभाग् द्विकोटीकोट्यब्धिमानक ॥९८॥
 तस्यादौ स्युर्नरा एकपत्याखण्डायुध शुभा । क्रोशैकतुङ्गसहेहा प्रियङ्गुकान्तिसनिभा ॥९९॥
 एकान्तरेण तेषा स्यादाहारस्तृप्तिकारक । तुल्य आमलकेनात्र कल्पद्रुभोगभागिनाम् ॥१००॥

रूप बल आयु शरीर और सुखके उत्सर्पण (वृद्धि) होनेसे ज्ञानियोने इसे उत्सर्पिणी काल कहा है ॥८५-८६॥ जिस कालमे जीवोके रूप बल आयु शरीर और सुखादिका अवसर्पण (क्रमशः ह्रास) होता है, उसे अवसर्पिणीकाल कहा जाता है। यह उत्सर्पिणीसे विपरीत होती है। इन दोनोंके पृथक्-पृथक् छह काल-विभाग कहे गये हैं ॥८७॥ उनमेसे अवसर्पिणीका पहला काल सुषम सुषमा नामवाला है, इसका समय चार कोडाकोडी सागर प्रमाण है ॥८८॥ इस कालके आदिमे उत्पन्न होनेवाले आर्य पुरुष तीन पत्यकी आयुवाले, तीन कोशके ऊँचे और उदय होते हुए सूर्यके समान आभावाले होते हैं ॥८८-८९॥ तीन दिनके बीतने पर बदरी फल (बेर) के प्रमाणवाला उनका दिव्य आहार होता है और ये सब नीहार (मल-मूत्रादि) से रहित होते हैं ॥९०॥ उस कालमे यहाँपर मद्याग, सूर्याग, विभूषाग, मालाग, ज्योतिरग, दीपाग, गृहाग, भोजनाग, वस्त्राग और भोजनाग ये दश जातिके कल्पवृक्ष होते हैं। वे महा-विभूतिके साथ दिये गये उत्तम पात्रदानके फलसे पुण्यशाली उन आर्य जनोको सकल्पित भोग सम्पदाएँ देते हैं ॥९१-९२॥ वे आर्य अपने आर्य (उत्तम) स्वभावसे जन्मके साथ ही उत्पन्न हुई स्त्रीके साथ निरन्तर भोगोको भोगकर मरणको प्राप्त हो वे सभी देवलोकको जाते हैं ॥९३॥

यह उत्कृष्ट भोगभूमि समस्त सुखोको देनेवाली जाननी चाहिए। वहाँपर क्रूर स्वभावी पचेन्द्रिय और विकलत्रय तिर्यच नहीं होते हैं ॥९४॥ तत्पश्चात् मध्यम भोग-भूमिसे युक्त दूसरा सुषमा नामका काल प्रवृत्त होता है। उसका प्रमाण तीन कोडाकोडी सागरोपम है ॥९५॥ उसके आदिमे मनुष्य दो पत्योपमकाल तक जीवित रहनेवाले, दो कोशकी ऊँचाईवाले शरीरके धारक और पूर्ण चन्द्रके समान कान्तिमान् होते हैं ॥९६॥ वे भोग-भूमियाँ दो दिनके पश्चात् अक्षफल (बहेडा) प्रमाणवाले, तृप्तिकारक दिव्य आहारको करते हैं ॥९७॥ तत्पश्चात् सुषमदुषमा नामवाला, दो कोडाकोडी सागरके प्रमाणवाला जघन्य भोग-भूमिसे युक्त तीसरा काल प्रवृत्त होता है ॥९८॥ उसके आदिमे मनुष्य एक पत्यकी अखण्ड आयुके धारक, शुभ, एक कोश ऊँचे उत्तम देहवाले और प्रियगुके समान कान्तिके धारक होते हैं ॥९९॥ कल्पवृक्षोके द्वारा दिये गये भोगोके भोगनेवाले उन मनुष्योका एक दिनके अन्तरसे आँवलेके तुल्य प्रमाणवाला तृप्तिकारक दिव्य आहार होता है ॥१००॥

ततश्चतुर्थकालोऽस्ति दु षमादिसुषाह्वय । कर्मभूमिजधर्माद्य शलाकापुरुषान्वित ॥१०१॥
 कोटीकोट्यब्धिमानास्य स्थितिरूना मतागमे । सहस्रवत्सराणा द्विचत्वारिंशत्प्रमाणकै ॥१०२॥
 तस्यादौ मनुजा पूर्वैःकोटीवर्षजीविन । शतपञ्चधनुस्तुङ्गा पञ्चवर्णप्रभान्विता ॥१०३॥
 दिन प्रति मनुष्यास्ते भुञ्जन्त्याहारमूजितम् । वारैक तत्र जायन्ते शलाकापुरुषा इमे ॥१०४॥
 वृषभोऽजिततीर्थेश शम्भाख्योऽभिनन्दन । सुमति पञ्चम पद्मप्रभ सुपाश्वर्तीर्थकृत् ॥१०५॥
 चन्द्रप्रभजिन पुष्पदन्त शीतलसञ्जक । श्रेयान् श्रीवासुपूज्याख्यो विमलोऽनन्तनामक ॥१०६॥
 धर्म शान्तीश्वर कुन्धुरो मल्लिजिनाधिप । मुनिसुव्रतनाथ श्रीनमिर्नेमिजिनाग्रणो ॥१०७॥
 पार्श्व श्रीवर्धमानाख्य इमे तीर्थकरा इह । त्रिजगत्स्वामिभिर्वन्द्या स्युश्चतुर्विंशतिप्रमा ॥१०८॥
 भरत सगरश्चक्री मघवा चक्रनायक । सनत्कुमारचक्रेश शान्तिकुन्ध्वरचक्रिण १०९॥
 सुभूमाख्यो महापद्मो हरिषेणो जयाभिध । ब्रह्मदत्तोऽप्यमो ज्ञेयाश्चक्रिणो द्वादशैव हि ॥११०॥
 विजयाख्योऽचलो धर्म सुप्रभो हि सुदर्शन । नन्दी च नन्दिमित्राख्यो राम पद्म इमे बला ॥१११॥
 त्रिपृष्ठारयो द्विपृष्ठोऽथ स्वयम् पुरुषोत्तम । तत पुरुषसिंह पुण्डरीको दत्तसञ्जक ॥११२॥
 लक्ष्मण कृष्ण एवात्र वासुदेवा नव स्मृता । त्रिखण्डस्वामिनो धीरा प्रकृत्या रौद्रमानसा ॥११३॥
 अश्वग्रीवोऽर्धचक्री च तारको मेरकाह्वय । निशुम्भ कैटभारिश्च मधुसूदनसञ्जक ॥११४॥
 बलिहन्तामिधो रावणो जरासन्ध एव हि । वासुदेवद्विषोऽत्रैते तत्समानधिभागिन ॥११५॥
 त्रिषष्टिपुरुषाणाममीषा नरखगाधिपै । सुरैर्नुतपदाब्जाना पूज्याना च परात्मनाम् ॥११६॥
 भवान्तराणि सर्वाणि पुराणानि पृथक् पृथक् । ऋद्धद्यायुर्बलसौख्यानि भाविनीर्निखिला गती ॥११७॥
 विस्तरेण जिनाधीशो दिव्येन ध्वनिना स्वयम् । व्याजहार गणाधीश गणान् प्रति शिवासये ॥११८॥

तत्पश्चात् दुपमसुषमा नामका कर्मभूमिज धर्मसे युक्त तिरैसठ शलाका पुरुषोको जन्म देनेवाला चौथा काल प्रवृत्त होता है ॥१०१॥ इसकी जिनागममे बयालीस हजार वर्षोंसे कम एक कोडाकोडी सागरोपम स्थिति कही गयी है ॥१०२॥ इसके आदिमे मनुष्य एक पूर्व कोटी वर्षजीवी, पाँच सौ धनुष ऊँचे और पाँचो वर्णोंकी प्रभासे युक्त होते हैं ॥१०३॥ वे मनुष्य प्रतिदिन एक बार उत्तम आहार करते हैं । इस कालमे ये शलाका पुरुष उत्पन्न हुए हैं ॥१०४॥ भावार्थ—चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण और नौ बलभद्र ये तिरैसठ शलाका अर्थात् गण्य-मान्य पुरुष हुए हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं । श्री ऋषभ, अजित, शम्भव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्वर्त, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, शीतल, श्रेयान्, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्धु, अर, मल्लि, मुनिसुव्रतनाथ, नमि, नेमि, पाश्वर्त और वर्धमान ये चौबीस तीर्थकर इस युगमे हुए हैं । ये सभी तीन लोकके स्वामियो द्वारा वन्दनीय हैं ॥१०५-१०८॥ भरत, सगर, मघवा, सनत्कुमार, शान्ति, कुन्धु, अर, सुभूम, महापद्म, हरिषेण, जय और ब्रह्मदत्त ये बारह चक्रवर्ती जानना चाहिए ॥१०९-११०॥ विजय, अचल, धर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नन्दी, नन्दिमित्र, पद्म और राम ये नौ बलभद्र हुए हैं ॥१११॥ त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, पुण्डरीक, दत्त, लक्ष्मण और कृष्ण ये नौ वासुदेव (नारायण) हुए हैं । ये सभी तीन खण्डके स्वामी, वीरवीर और स्वभावसे ही अतिरौद्र चित्त होते हैं ॥११२-११३॥ अश्वग्रीव, तारक, मेरक, निशुम्भ, कैटभारि, मधुसूदन, बलिहन्त, रावण और जरासन्ध ये नौ वासुदेवोके प्रतिपक्षी अर्थात् प्रतिवासुदेव (प्रतिनारायण) हुए हैं । ये सभी वासुदेवके समान ही ऋद्धिके भागी होते हैं ॥११४-११५॥ नराधिप, विद्याधराधिप और देवोसे नमस्कृत चरण कमलवाले इन पूज्य तिरैसठ शलाका महापुरुषोके सर्व भवान्तर, चरित, ऋद्धि, आयु, बल, सौख्य और भावी सब गतियोको श्री वीर जिनेशने दिव्यध्वनिके द्वारा विस्तारसे स्वय ही गणाधीश गौतम और सर्व गणोको शिव-प्राप्तिके लिए

अथ दुषमकालाख्य पञ्चमो दुखपूरित । वत्सराणा सहस्रैकविंशतिप्रम एव हि ॥११९॥
 विंशत्यप्रशतायुष्का वर्षाणा मन्दधीयुता । नरा ससकरोत्सेधा रूक्षदेहा सुखातिगा ॥१२०॥
 दुखिनोऽसकृदाहारा प्रत्यह कुटिलाशया । तस्यादौ स्यु क्रमाद्वीना स्वाङ्गायुर्धीबलादिभि ॥१२१॥
 दुषमादुषमाख्योऽथ षष्ठकालोऽतितु खद । वर्षे पञ्चमकालस्य समो धर्मादिदूरग ॥१२२॥
 अस्यादौ द्विकरोत्सेधा धूमवर्णा कुरुपिण । नग्नाश्च स्वेच्छयाहारा विंशत्यब्दायुषो नरा ॥१२३॥
 एकहस्तोच्छ्रितास्ते स्यु कालान्तेऽत्र पशूपमा । षोडशाब्दा परायुष्का निन्धा दुर्गतिगामिन ॥१२४॥
 यथावसर्पिणीकाल क्रमेण हानिसयुत । तथात्रोत्सर्पिणीकालो वृद्धियुक्तो जिनैर्मत ॥१२५॥
 अधो वेत्रासनाकारो मध्ये स्याज्जलरीसम । मृदङ्गसदृशश्रान्ते लोक षडद्रव्यपूरित ॥१२६॥
 इत्याद्यनेकसस्थान श्रभ्रस्वर्गादिगोचरम् । त्रैलोक्यस्यायवादेन न्यवेदयजिनाधिप ॥१२७॥
 किमत्र बहुनोक्तेन कालत्रितयगोचरा । ये केचित्त्रिजगन्मध्ये पदार्थाश्च शुभाशुभा ॥१२८॥
 भूताश्च भाविनो वर्तमाना कैवल्यदृष्टिगा । सन्त्यलोकेन सार्धं तान् पदार्थान् सकलान् जिन ॥१२९॥
 द्वादशाङ्गगतार्थेनादिशच्छ्रीगौतम प्रति । हिताय विश्वभव्याना धर्मतीर्थप्रवृत्तये ॥१३०॥
 इति श्रीजिनवक्त्रेन्दुङ्गव ज्ञानामृत महत् । पीत्वा श्रीगौतमो हत्वा मिथ्याहालाहल हुतम् ॥१३१॥
 काललब्ध्या मुदासाद्य सवेग दृष्टिपूर्वकम् । विश्वाङ्गश्रीखभोगादौ स्वहृदीत्यमतर्कयत् ॥१३२॥

कहा ॥११६-११८॥ अथानन्तर दुःखोसे भरा हुआ दुःषम नामका पचम काल होगा। उसका काल-प्रमाण इक्कीस हजार वर्ष है ॥११९॥ उसके प्रारम्भमे मनुष्य एक सौ बीस वर्ष की आयुके धारक और सात हाथके ऊँचे होंगे। इस कालके मनुष्य मन्द बुद्धिसे युक्त रूक्ष देह-वाले और सुखोसे रहित होंगे ॥१२०॥ वे दुःखी लोग प्रतिदिन अनेक बार आहार करेंगे और कुटिल चित्त होंगे। पुनः उनका शरीर, आयु, बुद्धि और बल आदिक क्रमसे हीन होता जायेगा ॥१२१॥ तत्पश्चात् दुःषमदुषमा नामका अति दुःखदायी छठा काल आयेगा। उसका काल-प्रमाण पचम कालके समान इक्कीस हजार वर्ष है। उस समय वर्मादि नहीं रहेगा ॥१२२॥ इस कालके आदिमे मनुष्योके देह दो हाथ ऊँचे और धूम्रवर्णके होंगे। वे मनुष्य कुरुपी, नग्न, स्वेच्छाहारी और बीस वर्षकी आयुके धारक होंगे ॥१२३॥ इस कालके अन्तमे मनुष्य एक हाथ ऊँचे, पशुके समान आहार-विहार करनेवाले, उच्छ्रित, सोलह वर्षकी आयुके धारक, निन्दनीय और दुर्गतिगामी होंगे ॥१२४॥ जिस प्रकारसे यह अवसर्पिणी काल क्रमसे आयु, बल, शरीर आदिकी हानिसे सयुक्त है, उसी प्रकारसे उत्सर्पिणीकाल उन सबकी वृद्धिसे सयुक्त जिनराजोने कहा है ॥१२५॥

तदनन्तर वीरप्रभुने लोकाका वर्णन करते हुए कहा—इस लोकका अधोभाग वेत्रासन-के आकारवाला है, मध्यमे झल्लरीके समान है और ऊपर मृदगके सदृश है। यह सदा जीवादि छह द्रव्योसे भरपूर है ॥१२६॥ (इस लोकके अधोभागमे नरक है, ऊर्ध्वभागमे स्वर्ग है और मध्यभागमे असख्यात द्वीप-समुद्र है।) इत्यादि प्रकारसे सत्यार्थवादी जिनराज श्री वर्धमान स्वामीने अनेक सस्थानवाले और स्वर्गनरकादि विषयवाले तीन लोकका स्वरूप कहा ॥१२७॥ इस विषयमे अत्रिक कहनेसे क्या, इस तीन लोकके मध्यमे त्रिकाल-विषयक और केवलज्ञानगोचर जितने कुछ भी शुभ-अशुभ पदार्थ भूतकालमे हुए हैं, वर्तमानमे विद्यमान हैं और भविष्यमे होंगे, उन सर्व पदार्थोको अलोकाकाशके साथ वीर जिनेन्द्रने द्वादशाङ्गगत अर्थके साथ श्री गौतमके प्रति सब भव्य जीवोके हितार्थ और धर्मतीर्थकी प्रवृत्तिके लिए उपदेश दिया ॥१२८-१३०॥

इस प्रकार श्री वीरजिनके मुख चन्द्रसे उत्पन्न हुए वचनरूप अमृतको पीकर और अपने मिथ्यात्वरूपी हलाहल विषको शीघ्र नाश कर श्री गौतम काललब्धिसे हर्षके साथ सम्यग्दर्शन-

अहो मिथ्यात्वमार्गोऽयं विश्वपापाकरोऽशुभ । चिरं वृथा मया निन्द्य सेवितो मूढचेतसा ॥१३३॥
 स्रग्भ्रान्त्यात्र यथा कश्चित्कृष्णाहिं शर्मणेऽग्रहीत् । तथाह धर्मबुद्धयेद मिथ्यापाप महद्वधे ॥१३४॥
 धूर्तप्रजल्पितेनानेन मिथ्यावर्त्मना शठा । नीयन्ते नरक घोर सख्यातीतास्तदाश्रिता ॥१३५॥
 उन्नन्ता विकला यद्गृथवीथ्या पतन्ति भो । तद्वन्मिथ्यादृशो दृष्टिवैकल्यादुत्पथेऽशुभे ॥१३६॥
 चरता भो यथान्धाना कृपादौ पतन भवेत् । तथा मिथ्याध्वलग्नाना नरकाद्यन्धकूपके ॥१३७॥
 इम मिथ्यात्वदुर्मार्गं मन्येऽह विषम तराम् । खलान् श्वभ्रपथ नेतु सार्थवाह शठादृतम् ॥१३८॥
 सम्यक्चिद्वृत्तधर्मादिनृपतीना च शान्त्रवम् । प्राणिन र्यादितु सर्पमाकर परमेनसाम् ॥१३९॥
 गोशृङ्गाच्च यथा दुग्धं बह्मभोमथनाद् घृतम् । यशो दुर्व्यसनान्ख्याति कृपणत्वात्कुर्मणा ॥१४०॥
 धन वा लभ्यते जातु नैव मिथ्यात्वतस्तथा । न शुभं न सुखं नात्र सद्गतिश्च जडात्मभि ॥१४१॥
 मिथ्यात्वाचरणेनाहो केवल गम्यते स्फुटम् । अगम्य नरक घोर मिथ्यादृग्भिर्वृषातिगै ॥१४२॥
 इति मत्वा बुधैरादौ धर्मस्वर्मुक्तिसिद्धये । मिथ्यात्वारि प्रहन्तव्यो दृग्विशुद्धयसिना हुतम् ॥१४३॥
 अद्याहमेव धन्योऽहो सफल जन्म मेऽखिलम् । यतो मयातिपुण्येन प्राप्तो देवो जगद्गुरु ॥१४४॥
 अनर्घ्यस्तत्प्रणीतोऽयं मार्गो धर्मं सुखाकर । नाशितं दृष्टिमोहान्धतमश्वास्य वचोऽशुभि ॥१४५॥
 इत्यादि चिन्तनात्प्राप्य परमानन्दमुलबणम् । धर्मे धर्मफलादौ च स नैराग्यपुरस्सरम् ॥१४६॥

पूर्वक ससार, शरीर, लक्ष्मी और इन्द्रिय-भोगादिमे सवेगको प्राप्त होकर अपने हृदयमे इस प्रकार विचार करने लगे ॥१३१-१३२॥ अहो, यह मिथ्यात्वमाग समस्त पापोका आकर है, अशुभ है और निन्दनीय है । मुझ मूढ-हृदयने चिरकालसे इसे वृथा सेवन किया है ॥१३३॥ इस लोकमे जैसे कोई अज्ञानी मालाके भ्रमसे सुख-प्राप्तिके लिए काले साँपको ग्रहण करे, उसीके समान मैने धर्मबुद्धिसे यह महान् मिथ्यात्व पाप हृदयमे धारण किया ॥१३४॥ धूर्त जनोसे प्ररूपित इस मिथ्यात्वमार्गके द्वारा मिथ्यात्वको प्राप्त हुए असख्यात मूर्ख प्राणी घोर नरकमे ले जाये जा रहे है ॥१३५॥ जैसे मदिरापानसे उन्मत्त विकल पुरुष विष्टासे भरी गलीमे पडते है, अरे, उसी प्रकार मिथ्यात्वसे विमोहित मिथ्यादृष्टि जीव अशुभ कुमार्गमे पडते है ॥१३६॥ अहो, जैसे चलते हुए अन्धोका कूप आदि निम्न स्थानमे पतन होता है उसी प्रकार मिथ्यामार्गगामियोका नरकादि अन्धकूपमे पतन होता है ॥१३७॥ (भगवान्के उपदेशसे प्रबोध पाकर अब) मै मानता हूँ कि यह मिथ्यात्वरूप कुमार्ग अत्यन्त विषम है और दुर्जनोको नरकके मार्गपर ले जानेके लिए सार्थवाह के सदृश है । यह शठ पुरुषोसे समादृत है, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र और दश धर्मादि राजाओका शत्रु है, प्राणियो को खानेके लिए अजगर साँप है और महापापोका आकर है ॥१३८-१३९॥ जिस प्रकार गायके सींगसे दूध, बहुत भी जलके मन्थनसे घी, दुर्व्यसन-सेवनसे यश, कृपणतासे ख्याति, और खोटे व्यापारादि कार्योंसे धन नहीं प्राप्त होता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व-सेवनसे कभी भी जडात्मा पुरुषोको इस लोकमे न शुभ वस्तु मिल सकती है, न सुख मिल सकता है और न सद्गति प्राप्त हो सकती है ॥१४०-१४१॥ अहो, मिथ्यात्वके आचरणसे तो धर्म-विमुख मिथ्यादृष्टि जीव निश्चयसे केवल अगम्य घोर नरकको ही आते है ॥१४२॥ ऐसा समझकर बुद्धिमानीको धर्मकी प्राप्ति और स्वर्ग-मोक्षकी सिद्धिके लिए सबसे पहले मिथ्यात्वरूपी वैरी-को दृग्विशुद्धिरूप तलवारके द्वारा शीघ्र मार देना चाहिए ॥१४३॥

अहो, आज मै वन्द्य हूँ, मेरा यह सारा जीवन सफल हो गया है, क्योकि अति पुण्यसे आज मैने जगद्-गुरु श्री जिनदेवको पाया है ॥१४४॥ इनके द्वारा प्रणीत (उपदिष्ट) यह मार्ग और यह धर्म अनमोल है, और सुखका भण्डार है । आज इनके वचनरूप किरणोसे दर्शनमोह-रूप महान्धकार नष्ट हो गया है ॥१४५॥ इत्यादि रूपसे धर्म और धर्मका फल चिन्तन

मिथ्यास्वारातिसतान हन्तु मोहादिशत्रुभि । सार्धं विप्राग्रणीर्मुक्त्यै दीक्षामादातुमुद्ययौ ॥१४७॥
 ततस्त्यक्त्वान्तरे सङ्गान् दश बाह्ये चतुर्दश । त्रिशुद्ध्या परया भक्त्यार्हती मुद्रा जगन्नुताम् ॥१४८॥
 भ्रातृभ्या सह जग्राह तत्क्षण च द्विजोत्तम । शतपञ्चप्रमैद्गत्रै प्रबुद्धस्तत्त्वमङ्गसा ॥१४९॥
 अन्ये च बहवो भव्या जिनवाकिरणोत्करै । मोहसङ्गतमो हन्ता जगद्गुर्मुनिसयमम् ॥१५०॥
 काश्चिन्नुपात्मजा अन्या बह्व्यश्च सुस्त्रियो मुदा । प्रबुद्धास्तद्दिगरा सिद्धयै बभूवुरार्थिकास्तदा ॥१५१॥
 केचिच्छ्रीजिनवाक्येन सकलानि व्रतानि वै । आददु श्रावकाणा च नरा नार्योऽपरा शुभा ॥१५२॥
 केचित्सत्पशव सिंहसर्पाद्या क्रूरता निजाम् । प्रहृत्य तद्वचो लब्ध्वा स्वीचक्रु श्रावकव्रतान् ॥१५३॥
 केचिच्चतुर्णिकायस्था देवा काश्चिच्च देवता । मानवा पशवो हत्वा मिथ्या हालाहल विषम् ॥१५४॥
 तद्वाक्यामृतपानेन कालाप्याशु शिवाप्तये । अनर्घ्यं दृष्टिहार स्वहृदये निर्मल व्यधु ॥१५५॥
 व्रताद्याचरणेऽशक्ता केचित्स्वश्रेयसे जना । दानपूजाप्रतिष्ठादीनुद्यु कतुमङ्गसा ॥१५६॥
 केचित्तपोव्रतादीनि सर्वशक्त्या प्रयत्नत । आदाय यत्पशक्ताश्च तेषु दुष्करकर्मसु ॥१५७॥
 आतापनादियोगेषु चक्रु कर्मारिहानये । सर्वेषु भावना भक्त्या त्रिशुद्ध्या भवनाशिनीम् ॥१५८॥
 तदैवावस्य गणेशस्य सौधमैन्द्रोऽतिभक्तित । दिव्यार्चनै प्रपूज्यैष पादाब्जौ त्रिजगन्नुतौ ॥१५९॥
 नत्वा कृत्वा स्तुति दिव्यैर्गुणैर्मध्ये जगत्सताम् । इन्द्रभूतिरय स्वामीत्युक्त्वा नामान्तर व्यधात् ॥१६०॥
 तत्क्षण श्रीगणेशस्य सप्तैवास्य महर्घ्यं । प्रादुर्बभूवुरत्यन्तपरिणामसुशुद्धित ॥१६१॥
 भो मन शुद्धिरेवात्र सर्वाभीष्टप्रदा सताम् । ययाप्यन्ते क्षणार्धेन केवलज्ञानसपद ॥१६२॥

करनेसे अति उत्कृष्ट परम आनन्दको प्राप्त हुआ वह ब्राह्मणोका नेता गौतम वैराग्यपूर्वक मोहादि शत्रुओके साथ मिथ्यात्वरूपी वैरीकी सन्तानको मारने और मुक्ति पानेके लिए दीक्षा लेनेको उद्यत हुआ ॥१४६-१४७॥ तत्पश्चात् निश्चयसे तत्त्वके प्रबोधको प्राप्त उस गौतमने अपने दोनो भाइयोके तथा पाँच सौ छात्रोके साथ चौदह अन्तरग और दश बाह्य परिग्रहको छोड़कर त्रियोग शुद्धिपूर्वक परम भक्तिसे जगत् पूज्य जिनमुद्राको तत्काल ग्रहण कर लिया ॥१४८-१५०॥ उसी समय भगवान्की वाणीसे प्रबोधको प्राप्त हुई कितनी ही राजकुमारियाँ और अन्य बहुत-सी उत्तम स्त्रियाँ आत्मसिद्धिके लिए आर्थिका बन गयी ॥१५१॥ उसा समय श्री जिनेन्द्रके वचनोसे प्रबुद्ध हुए कितने ही उत्तम मनुष्योने और कितनी ही उत्तम स्त्रियोने श्रावकोके सर्व व्रतोको ग्रहण किया ॥१५२॥ उसी समय कितने ही सिंह, सर्प आदि उत्तम पशुओने अरनी क्रूरताको छोड़कर और भगवान्के वचनोका लाभ पाकर श्रावकके व्रतोको स्वीकार किया ॥१५३॥ तभी चतुर्णिकायके कितने ही देवोने और कितनी ही देवियोने तथा अनेक मनुष्यो और पशुओने भगवान्के वचनामृत पानसे मिथ्यात्वरूपी हालाहल विषको दूरकर काललब्धिसे शिव प्राप्तिके लिए शात्र ही अनमोल सम्यग्दर्शनरूपी निर्मल हारको अपने हृदयोमे धारण किया ॥१५४-१५५॥ व्रतादिके पालन करनेमे असमर्थ कितने ही लोग दान-पूजा प्रतिष्ठा आदि करनेके लिए शीघ्र उद्यत हुए ॥१५६॥ कितने ही लोगोने अपनी सर्व शक्तिके अनुसार प्रयत्नपूर्वक व्रत-नियमादि ग्रहण कर उन कठिन आतापनादि योगोमे अशक्त होनेसे कर्मशत्रुके विनाशके लिए उन सर्व उत्तम कार्योमे त्रियोगशुद्धिपूर्वक भक्तिसे ससारको नाश करनेवाली भावना की ॥१५७-१५८॥ उसी समय सौधमैन्द्रने द्वादश गणोके स्वामीपद को प्राप्त हुए गौतम गणधरके अतिभक्तिसे दिव्य पूजन-द्रव्योके द्वारा त्रिलोक नमस्कृत चरण-कमलोको पूजकर, नमस्कार कर और दिव्य गुणोके द्वारा स्तुति करके सब सत्पुरुषोके मध्यमे 'ये इन्द्रभूति स्वामी है' ऐसा कहकर उनका इन्द्रभूति यह दूसरा नाम रखा ॥१५९-१६०॥

जिन-दीक्षा ग्रहण करनेपर श्री गौतम गणधरको परिणामोकी अत्यन्त विशुद्धिसे तत्काल सातो ही महाशुद्धियाँ प्रकट हो गयी ॥१६१॥ हे भव्यजनो, सन्तोके मनकी शुद्धि ही इस

सद्य श्रीवर्धमानार्हन्तत्त्वोपदेशनेन च । सर्वाङ्गार्थपदान्येव हृदा परिणतिं ययु ॥१६३॥
 अर्थरूपेण पूर्वाह्णे श्रावणे बहुले तिथौ । पक्षादौ योगशुद्ध्यास्य हीन्द्रभूतिगणेशिन ॥१६४॥
 तत पूर्वाणि सर्वाणि भागेऽस्य पश्चिमे धिया । दिवसस्यार्थरूपेण प्रादुरासन् विधे क्षयात् ॥१६५॥
 ततोऽसौ ज्ञातसर्वाङ्गपूर्वो धीचतुष्कवान् । तीक्ष्णप्रज्ञोरुबुद्ध्याखिलाङ्गाना रचना पराम् ॥१६६॥
 चकार विश्वमव्यानामुपकारप्रसिद्धये । पूर्वरात्रे सुभक्त्या पदवस्तुप्राभृतादिभि ॥१६७॥
 पूर्वाणा पश्चिमे भागे यामिन्या रचना शुभाम् । पदग्रन्थादिरूपेण चक्रेऽसौ तीर्थवृत्तये ॥१६८॥
 इति वृषपरिपाकाद् गौतम श्रीगणेश सकलयतिगणाना मुख्य आसीत्सुरार्च्य ।
 निखिलश्रुतविधाता चेति मत्वा सुधर्मं कुरुत हृदयशुद्ध्या भो बुधा कार्यसिद्धयै ॥१६९॥

योऽभूद्धर्ममयो व्यनक्ति च सता धर्मं जगच्छर्मणे
 धर्मेणेह हि वर्ततेऽधविजयी धर्माय लोक व्रजन् ।
 धर्माद् वक्ति शिबालय प्रकटयेद्धर्मस्य मार्गं गिरा
 धर्मं दत्तमना स वीरजिनपो दद्यात्स्वधर्मं मम ॥१७०॥

इति भट्टारक-श्रीसकलकीर्तिविरचिते श्रीवीरवर्धमानचरिते
 भगवद्धर्मोपदेशवर्णनो नामाष्टादशोऽधिकार ॥१८॥

लोकमे सर्वं अभीष्ट फलोको देनेवाली है और इसी मनकी शुद्धिसे आवे क्षणमे केवलज्ञान सम्पदा प्राप्त हो जाती है ॥१६२॥ श्री वर्धमान जिनके तत्त्वोपदेशसे सर्व अगश्रुतके बीज पद इन्द्रभूति गौतम गणधरके हृदयमे श्रावण कृष्णपक्षके आदि दिन अर्थात् प्रतिपदाके पूर्वाह्नकालमे योगशुद्धिके द्वारा अर्थरूपसे परिणत हो गये ॥१६३-१६४॥ तत्पश्चात् उसी दिनके पश्चिम भागमे श्रुतज्ञानावरण कर्मके विशिष्ट क्षयोपशमसे प्रकट हुई बुद्धिके द्वारा सभी (चौदह) पूर्व अर्थरूपसे परिणत हो गये ॥१६५॥ भावार्थ—श्रावण कृष्णा प्रतिपदाके पूर्वाह्नकालमे तो गौतम अगश्रुतके वेत्ता हुए और अपराह्नकालमे चतुर्दश पूर्वोके वेत्ता बने । इसके पश्चात् सर्व अग पूर्वके ज्ञाता और चार ज्ञानके धारी गौतम गणधरने अपनी तीक्ष्ण प्रज्ञा और विशाल बुद्धिके द्वारा समस्त अगोकी उत्कृष्ट रचना समस्त भव्यजीवोके उपकारकी सिद्धिके लिए पूर्व रात्रिमे सुभक्तिसे की । और रात्रिके पश्चिम भागमे पद, वस्तु, प्राभृत आदिके द्वारा सर्व पूर्वोकी शुभ रचना पद-ग्रन्थादिरूपसे धर्मतीर्थकी प्रवृत्तिके लिए की ॥१६६-१६८॥

इस प्रकार धर्मके परिपाकसे देवोसे पूज्य श्री गौतम गणधर सर्वसाधु समूहके प्रमुख हुए और सकलश्रुतके विधाता बने । ऐसा समझकर हे ज्ञानी जनो, स्वाभीष्ट कार्य सिद्धिके लिए तुम लोग हृदयकी शुद्धिके साथ उत्तम धर्मका पालन करो ॥१६९॥

जो स्वयं धर्ममय हुए, जिन्होंने जगत्के सुखके लिए सन्तोको धर्मका उपदेश दिया, जो धर्मके द्वारा ही पापोके जीतनेवाले हुए, जिन्होंने धर्मके लिए लोकमे विहार किया, धर्मसे शिवपदको प्राप्त हुए, अपनी वाणीसे धर्मका मार्ग प्रकट किया और धर्ममे मन लगाया, वे श्री वीरजिनेन्द्र मुझे अपना धर्म देवे ॥१७०॥

इस प्रकार भट्टारक श्रीसकलकीर्ति-विरचित श्रीवीरवर्धमानचरितमे भगवान्के धर्मोपदेशका वर्णन करनेवाला अठारहवाँ अधिकार पूर्ण हुआ ॥१८॥

एकोनविंशोऽधिकार

मोहनिद्राघहन्तार श्रीवीर ज्ञानभास्करम् । दीपक विश्वतत्त्वाना वन्दे भव्याब्जबोधकम् ॥१॥
 अथ शान्ते जनक्षोभे दिव्यभाषोपसहते । त्रिजगद्भव्यमध्यस्थ विश्वाङ्गिबोधनोद्यतम् ॥२॥
 भगवन्त मुदा नत्वा सौधर्मेन्द्र सुधीर्महान् । भक्त्येति स्तोतुमारंभे स्वसिद्धयै गुणवित्तराम् ॥३॥
 जगत्सारैर्गुणव्रातैर्भव्यसबोधनोद्भवै । तत्सुतीर्थविहारयोपकाराय च धीमताम् ॥४॥
 त्वा जगत्त्रयदक्षेड्य स्तोष्येऽनन्तगुणार्णवम् । केवल देव शुद्धयर्थं स्ववच कायचेतसाम् ॥५॥
 त्वामभिष्टुवता यस्मात्त्रिजगच्छ्रीसुखादय । आविर्भवन्ति सर्वाश्च शुद्धयोऽघमलात्ययात् ॥६॥
 निश्चिन्त्येत्थाप्यसामग्री सकला त्वत्सुताविमाम् । विशिष्टफलकाङ्क्षी को विद्वास्त्वा स्तौति न प्रभो ॥७॥
 स्तुति स्तोता महान् स्तुत्य फल चेति चतुर्विधा । सामग्री परमा ज्ञेया त्वत्स्तवेऽघविनाशिनी ॥८॥
 अर्हता गुणराशीना याथातथ्येन कीर्तनम् । क्रियते यद्विचारज्ञै सा स्तुतिर्महती शुभा ॥९॥
 पक्षपातच्युतो वाग्मी यो गुणागुणतत्त्ववित् । आगमज्ञ कवीन्द्र स स्तोता सद्दृष्टिरुत्तम ॥१०॥
 योऽनन्तदर्शनज्ञानाद्यनन्तगुणवारिधि । वीतरागो जगन्नाथ स्तुत्य स परम सताम् ॥११॥
 साक्षाद्यच्च पर पुण्य जायते स्तुतिकारिणाम् । क्रमात् स्तुत्यगुणव्रात सकल तत्स्तुते फलम् ॥१२॥

मोहरूपी निद्राके नाशक, विश्वतत्त्वोके प्रकाशक और भव्यजीवरूपी कमलोके प्रबोधक ऐसे ज्ञान-भास्कर श्री वीर स्वामीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥

अथानन्तर दिव्यध्वनिके उपसहार होनेपर तथा मनुष्योका कोलाहल शान्त होनेपर महान् विद्वान् एव गुणवेत्ता सौधर्मेन्द्रने तीन लोकके जीवोके मध्यमे स्थित और समस्त प्राणियोंके सम्बोधन करनेमे उद्यत श्री वीर भगवान्को हर्षसे नमस्कार कर अपने गुणोकी सिद्धिके लिए, बुद्धिमानोके उपकारके लिए और यहाँपर धर्मतीर्थ प्रवर्तनार्थ विहार करनेके लिए जगत्मे सारभूत, भव्योका सम्बोधन करनेवाले गुणसमूहके कीर्तनसे इस प्रकार स्तुति करना प्रारम्भ किया ॥२-४॥

हे देव, मैं केवल अपने मन-वचन कायकी शुद्धिके लिए तीन लोकके दक्ष पुरुषोके द्वारा पूज्य और अनन्त गुणोके सागर ऐसे आपकी स्तुति करता हूँ । क्योंकि आपकी स्तुति करनेवाले जीवोके पापमलके विनाशसे सर्वप्रकारकी शुद्धियाँ और तीन लोककी लक्ष्मी सुख आदिक सम्पदाएँ स्वय ही प्रकट होते हैं । ऐसा निश्चय कर हे प्रभो, आपकी स्तुति करनेके लिए यह सर्व योग्य सामग्री पाकर विशिष्ट फलका इच्छुक कौन विद्वान् आपकी स्तुति नहीं करता ? अर्थात् सभी करते हैं ॥५-७॥ आपके स्तवन करनेमे स्तुति, स्तोता (स्तुति करनेवाला) महान् स्तुत्य (स्तुति करनेके योग्य पुरुष) और स्तुतिका फल, यह चार प्रकारकी पापविनाशिनी उत्तम सामग्री ज्ञातव्य है ॥८॥ गुणोकी राशिवाले अर्हन्तोके गुणोंका जो विचारशील पुरुषोके द्वारा यथार्थरूपसे कीर्तन किया जाता है, वह महाशुभ स्तुति कही जाती है ॥९॥ जो पक्षपातसे रहित, गुण-अवगुणरूप तत्त्वोका वेत्ता, आगमज्ञ, कवीन्द्र, सम्यग्दृष्टि वाग्मी (गुणवर्णन करनेवाला) पुरुष है, वह उत्तम स्तोता कहलाता है ॥१०॥ जो अनन्त ज्ञान-दर्शन आदि अनन्त गुणोका समुद्र है, वीतराग है, जगत्का नाथ है, वह परम पुरुष ही सज्जनोका स्तुत्य माना गया है ॥११॥ स्तुतिका साक्षात् फल स्तुति करनेवाले मनुष्योको परम पुण्यका प्राप्त होना है और परम्परा फल क्रमसे स्तुत्य देवसे सर्व गुण-समूहका प्राप्त

इत्यासाद्येह सामग्री त्वामह स्तोतुमुद्यत । देवाद्य मा पुनीहि त्व दृष्ट्या प्रसन्नया मुदे ॥१३॥
 अद्य नाथ भवद्वाक्याशुभिर्मिथ्यातमोऽखिलम् । भिन्न ननाश भव्यानामन्त स्थ भान्वगोचरम् ॥१४॥
 त्वद्ब्रह्मचोऽसिप्रहारेण भग्नो मोहारिरीश भो । सगण त्वा विहायाश्रितो मनोऽक्षजडात्मनाम् ॥१५॥
 त्वद्धर्मदेशनावप्रघातेन प्रहत स्मर । देवाद्य मरणावस्था प्राप सहाक्षतस्करै ॥१६॥
 नाथ त्वत्केवलज्ञानचन्द्रोदयेन धीमताम् । दृष्ट्यादिरत्नदाताद्य ववृधे धर्मवारिधि ॥१७॥
 भगवन्नद्य पापारिखिजगद्दु खदायक । भवद्धर्मोपदेशायुधेन याति क्षय सताम् ॥१८॥
 त्वत्तो नाथाद्य सप्राप्य दृग्बृत्ताद्या परा श्रिय । केचिन्मुक्तिपथे भव्या ब्रजन्त्यनन्तशर्मणे ॥१९॥
 रत्नत्रयतपोबाणान् केचिदासाद्य मुक्तये । ईशाद्य भवतो धनन्ति कर्मारातीश्विरागतान् ॥२०॥
 त्व जगत्त्रयभव्येभ्यो दातासि प्रत्यह प्रभो । सम्यग्दृग्ज्ञानचारित्रधर्मचिन्तामणीन् परान् ॥२१॥
 चिन्तितार्थप्रदान् साराननर्घ्यान् सुखसागरान् । अत कस्त्वत्समो लोके महादाता महाधनी ॥२२॥
 स्वामिन्नद्य जगत्सर्वं मोहनिद्रास्तचेतनम् । त्वद्ध्वनीनोदयाद्बुद्ध सुसोत्थितमिवाभवत् ॥२३॥
 विभो भवत्प्रसादेन सन्तस्त्वच्चरणाश्रिता । यान्ति सर्वार्थसिद्धिं च दिव केचित्पर पदम् ॥२४॥
 यथैष सकल सद्य पशुमिश्र सुरै समम् । सज्जोऽभूत्त्वद्गिरा हन्तु कर्मसतानमञ्जसा ॥२५॥
 तथा भवद्विहारेणान्नार्थखण्डोद्भवा विद । विज्ञाय विश्वतत्त्वानि हनिष्यन्त्यघसचयम् ॥२६॥

होना है ॥१२॥ इस प्रकार यहाँपर स्तुतिकी उत्तम सामग्रीको पाकर हे देव, मैं आपकी स्तुत करनेके लिए उद्यत हुआ हूँ । हे भगवन्, प्रसन्न दृष्टिसे आप आज मुझे पवित्र करे ॥१३॥ इस प्रकार प्रस्तावना करके इन्द्र स्तुति करना प्रारम्भ करता है—

हे नाथ, आज आपके वचनरूप किरणोंके द्वारा भव्यजीवोंके अन्तरगमे स्थित अं सूर्यके अगोचर ऐसा समस्त मिथ्यान्धकार नष्ट हो गया है ॥१४॥ हे भगवन्, आप वचनरूप तलवारके प्रहारसे मोहरूपी शत्रु विनष्ट हो गया है, इसीसे वह सकलगण-सहि आपको छोड़कर इन्द्रिय और मनके विषयोमे निमग्न जडात्माओके आश्रयको प्राप्त हुआ ॥१५॥ हे देव, आपके धर्मदेशनारूपी वज्रके प्रहारसे आहत हुआ कामदेव आज अपने इन्द्र-चोरोके साथ मरण अवस्थाको प्राप्त हुआ है ॥१६॥ हे नाथ, आपके केवलज्ञानरूप चन्द्र उदयसे बुद्धिमानोको सम्यग्दर्शनादि रत्नोका दाता धर्मरूपी समुद्र वृद्धिको प्राप्त हुआ है ॥१७॥ हे भगवन्, आज तीन लोकको दुःख देनेवाला भव्योका पापरूपी शत्रु आपके धर्मोपदेशरूप आयुवसे क्षयको प्राप्त हुआ है ॥१८॥ हे नाथ, आज आपसे सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र आर् उत्तम लक्ष्मीको पाकरके कितने ही भव्यजीव अनन्त सुखकी प्राप्तिके लिए मुक्तिमार्गपर च रहे है ॥१९॥ हे ईश, आपसे रत्नत्रय और तपरूपी बाणोको पाकरके कितने ही भव्य जी आज मुक्ति पानेके लिए चिरकालसे साथमे आये (लगे) हुए कर्मरूपी शत्रुओको मार र है ॥२०॥ हे प्रभो, आप महान्-महान् दाता है, क्योंकि तीन लोकके भव्य जीवोको प्रतिदि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र धर्मरूप उत्तम चिन्तामणिरत्न देते है ॥२१॥ वे धर्मरत्न चिन्ति पदार्थोको देनेवाले है, सारभूत है, अनमोल है और सुखके सागर है । अत लोकमे आप समान कौन महान् दाता और महाधनी है ॥२२॥ हे स्वामिन्, आज मोहनिद्रासे नष्ट चेतन शक्तिवाला यह जगत् आपके ध्वनिरूप सूर्यके उदयसे प्रबुद्ध होकर सोनेसे उठे हुएके समा प्रतीत हो रहा है ॥२३॥ हे विभो, आपके प्रसादसे आपके चरणोका आश्रय लेनेवाले लोगोंमे से कितने ही स्वर्गको, कितने ही सर्वार्थसिद्धिको और कितने ही परम पद मोक्षको जा रां हैं ॥२४॥ जिस प्रकार पशुओ और देवोके साथ यह सर्व चतुर्विध सद्य आपकी वाणीसे क सन्तानका घात करनेके निश्चयसे सज्जित हुआ है, उसी प्रकार आपके विहारसे इस आर्यखण्ड मे उत्पन्न हुए अन्य ज्ञानी जन भी सर्व तत्त्वोको जानकर अपने पापोके सचयका घात करेगं

भवतीर्थविहारेण कविद्भव्या भवस्थितिम् । हत्वा तपोसिना मोक्ष यास्यन्ति ससुखाम्बुधिम् ॥२७॥
 अहमिन्द्रपद केचित्साधयिष्यन्ति योगिन । वृत्तेन वापरे स्वर्गं त्वत्सद्धर्मोपदेशत ॥२८॥
 त्वयोपदिष्टसन्मार्गं प्राप्येशान्न च मोहिन । मोहाराति हनिष्यन्ति पापिन पापविद्विषम् ॥२९॥
 मोक्षद्वीपान्तर नेतु भव्यान् दक्षस्त्वमेव च । सार्थवाह इवाक्षान्तश्रौरान् हन्तु महाभट ॥३०॥
 अतो देव विधेहि त्व विहार धर्मकारणम् । अनुग्रहाय भव्याना मोक्षमार्गप्रवृत्तये ॥३१॥
 भगवन् भव्यशस्यास्त्व मिथ्यादुर्भिक्षशोषिण । धर्मासृतप्रसेकेनोद्धरेश स्व शिवाप्तये ॥३२॥
 जगत्सतापिन मोहाराति जयाद्य दुर्जयम् । देव पुण्यात्मना धर्मोपदेशबाणपङ्क्तिभि ॥३३॥
 यत सज्जमिद वासीद्धर्मचक्र सुरैर्धृतम् । मिथ्याज्ञानतमोहन्तृ विजयोद्यमसाधनम् ॥३४॥
 तथा समुखमायात कालोऽथ नाथ ते महान् । उपदेष्टु च सन्मार्गं निराकर्तुं हि दुष्पथम् ॥३५॥
 अतो देवात्र किं साध्य बहुनोक्तेन सप्रति । विहृत्य स्वार्थखण्डस्थान् भव्यान् पुनीहि सद्गिरा ॥३६॥
 यतो न त्वत्समोऽन्योऽस्ति स्वर्गमुक्त्वध्वदर्शक । दुर्भागान्धतमोहन्ता क्वचित्कालेऽपि धीमताम् ॥३७॥
 अतो देव नमस्तुभ्य नमस्ते गुणसिन्धवे । नमोऽनन्तचिदेऽनन्तदर्शिनोऽनन्तशर्मणे ॥३८॥
 नमोऽनन्तमहावीर्यात्मने दिव्यसुमूर्तये । नमोऽद्भुतमहालक्ष्मीभूषिताय विरागिणे ॥३९॥
 नमोऽसख्यामरस्त्रीभिर्वृताय ब्रह्मचारिणे । नमो दयासचित्ताय मोहाघरिविघातिने ॥४०॥
 नमस्ते शान्तरूपाय कर्मारिजयिने सते । नमस्ते विश्वनाथाय मुक्तिस्त्रीवल्लभाय च ॥४१॥

॥२५ २६॥ आपके तीर्थ विहारसे कितने ही भव्य जीव तपरूप खड्गके द्वारा ससारकी स्थिति का घात कर उत्तम सुखके समुद्र ऐसे मोक्षको प्राप्त होंगे ॥२७॥ कितने ही योगीजन चारित्र्य धारण कर अहमिन्द्र पदको सिद्ध करेंगे और कितने ही जीव आपके सत्यधर्मके उपदेशसे स्वर्गको जायेंगे ॥२८॥ हे ईश, इस लोकमें आपके द्वारा उपदिष्ट सन्मार्गको प्राप्त होकर मोही जीव अपने मोह-शत्रुका घात करेंगे और पापी जीव अपने पापशत्रुका विनाश करेंगे ॥२९॥ हे नाथ, भव्यजीवको मोक्षरूपी द्वीपान्तर ले जानेके लिए सार्थवाहके समान आप ही दक्ष हैं और इन्द्रिय-ऋषायरूपी अन्तरग चोरोको मारनेके लिए आप ही महाभट है ॥३०॥ अत एव हे देव, भव्यजीवके अनुग्रहके लिए और मोक्षमार्गकी प्रवृत्तिके लिए धर्मका कारणभूत विहार कीजिए ॥३१॥ हे भगवन्, मिथ्यात्वरूपी दुर्भिक्षसे सुखनेवाले भव्यजीवरूपी धान्योका धर्मरूप अमृतके सिंचनसे स्वर्ग-मोक्षकी प्राप्तिके लिए हे ईश, उद्धार कीजिए ॥३२॥ हे देव, जगत्को सन्तापित करनेवाले, दुर्जय मोहशत्रुको पुण्यात्मा जनोके लिए धर्मोपदेशरूप बाणोंकी पक्तियोंसे आज आप जीते ॥३३॥ क्योंकि देवोंके द्वारा मस्तकपर धारण किया हुआ, मिथ्याज्ञानरूप अन्वकारका नाशक, विजयके उद्यमका साधक यह धर्मचक्र सजा हुआ उपस्थित है ॥३४॥ तथा हे नाथ, सन्मार्गका उपदेश देनेके लिए और कुमार्गका निराकरण करनेके लिए यह महान् काल आपके सम्मुख आया है ॥३५॥ अतएव हे देव, इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? अब आप विहार करके इस उत्तम आर्यखण्डमें स्थित भव्य जीवोंको अपनी सद्वाणीसे पवित्र कीजिए ॥३६॥ क्योंकि किसी भी कालमें आपके समान बुद्धिमानोंके कुमार्गरूप घोर अन्वकारका नाशक और स्वर्ग-मोक्षके मार्गका दर्शक अन्य कोई नहीं है ॥३७॥ अतः हे देव, आपके लिए नमस्कार है, गुणोंके समुद्र आपको नमस्कार है, अनन्तज्ञानी, अनन्त दर्शनी और अनन्त सुखी आपको मेरा नमस्कार है ॥३८॥ अनन्त महावीर्याशाली और दिव्य सुमूर्ति आपको नमस्कार है, अद्भुतमहालक्ष्मीसे विभूषित होकरके भी महाविरागी आपको नमस्कार है ॥३९॥ असख्य देवागनाओंसे आवृत होनेपर भी ब्रह्मचारी आपको नमस्कार है । मोहारि शत्रुओंके नाशक होनेपर भी दयार्द्र चित्तवाले आपको नमस्कार है ॥४०॥ कर्मशत्रुके विजेता होनेपर भी शान्तरूप आपको नमस्कार है, विश्वके नाथ और

नम सन्मतये तुभ्य महावीराय ते नम । नमो वीराय ते नित्य मूर्धा देव स्वसिद्धये ॥४२॥
 अनेन स्तवसद्भक्तिनमस्कारफलेन च । देव देहि त्वमस्माक भक्तिमेका भवे भवे ॥४३॥
 तव पादाम्बुजे सम्यग्दृक्चिद्वृत्तादिपूर्विकाम् । नान्यद्बहुतर किञ्चित्वा प्रार्थयाम एव हि ॥४४॥
 यत सैवात्र भक्तिर्नोऽमुत्र नून फलिष्यति । त्रिजगत्सारशर्माणि मनोऽमीष्टफलानि च ॥४५॥
 इति शक्तोक्ति पूर्व जगत्सबोधनोद्यत । पुन प्रार्थनयास्यासौ तीर्थकृत्कर्मपाकत ॥४६॥
 तरा स्थापयितु मन्थान्मुक्तिमार्गं भ्रमातिगे । निहत्याखिलदुर्मागानुद्ययौ त्रिजगद्गुरु ॥४७॥
 ततोऽसौ भगवान् दवैर्वीज्यमान सुचामरै । वृतो गणैर्द्विषड्भेदै सितछत्रत्रयाङ्कित ॥४८॥
 परीत परया भूत्या ध्वनत्सु वाद्यकोटिषु । विहार कर्तुमारेभे विश्वसबोधहेतवे ॥४९॥
 तदा पटहत्तूर्याणा दध्वनु कोटयस्तराम् । आसीद्बुद्ध चलद्भिर्नमश्छत्रध्वजपङ्क्तिभि ॥५०॥
 जय मोह जगच्छत्रु नन्देश भुवनत्रये । घोषयन्तोऽमरा इत्थ परितस्त विनिर्ययु ॥५१॥
 देवोऽसौ विहरत्येवमनुयात सुरासुरै । अनिच्छापूर्विका वृत्तिमास्कन्दन्निव भानुमान् ॥५२॥
 सर्वत्रास्थानतो दिक्षु सर्वासु जायतेऽर्हत । शतयोजनमात्र च सुभिक्षमीतिवर्जनम् ॥५३॥
 विश्वमन्योपकारार्थं ब्रजत्येष नमोऽङ्गणे । नानादेशाद्रिपुर्यादीन् धर्मचक्रपुर सर ॥५४॥
 विभो साम्यप्रभावेण क्रूरै सिंहादिजातिभि । बाधो न वर्तते जातु मृगादीना भयादि च ॥५५॥
 नोकर्महारपुष्टस्थानन्तसुखमागिन । भुक्तिर्न वीतरागस्य विद्यते घातिघातनात् ॥५६॥

मुक्तिस्त्रीके वल्लभ (प्रिय) आपको नमस्कार है ॥४१॥ हे सन्मति, आपको मेरा नमस्कार है, हे महावीर, आपको मेरा नमस्कार है और हे वीर प्रभो, हे देव, आत्म-सिद्धिके लिए आपको मेरा मस्तक झुकाकर नित्य नमस्कार है ॥४२॥ हे देव, इस स्तवन, सद्भक्ति और नमस्कारके फलसे आप हमे भव-भवमे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रादिपूर्वक अपने चरण-कमलोमे एकमात्र भक्तिको ही दीजिए । हे भगवन्, हम इसके सिवाय और अधिक कुछ भी नहीं चाहते हैं । क्योंकि वह एक भक्ति ही हमारे इस लोकमे और परलोकमे निश्चयसे तीन लोकमे सारभूत सुखोको और मनोवाञ्छित सर्व फलोको देगी ॥४३-४५॥ इस प्रकार इन्द्रके निवेदन करनेसे भी पहले भगवान् जगत्के सम्बोधन करनेके लिए उद्यत थे, किन्तु फिर भी इन्द्रकी प्रार्थनासे और तीर्थकर प्रकृतिके विपाकसे वे त्रिजगद्गुरु भव्य जीवोको समस्त दुर्मागोंसे हटाकर और भ्रमरहित मुक्तिमार्गपर स्थापित करनेके लिए उद्यत हुए ॥४६-४७॥

अथानन्तर देवोके द्वारा उत्तम चँवरोसे वीज्यमान, द्वादश गणोसे आवृत, श्वेत तीन छत्रोसे शोभित और उत्कृष्ट विभूतिसे विभूषित भगवान्ने करोडो बाजोके बजनेपर ससारको सम्बोधनके लिए विहार करना प्रारम्भ किया ॥४८-४९॥ उस समय करोडो पटह (ढोल) और तूर्यो (तुरई) के बजनेपर तथा चलते हुए देवोसे तथा छत्र-ध्वजा आदिकी पक्तियोंसे आकाश व्याप्त हो गया ॥५०॥ हे ईश, जगत्के जीवोके शत्रुभूत मोहको जीतनेवाले आपकी जय हो, आप आनन्दको प्राप्त हो, इस प्रकारसे जय, नन्द आदि शब्दोकी तीन लोकमे घोषणा करते हुए देवगण भगवान्को सर्व ओरसे घेरकर निकले ॥५१॥ सुर और असुर देवगण जिनके अनुगामी है ऐसे श्री वीर जिनेन्द्र अनिच्छापूर्वक गतिको प्राप्त होते हुए सूर्यके समान विहार करने लगे ॥५२॥ विहार करते समय सर्वत्र भगवान्के अवस्थानसे सर्व दिशाओमे सौ योजन तक सभी ईति-भीतियोंसे रहित सुभिक्ष (सुकाल) रहता है ॥५३॥ धर्मचक्र जिनके आगे चल रहा है, ऐसे वीर प्रभुने ससारके भव्य जीवोके उपकारके लिए गगनागणमे चलते हुए अनेक देश, पर्वत और नगरादिमे विहार किया ॥५४॥ वीर प्रभुके साम्य भावके प्रभावसे क्रूर जातिवाले सिंहादिके द्वारा मृगादिके कदाचित् भी बाधा और भयादि नहीं होता था ॥५५॥ घातिकर्मोंके विनाशसे विशिष्ट नोकर्मरूप अहारसे पुष्ट और अनन्त सुखके

शक्रादिवेष्टितस्यास्यासातोदथातिमन्दत् । अनन्तचतुराढ्यस्य नोपसर्गो नरादिज ॥५७॥
 चतुर्मुखश्चतुर्दिक्षु दृश्यते त्रिजगद्गुरु । गणैर्द्वादशभिः सर्वसभाया किल सन्मुख ॥५८॥
 दुर्घातिकर्मनाशेन केवलज्ञानचक्षुष । स्वामित्व विश्वविद्यानामासीद्विश्वार्थदर्शकम् ॥५९॥
 न छाया दिव्यदेहस्य जातून्मेषो न नेत्रयो । वृद्धिर्न नखकेशाना जगन्नाथस्य जायते ॥६०॥
 अनन्यविषया एते दशैवातिशया विभो । प्रादुरासन् स्वय दिव्याश्चतुर्घात्यरिघातनात् ॥६१॥
 सर्वार्धमागधीभाषा सर्वाङ्गध्वनिसभवा । सर्वाक्षरदिव्याङ्गी समस्ताक्षरनिरूपिका ॥६२॥
 सर्वानन्दकरा पुसा सर्वसदेहनाशिनी । विभोरस्ति द्विधाधर्मविश्वतत्त्वार्थसूचिका ॥६३॥
 कृष्णाहिनकुलादीना जातिकारणवैरिणाम् । जायते परमा मैत्री बन्धूनामिव सद्गुरो ॥६४॥
 सर्वर्तुफलपुष्पादीन् फलन्ति तरवोऽखिला । दर्शयन्त इवात्यन्त फल सुतपसा प्रभो ॥६५॥
 आस्थानमण्डले चास्य धर्मराजस्य सर्वत । मही रत्नमयी दिव्याभवदादर्शसनिभा ॥६६॥
 ब्रजन्त त्रिजगन्नाथ जगत्सबोधनोद्यतम् । प्राणिशर्माकरोऽन्वेति सुगन्धि शिशिरो मरुत् ॥६७॥
 विभोऽर्थानमहानन्दादानन्दो धर्मशर्मकृत् । जायते परम पुसा सर्वदा शोकिनामपि ॥६८॥
 मरुत्सुर समास्थानात्तृणकीटादिवर्जितम् । योजनान्तरभूभाग गुरो कुर्यान्मनोहरम् ॥६९॥
 स्तनिताख्योऽमरो मक्त्या विद्युन्मालादिभूषिताम् । गन्धोदकमयी वृष्टि कुरुते परितो जिनम् ॥७०॥
 दिव्यकेसर पत्राणि हेमरत्नमयान्यपि । महादीप्राणि पद्मानि सप्त सप्तप्रमाणि च ॥७१॥

भोक्ता वीतरागी भगवान्के असाता कर्मके अति मन्द उदय होनेसे कवलाहाररूप भोजन नहीं होता है तथा इन्द्रादिसे वेष्टित और अनन्तचतुष्टयके धारक भगवान्के मनुष्यादि कृत उपसर्ग भी नहीं होता है ॥५६-५७॥ समवशरणमे तथा विहार करते समय सर्वत्र होनेवाली व्याख्यानसभाओमें द्वादश गणोंके द्वारा त्रिजगद्गुरु चारो दिशाओमें चार मुखवाले दिखाई देते हैं ॥५८॥ दुष्ट घातिकर्मोंके विनाशसे केवलज्ञाननेत्रवाले भगवान्के समस्त विद्याओका विश्वार्थदर्शक स्वामित्व प्राप्त हो गया था ॥५९॥ तीर्थंकरके दिव्यदेहकी छाया नहीं पडती है, उनके नेत्रोंकी कभी भी पलके नहीं झपकती हैं और न उस त्रिलोकी-नाथके नख और केशोंकी वृद्धि ही होती है ॥६०॥ इस प्रकार अन्य साधारण जनोमें नहीं पाये जानेवाले ये दशो दिव्य अतिशय चार घातिकर्मोंके नाशसे प्रभुके स्वय ही प्रकट हो गये थे ॥६१॥ तीर्थंकर प्रभुकी भाषा सर्वार्ध-मागधी थी जो कि सर्वाङ्गसे उत्पन्न हुई ध्वनिस्वरूप थी । वह सर्व अक्षररूप दिव्य अगवाली, समस्त अक्षरोकी निरूपक, सर्वको आनन्द करनेवाली, पुरुषोंके सर्व सन्देहोंका नाश करनेवाली, दोनों प्रकारके धर्म और समस्त तत्त्वार्थको प्रकट करनेवाली थी ॥६२-६३॥ सद्गुरुके प्रभावसे कृष्ण सर्प और नकुल आदि जाति स्वभावके कारण वैर पाले जीवोंके बन्धुओंके समान परम मित्रता हो जाती है ॥६४॥ प्रभुके प्रभावसे सभी वृक्ष सब ऋतुओंके फल-पुष्पादिको प्रभुके उत्तम तपोका अति महान् फल दिखलाते हुएके समान फूलने फलने लगे ॥६५॥ इस धर्म सम्राट्के सभामण्डलमें पृथ्वी सर्व ओर दर्पणके समान निर्मल दिव्य रत्नमयी हो गयी ॥६६॥ जगत्को सम्बोधन करनेमें उद्यत और विहार करते हुए त्रिलोकीनाथके सर्व ओर सर्व प्राणियोंको सुख करनेवाला शीतल मन्द सुगन्धि वाला पवन बहने लगता है ॥६७॥ तीर्थंकर प्रभुके ध्यान-जनित महान् आनन्दसे सर्वदा शोकमुक्त पुरुषोंके भी धर्म और सुखका करनेवाला आनन्द प्राप्त होता है ॥६८॥ पवन-कुमारदेव त्रिजगद्गुरुके सभास्थानसे एक योजनके अन्तर्गत भूमिभागको तृण, कटक और कीड़े आदिसे रहित एव मनोहर कर देते हैं ॥६९॥ मेघकुमार नामक देव भक्तिसे विद्युन्माला आदिसे युक्त गन्धोदकमयी वर्षा जिनभगवान्के सर्व ओर करते हैं ॥७०॥ प्रभुके गमन करते समय उनके चरण कमलोंके नीचे, आगे और पीछे सात-सात सख्याके प्रमाण-युक्त,

द्विद्विपञ्चाङ्गमानानि देवा सचारयन्ति वै । पदाब्जयो पुरः पृष्ठेऽधोभागे व्रजत प्रभो ॥७२॥
 व्रीह्यादिसर्वशस्थानि विश्वसतर्पकाण्यपि । सर्वर्तुफलनन्नाणि भान्त्यस्य निकटे सुरै ॥७३॥
 निर्मलस्य जिनेन्द्रस्थास्थाने सर्वा दिशोऽमला । व्योम्ना सम विराजन्ते पापान्मुक्ता इवामरै ॥७४॥
 तीर्थकर्तुं सुयात्रायै चतुणिकायनिर्जरा । कुर्वन्त्याह्वानन नित्यमिन्द्रादेशात्परस्परम् ॥७५॥
 स्फुरद्ब्रह्ममय दीप्र सहस्रार व्रजेत् पुर । व्रजतोऽस्य हतध्वान्त धर्मचक्र सुरावृतम् ॥७६॥
 आदर्शप्रमुखा अष्टौ मङ्गलद्रव्यसपद् । विश्वमाङ्गल्यकर्तुमुदा ढौकयन्ति नाकिन ॥७७॥
 महतोऽतिशयानेतान् देवाश्चक्रुश्चतुर्दश । महातिशायिनो भक्त्यासाधारणान् जगत्सताम् ॥७८॥
 इत्येषोऽतिशयैर्दिव्यैश्चतुस्त्रिंशत्प्रमाणकै । प्रातिहार्याष्टकै सज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयै ॥७९॥
 अन्यैरन्तातिगैर्दिव्यैर्गुणैश्चालकृत प्रभु । नानादेशपुरग्रामखेटान् चै विहरन् क्रमात् ॥८०॥
 धर्मोपदेशपीयूषै प्रीणयन् सज्जनान् बहून् । मुक्तिमार्गं सतोऽनेकान् स्थापयस्तत्त्वदर्शचै ॥८१॥
 मिथ्याज्ञानकुमार्गान्धतमो निधनन् वचोऽशुभि । रत्नत्रयात्मक मुक्तेमार्गं व्यक्त प्रकाशयन् ॥८२॥
 सम्यक्त्वज्ञानचारित्रतपोदीक्षामहामणीन् । समीहितान् ददन्नित्य भव्येभ्य कल्पशाखिवत् ॥८३॥
 सवैर्देवैर्वृतो राजगृहाद्बाह्यस्थितस्य च । विपुलाचलतुङ्गस्योपरि धर्माधिपोऽगमत् ॥८४॥
 तदागम परिज्ञाय वनपालमुखाद् द्रुतम् । श्रेणिको भूपतिभक्त्या पुत्रस्त्रीभव्यबन्धुभि ॥८५॥
 सहागत्य मुदा भक्त्या त्रि परीत्य जगद्गुरुम् । ननाम शिरसा शुद्धयै भक्तिभारवशीकृत ॥८६॥

दिव्य केसर और पत्रवाले सुवर्ण और रत्नमयी महा दीप्तिमान् कमलोको विछाते हुए चलते हैं ॥७१-७२॥ भगवान्के निकटवर्ती क्षेत्रोमे ससारको तृप्त करनेवाले व्रीहि आदि सर्व प्रकारके धान्य और सर्व ऋतुओके फलोसे नम्र वृक्ष देवोके द्वारा शोभाको प्राप्त होते हैं ॥७३॥ कर्म-मलसे रहित जिनेन्द्रके सभास्थानमे आकाशके साथ सर्व दिशाएँ देवोके द्वारा निर्मल होती हुई शोभित होती है, जो पापसे मुक्त हुई के समान, प्रतीत होती है ॥७४॥ तीर्थकर प्रभुकी विहारयात्रामे साथ चलनेके लिए चतुणिकायके देव इन्द्रके आदेशसे परस्पर बुलाते हैं ॥७५॥ तीर्थकर प्रभुके चलते समय चमकते हुए रत्नोसे निर्मित, दीप्तियुक्त, एक हजार आरेवाला, अन्धकारका नाशक और देवोसे वेष्टित धर्मचक्र आगे आगे चलता है ॥७६॥ विश्वके मंगल करनेवाले भगवान्के विहारकालमे देव लोग दर्पण आदि आठ मंगल द्रव्यरूप सम्पदाको हर्षके साथ लेकर आगे-आगे चलते हैं ॥७७॥ इन महान् चौदह अतिशयोको, जो कि जगत्के अन्य सामान्य लोगोके लिए असाधारण है, महान् अतिशयशाली देव भक्तिसे सम्पन्न करते हैं ॥७८॥ इस प्रकार इन चौतीस दिव्य अतिशयोसे, आठ प्रातिहार्योसे, सद्ज्ञानादि अनन्त-चतुष्टयसे एव अन्य अनन्त दिव्य गुणोसे अलकृत वीरप्रभुने अनेक देश-पुर-ग्राम खेटोमे क्रमसे विहार करते हुए, धर्मोपदेशरूपी अमृतके द्वारा सज्जनोको तृप्त करते, बहुतोको मुक्ति-मार्गमे स्थापित करते, अनेकोका तत्त्व दर्शनरूप वचनकिरणोसे मिथ्याज्ञानरूप कुमार्गके गाढ अन्धकारको हरते, मुक्तिका मार्ग स्पष्ट रूपसे प्रकाशित करते, भव्य जीवोके लिए कल्पवृक्षके समान सम्यक्त्व ज्ञान-चारित्र-तप और दीक्षारूपी मनोवाञ्छित महामणियोको नित्य देते हुए चतुर्विध सघ और देवोसे आवृत और धर्मके स्वामी ऐसे श्री वीरजिनेन्द्र राजगृहके बाहर स्थित विपुलाचलके उन्नत शिखरके ऊपर आये ॥७९-८४॥

वीर प्रभुका वनपालके मुखसे आगमन सुनकर राजा श्रेणिकने भक्तिपूर्वक पुत्र स्त्री-बन्धु अनेक भव्यजनोके साथ आकर, हर्षित हो जगद् गुरुको भक्तिसे तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया । तत्पश्चात् आत्म-शुद्धिके लिए भक्तिभारके वशगत होकर आठ भेदरूप महा-द्रव्योसे जिनेन्द्रदेवोकी पूजा कर और पुन नमस्कार कर अति भक्तिसे उनकी स्तुति करनेके लिए उद्यत हुआ ॥८५-८७॥ श्रेणिकने कहा—हे नाथ, आज हम धन्य हैं, आज हमारा यह

ततोऽभ्यर्च्य जिनेन्द्राङ्घ्री सोऽष्टभेदैर्महार्चनै । पुनर्नस्वातिभक्त्येति तत्स्तव कर्तुमुद्ययौ ॥८७॥
 अद्य नाथ वय धन्या सफल नोऽद्य जीवितम् । मर्त्यजन्म च यस्मात्त्व प्राप्तोऽस्माभिर्जगद्गुरु ॥८८॥
 अद्य मे सफले नेत्रे भवत्पादास्तुजेक्षणत् । सार्थक च शिरो देव प्रणामात्त्वक्कमाब्जयो ॥८९॥
 धन्यौ मम करौ स्वामिन्नद्य ते चरणार्चनात् । यात्रया च क्रमौ वाणी सार्थिका स्तवनेन च ॥९०॥
 अद्य मेऽभून्मन पूत त्वद्दधानगुणचिन्तनात् । गात्र शुश्रूषया सर्वं दुरितारिर्ननाश च ॥९१॥
 ससारसागरोऽपारश्चुलुकाभोऽद्य भासते । त्वा पीतसममासाद्य नाथ मे किं भय तत ॥९२॥
 इति स्तुत्वा जगन्नाथ मुहुर्नत्वा मुदान्वित । सद्धर्मश्रावणायामसौ नरकोष्ठे ह्युपाविशत् ॥९३॥
 तत्रासीनो नृपो भक्त्या शुश्राव ध्वनिना गुरो । धर्मं यतिगृहस्थाना तत्त्वानि सकलानि च ॥९४॥
 पुराणानि जिनेशाना पुण्यपापफलानि च । लक्षणानि सुधर्मस्य क्षमादीनि व्रतानि च ॥९५॥
 तत श्रीगौतम नत्वा प्राक्षीदिति महीपति । भगवन् महया कृत्वा प्राग्जन्मानि ममादिश ॥९६॥
 तच्छ्रुत्वेति गणेशोऽवादीत् प्रति परार्थकृत् । शृणु धीमन् प्रवक्ष्ये ते वृत्तक त्रिमवाश्रितम् ॥९७॥
 इह जम्बूमति द्वीपे विन्ध्याद्रौ कुटवाह्वये । वने खदिरसाराख्य किरातो भद्रकोऽवसत् ॥९८॥
 सोऽन्यदा वीक्ष्य पुण्येन समाधिगुप्तयोगिनम् । विश्वजन्तुहितोद्युक्त शिरसा प्राणमत्सुधी ॥९९॥
 धर्मलाभोऽस्तु ते भद्र ह्याशीर्वाद स इत्यदात् । तदाकर्ण्य किरातोऽसावित्यपृच्छन्मुनीश्वरम् ॥१००॥
 स धर्मं कीदृशो नाथ किं कृत्य तेन देहिनाम् । किमस्य कारण कोऽत्र लाभ एतन्ममादिश ॥१०१॥
 तच्छ्रुत्वोवाच योगीति त्यागो य क्रियते बुधै । मधुमाससुरादीना स धर्मो वधदूरग ॥१०२॥

जीवन और मनुष्य जन्म पाना सफल हो गया, क्योंकि हमे आप-जैसे जगद्-गुरु प्राप्त हुए हैं ॥८८॥ आपके चरण-कमलोके देखनेसे आज हमारे ये दोनों नेत्र सफल हो गये हैं, आपके चरण-कमलोको प्रणाम करनेसे हे देव, हमारा यह सिर सार्थक हो गया है। हे स्वामिन्, आज आपके चरणोकी पूजासे मेरे दोनो हाथ धन्य हो गये हैं, आपकी दर्शन-यात्रासे हमारे दोनो पैर कृतकृत्य हो गये हैं और आपके स्तवनसे हमारी वाणी सार्थक हो गयी है ॥८९-९०॥ आज मेरा मन आपका ध्यान करने और गुणोके चिन्तनसे पवित्र हो गया, आपकी सेवा-शुश्रूषासे सारा शरीर पवित्र हो गया और हमारे पापरूपी शत्रुका नाश हो गया है ॥९१॥ हे नाथ, आप जैसे जहाजको पा करके यह अपार ससार-सागर चुल्लू-भर जलके समान प्रति-भासित हो रहा है। इसलिए अब हमे क्या भय है ॥९२॥ इस प्रकार जगत्के नाथ वीर प्रभुकी स्तुति कर, पुन हर्षसे सयुक्त हो नमस्कार कर उत्तम धर्मको सुननेके लिए मनुष्योके कोठेमे जा बैठा ॥९३॥ वहाँपर बैठे हुए राजाने भक्तिसे जगद्-गुरुकी दिव्यध्वनिके द्वारा मुनि और गृहस्थोका धर्म, सर्व तत्त्व, जिनेन्द्रोके पुराण, पुण्य-पापके फल, सुधर्मके क्षमादिक लक्षण, और अहिसादि व्रतोको सुना ॥९४-९५॥ तत्पश्चात् श्रेणिक राजाने श्रीगौतम प्रभुको नमस्कार कर पूछा—हे भगवन्, मेरे ऊपर दया करके मेरे पूर्वजन्मोको कहिए ॥९६॥ श्रेणिकके प्रश्नको सुनकर परोपकारी श्री गौतमगणधर बोले—हे श्रीमन्, मै तेरे तीन भवसे सम्बन्ध रखनेवाले वृत्तान्तको कहता हूँ सो तू सुन ॥९७॥

इसी जम्बूद्वीपमें विन्ध्याचल पर कुटव नामक वनमे एक खदिरसार नामका भला भील रहता था ॥९८॥ उस बुद्धिमानने किसी समय पुण्योदयसे सर्व प्राणियोके हित करनेमे उद्यत समाधिगुप्त योगीको देखकर प्रणाम किया ॥९९॥ उन्होने 'हे भद्र, तुझे धर्मलाभ हो' यह आशीर्वाद दिया। यह सुनकर उस भीलने मुनीश्वरसे पूछा—हे नाथ, वह धर्म कैसा है, उससे प्राणियोका क्या कार्य सिद्ध होता है, उसका क्या कारण है और उससे इस लोकमे क्या लाभ है, यह मुझे बतलाइए ॥१००-१०१॥ उसके इन वचनोंको सुनकर योगिराजने कहा—हे भव्य, मधु, मास और मदिरा आदिके खान-पानका बुद्धिमानोके द्वारा त्याग किया जाना

तत्कृते तु पर पुण्य पुण्यात्स्वर्गसुख महत् । धर्मस्य योऽत्र लाभ स्याद्धर्मलाभ स उच्यते ॥१०३॥
 तदाकर्ण्य जगौ भिल्ल इत्थ त प्रति भो मुने । नाह माससुरादीना त्याग कर्तुं क्षमोऽञ्जसा ॥१०४॥
 तदाकृत ततो ज्ञात्वा मुनिराह वनेचरम् । काकमास त्वया पूर्वं भक्षित किं न वा दिश ॥१०५॥
 तदाकर्ण्य स इत्याख्यत्कदाचित्तन्न भक्षितम् । मया ततो यमी प्राह यद्येव तर्हि शर्मणे ॥१०६॥
 भद्र त्व नियम तस्य गृहाण भक्षणेऽधुना । नियमेन विना यस्माज्जातु पुण्य न धीमताम् ॥१०७॥
 सोऽपि तद्वाक्यमाकर्ण्य सतुष्टो दीयता व्रतम् । इत्युक्त्वाञ्च तदादाय यतिं नत्वा गृह ययौ ॥१०८॥
 कदाचित्तस्थ सजातेऽसाध्यं रोगोऽशुभोदयात् । वैद्यस्तच्छान्तये काकमासौषध किलादिशत् ॥१०९॥
 तदा तद्भक्षणे दक्ष स्वजनै प्रेरितोऽवदत् । स इत्यहो व्रत त्यक्त्वा दुर्लभ भवकोटिमि ॥११०॥
 रक्ष्यन्ते ये शठै प्राणास्तै कि साध्य सुधर्मिणाम् । यतो भवे भवे प्राणा स्यु स्यान्न च शुभ व्रतम् ॥
 वर प्राणपरित्यागो व्रतभङ्गान्न जीवितम् । प्राणत्यागाद्भवेत्स्वर्ग इवन्न च व्रतभङ्गत ॥११२॥
 इति तन्नियम श्रुत्वा सारसाख्यपुरात्तदा । आगच्छस्तपुर सूरवीरस्तन्मिथुन शुचा ॥११३॥
 महागहनमध्यस्थस्थ वटस्याप्यधस्तले । काचिदेवी रुदन्ती सचीक्ष्याप्राक्षीदिति स्फुटम् ॥११४॥
 का त्व वा हेतुना केन रोदिषि ब्रूहि देवते । तदाकर्ण्यवदत्सेद शृणु भद्र वचो मम ॥११५॥
 वनयक्षी वसाम्यत्र वनेऽह व्याधिपीडित । त्वन्मैथुनो गतायु खदिरसारोऽशुमाच्च य ॥११६॥

और जीव-हिसासे दूर रहना धर्म है ॥१०२॥ उस धर्मके करने पर उत्तम पुण्य होता है, पुण्य-से महान् स्वर्ग-सुख प्राप्त होता है । ऐसे धर्मका जो लाभ (प्राप्ति) यहाँपर हो, वही धर्म-लाभ कहा जाता है ॥१०३॥ यह सुनकर वह भील उनसे इस प्रकार बोला—हे मुनिराज, मैं मास-भक्षण और मदिरा-पान आदिका निश्चित रूपसे त्याग करनेके लिए समर्थ नहीं हूँ ॥१०४॥ तब उसका अभिप्राय जानकर मुनिराजने उस भीलसे कहा—क्या तूने पहले कभी काकका मास खाया, अथवा नहीं, यह मुझे बता ॥१०५॥ यह सुनकर वह बोला—मैंने कभी काक-मास नहीं खाया है । तब योगी बोले—यदि ऐसी बात है तो हे भद्र, सुख प्राप्तिके लिए तू अब उसके खानेके त्यागका नियम ग्रहण कर । क्योंकि नियमके बिना बुद्धिमानोको कभी पुण्य प्राप्त नहीं होता है ॥१०६-१०७॥ वह भील भी मुनिराजके यह वचन सुनकर सन्तुष्ट होकर बोला—‘तब मुझे व्रत दीजिए’, ऐसा कहकर और उनसे काक-मास नहीं खाने-का शीघ्र व्रत लेकर और मुनिको नमस्कार कर अपने घर चला गया ॥१०८॥

अथानन्तर किसी समय पापके उदयसे उसके असाध्य रोगके उत्पन्न होनेपर वैद्यने उस रोगकी शान्तिके लिए ‘काक-मास औषध है’, ऐसा कहा ॥१०९॥ तब काक-मासके खानेके लिए स्वजनोसे प्रेरित हुआ वह चतुर भील इस प्रकार बोला—अहो, कोटि भवोमे बड़ी कठिनतासे प्राप्त व्रतको छोड़कर जो अज्ञानी अपने प्राणोकी रक्षा करते हैं, उससे धर्मात्माओ का क्या प्रयोजन साध्य है ? क्योंकि प्राण तो भव-भवमे सुलभ है, किन्तु शुभव्रत पाना सुलभ नहीं है ॥११०-१११॥ इसलिए प्राणोका परित्याग करना उत्तम है, किन्तु व्रत-भग करके जीवित रहना अच्छा नहीं है । व्रतकी रक्षा करते हुए प्राण-त्यागसे स्वर्ग प्राप्त होगा और व्रत-भग करनेसे नरक प्राप्त होगा ॥११२॥ (इस प्रकार कहकर उसने औषधरूपमे भी काक-मासको खाना स्वीकार नहीं किया । रोग उत्तरोत्तर बढ़ने लगा । यह समाचार उसकी ससुराल पहुँचा ।) तब उसके इस नियमको सुनकर सूरवीर नामका उसका साला शोकसे पीडित होकर अपने सारसपुरसे चला और मार्गमे आते हुए उसने महागहन वनके मध्यमे स्थित वटवृक्षके नीचे रोती हुई किसी देवीको देखकर पूछा—हे देवते, तू कौन है, और किस कारणसे रो रही है ? यह सुनकर वह बोली—हे भद्र, तुम मेरे यह वचन सुनो ॥११३-११५॥ मैं वनयक्षी हूँ और इस वनमे रहती हूँ । पापके उदयसे तुम्हारा खदिरसार बहनोई व्याधिसे

काकमासनिवृत्त्यात्तपुण्यान्मे भविता पति । मास भोजयितु गच्छन् भजन कर्तुमिच्छसि ॥११७॥
 नरके घोरदुःखाना तस्य त्व हि वृथा शठ । अनेन हेतुनाद्याह करोमि रोदन शुचा ॥११८॥
 श्रुत्वा तदुक्तिमित्याह स हे देवि शुच त्वज । नाह तन्नियमस्यैव जातु भङ्ग करोम्यहम् ॥११९॥
 इत्युक्त्वा ता स सतोष्य मङ्क्षासाद्य तमातुरम् । परिणामपरीक्षायै तस्येदमब्रवीद्वच ॥१२०॥
 मित्रामयापनोदार्थं प्रमोक्तव्यमिदं त्वया । सत्यत्र जीवितव्ये भो सत्पुण्य क्रियते मुहु ॥१२१॥
 तच्छ्रुत्वा सोऽवदद्वीमान् सुहृत्प्रोक्तमिदं वच । नोचितं ते जगन्निन्द्य इव्रद धर्मनाशकृत् ॥१२२॥
 अन्तावस्था ममायातो यमतो ब्रूहि सप्रति । किञ्चिद्वर्माक्षर येनामुत्रात्मा मे सुखायते ॥१२३॥
 ज्ञात्वा तन्निश्चय सोऽनु यक्ष्या सर्वं कथानकम् । फलं च तद्व्रतस्यैव सुप्रीत्या तमब्रुवुधत् ॥१२४॥
 तच्छ्रुत्वाथ स सवेगं वर्मे धर्मफले सुधी । त्यक्त्वा समस्तमासादीन् जग्राहाणुव्रतानि च ॥१२५॥
 कालान्ते तत्फलेनासौ मुक्त्वा प्राणान् समाधिना । महर्धिकामरो जात सौधर्मोऽनेकशर्मभाक् ॥१२६॥
 सूरवीरस्ततो गच्छन् स्वपुरं तत्र वीक्ष्य ताम् । साश्चर्यहृदयो यक्षीमित्यपृच्छद् गिरा स्वयम् ॥१२७॥
 देवि मन्मैथुनं किं ते पतिर्जातो न वाधुना । साहेदं मे पतिर्नासीत्स किन्तु निर्जरोऽजनि ॥१२८॥
 सर्वव्रतोत्थपुण्येन कल्पे सौधर्मनामनि । महर्धिको गुणाढ्योऽस्मद्व्यन्तरस्वपराङ्मुख ॥१२९॥
 तत्र भुङ्क्ते परं सौख्यं देवीनिकरसंभवम् । स्वर्गलक्ष्मीं स आसाद्य कुर्वन् पूजा जिनेशिनाम् ॥१३०॥
 तदाकर्ण्य स इत्थं स्वहृदयेऽचिन्त्यत्सुधी । अहो पश्य व्रतस्येदं प्रवरं फलमङ्गसा ॥१३१॥

पीडित है। वह मरकर काक-मासकी निवृत्तिसे प्राप्त पुण्यके फलसे मेरा पति होगा। किन्तु हे शठ, काक-मास खिलानेके लिए जाते हुए तुम उसे नरकमें भेजकर वृथा ही घोर दुःखोका भाजन बनाना चाहते हो। इस कारण शोकसे आज मैं रोदन कर रही हूँ ॥११६-११८॥ उसकी यह बात सुनकर वह बोला—हे देवि, तुम शोकको छोड़ो, मैं उसके नियमका कभी भी भंग नहीं करूँगा ॥११९॥

इस प्रकार कहकर और उसे सन्तुष्ट कर वह शीघ्र उस बीमार खदिरसारके पास आया और उसके परिणामोकी परीक्षाके लिए ये वचन बोला ॥१२०॥ हे मित्र, रोगके दूर करनेके लिए तुम्हें यह काक-मास उपयोगमें लेना चाहिए। अरे, जीवनके रहनेपर यह पुण्य तो फिर भी किया जा सकता है ॥१२१॥ अपने सालके यह वचन सुनकर वह बुद्धिमान् खदिरसार बोला—हे मित्र, ये लोक-निन्द्य, नरक देनेवाले और धर्मके नाशक वचन कहना उचित नहीं है ॥१२२॥ मेरी यह अन्तिम अवस्था आ गयी है, अतः इस समय तुम धर्मके कुछ अक्षर बोलो, जिससे कि परलोकमें मेरी यह आत्मा सुखी होवे ॥१२३॥ उसका यह निश्चय जानकर तत्पश्चात् उसने यक्षीका सर्व कथानक और उसके व्रतका फल अतिप्रीतिसे खदिरसारको बतलाया ॥१२४॥ उसके वचन सुनकर उस सुधी खदिरसारने धर्म और धर्मके फलमें सवेगको धारण कर और सर्व प्रकारके मासादिकको छोड़कर अणुव्रतोको ग्रहण कर लिया ॥१२५॥ जीवन-कालके अन्तमें प्राणोको समाधिसे त्यागकर वह उसके फलसे सौधर्म स्वर्गमें अनेक सुखोका भोक्ता महर्धिक देव हुआ ॥१२६॥

तत्पश्चात् अपने नगरको जाते हुए सूरवीरने वनके उसी स्थानपर उस यक्षीको देखकर आश्चर्ययुक्त हृदय होकर उससे स्वयं ही पूछा—हे देवि, मेरा वह बहनोई क्या अब तेरा पति हुआ है, अथवा नहीं हुआ है? वह बोली—वह मेरा पति नहीं हुआ, किन्तु सर्व व्रतोंसे उपाजित पुण्यसे सौधर्म नामके प्रथम स्वर्गमें हमारी व्यन्तरोकी क्षुद्रजातिसे पराङ्मुख, उत्कृष्ट जातिका महाऋद्धिधारी देव हुआ है ॥१२७-१२९॥ वहाँपर वह स्वर्गकी लक्ष्मीको पाकर जिनेश्वर देवकी पूजाको करता हुआ देवियोंके समूहसे उत्पन्न हुए परम सुखको भोग रहा है ॥१३०॥ यक्षीकी यह बात सुनकर वह बुद्धिमान् सूरवीर अपने हृदयमें इस प्रकार विचारने

येन व्रतेन लभ्यन्तेऽमुत्रदुःशोऽत्र सपद । विना तेन न योग्यैका नेतु कालकला वचित् ॥१३२॥
 विचिन्त्येति स गत्वाशु समाधिगुप्तयोगिनम् । नत्वा मुदाग्रहीद् भव्यो व्रतानि गृहमेधिनाम् ॥१३३॥
 स्वर्गात्खदिरसाराङ्गिदेवो भुक्त्वा सुख महत् । स द्विसागरपर्यन्तं च्युत्वा पुण्यविपाकत ॥१३४॥
 सूनु कुणिकभूपस्य श्रीमत्याश्च नृपोत्तम । जातस्त्व श्रेणिको नाम्ना भव्यश्रेणिशिवाग्रणी ॥१३५॥
 तत्कथाश्रवणात्प्राप्य तत्त्वे श्रद्धा परा नृप । जिनेन्द्रधर्मगुर्वादौ पुनर्नत्वा पप्रच्छ तम् ॥१३६॥
 देव मे महती श्रद्धा विद्यते धर्मकर्मणि । हेतुना केन न स्याच्च मनाग्रतगुणाऽबुना ॥१३७॥
 उवाचेद ततो योगी धीमस्त्व बद्धवानिह । प्रागेव नरकायुष्क गाढमिथ्यात्वभावत ॥१३८॥
 हिसादिपञ्चपापाच्च बह्वारम्भपरिग्रहात् । अतीवविषयासक्त्या बौद्धमक्त्या वृषादृते ॥१३९॥
 तेन दोषेण ते नास्ति मनाग्रतपरिग्रह । बद्धदेवायुषो यस्मात्स्वीकुर्वन्ति द्विवा व्रतम् ॥१४०॥
 आज्ञाख्य मार्गसम्यक्त्व ह्युपदेशामिध तत । सूत्राह्वय च बीजाख्य सक्षेपाख्य सविस्तरम् ॥१४१॥
 अर्थोत्थमवगाढ परमावगाढसञ्ज्ञकम् । दशधेति सुसम्यक्त्व सोपान प्रथम शिवे ॥१४२॥
 सर्वज्ञाज्ञानिमित्तेन षड्द्रव्यादिषु या रुचि । जायते महती तत्स्यादाज्ञासम्यक्त्वमुत्तमम् ॥१४३॥
 अत्र नि सङ्गनिश्चेषपाणिपात्रादिलक्षणम् । श्रुत्वा या मोक्षमार्गस्य श्रद्धा तन्मार्गदर्शनम् ॥१४४॥
 त्रिषष्टिपुरषादीना पुराणश्रवणाच्च य । सद्य स्यान्निश्चयोऽत्रैतदुपदेशाख्यदर्शनम् ॥१४५॥

लगा—अहो, व्रतको शीघ्र प्राप्त हुए उत्तम फलको देखो ॥१३१॥ जिस व्रतके द्वारा परलोकमे ऐसी स्वर्ग-सम्पदाएँ प्राप्त होती हैं, उस व्रतके बिना मनुष्यको कालकी एक कला भी कभी बिताना योग्य नहीं है ॥१३२॥ ऐसा विचार कर और शीघ्र ही समाधिगुप्त मुनिराजके पास जाकर, उन्हें नमस्कार कर उस भव्यने गृहस्थोके व्रतको हर्षके साथ ग्रहण कर लिये ॥१३३॥
 खदिरसारका जीव वह देव दो सागरोंपम काल तक वहाँके महासुखोको भोगकर और स्वर्गसे च्युत होकर पुण्यके विपाकसे कुणिक राजा और श्रीमती रानीके श्रेणिक नामसे प्रसिद्ध नृपोत्तम और भव्य जीवोकी पत्किमे-से मोक्ष जानेमे अप्रेसर पुत्र हुआ है ॥१३४-१३५॥ अपने पूर्वजन्मकी इस कथाको सुननेसे तत्त्वोमे जिनेन्द्रदेव, जिनधर्म और जिनगुरु आदिमे परम श्रद्धाको प्राप्त होकर उन्हें नमस्कार कर पुनः पूछा ॥१३६॥ हे देव, धर्मकार्यमे मेरी भारी श्रद्धा है, किन्तु किस कारणसे अभी तक मेरे कोई जरा-सा भी व्रत या गुण धारण करनेका भाव नहीं हो रहा है ॥१३७॥ यह सुनकर गौतम गणधरने कहा—हे सुधी, तीव्र मिथ्यात्वभावके द्वारा आजसे पूर्व ही तूने इसी जीवनमे हिसादि पाँचो पापोके आचरणसे, बहुत आरम्भ और परिग्रहसे, अत्यन्त विषयासक्तिसे और सत्य धर्मके बिना बौद्धोकी भक्तिसे नरकायुको बाँध लिया है, अतः उस दोषसे तेरे रचमात्र भी व्रतका परिग्रह नहीं है । क्योंकि देवायुको बाँधनेवाले जीव ही मुनि और श्रावकके दो भेदरूप वर्मको स्वीकार करते हैं ॥१३८-१४०॥ (अपने नरकायुका बन्ध सुनकर राजा श्रेणिक मन ही मन विचारने लगा—अहो भगवान्, तब इससे मेरा कैसे छुटकारा होगा ? उसके मनकी यह बात जानकर गौतमने कहा—) ससारसे उद्धार करनेवाला सम्यक्त्व है । वह दश प्रकारका है—१ आज्ञासम्यक्त्व, २ मार्ग सम्यक्त्व, ३ उपदेशसम्यक्त्व, ४ सूत्रसम्यक्त्व, ५ बीजसम्यक्त्व, ६ सक्षेपसम्यक्त्व, ७ विस्तारसम्यक्त्व, ८ अर्थोत्पन्नसम्यक्त्व, ९ अवगाढसम्यक्त्व और १० परमावगाढसम्यक्त्व । यह दश प्रकारका सम्यक्त्व मोक्षरूप प्रासादमे जानेके लिए प्रथम सोपान है ॥१४१-१४२॥ सर्वज्ञदेवकी आज्ञाके निमित्तसे जीवादि छह द्रव्योमे दृढ रुचि या श्रद्धा होती है, वह उत्तम आज्ञासम्यक्त्व है ॥१४३॥ यहाँ पर परिग्रह रहित निश्चल (वस्त्ररहित दिगम्बर) और पाणिपात्रभोजी साधु आदिके लक्षणवाले निर्ग्रन्थ धर्मको मोक्षमार्गकी जो दृढ श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह मार्ग सम्यक्त्व है ॥१४४॥ तिरैसठ शलाका पुरुष आदि

आचाराख्यादिमाङ्गोक्ततप क्रियाश्रुतेर्विदाम् । प्रादुर्भूता रुचिर्यात्र सूत्रसम्यक्त्वमेव तत् ॥१४६॥
 या तु बीजपदादानात्सूक्ष्मार्थश्रवणाद्गुचि । प्रादुर्भवति भव्याना बीजदर्शनमेव तत् ॥१४७॥
 याभूच्छ्रद्धा पदार्थाना सक्षेपोक्त्यात्र धीमताम् । सक्षेपदर्शनं तद्धि कथ्यते शर्मकारणम् ॥१४८॥
 विस्तरोक्त्या पदार्थाना प्रमाणनयविस्तरै । यो निश्चयोऽत्र तत्सार सम्यक्त्व विस्तराह्वयम् ॥१४९॥
 अवगाह्याङ्गवार्धि च त्यक्त्वा वचनविस्तरम् । आदायान्नाथ्यमात्र या रुचिस्तदर्थदर्शनम् ॥१५०॥
 अङ्गाङ्गबाह्यसङ्गावभावनातोऽत्र या रुचि । जाता क्षीणकषायस्यावगाढ दर्शनं हि तत् ॥१५१॥
 केवलावगमालोकिताखिलाथ्यगता रुचि । या सम्यक्त्व पर तत्परमावगाढसङ्गम् ॥१५२॥
 दशभेद जिनेन्द्रोक्त सम्यक्त्वमिति तत्त्वत । तेषा मध्ये कियन्तस्ते तद्भेदा सन्ति भूपते ॥१५३॥
 त्व दर्शनविशुद्ध्याद्यैर्व्यस्तै षोडशकारणै । समस्तैश्च जगद्बन्धैरन्ते श्रीत्रिजगद्गुरो ॥१५४॥
 बद्ध्वात्र तीर्थकृत्नाम जगदाश्चर्यकारणम् । ध्रुव रत्नप्रभामन्ते कर्मपाकेन यास्यसि ॥१५५॥
 तत्फल तत्र भुक्त्वा चतुर्भि कालावद्मानकै । तस्मान्निर्गत्य भव्यस्त्व महापद्माख्यतीर्थकृत् ॥१५६॥
 भविष्यसि न सदेहो धर्मतीर्थप्रवर्तक । आगाम्युत्सर्पिणीकाले प्रथम क्षेमकृत्सताम् ॥१५७॥
 तस्मादासन्नभव्यस्त्व मा भैषी ससृतेर्यत । भ्रमन्त प्राणिनोऽनेकवारान् प्राड्णरक गता ॥१५८॥
 स्वस्य रत्नप्रभावासिश्रवणाच्छ्रेणिकस्तदा । विषणस्त पुनर्नत्वेत्यृच्छच्छ्रीगणाधिपम् ॥१५९॥
 भगवन्मत्पुरेऽत्रास्मिन् विशाले पुण्यधामनि । मा विनाधोगतिं कश्चिदन्वो यास्यति वा न च ॥१६०॥

महामानवोके पुराणोको सुननेसे जो आत्म निश्चय या धर्म श्रद्धान उत्पन्न होता है, वह लोकमे उपदेशनामक सम्यक्त्व है ॥१४५॥ आचारादि अगोमे कही तपश्चरणक्रियाके सुननेसे ज्ञानियोको जो उसमे रुचि उत्पन्न होती है, वह सूत्रसम्यक्त्व है ॥१४६॥ बीजपदोको ग्रहण करनेसे और उनके सूक्ष्म अर्थके सुननेसे भव्यजीवोके जो तत्त्वार्थमे रुचि उत्पन्न होती है, वह बीज सम्यक्त्व है ॥१४७॥ जीवादि पदार्थोके सक्षेप कथनको सुनकर ही जो बुद्धिमानो के हृदयमे श्रद्धा उत्पन्न होती है वह सुखकारण सक्षेपसम्यक्त्व कहा जाता है ॥१४८॥ जीवादि पदार्थोके विस्तार युक्त कथनको सुनकर प्रमाण और नयोके विस्तारद्वारा जो धर्ममे निश्चय उत्पन्न होता है, वह विस्तार सम्यक्त्व है ॥१४९॥ द्वादशागश्रुतरूप समुद्रका अवगाहन कर वचन-विस्तारको छोडकर और अर्थमात्रको अवधारण कर जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह अर्थसम्यक्त्व है ॥१५०॥ अगप्रविष्ट और अगबाह्य श्रुतके रहस्य चिन्तनसे क्षीणकषायी योगीके जो दृढ रुचि उत्पन्न होती है, वह अवगाढसम्यक्त्व है ॥१५१॥ तथा केवलज्ञानके द्वारा अवलोकित समस्त पदार्थोपर जो चरम सीमाको प्राप्त अत्यन्त दृढ रुचि उत्पन्न होती है वह परमावगाढ नामका सम्यक्त्व है ॥१५२॥ इस प्रकार जिनेन्द्र देवने तात्त्विक दृष्टिसे सम्यक्त्वके दश भेद कहे है । हे राजन्, उनमे-से कितने भेद तेरे है ॥१५३॥ जगद्-बन्ध दर्शनविशुद्धि आदि षोडश कारणोमेसे कुछ या सब कारणोसे त्रिजगद्-गुरु श्री वर्धमान-स्वामीके समीप जगत्मे आश्चर्यका कारण तीर्थकर नामकर्म यहाँपर निश्चयसे बाँधकर जीवनके अन्तमे पूर्वोपाजित कर्मके उदयसे रत्नप्रभापृथिवीवाले नरकमे जाओगे । वहाँपर उपाजित कर्मोका फल भोगकर आगामी चार काल-प्रमाण अर्थात् चौरासी हजार वर्षोके बाद वहाँसे निकलकर हे भव्य, तू महापद्मनामका धर्मतीर्थका प्रवर्तक, सज्जनोका क्षेम-कुशलकर्ता, आगामी उत्सर्पिणी कालमे प्रथम तीर्थकर होगा, इसमे कोई सन्देह नहीं है ॥१५४-१५७॥ हे राजन्, तुम निकटभव्य हो, अब इस अल्पकालिक ससारके परिभ्रमणसे मत डरो । क्योकि इसके भीतर परिभ्रमण करनेवाले प्राणी अनेक बार पहले नरक गये है ॥१५८॥ अपनी रत्न-प्रभागत नरककी प्राप्तिकी बात सुनकर विषादको प्राप्त हुए श्रेणिकने पुन श्री गौतमगणधरको नमस्कार करके इस प्रकार पूछा ॥१५९॥ हे भगवन्, इस विशाल, पुण्यधामवाले मेरे नगरमे

तदनुग्रहधर्माय तत श्रीगौतमो जगौ । शृणु धीमन् वचस्तथ्य भवच्छोकापनोदकम् ॥१६१॥
 कालशौकरिकोऽत्रैव पुरे नीचकुले भृशम् । भवस्थितिवशाद् बद्धमनुष्यायु कुकर्मणा ॥१६२॥
 सप्तकृत्वोऽधुना जातिस्मरो भूत्वेत्यचिन्तयत् । पुण्यपापफलेनाहो सबन्धोऽस्त्यङ्गिना यदि ॥१६३॥
 तर्हि पुण्यादृते कस्मात्प्राप्तोऽय नृभवो मया । तत पाप न पुण्य वा श्रेयो वैषयिक सुखम् ॥१६४॥
 इति मत्वा स पापात्मा भूत्वा नि शङ्क एव च । हिंसादिपञ्चपापानि मासाद्याहारमञ्जसा ॥१६५॥
 करोति तत्फलेनैव बह्वारम्भपरिग्रहं । बद्धश्वभ्रायुरन्तेऽघाद्यास्यस्ति श्वभ्रमन्तिमम् ॥१६६॥
 शुभाख्या द्विजपुत्री च रागान्धा मदविह्वला । उग्रस्त्रीवेदपाकेन नि शीला निर्विवेकिनी ॥१६७॥
 गुणशीलसदाचारान् वीक्ष्य श्रुत्वातिकोपिनी । अतीवेन्द्रियलाम्पटद्यान्नरकायुर्बन्ध च ॥१६८॥
 रौद्रध्यानेन मृत्वेति तत सात्र गमिष्यति । सर्वदु खखनी निन्द्या पापात्तम प्रभावनिम् ॥१६९॥
 इति तद्वचनस्यान्ते प्रणिपत्य गणाधिपम् । अभयाख्य कुमार पप्रच्छ स्वस्य भवान्तरम् ॥१७०॥
 तदनुग्रहबुद्ध्यासौ प्राह तस्य भवावलीम् । इहैव भरते विप्रतनूज सुन्दरामिध ॥१७१॥
 मूढत्रययुतो भद्रो मिथ्यादृष्टिर्ब्रजन् पथि । वेदाभ्यासाय स जैनाहर्ह्रासेन सम कुधी ॥१७२॥
 वीक्ष्य पाषाणराशिं च पिप्पलाध स्थिता पराम् । देवोऽय मम हीत्युक्त्वानमत्परीत्य त हुम् ॥१७३॥
 तच्चेष्टा वीक्ष्य तद्बोधनाय प्रहस्य त तरुम् । पादेन मर्दनं कृत्वाश्वहर्ह्रासो बभञ्ज स ॥१७४॥

मेरे बिना क्या और कोई पुरुष अधोगति (नरक) को जायेगा, या नहीं ? श्रेणिककी बात सुनकर उसके अनुग्रह करनेके लिए श्रीगौतमने कहा—हे धीमन्, तेरे शोकको दूर करनेवाले मेरे यथार्थ वचन सुनो ॥१६०-१६१॥ इसी राजगृहनगरमे भवस्थितिके बशसे पूर्वभवमे मनुष्यायुको बाँधकर नीचगोत्रके उदयसे अत्यन्त नीच कुलमे उत्पन्न हुआ कालशौकरिक नामका कसाई रहता है । अब उसे सात भव-सम्बन्धी जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ है, अतः वह विचारने लगा हे कि यदि पुण्य-पापके फलसे जीवोंका सम्बन्ध होता, तो मैंने पुण्यके बिना यह मनुष्य जन्म कैसे पा लिया ? इसलिए न पुण्य है और न पाप है । किन्तु इन्द्रियोंके विषयोसे उत्पन्न हुआ वैषयिक सुख ही कल्याण-कारक है ॥१६२-१६४॥ ऐसा मानकर वह पापात्मा निःशक होकर हिंसादि पापोंको और मासादिके आहारको निश्चयतः करत है । इन पापोंके फलसे तथा बहुत आरम्भ और परिग्रहसे उसने नरकायुको बाँध लिया है । जीवनके अन्तमे वह उक्त पापोंके उदयसे अन्तिम (सातवे) नरकको जायेगा ॥१६५-१६६॥ तथा इसी नगरमे शुभानामवाली एक ब्राह्मणपुत्री है, वह रागसे अन्धी और मदसे विह्वल है । तीव्र स्त्रीवेदके उदयसे शील-रहित है, अर्थात् व्यभिचारिणी है, और विवेक-रहित है । वह गुणी, शीलवान् और सदाचारी पुरुषोंको देखकर और सुनकर अत्यन्त कुपित होती है । उसने भी इन्द्रिय विषय सेवनकी अतीव लम्पटतासे नरकायु बाँध ली है । वह भी जीवनके अन्तमे रौद्रध्यानसे मरकर पापके फलसे निन्द्य और सर्वदुःखोंकी खानिवाली तम-प्रभा नामकी छठी नरकभूमि जायेगी ॥१६७-१६९॥ (यह सुनकर राजा श्रेणिक कुछ आश्चर्यत हुआ ।)

जब गौतमस्वामी नरक जानेवाले उक्त दोनोकी बात कह चुके, तब अभयकुमारने गणधरदेवको नमस्कार करके अपने पूर्वभवोंको पूछा ॥१७०॥ उसके अनुग्रहकी बुद्धिसे गौतमस्वामीने उसकी भवावलीको इस प्रकारसे कहना प्रारम्भ किया—हे भद्र, इस भरत क्षेत्रमे सुन्दरनामका एक ब्राह्मणपुत्र था । वह तीन मूढताओंसे युक्त मिथ्यादृष्टि था । वह कुबुद्धि वेदोंके अभ्यासके लिए एकबार जब अर्हदास जैनीके साथ मार्गमे जा रहा था तब किसी स्थान पर पीपलके वृक्षके नीचे रखी हुई पथरोकी राशिको देखकर 'यह मेरा देव है' ऐसा कहकर और उस वृक्षकी तीन प्रदक्षिणा देकर उसने उसे नमस्कार किया ॥१७१-१७३॥ उसकी यह चेष्टा देखकर उसे समझानेके लिए अर्हदासने हँसकर और पैरसे उसे मर्दन कर उसे

ततोऽग्रे कपिरोमाख्यवल्लीजाल समाप्य स । श्रावको महेवोऽयमित्युक्त्वा माययानमत् ॥१७५॥
 कराभ्या सुन्दरशिखन्दन् विगृह्णस्तत्तदीर्षया । सर्वाङ्गे तत्कृतासह्यकण्डूयबाधनात्तराम् ॥१७६॥
 भीत्वा तस्माज्जलपेति सत्यस्ते देव एव हि । ततो विहस्य जैनुऽवादीत्तत्सबोधहेतवे ॥१७७॥
 रे भद्र तरवोऽत्रैते निग्रहानुग्रहच्युता । एकेन्द्रियत्वमापन्ना पापाद्देवा न जातुचित् ॥१७८॥
 किन्तु तीर्थकरा एव भुक्तिमुक्तिकरा सताम् । त्रिजगज्ज्ञानतोऽभ्यर्चया देवा स्युर्नात्र चापरे ॥१७९॥
 इत्यादिवचनैरतस्य देवसौख्य निराकरोत् । तत क्रमाद् द्विजौ गच्छन्तौ गङ्गातीरभागतौ ॥१८०॥
 तीर्थनीरमिद नून पवित्र शुद्धिकारणम् । इत्युक्त्वा तज्जलै स्नात्वा मिथ्यादृष्टिरवन्दत ॥१८१॥
 तत्रास्मै भोक्तुकामाय भुक्त्वा भोक्तु स्वय ददौ । स्तोच्छिष्टान्न च गङ्गाम्बुमिश्रित श्रावकोत्तम ॥१८२॥
 त दृष्ट्वाह कथ भुञ्जेऽन्योच्छिष्टमिति सोऽवदत् । ततो जैन उवाचेद तस्य सन्मार्गसिद्धये ॥१८३॥
 मित्राशुद्ध मयोच्छिष्ट गङ्गाम्बु यदि निन्दितम् । गर्दमाद्यैस्तदुच्छिष्ट कथ शुद्ध च शुद्धिदम् ॥१८४॥
 अतो जल न तीर्थ न जातु शुद्धिकर नृणाम् । स्नान तथाङ्गिघातान्न केवल पापकारणम् ॥१८५॥
 देहोऽशुच्याकरे नित्य स्वभावान्निर्मलोऽसुमान् । शुद्धिं स्नानेन नायाति तस्मात्स्नान वृथाघदम् ॥१८६॥
 स्नानेन यदि शुद्धा स्युर्मिथ्यात्वादिमलीमसा । तर्हि मत्स्यादयो वन्द्या शुद्धये न दयान्विता ॥१८७॥
 किंत्वहर्त्तीर्थमेवात्र तद्वाक्यामृतमुत्तमम् । विद्धि शुद्धिकर पुसांमन्त पापमलापहम् ॥१८८॥

तोड दिया ॥१७४॥ वहाँसे आगे जानेपर कपिरोमा (करेच) नामकी वेलिके समूहको देखकर उस अर्हदास श्रावकने 'यह मेरा देव है' ऐसा कहकर मायाचारसे उसे नमस्कार किया ॥१७५॥ यह देखकर उस सुन्दर ब्राह्मण-पुत्रने पहलेकी ईर्ष्यासे उसे दोनो हाथोंसे उखाड़कर और उसकी फलियोंको मसलकर सारे शरीरमें रगड़ डाला । उसकी रगड़से उसके सारे शरीरमें असह्य वेदना हुई । उससे डरकर वह अर्हदाससे बोला—अहो, तेरा देव सच्चा है । तब वह जैनी हँसकर उसके सम्बोधनके लिए बोला ॥१७६-१७७॥ अरे भद्र, ये वृक्ष पापके उदयसे यहाँ एकेन्द्रिय वनस्पतिकी पर्यायको प्राप्त हैं । ये किसीका निग्रह या अनुग्रह करनेमें असमर्थ हैं, ये कभी देव नहीं कहे जा सकते ॥१७८॥ किन्तु सच्चे देव तो तीर्थकर ही हैं, जो कि सासारिक सुख और मुक्तिको देनेवाले हैं, तीन लोकके ज्ञानसे युक्त हैं । वे ही पूजनीय देव हैं । उनके सिवा इस लोकमें और कोई देव नहीं है ॥१७९॥ इत्यादि वचनोंसे अर्हदासने उस ब्राह्मण-पुत्रकी देव मूढताको दूर किया । तत्पश्चात् क्रमसे चलते हुए वे दोनो गंगा नदीके किनारे आ पहुँचे ॥१८०॥ तब उस मिथ्यादृष्टि ब्राह्मणपुत्रने 'यह तीर्थजल निश्चयसे पवित्र है, शुद्धिका कारण है' यह कहकर उसके जलसे स्नान कर उसकी वन्दना की ॥१८१॥ वहाँपर उस श्रावकोत्तम अर्हदासने भोजन किया और खानेका इच्छुक देखकर उस ब्राह्मणपुत्रको अपने खानेसे बचे हुए जूठे अन्नको गगाके जलसे मिश्रित कर उसे खानेके लिए दिया । यह देखकर वह बोला कि इन जूठे अन्नको मैं कैसे खा सकता हूँ ? तब उसको सन्मार्ग प्राप्त करानेके लिए वह जैनी बोला—हे मित्र, गगाजलसे मिश्रित भी यह जूठा अन्न यदि निन्दनीय है तो गधे आदिसे जूठा किया गया जल कैसे शुद्ध और शुद्धिको देनेवाला हो सकता है ॥१८२-१८४॥ अत न जल पवित्र है, न जलस्थान तीर्थ है और न उसमें किया गया स्नान मनुष्योंकी शुद्धि कर सकता है । किन्तु जलमें स्नान करनेसे अनेक प्राणियोंका नाश होता है, अत. वह केवल पापका कारण ही है ॥१८५॥ यह शरीर स्वभावसे अशुचिका भण्डार है, किन्तु इसके भीतर विराजमान आत्मा शुद्ध है, निर्मल है । स्नानसे पवित्रता नहीं आती है, इस कारण स्नान करना व्यर्थ ही पापका उपार्जन करनेवाला है ॥१८६॥ मिथ्यात्व आदि भावमलसे मलिन जीव यदि स्नान करनेसे शुद्ध होते होंगे, तब तो नित्य ही जलमें स्नान करनेवाले मगर-मच्छादि वन्दन करनेके योग्य हैं, दयायुक्त मनुष्य नहीं ॥१८७॥ इस-

इति सम्बोधनोपायैर्वाक्यैस्तीर्थादिसूचकै । अर्हद्वासो बलात्तस्य तीर्थमौढ्यमपाकरोत् ॥१८९॥
 तत्र पञ्चाग्निमध्यस्थ तापस वीक्ष्य सोऽवदत् । पश्य मद्दर्शने सन्ति बह्वीदृशास्तपस्विन ॥१९०॥
 अर्हद्वास स तद्गर्वहानये तमभाषत । तापस तपसोऽनेकै कौलिकागमभाषणै ॥१९१॥
 ततस्त निर्मदं कृत्वा जैनोऽवादीदिति स्फुटम् । भद्रते किं तप कर्तुं क्षमा स्यु कुतपस्विन ॥१९२॥
 किन्तु देवा महान्तोऽत्र सर्वज्ञा एव भूतले । निर्ग्रन्था गुरवो वन्द्या कार्यो धर्मो दयामय ॥१९३॥
 जिनोक्तमेव सिद्धान्तं तथ्य विश्वाग्रदीपकम् । जिनं च शासनं वन्द्यं शरणं च तपोऽनघम् ॥१९४॥
 एतेषा निश्चयं कृत्वा गृहाण मित्रं दर्शनम् । कुमारं शत्रुवत्स्यक्त्वा धर्ममूलं सुखाकरम् ॥१९५॥
 इति तद्बोधनं श्रुत्वा नत्वा तं सुन्दरो मुदा । काललब्ध्याददौ त्यक्त्वा मिथ्यात्वं दर्शनं वृषम् ॥१९६॥
 ततो मित्रत्वमापन्नौ ह्यटवीगहनान्तरे । गच्छन्तौ प्रापतु पापोदयाद्दिग्मूढता द्विजौ ॥१९७॥
 तत्रैवामानुषेऽरण्ये जीवनोपायवजिते । विदित्वा शरणं चैकं जिनधर्मं जिनाधिपम् ॥१९८॥
 हित्वाहारशरीरादीन् प्रोत्साहं प्रविधाय तौ । सन्यासं शिवसिद्धयर्थं मगृह्णाता बुधोत्तमौ ॥१९९॥
 ततः सोद्वातिधैर्येण क्षुत्तृषादिपरीषहान् । मुक्त्वा समाधिना प्राणान् शुभध्यानेन तौ द्विजौ ॥२००॥
 तदाचारोत्थपुण्येन सौधर्मोऽतिमहधिकौ । अभूता सुरससेव्यौ देवौ दिव्यसुखोदयौ ॥२०१॥
 तत्र भुक्त्वामरं सौख्यं चिरं च्युत्वा शुभोदयात् । स सुन्दरचरो नाकी ततः श्रेणिकभूपते ॥२०२॥

लिए हे भद्र, यह गंगा तीर्थ नहीं है, किन्तु अर्हन्तदेव ही तीर्थ है और उनका वचनरूप अमृत जल ही जीवोकी शुद्धि करनेवाला और अन्तरग मलका विनाशक है ॥१८८॥ इस प्रकार तीर्थादिके सूचक सम्बोधनात्मक वचनोसे अर्हद्वासने हठात् उसकी तीर्थमूढता दूर की ॥१८९॥ वहीं कुछ दूरपर गंगाके किनारे ही पचाग्निके मध्यमे बैठे किसी तापसको देखकर वह विप्रपुत्र बोला—देखो, मेरे मतमे ऐसे-ऐसे बहुत-से तपस्वी हैं ॥१९०॥ तब उस अर्हद्वासने उसके गर्वको दूर करनेके लिए कौलिकशास्त्रके तपसम्बन्धी अनेक वचनोके द्वारा उस तापसके साथ सम्भाषण किया और अपनी प्रबल युक्तियोसे उसे मद-रहित करके उस जैनीने उस ब्राह्मण-पुत्रसे स्पष्ट कहा—हे भद्र, ये कुतपस्वी क्या सच्चा तप करनेके लिए समर्थ हैं ? अर्थात् नहीं हैं । किन्तु इस भूतलपर सर्वज्ञदेव ही सच्चे महान् देव हैं, परिग्रहरहित निर्ग्रन्थ साधु ही सच्चे साधु हैं और वे ही वन्दनीय हैं । मनुष्यको दयामयी धर्म ही सेवन करना चाहिए ॥१९१-१९३॥ जिनदेवके द्वारा उपदिष्ट सिद्धान्त ही सत्य हैं और वही विश्वकी सर्व वस्तुओका दर्शक हैं, जिनशासन ही वन्दन करनेके योग्य हैं और हिसादि पापोसे रहित निर्दोष तप ही प्राणियोको शरण देनेवाला है ॥१९४॥ इसलिए हे मित्र, कुमारको शत्रुके समान छोड़कर इन सत्यार्थ देव-शास्त्र-गुरु और दयामयी धर्मका निश्चय करके सम्यग्दर्शनको ग्रहण करो । यह सम्यग्दर्शन ही धर्मका मूल है और सर्व सुखोकी खानि है ॥१९५॥ इस प्रकार उस अर्हद्वासके सम्बोधक वचनोको सुनकर उस सुन्दर विप्रपुत्रने हर्षके साथ मिथ्यादर्शनको छोड़कर काललब्धिके प्रभावसे सत्यधर्मको ग्रहण कर लिया ॥१९६॥

तत्पश्चात् मित्रताको प्राप्त वे दोनो द्विज गहन अटवीके मध्यमे जाते हुए पापोदयसे दिग्मूढताको प्राप्त हो गन्तव्य दिशा भूल गये ॥१९७॥ जीवनके उपायसे रहित निर्जन वनमे एकमात्र जिनेन्द्रदेव और जिनधर्मको ही शरण जानकर उन दोनो उत्तम ज्ञानियोने आहार-शरीर आदिका त्याग कर और उत्साहको धारण कर मुक्तिकी सिद्धिके लिए सन्यासको ग्रहण कर लिया ॥१९८-१९९॥ तदनन्तर अति धैर्यके साथ क्षुधा तृषादि परीषहोको सहनकर और शुभध्यानसे समाधिपूर्वक प्राणोको छोड़कर वे दोनो ब्राह्मण इस व्रताचरणसे उपाजित पुण्यके द्वारा सौधर्मस्वर्गमे भारी ऋद्धिके धारक अनेक सुरोसे पूजित एव दिव्य सुखोके भोक्ता देव हुए ॥२००-२०१॥ वहाँपर पुण्योदयसे देव-सम्बन्धी सुखको चिरकाल तक भोगकर वह सुन्दर

दक्ष सूनुर्महाप्राज्ञोऽजनिष्टस्वमिहेदश । द्रुतमाप्यसि निर्वाण तपसा च विधे क्षयात् ॥२०३॥
 इति तत्सत्कथा श्रुत्वा केचिद्वैराग्यवासिता । आदु सयम केचिद् हृदि धर्मं च दर्शनम् ॥२०४॥
 ससुत श्रेणिकस्तस्मात्पीतधर्मश्रुतामृत । नत्वा च श्रीजिन भक्त्या गणेशान् स्वपुर ययौ ॥२०५॥
 अथेन्द्रभूतिरेवाद्यो वायुभूत्यग्निभूतिकौ । सुधर्ममौर्यमौण्ड्याख्यपुत्रमैत्रेयसज्जका ॥२०६॥
 अकम्पनोऽन्धवेलाख्य प्रभासोऽमी सुरार्चिता । एकादश चतुर्जाना सन्मते स्युर्गणाधिपा २०७॥
 शतत्रयप्रमा ज्ञेया विमो पूर्वार्थधारका । सहस्राणि नवैवाथ तथा नवशतान्यपि ॥२०८॥
 इति सख्यान्विता सन्ति शिक्षकाश्चरणोद्यता । त्रयोदशशतान्येव मुनयोऽवधिभूषिता ॥२०९॥
 केवलज्ञानिन सप्तशतसख्याश्च तत्समा । मुनयो विक्रियद्धर्षाढ्या स्यु शतानि नवास्य च ॥२१०॥
 चतुर्थज्ञानिन पूज्या शतपञ्चप्रमा प्रभो । चतु शतप्रमाणा भवन्त्यनुत्तरवादिन ॥२११॥
 सर्वे पिण्डीकृता सन्ति सहस्राणि चतुर्दश । सयता श्रीवर्धमानस्य रत्नत्रितयभूषिता ॥२१२॥
 आर्थिकाश्चन्दनाद्या षट्त्रिंशत्सहस्रसमिता । नमन्ति तत्पदाब्जौ सत्तपोमूलगुणान्विता ॥२१३॥
 दृग्ज्ञानसद्व्रतोपेता श्रावका लक्षसख्यका । त्रिलक्षश्राविकाश्चास्यार्चयन्त्यङ्घ्रिसरोरुहौ ॥२१४॥
 देवा देव्यस्त्वसख्याता सेवन्ते तत्पदाम्बुजौ । दिव्यै स्तुतिनमस्कारपूजाद्युत्सवकोटिभि ॥२१५॥
 तिर्यञ्च सिंहसर्पाद्या शान्तचित्ता व्रताङ्किता । सख्याता भक्तिका वीर श्रयन्ते भवभीरव ॥२१६॥
 एतैर्द्वादशसख्यातैर्गणैर्भक्तिभरोत्कटै । सपरीतो जगन्नाथस्ततो हि विहारन् शनै ॥२१७॥

ब्राह्मणका जीववाला देव वहाँसे चय कर यहाँपर श्रेणिक राजाके ऐसे चतुर महाप्राज्ञ अभय-
 कुमार नामके पुत्र हुए हो । और शीघ्र ही तपसे कर्मोंका क्षय करके निर्वाणको प्राप्त होओगे
 ॥२०२-२०३॥ अभयकुमारकी इस पूर्वभवसम्बन्धी उत्तम कथाको सुनकर वैराग्यसे परिपूर्ण
 हुए कितने ही लोगोंने तो सयमको ग्रहण किया और कितने ही मनुष्योंने अपने हृदयमे श्रावक
 धर्म और सम्यग्दर्शनको धारण किया ॥२०४॥ इस प्रकार गौतमस्वामीसे धर्म और श्रुतरूप
 अमृतको पीकर अभयकुमार पुत्रके साथ श्रेणिक राजा भक्तिपूर्वक श्रीवीरजिनको और गौतम
 गणधरको नमस्कार कर अपने राजगृह नगरको चला गया ॥२०५॥

अथानन्तर वीर जिनेन्द्रके ग्यारह गणधरोमे इन्द्रभूति गौतम प्रथम गणधर थे । दूसरे
 वायुभूति, तीसरे अग्निभूति, चौथे सुधर्मा, पाँचवे मौर्य, छठे मौड्य, (मण्डिक) सातवे पुत्र
 (?), आठवे मैत्रेय, नवे अकम्पन, दशवे अन्धवेल, और ग्यारहवे प्रभास गणधर हुए । ये
 वीर भगवान्के सभी ग्यारह गणधर देव-पूजित और चार ज्ञानके धारक थे ॥२०६-२०७॥
 भगवान् महावीरके समवशरणसे चतुर्दश पूर्वके अर्थको धारण करनेवाले तीन सौ थे । नौ
 हजार नौ सौ चारित्र आचरण करनेमे उद्यत शिक्षक मुनि थे, तेरह सौ मुनि अवधिज्ञानसे
 भूषित थे । उनके ही समान ज्ञानवाले सात सौ केवलज्ञानी थे । नौ सौ मुनि विक्रिया ऋद्धिसे
 युक्त थे । पाँच सौ पूज्य मनःपर्ययज्ञानी थे, चार सौ अनुत्तरवादी थे । इस प्रकार ये सब
 मिलकर चौदह हजार साधु श्रीवर्धमानस्वामीके शिष्य परिवारमे थे और ये सब रत्नत्रयसे
 विभूषित थे ॥२०८-२१२॥ चन्दन आदिक छत्तीस हजार आर्थिकाएँ थीं । वे सब उत्तम तप
 और मूलगुणोसे युक्त थीं और भगवान्के चरण-कमलोको नमस्कार करती थीं ॥२१३॥
 सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और गृहस्थव्रतोसे सयुक्त एक लाख श्रावक थे और तीन लाख
 श्राविकाएँ थीं । ये सभी जिनेन्द्रदेवके चरण कमलोंको पूजते थे ॥२१४॥ असख्यात देव और
 देवियाँ भगवान्के पादारविन्दोकी दिव्य स्तुति, नमस्कार, पूजा और करोडो प्रकारके उत्सवोंसे
 सेवा करते थे ॥२१५॥ सिंह-सर्पादि शान्तचित्त, व्रत-युक्त, भक्तिमान् और भवभीरु सख्यात
 तिर्यचोने वीर भगवान्का आश्रय लिया था ॥२१६॥ भक्तिभारसे व्याप्त इन बारह गणोंसे वेष्टित
 जगत्के नाथ श्रीवर्धमान तीर्थंकर देव तत्पश्चात् वीरे-धीरे विहार करते, नाना देश-पुर ग्राम-

नानादेशपुरग्रामान् बोधयन् भव्यमाक्तिकान् । बहुधर्मोपदेशेन कुर्वन्मोक्षपथे स्थिरान् ॥२१८॥
 निर्धूयाज्ञानकुध्वान्त प्रकाश्याध्वानमूजिनम् । मुक्तेर्वचोऽशुभिर्देव आजगाम क्रमान्महान् ॥२१९॥
 सच्चम्पानगरोद्यान फलपुष्पादिशोभितम् । विहृत्य षड्दिनोनानि त्रिंशद्दर्शणि तीर्थराट् ॥२२०॥
 तत्र योग निरूध्यासौ दिव्यभाषा च नि क्रिय । मुक्तयेऽघातिहन्तार प्रतिमायोगमाददौ ॥२२१॥
 अथ देवगति पञ्चशरीराणि तथैव च । पञ्चसघातनामानि पञ्चाङ्गबन्धनान्यथ ॥२२२॥
 त्रीण्याङ्गोपाङ्गानि षट्सस्थानानि सहननानि षट् । पञ्च वर्णा द्विगन्धप्रकृती पञ्च रसास्तथा ॥२२३॥
 अष्टौ स्पर्शास्तथा देवगत्यानुपूर्व्यकर्म वै । ततोऽगुरुलघुश्चोपघातोऽथ परघातक ॥२२४॥
 उच्छ्वासो द्विविहायोगती चापर्यासिसञ्जक । प्रत्येक स्थिरनामास्थिर शुभाशुभदुर्भगा ॥२२५॥
 दुःस्वर सुस्वरानादेया यश कीर्तिरेव हि । असातकर्मनीचैर्गोत्र निर्माण जिनोत्तम ॥२२६॥
 द्वासप्ततिप्रमा एता प्रकृतीमुक्तिवाधिनी । अयोगाख्यगुणस्थानमाख्य योगशक्तित ॥२२७॥
 तुर्यशुक्लमहाध्यानखड्गेन सुभटो यथा । निजारातीन् जघानाशु तस्यान्त्यसमयद्वये ॥२२८॥
 तत आदेयनामाथ मनुष्यगतिसञ्जक । ततो नरगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यसमाह्वय ॥२२९॥
 पञ्चाक्षजातिमर्त्यायु पर्यासित्रसबादरा । सुभगाख्यो यश कीर्ति सातोच्चैर्गोत्रसञ्जकौ ॥२३०॥
 तीर्थकृन्नाम तीर्थेश एतास्त्रयोदशप्रमा । प्रकृतीस्तेन शुक्लेन तस्यान्त्यसमयेऽप्यहन ॥२३१॥
 ततोऽसौ कृत्स्नकर्मारिकायत्रयविनाशत । निर्वाणमगमच्चोर्ध्वगतिस्वभावतोऽमल ॥२३२॥
 कार्तिकाख्ये शुभे मासे अमावस्यामिधे तिथौ । स्वातिनामनि नक्षत्रे प्रभातसमये वरे ॥२३३॥
 तत्र सिद्धत्वमासाद्य सम्यक्त्वादिगुणाष्टकम् । भुङ्क्ते सुख निरौपम्य सोऽमूर्तो विषयातिगम् ॥२३४॥
 परद्रव्यातिग निर्य स्वात्मज दुःखदूरगम् । निराबाध क्रमातीतमनन्त परम शुभम् ॥२३५॥

वासी जनोको सम्बोधते, धर्मोपदेशसे मोक्षमार्गमे स्थिर करते हुए तथा अपनी वचन-किरणों-से अज्ञानान्धकारका नाश कर और उत्तम मार्गका प्रकाश कर छह दिन कम तीस वर्ष तक विहार करके क्रमसे फल-पुष्पादि शोभित चम्पानगरीके उद्यानमे आये ॥२१७-२२०॥ वहाँपर दिव्यध्वनिको और योगको रोककर निष्क्रिय हो उन्होने मुक्ति प्राप्तिके लिए अघाति कर्मोंका हनन करनेवाला प्रतिमायोग ग्रहण कर लिया ॥२२१॥

तत्पश्चात् उन्होने देवगति, पाँच शरीर, पाँच सघात नामकर्म, पाँच बन्धन, तीन अगोपाग, छह सहनन, छह सस्थान, पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पर्श, देवगत्यानु पूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, दोनो विहायोगति, अपर्याप्तिनाम, प्रत्येकशरीर, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति, असातावेदनीय, नीचगोत्र और निर्माण नामकर्म इन बहत्तर सख्यावाली मुक्तिकी बाधक प्रकृतियोंको जिनोत्तम वर्धमान स्वामीने योगशक्तिसे अयोगिगुणस्थानमे चढकर चौथे महाशुक्तध्यानरूप खड्गसे अपने शत्रुओंको सुभटके समान उस गुणस्थानके द्विचरम समयमे एक साथ क्षय कर दिया ॥२२२-२२८॥ तत्पश्चात् आदेयनाम, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, पचेन्द्रिय जाति, मनुष्यायु, पर्याप्तिनाम, त्रस, बादरनाम, सुभग, यशःकीर्ति, सातावेदनीय, उच्चगोत्र और तीर्थकरनामकर्म इन तेरह प्रकृतियोंको वर्धमानतीर्थेऽवरने उसी शुक्त ध्यानके द्वारा अयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमे क्षय कर दिया ॥२२९-२३१॥

इस प्रकार शुभ कार्तिक मासकी अमावस्या तिथिके दिन स्वाति नक्षत्रमे श्रेष्ठ प्रभात समय समस्त कर्मशत्रुओंके तीनो शरीरोंका विनाश कर उस निर्मल आत्माने ऊर्ध्वगति स्वभाव होनेसे ऊपर जाकर निर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त किया ॥२३२-२३३॥ वहाँपर क्षायिक सम्यक्त्व आदि आठ गुणस्वरूप सिद्धपनाको प्राप्त कर वे अमूर्त वर्धमान सिद्धपरमेष्ठी उपमा-रहित, विषयातीत, परद्रव्योंके सम्बन्धसे रहित, दुःखोंसे रहित, बाधाओंसे रहित,

नृदेवखेचराधीशा आर्या मुञ्छाश्च मानवा । अन्ये च त्रिजगज्जीवा बुभुजुर्द्यत्सुख परम् ॥२३६॥
 भुञ्जन्ति यच्च भोक्ष्यन्ति तत्सर्वं पिण्डित भुवि । तस्मादन्तव्यतिक्रान्त सुख वाचामगोचरम् ॥२३७॥
 एकेन समयेनैव भुङ्क्ते मोक्षे निरन्तरम् । सर्वोत्कृष्ट जगद्वन्द्योऽनन्तकालान्तमूर्जितम् ॥२३८॥
 तदा चतुर्णिकायेशा सकलत्राश्च सामरा । तन्निर्वाण परिज्ञाय स्वै स्वैश्चिह्नै पृथग्विधै ॥२३९॥
 विभूत्या परया सार्धं गीतनृत्यमहोत्सवै । अन्यकल्याणपूजार्थमाजगमुस्तत्र सिद्धये ॥२४०॥
 पवित्र तद्वपुर्मत्वा विभो निर्वाणसाधनम् । शिविकान्ते व्यधुर्मूल्या स्फुरन्मणिमये सुरा ॥२४१॥
 ततोऽभ्यर्च्य जगत्सारै सुगन्धिद्रव्यराशिभि । काय भक्त्यानमन्मूर्ध्ना रत्नशेखरशालिना ॥२४२॥
 पर्यायान्तर्मेवाप सुगन्धीकृतखाङ्गणम् । तद्गात्र शीघ्रमग्रीन्द्रमुकुटोत्पन्नवह्निना ॥२४३॥
 तदादाय पवित्र तद्गस्म शक्रादयोऽमरा । एवमस्माकमत्रास्वचिरान्निर्वाणसाधनम् ॥२४४॥
 इत्युक्त्वा प्रथम चक्रुर्भाले बाह्वोश्च दृग्द्वये । सर्वाङ्गेषु पुनर्भक्त्या मुदा तद्गतिशसिन ॥२४५॥
 तत्रैव ते प्रपूज्योच्चै पूत तत्सुमहीतलम् । निर्वाणक्षेत्रसकल्प व्यधुर्मप्रवृत्तये ॥२४६॥
 पुनर्देवा मुदा तुष्टा समभूय सममूर्जितम् । आनन्दनाटक चक्रुर्देवीभि परमोत्सवै ॥२४७॥
 ततोऽस्य केवलज्ञान श्रीगौतमगणेशिन । प्रादुरासीत्सुशुक्लध्यानेन घात्यरिघातनात् ॥२४८॥
 तत्रापि ते महेन्द्राद्याश्चक्रु कैवल्यपूजनम् । इन्द्रभूतेर्गणै सार्धं तद्योग्यमूरिभूतिभि ॥२४९॥

क्रमसे रहित, नित्य, स्वात्मीय, परम शुभ अनन्त सुखको भोग रहे है ॥२३४-२३५॥ ससारमे नरपति, विद्याधरपति, देवपति, आर्य और म्लेच्छ मानव और अन्य भी तीन लोकके जीव जिस उत्तम सुखको वर्तमानमे भोग रहे है, भूतकालमे उन्होने भोगा है और भविष्यकालमे वे भोगेगे, वह सब यदि एकत्रित कर दिया जाये, तो उसमे भी अनन्तगुणा वचन-अगोचर सुख मोक्षमे एक समयके भीतर भोगते है । ऐसा सर्वोत्कृष्ट सुख जगद्-वन्द्य वीर सिद्धप्रभु मोक्षमे निरन्तर अनन्त कालतक भोगते रहेगे ॥२३६-२३८॥

अथानन्तर अपने-अपने पृथक् चिह्नोसे भगवान् का निर्वाण जानकर समस्त चतुर्निकायके देवेन्द्रोने अपने-अपने देव परिवारके साथ परम विभूतिसे गीत-नृत्यमहोत्सव करते हुए आत्मसिद्धयर्थ अन्तिम निर्वाणकल्याणककी पूजा करनेके लिए वहाँपर आये ॥२३९-२४०॥ निर्वाणका साधक प्रभुका यह शरीर पवित्र है, ऐसा मानकर उन देवोने चमकते हुए मणियों-वाली पालकीमे बड़ी भारी विभूतिके साथ उसे विराजमान किया ॥२४१॥ पुन तीन जगत्मे सारभूत सुगन्धी द्रव्य समूहसे उस शरीरकी पूजा कर भक्तिसे रत्नमुकुटधारी मस्तकसे उन्होने उसे नमस्कार किया ॥२४२॥ तत्पश्चात् अग्निकुमार देवेन्द्रके मुकुटसे उत्पन्न हुई अग्निसे वह शरीर गगनाङ्गणको सुगन्धित करता हुआ पर्यायान्तर (भस्मभाव) को प्राप्त हुआ ॥२४३॥

तब इन्द्रादिक देवोने 'यह हमारे भी शीघ्र निर्वाणका साधक हो' इस प्रकार कहकर उस पवित्र भस्मको हाथमे ग्रहण करके पहले मस्तकपर, फिर नेत्रोमे, फिर बाहुओमे, फिर हृदयपर और फिर सर्वांगोमे भक्तिपूर्वक मोक्षगतिकी प्रशंसा करते हुए लगाया ॥२४४-२४५॥ वहीपर उस उत्तम पवित्र भूमितलको उत्कृष्ट भक्तिसे पूजकर आगे धर्मकी प्रवृत्तिके लिए उसे निर्वाणक्षेत्र सकल्पित किया ॥२४६॥ पुन हर्षसे सन्तुष्ट हुए उन देवोने एकत्रित होकर अपनी देवियोंके साथ परम उत्सव पूर्वक आनन्द नाटक किया ॥२४७॥

तत्पश्चात् उत्तम शुक्लध्यानसे घातिकर्मशत्रुओके घातनेसे उन श्री गौतम गणधरमे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥२४८॥ वहाँपर जाकर उन उत्तम देवेन्द्रोने सर्व गणके साथ उनके योग्य भारी विभूतिसे इन्द्रभूति केवलीके केवलज्ञानकी पूजा की ॥२४९॥

इति सुचरणयोगाञ्छर्मसार महद्यो नृसुरगतिषु मुक्त्वा तीर्थनाथोऽभूत्वा ।
 नृखगसुरपतीड्य कृत्स्नकर्माणि हत्वागमदनु शिवसौध सस्तुवे वीरनाथम् ॥२५०॥
 वीरो वीरजनार्चितो गुणनिधिर्वीर सुवीरा श्रिता
 वीरेणेह किलाप्यते शिवसुख वीराय नित्य नम ।
 वीरान्नास्त्यपर क्षमोऽघविजये वीरस्य वीर्य पर
 वीरे चित्तमह दधे रिपुजये मा वीर वीर कुरु ॥२५१॥

अन्तिम मगल-कामना

वीरो योऽत्र मया चरित्ररचनाव्याजेन मूर्ध्ना नतो
 भक्त्या तद्गुणभाषणैर्निजगिरा शक्त्या स्तुत पूजित ।
 भावेनैव मुहुर्मुहु स जिनपो दद्याच्च मे लोभिन
 सामग्री सकला विमुक्तिजननी शीघ्र त्रिरत्नोद्भवाम् ॥२५२॥
 यो बाल्येऽपि सुसयम त्रिमणिज जग्राह मुक्त्यासये
 य त मे स ददातु मुक्तिजनक चेहाप्यमुत्र स्फुटम् ।
 य सद्ब्रह्मानमहासिनाखिलरिपून् शीघ्र जवानोर्जितान्
 मेऽसौ कर्मरिपून् खचौरसहितान् हन्याद् हुत मुक्तये ॥२५३॥
 येनासास्त्रिजगत्स्तुता वरगुणा सीमातिगा निर्मला
 कैवल्यप्रमुखा स तान्निजगुणान् सर्वान् प्रदद्यान्मम ।
 तस्माद्येन शिवात्मजा त्रिविधिना वीरेण भो स्वीकृता
 क्षिप्र मे स तनोतु मुक्तिममला चान्तातिगा शर्मणे ॥२५४॥

इस प्रकार उत्तम चारित्रिके योगसे जो देव और मनुष्यगतिमें सारभूत महासुखको भोगकर और तीर्थके नाथ होकर, नरपति, खगपति और सुरपतियोसे पूजित हो और तत्पश्चात् सर्व कर्मोंका नाश कर शिव-सदनको प्राप्त हुए, उन वीरनाथकी मैं सकलकीर्ति स्तुति करता हूँ ॥२५०॥ वीरजिन वीरजनोंसे पूजित है, गुणनिधि है, वीरजिनको वीरजन ही आश्रित होते हैं, वीरके द्वारा ही इस लोकमें शिवसुख प्राप्त किया जाता है, अतः वीरके लिए मेरा नित्य नमस्कार है। वीरसे परे दूसरा कोई भी पापकर्मोंको जीतनेमें समर्थ नहीं है, वीरका वीर्य परम श्रेष्ठ है, मैं वीर जिनमें अपना मन लगाता हूँ, हे वीर, शत्रुको जीतनेमें मुझे वीर करो ॥२५१॥

अन्तिम मगल कामना

मैंने चरित्रकी रचनाके बहाने जो वीरप्रभुको मस्तकसे नमस्कार किया है, भक्तिपूर्वक अपनी वाणीके द्वारा शक्तिके अनुसार उनके गुणोंका वर्णन कर उनकी प्रशंसा और स्तुति की है एव शुभ भावोंसे बार-बार उनकी पूजा की है, ऐसे वे श्रीवीर जिनेन्द्र मुझ लोभीको मुक्तिको प्राप्त करानेवाली और सम्यग्दर्शनादि तीन रत्नोंसे उत्पन्न होनेवाली सकल सामग्रीको शीघ्र देवे ॥२५२॥ जिस वीरप्रभुने बालकाल (कुमारावस्था) में भी मुक्तिकी प्राप्तिके लिए रत्नत्रय-जनित उत्तम सयमको ग्रहण किया, जिन्होंने उत्तम शुक्लध्यानरूपी महान् खड्गके द्वारा अति प्रचण्ड सर्व कर्मशत्रुओंको विनष्ट किया, वे वीर प्रभु मुझे इस लोक और परलोकमें मुक्ति-दाता सयम और रत्नत्रयको देवे, तथा इन्द्रियरूपी चोरोके साथ मेरे सब कर्मशत्रुओंका मुक्ति पानेके लिए शीघ्र विनाश करे ॥२५३॥ जिन्होंने तीन लोकसे स्तुति किये गये अनन्त निर्मल केवलज्ञानादि उत्तम गुण प्राप्त किये हैं, वे वीर प्रभु उन सब अपने गुणोंको मुझे

न कीर्तिपूजादिकलाभलोभतो नाहो कविस्वाद्यभिमानतोऽत्र ।
 ग्रन्थ कृतोऽय परमार्थबुद्ध्या स्वान्योपकाराय च कर्महान्यै ॥२५५॥
 वीरनाथगुणकोटिनिबद्ध पावन वरचरित्रमिदं च ।
 शोधयन्तु सुविदश्च्युतदोषा सर्वकीर्तिगणिना रचितं यत् ॥२५६॥
 यत्किञ्चिद्विहितं मयात्र च श्रुभे ग्रन्थे प्रमादात्क्वचि-
 दज्ञानादथवाक्षरादिरहितं सन्ध्यादिमात्राज्ज्ञितम् ।
 तत्सर्वं मम तुच्छधीश्रुतविदो दृष्ट्वा परं साहसं
 सद्वृत्तोद्धरणे समं जिनगिरा यूयं क्षमध्वं विदं ॥२५७॥
 ये पठन्ति निपुणा, श्रुतमेतत्पाठयन्ति गुणिनो गुणरागात् ।
 ते समाप्य विरतिं विषयादौ ज्ञानतीर्थमचिराच्च लभन्ते ॥२५८॥
 लिखन्ति ये ग्रन्थमिदं पवित्रं वा लेखयन्ते भुवि वर्तनाय ।
 ते ज्ञानदानेन किलाप्य सौख्यं विश्वोद्भवं केवलिनो भवन्ति ॥२५९॥
 सर्वे तीर्थकरा परार्थजनका श्रीभुक्तिमुक्तिप्रदा
 सिद्धा अन्तविवर्जिता निरुपमास्त्रैलोक्यचूडोपमा ।
 पञ्चाचारपरायणाश्च गणिना श्रीपाठका सद्विदं
 उद्योगाङ्कितसाधवः शुभकरं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥२६०॥
 प्रवरगुणसमुद्रं धर्मरत्नादिखानि
 सुरारणमिहभयाना महेंद्रादिपूज्यम् ।
 सुरशिवगतिमूलं शासनं श्रीजिनस्थं
 त्रिभुवनगतभयैर्यातु वृद्धिं धरित्र्याम् ॥२६१॥

प्रदान करे । जिन वीर जिनेन्द्रने मुक्तिरूपी कुमारीको विधिपूर्वक स्वीकार किया है, वे प्रभु वह अनन्त निर्मल मुक्तिलक्ष्मी सुख प्राप्तिके लिए मुझे देवे ॥२५४॥ मुझ सकलकीर्तने यह ग्रन्थ कीर्ति, पूजा के लाभ या किसी प्रकारके लोभसे नहीं रचा है और न कविपनेके अभिमानसे ही रचा है, किन्तु इसकी रचना परमार्थ बुद्धिसे अपने और अन्यके उपकारके लिए तथा अपने कर्मोंके विनाशके लिए की है ॥२५५॥ वीर जिनेन्द्रके कोटि-कोटि गुणोंसे निबद्ध यह पावन श्रेष्ठ चरित्र, जिसे सकलकीर्ति गणीने रचा है, उसे दोषोंसे रहित सुज्ञानी जन शुद्ध करे ॥२५६॥ इस शुभ ग्रन्थमे मेरे द्वारा प्रमादसे, अथवा अज्ञानसे यदि कहीं कुछ अक्षरादिसे रहित, या सन्धि-मात्रासे रहित अशुद्ध या असम्बद्ध लिखा गया हो, तो श्रुतवेत्ता ज्ञानी जन इस उत्तम चरित्रके जिन वाणीसे उद्धार करनेमे मुझ तुच्छ बुद्धिका भारी साहस देखकर आप लोग मुझे क्षमा करे ॥२५७॥ जो निपुण बुद्धिवाले लोग इस शास्त्रको पढते हैं और गुणियोंके गुणानुरागसे दूसरोंको पढाते हैं वे अपने विषय-रूपायादिमे विरतिभावको प्राप्त होकर केवलज्ञानरूपी ज्ञानतीर्थको शीघ्र प्राप्त करते हैं ॥२५८॥ जो भव्य श्रावकजन इस पवित्र ग्रन्थको लिखते हैं और भूमण्डल पर प्रसार करनेके लिए दूसरोंसे लिखाते हैं, वे अपने इस ज्ञानदानके द्वारा विश्वमे उत्पन्न होनेवाले सुखोंको प्राप्त कर निश्चयसे केवलज्ञानी होते हैं ॥२५९॥ परके उपकारक, सासारिक लक्ष्मी, स्वर्गीय भोग और मुक्तिके प्रदाता, सभी तीर्थकर, अन्त रहित उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त, उपमासे रहित और तीन लोकके चूडामणि, सभी सिद्ध भगवन्त, पंच आचारोंमे परायण, सभी आचार्य, उत्तम श्रुतवेत्ता, सभी उपाध्याय और आत्म-साधनके उद्योगसे युक्त, सभी साधुजन आप लोगोंका शुभ करनेवाला मंगल करे ॥२६०॥ यह वीर जिनेन्द्रदेवका चरित गुणोंका समुद्र है, धर्मरत्न आदिकी खानि है, भव्योंको

अर्थाच्च धर्मबीज ख-विरतिजनक वीरनाथस्य दिव्यै
 सार्थैस्तथैर्गुणैर्वैर्निचितमपमल रागनिर्णाशहेतुम् ।
 कर्मघ्न ज्ञानमूल विशदमुनिगणै पावन तच्चरित्र
 यावत्कालान्तमत्रासमगुणगहचैर्नन्दतादार्यखण्डे ॥२६२॥
 येनोक्तो धर्मसार सुरशिवगतिदस्त्यक्तदोषो गुणाधि
 द्वेषा हिंसादिदूरो गृहिजनमुनिभिर्वर्ततेऽद्यापि नित्यम् ।
 स्थास्यत्यग्रेऽत्र नून परमसुखकरो यावदस्यावधि स्यात्
 कालस्यासौ जिनेशो मम हरतु भव वन्दित सस्तुतश्च ॥२६३॥
 जल्पितेन बहुना किमाश्रयेद्वीरनाथ इह यो मया स्तुत ।
 मे ददातु कृपयाञ्च सोऽद्भुतान् मुक्तये निजगुणान् स्वशर्मणे ॥२६४॥
 त्रिसहस्राधिका पञ्चत्रिंशच्छ्लोका भवन्ति वै ।
 यत्नेन गुणिता सर्वे चारित्रस्यास्य सन्मते ॥२६५॥

इति भट्टारकश्रीसकलकीर्तिविरचिते श्रीवीरवर्धमानचरिते श्रेणिकाभयकुमारभवावली
 भगवन्निर्वाणगमनवर्णनो नामैकोनविंशोऽधिकार ॥१९॥

शरण देनेवाला है, इन्द्रादिकोके द्वारा पूज्य है, स्वर्ग और मोक्षका मूल कारण है, एव परम पवित्र है, वह कालके अन्त-पर्यन्त इस आर्यखण्डमे सर्वत्र प्रसिद्धिको प्राप्त हो ॥२६१॥ यह चरित्र सुन्दर अर्थसे सयुक्त है, धर्मका बीज है, इन्द्रियोके विषयोसे विरक्तिका उत्पादक है, सत्यार्थ गुणोसे युक्त है, निर्मल है, रागके नाशका कारण है, कर्मोका विनाशक है, ज्ञानका मूल है, निर्मल मुनिजनोके गुणोसे पवित्र है, और अतुल गुणोसे गहन है ॥२६२॥ जिस वीर प्रभुने स्वर्ग और शिवगतिका देनेवाला, दोषोसे रहित, गुणोका समुद्र, हिंसादिसे दूरवर्ती परम अहिंसामयी धर्मके सारवाला यह धर्म गृहस्थ और मुनिके रूपसे दो प्रकारका कहा है, जो आज भी गृहस्थ और मुनिजनोके द्वारा नित्य प्रवर्तमान है और आगे भी नियमसे प्रवर्तमान रहेगा, वह परम सुखका करनेवाला जैनधर्म जब तक इस कालकी अवधि हो, तब तक सदा प्रवर्तमान रहे । इस धर्मके उपदेष्टा, एव मेरे द्वारा वन्दित और सस्तुत वे जिनेन्द्र देव मेरे संसारको हरे ॥२६३॥ इस विषयमे अधिक कहनेसे क्या, जिन वीरनाथका मैने आश्रय लिया है, और इस ग्रन्थमे मैने जिनकी स्तुति की है, वे कृपाकर शीघ्र ही अपने अद्भुत गुणोको मुक्ति और आत्मीय सुखकी प्राप्तिके लिए मुझे देवे ॥२६४॥

श्री सन्मतिके इस चरित्रके यत्नसे गणना किये गये सर्वश्लोक तीन हजार पैंतीस है । अर्थात् मूल सङ्कृतचरित्र तीन हजार पैंतीस (३०३५) श्लोक प्रमाण है ।

इस प्रकार भट्टारक श्री सकलकीर्ति-विरचित इस श्रीवीरवर्धमानचरितमे श्रेणिक राजा, और अभयकुमारकी भवावली तथा भगवान्के निर्वाण-गमनका वर्णन करनेवाला यह उन्नीसवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥१९॥

परिशिष्ट

१. श्लोकानुक्रमणिका

अ श्लो	अ श्लो	अ श्लो
[अ]		
अकम्पनादयो भूपा २ ६५	अतो देव नमस्तुभ्य ९ ८१,	अथ तस्मिन् खगाद्रा- ३ ७१
अकम्पनोऽन्धवैलाख्य १९ २०७	१९ ३८, १५ ६८, १५ १६२	अथ ते सप्ततत्त्वा हि १७ २
अकारणजगद्बन्धवो १ ६४	अतो देव वय कुम ८ ९४	अथ ते सामरा देवा- १५ २८
अकृच्छायामराधीशा १५ ३८	अतो देव विधेहि त्व १९ ३१	अथ दु षमकालाख्य १८ ११९
अग्निवाहननामामित- १४ ५६	अतो देवात्र कि साध्य १९ ३६	अथ देवगति पञ्च १९ २२२
अङ्गाङ्गबाह्यसद्भाव- १९ १५१	अतो दुगतिनाशाय ४ २२	अथ नाथ भवद्वाक्याशु- १९ १४
अजीवतत्त्वमादेय १७ ४९	अतो धीर कुरूद्योग १२ २५	अथ नाथ वय घन्या १९ ८८
अज्ञानतपसाथासौ २ १०५	अतो न क्षीयते यावत् ३ १२	अथ पुद्गल एवात्र १६ ११५
अज्ञानतपसा मूढा १७ ९१	अतो ये विषयासक्ता ५ ९६	अथ प्राग्घातकीखण्डे ४ ७२
अज्ञानेन कृत पाप १०.९३	अतो विचक्षणै कार्य ४ १०२	अथ मङ्गलधारिण्य ८ २
अज्ञानोच्छित्तये ज्ञान- १६ ३	अतो वैषयिक सौख्य ५ ९	अथ मोहाक्षयान्त्रौघा- १२ २३
अटवीग्रामखेटादीन् ५ १७, ४ १०८	अतोऽस्माभिन बोध्यस्त्व १२ १०	अथवा निखिला जीवा १७ ४७
अटाद्युभूननाथाना ८ ९१	अतोऽहमधुना छित्वा ५ १०३	अथवा महतो योगाद् १५ ११७
अणुस्कन्धविभेदाभ्या १६ ११७	अतोऽह च क्व गच्छामि ३ १२९	अथवा मोहिना तत्कि ३ २९
अत काल विना ते १६ १३८	अतोऽस्य परम धैय ४ ५३	अथवा सूक्ष्मसूक्ष्मादि- १६ ११८
अत पुण्यात्मिके पुण्य ७ ८५	अत्यन्तदुलभो बोधि- ११ ११३	अथवा स्वगसाम्राज्य ६ १५३
अत स्वामिन् नमस्तुभ्य १२ २७	अत्यन्तमोहित पाप- १७ ६९	अथवाहमिहानीत ६ ११३
अतस्तत्र मुनीन्द्र २ २२	अत्यासन्नभवप्रान्ते १५ ८०	अथ शाप्ते जन- १९ २, १२ ९२
अतस्त्व त्रिजगत्स्वामी १५ १५३	अत्र तेषा समस्ताना ३ १२८	अथ सद्घातकीखण्डे ५ ३५
अतिकायो महाकाय १४ ६०	अत्र नाथ नम- १० ३६, १३ ८०	अथ सारस्वता देवा १२ २
अतीता मेऽपरेऽनन्ता १ ३६	अत्र नि सङ्गनिश्चेल १९ १४४	अथ सौधर्मकल्पेश ८ ६९
अतीव रूपसौन्दर्य- ७ ३७	अत्र सकल्पिता कामा ६ १२०	अथ सौधर्मकल्पेशो ७ ४२
अतीव कामसेवान्ध १७ १००	अत्रापि पूर्ववद् ज्ञेया १४ १६२	अथ सौधमनाकेशो ९ ८
अतो गत्वा करोम्याशु १५ ११२	अथ कालत्रयोत्पन्न १५ १०२	अथ स्वामी महावीर ११ २
अतो गत्वा विधेहि त्व ७ ४४	अथ काश्चिच्च धात्र्यस्त्व १० २	अथातो निगते सूनी १२ ६९
अतो न जल तीर्थ १५ १८५	अथ गौतम धीमस्त्व १८ २	अथान्यदा निजोद्याने ३ १८
अतोऽत्यल्पयाषुषा नैवा- १० ८७	अथ चेटकराजस्य १३ ८४	अथान्येद्युमहावीर १०.८१
अतो धर्मसमो बन्धु ६ १५४	अथ जम्बूद्रुमोपेतो २ २	अथान्येद्यु स कालाप्या ५ २
अतोऽत्र शास्त्रकर्तृणा १ ७१	अथ जम्बूमति द्वीपे ४ १२१	अथान्येद्यु सुरा प्राहु १० २३
अतोऽत्रासन्नभव्याना १६ ६४	अथ जम्बूवाह्ये द्वीपे ५ १३४	अथाभिषेकसपूर्णे ९ ४८
अतोऽत्रेद जगत्पूज्य २ ८८	अथ तत्केवलोत्पत्ति- १४ २	अथासौ कमशत्रुघ्न १२ १३७
	अथ तज्ज्ञानपूजायै १४ १२	अथासौ गौतमस्वामी १६ २

अथासौ त्रिजगत्स्वामी	२ ९२	अद्राक्षीद् रत्नराशिं च	७ ६८	अन्ये ते गणनातीता	१५ १५९
अथासौ भगवान् वध-	१३ ९९	अधीत्य जैनसिद्धान्त	४ १२५	अन्येद्युर्भार्यया साध	४ ८२
अथास्मिन्नादिमे द्वीपे	३ ६१	अधुना यद्यनेनामा	१५ १११	अन्येद्युवत्सदेशस्य	१३ ९१
अथास्मिन् मागधे देशे	३ ६	अधो वेत्रासनाकारो	१८ १२६	अन्येद्यु शरदभ्रस्य	३ १०
अथास्मिन् भारते रम्ये	३ १२१	अनन्तकालपर्यन्त	१७ ८०	अन्येद्यु स्वगुणोत्पन्न-	१०, ३९
अथाहमेव धन्योऽहो	१८ १४४	अनन्त केवलज्ञान	१५ १५२	अन्ये घीरा भजन्ति स्म	७, ७६
अथेह प्राक्तने रम्ये	२ १२५	अनन्तगुणवाराशे	१८, २७	अन्येऽपि बहवो भूता	१ ५६
अथेन्द्रभृतिरेवाद्यो	१९ २०६	अनन्तगुणशमद्वि	११, ११२	अन्ये सुपात्रदानेन	२ ५३
अथेह भारतस्यार्ध-	१८ ८५	अनन्तजन्मसतान	६ २९	अन्यैरन्तातिगौर्दिव्यै	१९ ८०
अथेह भारते क्षेत्रे	७ २, २ ५०, ३ ११७	अनन्तदर्शिने तुम्य	१५ ७०	अब्धिना केवलज्ञानी	७ १००
अथेह भारते पुर्या	२ १०७	अन तदु खसतान-	६ २१	अभक्ष्या सर्वथा	१८ ५३
अथेह मगधे देशे	३ २	अनन्तमहिमारूढो	१४ १८३	अभीक्षणभङ्गपूर्वादि	६ ८२
अथेह विजयार्धोत्तर-	३ ६८	अनन्तसुखसलीना	११ ११०	अभूर्मरीचिनामेह	४ २७
अथैकदा नरेशोऽसौ	५ ७४	अनन्त परम सौख्य	१५ १५६	अभ्यन्तर तप सर्व	१२ ५०
अथैकदा महादेवी	७ ५९	अनघ मृत्युपर्यन्त	४ ११०	अमीभिरष्टभि सारै	६ ७९
अथैकदा स धर्मार्थ	६ २	अनन्यविषया एते	१९ ६१	अभीमिलक्षणै सारै	६ १५
अथैतस्य वियोगेन	३ १४७	अनन्यशरणानन्यान्	१७ २०३	अमीषा लोकपालाना	६ १३३
अथैवात्र पुरे रम्ये	२ ११२	अनर्घ्यदृष्टिचिद्वृत्त-	९ ७२	अमीषा वचसा दक्षा	१ ६८
अथैष नारक इवभ्रा-	४ २	अनर्घ्यमणिकोटीना	१३ २५	अमी विशतिदेवेन्द्रा	१४ ५७
अथैषोऽस्तीव शक्तोऽपि	१३ २	अनर्घ्यस्तत्प्रणीतोऽय	१८ १४५	अमुत्र येन जायन्ते	४ ८८
अथोत्पत्य गुणस्थान	१३ १२४	अनादिकमजल्लादीन्	१ २३	अमूनि प्रोक्तमान्यत्र	११ १२४
अथोत्पेतुनभोभाग	८ ९७	अनाहता पृथुध्वाना	८ ६४	अमूर्तान् मनसा ध्येयान्	१ ३९
अथोल्लङ्घ्य प्रतोली	१४ १४९	अनित्याशरणे ससा-	११ ३	अमूर्स्तीर्थेशसद्भूति-	६ ९७
अन्तराया इमा घाति-	१३ १२७	अनिवार्या भवत्कीर्ति	१० ३४	अम्लानकुसुमैर्वृष्टि	८ ६३
अयकारोऽप्यहो लोके	३ ४१	अनिष्टयोगज स्वेष्ट	६ ४७	अयमेव जगन्नाथ	१६ ८९
अपवित्रेण देहेन	११ ६३	अनिष्ट यद्भवेत्त्रस्य	१७, ३३	अय प्रासुक आहारो	१३ १९
अपर च महद्दु ख	४ ३२	अनुभूय महादु ख-	४, ४	अयस्तन्महता वीर	९ ८९
अपराह्णे स्वयोग्यानि	४ १३३	अनेन स्तवसद्भूक्ति-	१९ ४३	अर्ककोतिस्तयो सूनू	३ ७५
अप्रमाणैगुणैश्चान्यै	१० २१	अनेन स्तवनेनात्रा	१२ ३१	अर्थरूपेण पूर्वाह्णे	१८ १६४
अदन्तधावन राग-	१८ ७६	अनेन स्तवनेनेज्य	१२ १३३	अर्थादय धर्मबीज	१९ २६२
अद्य जन्माभिषेकेण	९ ७७	अन्तावस्था ममायाते	१९ १२३	अर्थोत्थमवगाढ	१९ १४२
अद्य देव वय धन्या	१५ ६२	अन्धा मूका कुरूपाश्च	१७ १७	अहता गुणराशिका	१९ ६
अद्य नाथ वय धन्या	६ ११८	अन्यत्व स्वात्मनो ज्ञात्वा	५ ८१	अर्हद्दास स तद्गर्व-	१९ १९१
अद्य न सफल जन्म	१५ ६३	अन्यस्त्व स्वात्मनो विद्धि	११ ४४	अर्हद्भक्ता सदाचारा	१ ७३
अद्य प्रभृति तेनास्ति	४ ४८	अन्यदा धमगोष्ठीभि	५ १३२	अर्हद्भानूदये यद्वत्	७ ७९
अद्य प्रवतते देव	८ ९३	अन्यदा नतन चित्र	१० ४०	अवगाह्याङ्गवाचि च	१९ १५०
अद्य मेऽभून्मन पूत	१९ ९१	अन्यानि शुभपाकानि	१ ८१	अवसर्पात्समास्या	१८ ८७
अद्य मे सफळे नेत्रे	१९ ८९	अन्या माता पिताप्यन्यो	११ ४५	अविद्धच्छिद्रयोश्चार	९ ५४
अद्याह सुकृतीभूतो	१३ ११	अन्ये च बहवो भव्या	१८ १५०	अप्याबाधा अरिष्टा	१२ ३
				अशीत्यग्र सहस्र स्यु	१४, १२३

अशुद्धनिश्चयेनासौ	१६, १०५
अशुभप्रकृतीना स्या-	१६ १६१
अशोकवनमध्ये स्या-	१४ १२२
अशोकसप्तपर्णारिय-	१४-१०८
अश्रुत परयोषादि	१०० १०४
अश्वग्रीवाभिधो धीमा-	३ ७०
अश्वग्रीवोऽपि तेनाप्य	३ १०४
अश्वग्रीवोऽधचक्री च	१८ ११४
अश्ववाहनमारूढ-	१४ ४२
अष्टकर्माङ्गनिमुक्ता	१६ ३४
अष्टमीन्दुसमाकार-	७ ३६
अष्टम्या च चतुदश्या	४ १२९
अष्टम्या यच्चतुर्दश्या	१८ ५६
अष्टमे वत्सरे देवो	१० १६
अष्टादशसमुद्रायु-	५ १२६
अष्टादशसहस्र-	५ ५४
अष्टादशसहस्रप्रम-	६ ८१
अष्टादशसहस्राब्दै-	५ १२७
अष्टादशसहस्रौघ-	१३ १०२
अष्टानवतिभेदादि-	१६ ४९
अष्टाविमा महादेव्यो	६ १३४
अष्टाशीत्यङ्गुलान्येषा	१४ १४०
अष्टोच्छ्रिता पवित्राङ्गा	८ ११९
अष्टोत्तरसहस्रप्रमै	१० १९
अष्टौ मगलवस्तुनि	८ ८५
अष्टौ स्पर्शास्तथा देव	१९ २२४
असमगुणनिधान	१४ १८६
असख्यनृसुराराध्यो	८ १८
असख्यसख्यविस्तारा	६ १२६
असख्यातप्रदेशी	१६ १०४
असख्याता स्वदेव्याढ्या	१४ ५३
अस्माक प्राणसदेहो	२ ८१
अस्मिन् वनान्तरेऽभूवन्	१४ १३३
अस्यादौ द्विकरोत्सेधा	१८ १२३
अस्याऽऽसन् परपुण्येन	५ ५०
अस्यास्तोरणमाङ्गल्य-	१४ १४८
अस्या मम प्रतिज्ञाया	१५ ९६
अहमिन्द्रपद केचित्	१९ २८
अहमिन्द्रसुरेशादीन्	४ १००
अहमिन्द्रादयो देवा	१६ १७९

अह चोपरि गच्छामि	३ २३
अहिंसादीनि साराणि	१८ ७४
अहिंसालक्षणो धर्मो	२ ९
अहिंसासत्यमस्तेय	४ ९०
अहो ईदक् तप कर्ता	२ १०६
अहो एष जगद् भर्ता	२ ८०
अहो एष मयोपायो	१५ ८५
अहो केय धरा निन्दा	३ ११९
अहो कोऽह सुपुण्यात्मा	६ १०८
अहो दृग्ज्ञानवृत्तादि-	५ ५
अहो धिगस्तु मोहोऽय	३ ३६
अहो तीर्थेशिनामेषा	१६ ३१
अहो परहितार्थेष	४ ९८
अहो पश्य पितृव्योऽय	३ २८
अहो पश्य महच्चित्र	१२ ६१
अहो पश्येदमत्यन्त	७ ५३
अहो पश्येदमत्रैष	१३ ३२
अहो पुण्यविधि पुसा	१३ ९५
अहो प्रभो सुमाहात्म्य	१२ ४८
अहो भुक्ता जगत्सारा	५ ९५
अहो मध्ये मुनीशाना	१५ ८१
अहो मन्येऽहमत्रैव	१५ १०९
अहो मया पुरा घोर	६ १४९
अहो मया पुरा जीव	३ १२२
अहो मिथ्यात्वमार्गोऽय	१८ १२३
अहो यथेदमत्र हि	३ ११
अहो यथेह लभ्यन्ते	१३ २९
अहो वृत्तेन येनैष	६ १५७
अहो वृथा गतान्यत्र	१० ८४
अहो वीर जिनस्वामी	१० २४

[आ]

आकण्य तद्वच केचित्	१३ ३४
आकर्ण्य तद्वचो योगी	४ ८५
आकिञ्चन्यमनुष्ठेय	६ १३
आकिञ्चन्य महद्ब्रह्म-	१८ ८१
आक्रन्ददु खशोकादीन्	१७ १२०
आक्रम्य मागधादीश्च	५ ४७
आकृष्टा धममन्त्रेण	११ १२८
आगच्छन्ती नृपो वीक्ष्य	७ ९०

आगत्योत्क्षिप्य त केचित्	३ ३४
आचार्याणा गणाचार्याना	६ ९०
आचार्यादि-मनोज्ञान्ताना	६ ४४
आचार्योऽध्यापक शिष्य	६ ८७
आचार्योक्त श्रुत सम्यक्	१ ७४
आचाराख्यादिमाङ्गोक्त	१९ १४६
आजगाम सुरै साध	१२ ८७
आजन्मान्त प्रपाल्योच्चै	२ ३७
आज्ञाख्य मार्गसम्यक्त्व	१९ १४१
आज्ञापायविपाकाख्य-	६ ५१
आज्ञैश्वर्यादृते शक्र-	१४ २८
आतापनादियोगेषु	१८ १५८
आत्मन स्यात्पृथग्भूत	११ ४७
आतापनादियोगोत्थान्	१२ ९७
आदशप्रमुखा अष्टौ	१९ ७७
आदिकल्पाधिपो देव	७ १२३
आदितीर्थकरोत्पन्न-	३ ८८
आदितीर्थकरोत्पत्तौ	२ ५७
आदौ त मुक्तिभर्तार-	१२ ३८
आदौ ता शिबिकामूह	१२ ४६
आदौ दृष्टिविशुद्धचर्थ	६ ६२
आदौ मूलगुणान् सम्यक्	१८ ७९
आदौ समयसार स	९ ११४
आद्यक्षमान्तावधिज्ञान-	४ ६७
आद्यन्तदु खसन्मिश्र-	१२ ११३
आद्य सहनन तस्य	१० ६२
आद्या कषायचत्वारो	१३ ११०
आद्याद्विगुणसख्याता	१४ ३५
आद्यादिसप्तमान्त	१७ ७२
आनतेन्द्रादय शेषा	१४ ४७
आनन्दनाटक दिव्य	९ १११
आपादमस्तकान्त	१६ १७४
आमनन्ति मुनीन्द्रास्त्वा	८ ९०
आयाते मन्दता यौवन-१०	१०२
आयान्ती सा नभोभागा	१५ ३
आयुर्नित्य यमाक्रान्त	११ ५
आयुर्विश्ववपुर्भोग-	५ ७७
आतरोद्रातिदुर्घ्यानि	१७ ५
आराधिता जगत्पूज्या	६ १७
आराध्याराधना सर्वा	४ ११२

आर्या आयस्वभावेन	१८ ९३
आर्यिकाश्चन्दनाद्या षट्	१९ २१३
आरुरोह मुदा शक्र-	१२ ४४
आरुह्य शिविका गत्वा	२ ७३
आशाक्षयकर वृत्ति-	६ २४
आस्थानमण्डले चास्य	१९ ६६
आसाद्यानु निज स्थान	४ ६५
आसा सन्त्यत्र प्रत्येक	६ १३५
आसीत्स्मागुणेनासा-	१३ ५२

[इ]

इच्छन्ति नाकिनो यस्या-	२ ६३
इतस्तत् स्वदोजलि	९ १३७
इति कुपथविपाकात्	२ १३६
इति कृत्वा स्तुतिं तस्य	१३ ८१
इति गाहस्थ्यधर्मेण	१८ ७३
इति चतुर्विधो बन्धो	१६ १६६
इति क्षणक्षणोत्पन्नो	१६ १६३
इति ज्ञात्वा दृढीकाय	१८ १३
इति तद्बोधन श्रुत्वा	१९ १९६
इति तद्वचनस्यान्ते	१९ १७०
इति तन्नियम श्रुत्वा	१९ ११३
इति तन्वन् मुदात्मीय	९ १२८
इति तत्प्रश्नतोऽवादी-	४ ३८
इति तद्वचसा त्यक्त्वा	२ ३१
इति तद्वचसा भीता	२ ८९
इति तद्वाक्यमाकण्य	४ ९७
इति तददुर्वच श्रुत्वा	३ ५३
इति तत्सकथा श्रुत्वा	१९ २०४
इति तत्सारमाङ्गल्य-	७ ८६
इति तस्योक्तमाकण्य	६ २०
इति ताभि प्रयुक्ताना	८ ५३
इति तेनोक्तसद्वाप्ये	३ ८०
इति तेपे चिर वीर	१३ ५१
इति दातृगुणान् सप्त	१३ २१
इति द्वादशकल्पेन्द्रा	१४ ४८
इति द्वादश भेदानि	६ ५५
इति धर्मात्तित्तोऽसौ	५ ३०
इति परमविभूत्या तीर्थ-	८ १२६
इति पापफल ज्ञात्वा	१७ २२

इति प्रश्नवशाद्देवो	१६ २६
इति प्राथ्य तदादेश	३ २५
इति बर्हादिकेष्वेषु	१४ १२२
इति भगवति वृत्ता	१३ १३३
इति मत्वा क्वचित्पाप	१० ९४
इति मत्वा न कत्तव्य	२ १३५
इति मत्वा बुधै कार्य	६ १५६
इति मत्वा बुधैरादौ	१८ १४३
इति मत्वा स पापात्मा-	१९ १६५
इति मोहमहाराति	१३ १२३
इति विगतविकारा	११ १३४
इति विगतविकारो	१२ १३९
इति विबुधपतीड्यो	१५ १७०
इति विशदगिरासौ	१७ २०८
इति वृषपरिपाकाद्	१८ १६९
इति वृषपरिपाकादाप्य	६ १७४
इति लोकत्रय ज्ञात्वा	११ १११
इति शक्रोक्तित पूव	१९ ४६
इति शिवगतिहेतुन्	१६ १८३
इति शुभपरिणामा-	१० १०६
इति शुभपरिपाकान्न्द-	५ १४७
इति श्रीजिनवक्त्रेन्द्र-	१८ १३१
इति सकलसुयुक्त्या	१ ८६
इति सख्यान्विता	१९ २०९
इति सबोधनोपायै	१९ १८९
इति सर्वपदार्थाना	४१ ७६
इति सुकृतविपाकात्	४ १४१
इति सुकृतविपाकात्प्राप	९ १४३
इति सुचरणयोगाद्	३ १४९
इति सुचरणधर्माच्छम-	७ १२४
इति सुचरणयोगाच्छर्म-	१९ २५०
इति स्तुतिनमस्कार-	१५ ७४
इति स्तवननमस्कार-	१५ ११६
इति स्तुत्वा जगन्नाथ	१२ ३३
१५ ७६, १९ ९३	
इति स्तुत्वा तमम्यर्च्य	१२ १३५
इति स्तुत्वा महावीर	१० ३७
इति हेयमुपादेय	१७ ५३
इतीष्टप्राथना कृत्वा	९ ८८
इतोऽभुत प्रधरवन्ति	१२ ५५

इतोऽस्मिन् भारते क्षेत्रे	४ ३५
इत्यत्र कालदोषेण	१ ५३
इत्यनर्घ्यमहादिव्यै	१५ १९
इत्यनासाद्य य धम	११ ३३
इत्यन्योन्यमहोवाचो	१५ ९८
इत्यन्यैश्च शिशुचेष्टौघै	१० ११
इत्यभिष्टुत्य गूढाङ्गी	८ ८०
इत्यभिष्टुत्य तौ देव	९ १०३
इत्यमा पुण्यपापाम्या	१७ ४४
इत्यसौ मार्गशीषस्य	१२ ९९
इत्यमीषा च सम्यक्	७ १०४
इत्यसाधारणैदिव्यै	९ ५८
इत्यस्य ध्वनिना चक्री	५ ९४
इत्यसौ विविध पुण्य	२ ४६
इत्याख्याद्वय कृत्वा	९ ९०
इत्याख्यायादिम तत्त्व	१६ ६५
इत्यादिचिन्तमानस्य	६ ११४
इत्यादिचिन्तनादाप्य	३ १२१
६ २८, ५ ११, ३ १३	
इत्यादि चिन्तनात्प्राप्य	१८ १४६
इत्यादि तद्वच श्रव्य	१२ ८४
इत्यादि तद्वच श्रुत्वा	६ १४७
इत्यादि चिन्तनोत्पन्नै	३ १३०
इत्यादि निन्द्यकर्माणि	१७ १४
इत्यादि परमान् भोगान्	२ ४८
इत्यादि परमाधारा-	१२ ४९
इत्यादिवचनालापै	१२ ६७
इत्यादिवचनैस्तस्य	१९ १८०
इत्यादिवर्णनोपेत-	२ ५६, ७ १०
इत्यादिवर्णनोपेत	१४ २५
इत्यादिबहुधा जीव-	१६ १४४
इत्यादिविविध ज्ञात्वा	१७ ४३
इत्यादिविविध पुण्य	४ ६६
इत्यादिविविधाचारै	४ १३९
इत्यादिविधाश्चय-	७ ११५
इत्यादिविविध घोर	३ १४०
इत्याद्यखिलसामग्री	११ ११९
इत्याद्यनेकसस्थान	१८ १२७
इत्याद्यन्यतर घोर	५ २१
इत्याद्यन्यतर वस्तु	११ ५१

इत्याद्यन्यतरै रम्यै	१० ७७
इत्याद्यन्यै शुभाचारै	१७ ८८
इत्याद्यपरसामग्र्या	१३ १०५
इत्याद्युपद्रवैर्घोरै	१३ ७२
इत्यादेश स यक्षेशो	७ ४५
इत्याद्यन्यत्रशस्त च	४ १०९
इत्याद्यन्यन्महादु ख	३ १४४
इत्याद्यन्यायकर्मौघै	५ १३३
इत्याद्यौगुणै सारै	१ ६७
इत्याद्यन्तातिगैर्विश्वै	१ १०
इत्याद्यपरद्रुष्कम	१७ ७६
इत्याद्यपरसच्छ्रोतृ	१ ७६
इत्याद्या परमा शोभा	१० ६०
इत्याद्या बहुधा ज्ञेया	१६ १५५
इत्याद्यै परमाचारै	५ ११३
इत्याद्यै परमोत्साहै	८ ५९
इत्याद्यैर्बहुभि क्रीडा-	१० ४३
इत्याद्यैरपरै कृत्स्नै	७ ३८
इत्याद्यैरपरैदिव्यै	८ १२
इत्याद्यैर्लक्षणैर्दिव्यै-	१० ७३
इत्याद्यैर्विधैर्दिव्यै	९ २७, ९ १३९
इत्याद्यैर्विधैर्घोरै	४ १७
इत्याद्यैर्विधैर्योगै	६ ४०
इत्याद्यै शुभकर्मौघै	७ ७७
इत्याद्यै स शुभाचारै	५ ७२
इत्याद्य गभकल्याण	७ १२२
इत्यालोच्य हृदा श्रीमान्	१५ ८७
इत्याविष्कृतमाहात्म्ये	१२ ५७
इत्याद्यचर्यैर्विबुध्यै	१४ ११
इत्यासाद्येह सामग्री	१९ १३
इत्युक्त्वाता स	१९ १२०
इत्युक्त्वा प्रथम चक्रु-	१९ २४५
इत्युक्त्वा लिङ्गिन सर्वे	२ ८२
इत्युक्त्वा स्नानवाप्या स	६-१५९
इत्युक्त्वासौ सभामध्ये	१५-११५
इत्येकत्व परिज्ञाय	११ ४३
इत्येतस्या गुणान् ज्ञात्वा	११ ८७
इत्येतैर्विधिभेदै स	१३ १५
इत्येव धममाहात्म्य	६ १८

इत्येव धममूल स	५ १४४
इत्येषा दिक्कुमारीभि-	८ १३
इत्येषोऽतिशयैर्दिव्यै	१९ ७९
इत्थ गन्धोदकै कृत्वा	९ ३७
इत्थ पापफलादीन् स	१७ २३
इत्थ प्रसाध्यमान त	९ ६१
इत्थ योगिमुखेन्दूद्भव	४ ४९
इत्थ योज्ज निहृद्य	१३ १३६
इत्थ श्रीजिनपुङ्गवो	१४ १८४
इत्थ स चिन्तयन् दूरा-	१५ ११८
इत्थ सदेव सिद्धान्त-	१ ६१
इत्थ सद्रक्त-सच्छ्रोतृ	१ ८३
इत्थ स विविधाचारै	१२ ६८
इत्थ सोऽद्भुतपुण्येन	१० ४६
इद रत्नत्रय साक्षात्	१८ २५
इदानी त्व चिरायात	४ ४०
इन्द्राणीप्रमुखा देव्यो	९ ११
इन्द्राद्या परया भूत्या	२ ९५
इन्द्रियार्थादिवस्तौघे	६ ९
इन्द्रियैयै पदार्थादीन	११ ४९
इम मिथ्यात्वदुर्माग	१८ १३८
इम श्रावकधम ये	१८ ७१
इमान् गजादिवह्नयन्तान्	७ ९३
इमामन्या परा लक्ष्मी	५ ६१
इमान्यावश्यकान्येष	६ ९४
इयन्ति मे दिनान्यत्र	५ १०४
इह जम्बूमति द्वीपे	१९ ९८

[ई]

ईदृश स तदुच्छित्यै	३ ५५
ईदृशा स्वगजा भोगा	१२ ६४
ईदृशी सकला शक्ति	१२-३२

[उ]

उत्कृष्टश्रावकाषा सद-	४ ४७
उत्कृष्टा भोगभूरेषा	१८-९४
उत्कृष्टो बहिरात्मा	१६-९४
उत्खातासिकरा काश्चि-	८-५
उच्छलन्त्यो विरेजुस्ता	९ २२
उच्छ्वासो द्विविहा-	१९ २१५
उत्तमाद्या क्षमा माद्व	१८ ८०

उत्थाय शयनात् केचित्	७ ७४
उत्थाय शयनात् प्रात	४ १३०
उत्पत्याशु पुनस्तस्माद्	३ ११७
उत्पाटयन्ति केचिच्च	३ १३२
उत्पादयन्ति वा प्रीतिं	१७ १२७
उद्यमेन प्रगच्छन्त	१४ ३८
उद्यान फलित क्षेत्र	१० ७०
उद्योत स्थावर सूक्ष्म	१३ ११६
उद्योताद्या अमी स्यु	१६ १२५
उपयोगमयो जीव	१६ १०३
उपवासान्धिरारम्भान्	५ १४१
उपाज्य परम पुण्य	१२ ३४
उपाज्यैको महत्पुण्य	११ ४०
उमया कान्तया साध	१३ ८२
उन्मत्ता विकला यद्गू-	१८ १३६
उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यो	११ ३०
उवाचेद ततो योगी	१९ १३८
उद्वेल च महाध्वान	७ ६६

[ऊ]

ऊर्ध्वमुच्छालयस्ता खे	९ १३६
-----------------------	-------

[ऋ]

ऋषिकेवलियत्पाद्या	२ ५४
-------------------	------

[ए]

एकग्रासादिनानेक-	६ ३३
एकत सकल पाप	२ १३४
एकयोजनविस्तीर्ण	१४ ६९
एकरूप क्षणाद्दिव्यो	६ १२६
एकरूपो यथामेध	१५ १५
एकशाला द्विशालाद्या	१४ १११
एकहस्तोच्छ्रितास्ते	१८ १२४
एकाक्षद्वित्रितुयैर्द्वय	१३ ११५
एकाक्षाणा चतु प्राणा	१६ १०६
एकाकिन विदित्वा स्व	५ ८०
एकाकी जायते प्राणी	११ ३५
एकाकी सिंहवन्नित्य	५ १६
एकाकी सिंहवद् रात्रा-	१३ ४०
एकाण्वपेक्षया न स्यात्	१६ १२८
एकादशप्रमैर्मासै	६ १६९
एकातरेण तेषा स्य -	१८ १००

एकान्तान्वतमो हन्तु-	६ ९२
एकेन समयेनैव	१९ २३८
एकैकस्या दिशि ज्ञेया	१४ ११९
एकैकस्या हि देव्य	६ १४३
एकोऽणु सूक्ष्मसूक्ष्म	१६ १२०
एको य कुरुते पाप	११ ३८
एको रोगादिभिग्रस्तो	११ ३६
एको हत्वा स्वकर्माग्नीन्	११ ४२
एतत्सवन्नताना च	१८ ३९
एतद्दान पर पुसा	१३ २८
एतद्दु खनिवारक	३ १५०
एतद्द्रव्यत्रय सर्व	१८ ३०
एता द्वादश भावना	११ १३४
एतान् प्रक्षाल्य चिन्नीरात्	६ ७७
एतान्यथ प्रतिबिम्बानि	१५ १४२
एता वल्लभिका देव्य-	६ १३६
एता विभूतयो दिव्या	६ १४५
एतास्ते नि स्पृहस्याष्ट-	१५ १५८
एते चतुर्णिकायेशा	११ ६४
एते तीर्थकरा ख्याता	१ ३५
एते मुनीश्वरै सेव्या	११ ७७
एतेषा निश्चय कृत्वा	१६ १९५
एतेषा लक्षण जातु	१५ १०८
एते सामानिका देवा	६ १२८
एतैर्द्वादशसख्यानै	१९ २२७
एतै पञ्चशतै शिष्यै	१५ ९५
एतैभूताथनामौघै	१५ १४१
एतैरष्टगुणै कृत्वा	६ ७१
एत्य तस्मादिहोत्पन्न-	४ २१
एव चतुरशीतिप्रमलक्षा	१६ ५२
एव बाह्य स षड्भेद	६ ४१
एव शेषवनेषु स्यु	१४ ११६
एव सप्तवृषानीका	१४ ३६
एषा परिग्रहाणा च	१८ ४६
एषान्त परिषत्तेऽस्ति	६ १३१
एहि ह्येहि जगत्स्वामिन्	१० ४

[ऐ]

ऐक्य जानाति यो मूढ	१६ ७१
ऐशानेन्द्रोऽपि सानन्द	९ ९

[क]

कल्पाद्या प्राक्तनास्ते	२ ९६
कटीतटे बबन्धास्य	९ ५६
कण्ठ सा मणिहारेण	९ ५५
कदलीगभसादृश्य	७ ३१
कदाचित्कानने तस्मिन्	२ २०
कदाचिज्जलकेलीभि	८ १०
कदाचित्तस्य सजाते	१९ १०९
कदाचित्त मृगैकस्य	४ ६
कदाचिद् वृषभ स्वामी	२ ७२
कनत्काञ्चनभृङ्गार-	१५ ३९
कनत्काञ्चनवर्णाभि-	१० २२
कनत्स्वणमयै कुम्भै	९ १४
कपिलादिस्वशिष्याणा	२ १०३
कराभ्या सुन्दरश्छि-	१९ १७६
करोति जगदान द	१ १८
करोति तत्फलेनैव	१९ १६६
करोति पञ्चभेद	६ ४५
करोति महती पूजा	५ १४२
कत्तव्य मार्दव दक्षै	६ ६
कमणा सवरो येषा	११ ७८
कम-नोकमणा कर्ता	१६ १०६
कर्ममल्लविजेतार	१ २९
कर्मभ्य कर्मकार्येभ्य	१६ ७८
कर्माक्षेभ्योऽपरो वैरी	१८ १०
कर्मागममहद्द्वार	११ ६९
कर्माणि कर्मकार्याणि	११ ४८
कर्मारयोऽस्य भीत्या	१३ १११
कर्मारतिविजेतार	५ १
कर्मास्त्रवेण जीवाना	५ ८३
कलकण्ठा सुमाङ्गल्य-	७ ७१
कल गायन्ति किन्नर्य	९ १२०
कल्पकल्पातिगेष्वेव	११ १०४
कल्पवृक्ष सपुण्याना	१८ ९२
कल्पशाखिभवैर्नाना	१५ ४६
कल्पात्तिपस्य शाखासु	९ १३२
कषायेन्द्रिययोगाना	१७ २५
कस्येद सप्तधानीक	६ ११०
क शत्रुविषयो योऽत्र	८ ४४
क सुखी जगता मध्ये	८ ४०

क सुहृत्परम पुसा	८ ४३
का इमा ललिता देव्यो	६ १०९
काकमासनिवृत्त्याप्ता-	१९ ११७
कातरत्व च धीरत्व	१६ १८
कातरत्व प्रकुचन्ति	१७ १७९
का त्व वा हेतुना केन	१९ ११५
कानि पापस्य कतृ णि	८ ३२
कानि सप्तैव तत्त्वानि	१५ १०६
कामिनी कमनीयाङ्गा	१७ ३५
कायक्लेश भजन्नेव	१३ ४७
कायप्रमाण आत्माय	१६ १०८
कायबन्दिगृह्णाज्जीवान्	१६ १५१
कायोऽय केवल पापी	११ ५७
कायोत्सर्गासनापन्न	१७ ३१
काय मत्वा स्वकीय ये	१७ १२३
कारयन्ति पशूना ये	१७ १०२
कारयित्वा बहून् तुङ्गान्	५ ६६
कारागारसम गेह	१० १०५
कारितैर्निजदेवीभि	१० ४५
कार्तिकाख्ये शुभे मासे	१९ २३३
कार्यो धर्मोऽत्र वृद्धत्वे	४ १०१
काललब्ध्या मुदासाद्य	१८ १३२
कालशौकरिकोऽत्र	१९ १६२
कालागुर्वादिसद्-द्रव्य-	१५ ४५
कालान्ते तत्फलेनासौ	१९ १२६
काल स एव घन्तोऽत्र	१५ १५१
काव्यादि मक्षु गत्वाह	१५ ८६
काव्यार्थेनात्र जायेता-	१५ ९०
काश्चित्खे तुङ्गहर्म्याग्नि	८ ८
काश्चिदैरावती पिण्डी-	९ १३१
काश्चिद्दिव्या स्रजस्तस्यै	८ ४
काश्चिन्महानसे लग्ना	८ ३
काश्चिन्प्रात्मजा अन्या	१८ १५१
कि ध्येय धीमता लोके	८ २६
किन्तु तीर्थकरा एव	१९ १७९
किन्तु देव नियोगोऽय	१२ १२
किन्तु देवा महान्तोऽत्र	१९ १९३
किन्तु देहि भवद्भूति	१५ १६७
किन्त्वहत्तीथमेवात्र	१९ १८८
किन्नर प्रथमश्चेन्द्र	१४ ५९

किन्नय किन्नरै साध ८ १०१	कृत्स्नविघ्नौघहन्तार ७ १	को लोभी सवदा योऽत्रैक ८ ३५
कि पाण्डित्य श्रुत ज्ञात्वा ८ ४७	कृत्स्नेभ्य कमजालेभ्य १६ १७३	कोष्ठे द्वादशमे तियञ्च १५ २५
किमत्र बहुनोक्तेन ३ १२५	कृष्णलेश्याशया रौद्रा १७ ७०	कोऽह कस्मादिहायात ३ १२०
४ ९६, १० ७५, १६ २४,	कृष्णाहिनकुलादीना १९ ६४	क्रमतो वृद्धिमासाद्य ५ ४२
१८ १२८	केऽत्र पञ्चास्तिकाया १५ १०५	क्रमाच्छ्रीमन्मुखाब्जे १० ८
किमत्र विस्तरोक्तेन १६ ८१	केचिच्चतुर्णिकायस्था १८ १५४	क्रमात्प्रापु सुराधीशा ८ १०७
किममुत्र सुपाथेय ८ ३८	केचिच्छ्रीजिनवास्येन १८ १५२	क्रमात्सद्यौवन प्राप्य ३ ६६
किं मूखत्व परिज्ञाय ८ ४८	केचिच्छ्रावकधर्मेण २ ५२	क्रमात्सुधीव्रजन् मार्गे १५ ११६
किरातसैन्यरूपाद्यै १३ ७१	केचित्तद्गीतगानैश्च १४ १५५	क्रमादधीत्य शास्त्रास्त्र १ १३८
किलक्षणोऽहमेवात्मा ५ ३	केचित्तपोव्रतादीनि १८ १५७	क्रूरकमकर क्रूरो १७ ११
कि वर्ण्येतेऽस्य नेत्राब्जे १० ४९	केचित्तीर्थेशसत्कम ७ ४	क्रूरकमकरा क्रूरा १७ ६६
किं श्लाघ्य यन्महद्दान ८ ४५	केचिद् भक्त्या प्रदायोच्चै ७ ५	क्रूरा भार्या जगन्निन्दा १७ १५
किंस्वरूप विधि कोऽत्र १५ १०७	केचिद् रत्नत्रय लब्ध्वा १२ १६	क्वचि नद्य क्वचिद्वा- १४ १४६
कुड्मलीकृतपाण्यब्जा १४ ६५	केचित्स्वद्-भाक्तिका नाथ १२ २२	क्वचिद्विचित्ररत्नाशु १४ ९३
कुतीर्थे पापकर्मादौ १७ १०३	केचिद विचक्षणा वीक्ष्य ७ ५२	क्वचिद्धर्म्याणि रम्याणि १४ ११०
कुतो मे शाश्वत शर्म ५ ४	केचित्सत्पशव सिह- १८ १५३	क्वचिद्विद्रुमकान्त्याढ्य १४ ९२
कुदेवगुरुधर्मादीन् १७ १२४	केचित्सुपात्रदानेन ७ १७	क्वचिद्विद्रुमरम्याभ १४ ७२
कुबुद्ध्या येऽत्र सेवन्ते १७ ११३	केचिद्धसन्ति वल्गन्ति ८ ७२	क्वचिदालोकयन् स्वस्य १० ४१
कुमारलीलया दिव्यान् १० ७९	के चौरा दुर्धरा पुसा ८ ४९	क्वचिद्वीणादिवादित्रै ५ १३१
कुमारोऽपि क्वचित्कृष्णन् १० ३८	केन चाचरणेनात्र १६ १०	क्वचित्स्वतनुसस्थित्यै ३ ४७
कुमार भासुराकार १० २७	केन तत्त्वेन कि वात्र १६ ७	क्वचित्सुरकुमाराद्यै १० ४२
कुमार क्रीडयामास १० ३१	केन दुष्कमणा मूढा १६ ८	क्व विधेयो महान् यत्न ८ ४२
कुवन् क्रीडा स्वदेवीभि ४ ६९	केन वा कारणेनाय ६ ११२	क्षणव्यवचद राज्य १२ ११७
कुवन्ति प्रत्यह धम १७ ८७	केनापि हेतुनावाप्य ४ ३४	क्षणात्पार्श्वे क्षणाद्दूरे ९ १२७
कुवन्ति विविधान्नादान् ८ १००	केनोपायेन सोऽप्यत्रा- १५ ८४	क्षमया भूसमो दक्षो १३ ७८
कुलाद्दीर्घायुरप्राप्य ११ ११५	के पर्याया कियन्तो वा १६ ५	क्षीराब्धिपय पूर्णै १२ ३९
कुशास्त्राभ्याससलीन १७ १०	केवलज्ञानिन सप्त १९ २१०	क्षीराब्धिचिसादृश्यै १५ ८
कुशास्त्राभ्याससलीना १७ ६८	केवल दशन स्वामिन् १५ १५४	क्षीराब्धे पवित्रस्य १२ १०३
कूटागारसभागृह- १४ १५३	केवलावगमालोकिता- १९ १५२	क्षुत्तृट्खकामकोपाद्या ६ २३
कृतकार्या सुरै सार्ध १२ १३६	केवलिश्रुतसधाना १७ १०५	क्षुत्तृषादिभवान् सर्वान् १३ ५५
कृतपुष्पाञ्जलेरस्य ९ ११८	केशान भगवतो मूर्ध्नि १२ १०१	क्षुत्पिपासाज्वरारोगा ११ ५५
कृतादिदोषनिर्मुक्ता १३ १४	के शूरा ये जयन्त्यत्र ८ ५०	क्षुत्पिपासातपातीव ४ १९
कृतेष्टय कृतानिष्ट- ९ ४३	कोटीकाटिदशाब्धिप्रमा १८ ८६	क्षेत्राणि तानि पूज्यानि १५ १५०
कृत्वा घोरतर द्वेषा ३ १४७	कोटीकोटचब्धिमानास्य १८ १०२	क्षेत्रादीन् दश बाह्यस्थान् १२ ९३
कृत्वामा बहुधाकारै ९ १४०	कोटीकोटिसमुद्राणा १६ १५७	क्षेत्र वास्तु धन धान्य १८ ४५
कृशमध्या महाकाया ७ ३३	कोटी षण्णवति ग्रामा ५ ५९	
कृत्स्नकर्माङ्गनिमुक्तो १६ ९०	को देवोऽखिलवेत्ता यो ८ ५१	
कृत्स्नकर्मारिसतान १२ १२०	को धर्मो यो युत सारै ८ ३७	
कृत्स्नदु खाकरीभूत ३ १०५	को महान् गुरुरेवात्र ८ ५२	
कृत्स्नान् वृषभसेनादीन् १ ४०		

[ख]

खगाद्रेरुभयश्रेण्यो-	३ ७९
खगाधीशोऽज्यदा वीक्ष्य	३ ७६
खगेशान् मागधाधीश्च	३ १०७

खनीव गुणरत्नाना	७ ३९
ख-भूचरसुराधीशै	३ ६५
खादितान्यखाद्यानि	३ १२४

[ग]

गजेन्द्राकारमादाय	७ १०३
गणेशादिमुनीन्द्राणा	४ ६४
गतावशुकसन्धान-	८ ९
गते तस्मिन्स्तदुद्यान	३ २६
गतैर्गृह्णान् सुधाहार	५ ३२
गत्वाचया जिनार्चाश्च	१ १२३
गन्वाम्बुस्नपनस्यान्ते	९ ३९
गमनागमन कतु	६ १६७
गलद्वाष्पजलोऽतीव	४ २४
गव्यूति द्विसहस्राणि	८ १११
गाव कामदुघा सर्वा	६ १२१
ग्रामपत्तनपुर्याद्या	२ ५५
गीतनर्तनवाद्यादि	१४ ५१
गुणग्रहणशीलारुच	१७ १६५
गुणन्नतत्रिकै सारै	२ २०
गुणशीलसदाचारान्	१९ १६८
गुणस्थानोऽनिवृत्त्यादि	१६ ५९
गुणान् मूलोत्तरान् सर्वान्	५ २२
गुणाब्धीना गुरुणा च	१७ १८८
गुरुदेवाय शास्त्राणा	१७ २८
गुरुपदेशपोतेना-	६ ३०
गृहपाटकवीथ्याद्यै-	१८ ५४
गृहास्मभे विवाहादौ	१८ ६८
गृहिलिङ्गकृत पाप	२ ८७
गोत्रकमनृणा दध्या-	१६ १५३
गोशृङ्गाच्च यथा इग्ध	१८ १४०
ग्रीष्मे सूर्याशुसन्तप्ते	५ २०

[घ]

घनकुमुमवृष्टि	१३ १३४
घण्टानादादिचिह्नौघै	१२ ३६

[च]

चकार महती पूजा	६ १६०
चकार विश्वभव्याना	१८ १६७
चक्ररत्नं क्रुधादाय	३ १०१

चक्रभेन्द्रवृषाम्भोज-	१४ १७३
चण्डिकाक्षेत्रपालादीन्	११ २०
	१७ १७४
चतुर्गतिषु सा योनि	११ ३१
चतुर्गोपुरसबद्ध-	१४ ११३
चतुर्गोपुरसयुक्त-	१४ ७६
चतुर्थज्ञानिन पूज्या	१९ २११
चतुर्थानिपयन्त	५ ३१
चतुर्थे ज्योतिषा देव्य	१५ २२
चतुर्दिक्ष्वस्य दीप्त्याढ्या	१४ ७४
चतुर्दिक्ष्वस्य या सन्ति	१४ ११५
चतुर्धा देहिनो नून	१६ ३७
चतुर्धा गतय पञ्च	१६ ५३
चतुर्धेति महद्-ध्यान	६ ५४
चतु पवसु पापघनान्	५ ६५
चतुर्वक्त्र महावीर	१५ ३३
चतुर्मुखश्चतुर्दिक्षु	१९ ५८
चतुरशीतिकोट्यश्च	५ ५३
चतुरशीतिलक्षा स्यु-	५ ५२
चतुराराधना सम्य-	५ ११६
चतुष्टयाधिकाशीति-	१४ ३४
चतुष्पथे सरित्तीरे	१३ ४५
चत्वरे वा सरित्तीरे	६ ३८
चत्वारि दशानान्येव	१६ ५५
चत्वारिंशत्सहस्राणि	६ १३०
चन्दनद्रवदत्ताच्छ	१२ ८९
चन्द्रकान्तशिखा यत्र	१४ ८८
चन्द्रप्रभजिन पुष्प-	१८ १०६
चन्द्रसूर्यादय सेन्द्रा	१५ २४
चन्द्रा सूर्या ग्रहास्तारा	११ १०१
चन्द्रा सूर्या ग्रहा सर्वे	१४ ५२
चन्द्रेन्द्रनीलवर्णाङ्गौ	३ ६४
चमर प्रथमोऽथेन्द्रो	१४ ५४
चरता भो यथान्धाना	१८ १३७
चरन्ति निशि चात्रादीन्	१७ ११७
चयते ब्रह्मचर्यं	१८ ६४
चलतो दृक्तपोक्तान्-	६ ६०
चलत्यचलमालेय-	१३ ७३
चला लक्ष्मी परित्यज्य	१२ ११८
चारर्षधपरिप्राप्तौ	४ ७

चारित्र्येण विना जातु	१८ २०
चारित्र्य व्यवहाराख्य	१८ १९
चिदानन्दमय दिव्य	१ १४
चिरप्रव्रजितो ज्येष्ठो	१८ २३
चिद्विज्ञानतपोयोगै	६ ९५
चित्रकार इवानेक	१६ १५२
चित्र त्रिज्ञाननेत्रोऽह	१० ८९
चिन्ता क्वात्र विधेयाहो	८ ४१
चिन्तितार्थप्रदान् सारान्	९ २२
चिह्नैस्तै सामरा शक्रा	८ ६६
चेतनापरिणामेन	१६ १४३
चैतन्यपरिणामो यो	१६ १६७
चत्यालयमिवागार-	९ १०२
च्युत्वा स निजरो नाकात्	५ १३६

[छ]

छत्रचामरभृङ्गार-	८ १२०
छत्र ध्वज सुभृङ्गार	८ ८४
छादयन्तो नभोभाग	१४ ५०
छेदनैविविधाकारै	११ ९३

[ज]

जगच्चूडामणोरस्य	९ ५२
जगता पूरयन्त्याशा	९ ३२
जगत्त्रयस्थिता लक्ष्मी	१७ ३८
जगत्त्रयस्थितैर्दिव्यै	१० ६१
जगत्त्रयेऽपि तत्सर्वं	१० ७६
जगत्पूज्यो जगत्स्वामी	१६ १३४
जगत्प्रिया शुभा वाणी	१० ६४
जगत्सतापिन मोहा-	१९ ३३
जगत्सारैर्गुणव्रातै	१९ ४
जगद्बन्ध्वादिनेत्राणा	१० ६
जगद्व्यापि यशस्तस्या	१३ ९८
जगन्नाथो जगद्भूतार्ता	१५ १३३
जग्राह दृष्टिना सार्धं	२ ३२
जघन्योऽन्तरात्मा स्याद्	१६, ९५
जघन्यो विश्वभोगाना	११ ९८
जन्माभिषेकजा सर्वा	९ १०४
जन्माभिषेकसंबन्धि-	८ ९९
जम्बूद्वीपादयो द्वीपा	११ ९४
जम्बूद्वीपस्यपूर्वाख्य-	४ ३६

जम्बूद्वीपप्रम दीप्र	१४ १९
जय नन्दस्तवाद्यैश्च	७ १४
जय नन्देश वधस्व	८ ९६
जय मोह जगच्छत्रु	१९ ५१
जयेश नन्द वधस्व	१२ ५२
जलज्वालादयोऽनेक-	१६ १२२
जलाद्यष्टविद्वैद्यै-	५ २८
जल्पितेन बहुना किमा-	१९ २६४
जातरूपस्तदा ह्येष	१२ १०६
जातुदोषान्न जानन्ति	१७ १६७
जात्याद्यै सद्गुणैर्युक्त	६ ७४
जायते कर्मपाकेन	११ ८२
जायते निजरा पूर्णा	११ ८४
जायन्ते गणनातीता	२ १२
जायन्तेऽनेकदेशोत्पन्नाना	१५ १७
जामात्रेऽदात्पुन सिंह-	३ ९६
जितनी रजपादाब्जा	७ ३०
जितेन्द्रिया समाचारा	११.१०७
जित्वा रुद्रकृतान् घोरा-	१ ७
जिनचत्त्यालयोद्धारै	४ १३७
जिनधमबहिर्भूता	१७ ७५
जिनशास्त्रगुरून् धम	१७ २०२
जिनसूत्रे कुशास्त्रे च	१६ ६८
जिनसूर्योद्गमे यद्वत्	७ ७८
जिनेन्द्रकेवलज्ञानि-	२ ४४
जिनेन्द्रजिनसिद्धान्त-	१७ १३
जिनेन्द्रपितरौ भक्त्या	७ १२०
जिनेन्द्रश्रीमुखाद्दिव्या	१५ १४
जिनेन्द्रो नातिदूर	१२ ८६
जिनेश श्रीमुखादेत-	४ ३९
जिनेशे विश्वनाथाय	१ १
जिनेशोऽपि बहून् देशान्	१३ ३९
जिनोक्तमेव सिद्धान्त	१९ १९४
जीवपुद्गलयोर्धर्म	१६ १२९
जीर्वाहिसोद्भवाद्येन	४ १६
जृम्भिका ग्रामबाह्यस्थे	१३ १००
जेतुणा त्व महाजेता	१५ ५९
जैनशासनतो नान्य-	१८ ५
ज्ञात्वा तद्वचनं तद्वन-	३.२७
ज्ञात्वा तन्निश्चय	१९ १२४

ज्ञात्वेति धीघनैर्जाति	११ १३३
ज्ञानचारित्र्योर्बीज	१८ ११
ज्ञानत्रयघरो धीमान्	७ २३
ज्ञानदशनचारित्र्योप-	६ ८०
ज्ञानमन्तातिग लोका-	१३ १२९
ज्ञानवान् सिद्धसादृश्यो	१७ ४६
ज्ञानस्य सत्फल तेषा	१० ९१
ज्ञानहीनो न जानाति	१८ १६
ज्ञानहीनो वदत्यत्र	१ ७०
ज्ञानावरणकर्माणि	१३ १२६
	१६ १४७
ज्ञानिना त्व महाज्ञानो	१४ ४३
ज्ञानेन ज्ञायते विश्व	१८ १५
ज्येष्ठे धवलपञ्चम्या	१ ५५
ज्योतिर्लोकै तदैवासी-	१४ ८
ज्योतिष्का ज्योतिरङ्गेषु	१४ १३२
ज्योतिष्पटलमुल्लङ्घ्य	८ १०६
ज्वलनादिजटीख्यातो	३ ८७
ज्वलनादिजटी तस्या	३ ७२

[झ]

झझावातमहावृष्ट्या	६ ३७
-------------------	------

[त]

त एव जगता पूज्या	१० १००
तच्चेष्टा वीक्ष्य तद्बोध-	१९ १९४
तच्छास्त्रारचनेऽप्याशु-	२ ९१
तच्छ्रुत्वा कुमारोऽबोचत्	३ २४
तच्छ्रुत्वा तेऽवदन् सर्वे	१५ ९७
तच्छ्रुत्वाऽन्ये वन्दन्त्येव	१२ ६६
तच्छ्रुत्वाऽन्ये विद प्राहु	१३ ३३
तच्छ्रुत्वा वदन्तीत्य	७ ५५
तच्छ्रुत्वा ससवेग	१९ १२५
तच्छ्रुत्वा सोऽवदद्दीमान्	१९ १२२
तच्छ्रुत्वेति गणेशोऽवादी-	१९ ९७
तच्छ्रुत्वोवाच योगीति	१९ १०२
तत आदेयनामाथ	१९ २२९
तत कतिपयैर्देवै	९ ९३
तत कर्माद्रिघाताय	५ १५
तत केवलिसञ्ज्ञोऽमी	१६ ११०
तत क्षीणकषाय सयो-	१६ ६०

तत खाङ्गणमारुध्य	८ ७३
तत पर प्रमोद ते	९ ६५
तत पापी स विज्ञाय	१३ ६७
तत पूर्वाणि सर्वाणि	१८ १६५
तत प्रत्यहमारभे	७ ४६
तत प्रच्युत्य दुर्मार्ग-	२ १२९
तत प्रणम्य तीर्थेश	१५ ४९
तत शक्रा जिनेन्द्रस्य	९ १४१
तत शक्रो जगावित्य	१५ ९२
तत शची प्रविश्याशु	८ ७६
तत श्रीगौतम नत्वा	१९ ९६
तत श्वभ्रायुरेवासौ	३ ११३
तत सद्धमसिद्धचथ	५ २७
तत सामानिकाद्या हि	८ ७०
तत सिद्धान्तमस्कृत्य	१२ ९५
तत सूक्ष्मधिय केचि-	१२ ६३
तत सोढ्वातिथैर्येण	१९ २००
तत सोऽध्यापक जैन	५ ४३
तत स्वजनभृत्येभ्यो	९ १०७
तत स्वप्नविलोकोत्था	७ ८७
तत स्वावधिना ज्ञात्वा	१५ ८०
ततश्चतुष्कालोऽस्ति	१८ १०१
ततश्चैत्यालये गत्वा	४ ६२
ततश्चैत्यालय गत्वा	२ ४१
ततस्तपोऽतिनि पाप	३ ४४
ततस्तप फलेनासौ	३ ५६
ततस्तद्रूपहान्यै स	१३ ८९
ततस्तद्योगपाकेन	६ १०४
ततस्तमुपवेश्योर्च्च	१३ ९
ततस्तस्मै सुपात्राय	१३ २२
ततस्तुष्टा सुराधीशा	१२ १०७
ततस्ते क्षुत्पिपासादीन्	२ ७८
ततस्ते त्रिदशाधीशा	७ ११६
ततस्ती जगता पूज्यौ	९ ९८
ततस्त धीरतापन	१३ ७०
ततस्त त्रि परीत्योर्च्च	१५ ३४
ततस्त निमद कृत्वा	१९ १९२
ततस्त्यक्त्वान्तरेसङ्गा-	१८ १४८
ततो गत्वा जगद्वन्द्य	३ १५
ततोऽगुरुलघुत्व	१३ १०८

ततोऽग्रे कपिरोमारय १९ १७५
 ततो जजृम्भरे प्रात- ७ ७०
 ततो जयेति सप्रोच्य ९ १७
 ततो जित्वातिधैर्येण ४ १११
 ततो ज्ञात्वा महावीर १३ ७५
 ततोऽतिखण्डिताङ्गोऽसौ ३ १३८
 ततोऽद्भुतरणे तत्र ३ १००
 ततो द्वितीयकालो १८ ९५
 ततो द्रुत मुदानीय ३ ९४
 ततो दृग्ज्ञानचारित्र- ५ १३,
 ६ १०२
 ततोऽतिदृग्विशुद्धिं स ५ ६४
 तत्रेऽतिशुद्धभावेन १५ १२०
 ततोऽन्तरान्तरकिञ्चित्- १४ ७५
 ततो धूपघटौ द्वौ द्वौ १४ १०६
 ततो निक्षिप्य राज्यस्य ५ १२
 ततो निहृतकर्मारि- १३ १२१
 ततो नीलालिमाकेश- १३ ९३
 ततोऽन्नात्मा ब्रजेद्बुध्व १६ १७६
 ततोऽध्वान कियन्त १४ ९०
 ततोऽपरे जगुश्चैव ७ ५७,
 १६ १७६
 ततोऽभ्यच्य जिनार्चांश्च ६ ११२
 ततोऽभ्यच्य जिनेन्द्राङ्घ्री १९ ८७
 ततोऽभ्यच्य जगत्सारै १९ २४२
 ततोऽभ्यन्तरभूभागे १४ १२४
 ततो मज्जननेपथ्य- ७ ८९
 ततो मित्रत्वमापन्नौ १९ १९७
 ततो मुदा समानीय ८ ८६
 ततो यते स पुण्यात्मा २ ३६
 ततोऽय नसुरादीना १० १५
 ततो वीक्ष्य स दीनात्मा ३ ११८
 ततो वीध्यन्तरालस्था १४ १३८
 ततो वीध्यन्तरेष्वस्या १४ १२८
 ततो व्यक्त विधायोच्चै ५ ११५
 ततो ब्रजन् प्रयत्नेन १३ ४
 ततो व्यासेन तीर्थेश १७ ३
 ततोऽमाव्रवसूत्याशु ३ ३३
 ततोऽमावातरौद्रध्यान ४ १०५
 ततोऽसौ कृत्स्नकर्मारि १९ २३२

ततोऽसौ ज्ञातसर्वाङ्ग- १८ ११६
 ततोऽसौ धममूतिर्वा ५ ७३
 ततोऽसौ परया भक्त्या १५ १२२
 ततोऽसौ परया भूत्या ५ ४६
 ततोऽसौ बालसूर्येण ८ ८३
 ततोऽसौ भगवान् देवै १९ ४८
 ततोऽसौ महती शक्त्या ५ १०८
 ततोऽसौ मृत्युपयन्त ६ १००
 ततोऽसौ यौवने लब्ध्वा ५ १३९
 ततोऽसौ शिबिका दीप्रा १२ ४३
 ततोऽसौ यौवने वाप्य ४ १२७
 ततोऽस्यै परया भक्त्या १३ ९६
 ततोऽस्मै यौवने तातो ४ ८१
 ततोऽस्य केवलज्ञान- १९ २४०
 ततोऽस्य धीमतश्चित्ते १० ८३
 ततो हत्वाक्षमोहादीन् ३ ९७
 तत्कथाश्रवणात्प्राप्य १९ ११३
 तत्कुञ्जानजसवेगाद् २ १२७
 तत्कृते पर पुण्य १९ १०३
 तत्कृत्य धीमता येन ५ १०
 तत्क्षणार्जितपुण्येन १३ ९७
 तत्क्षण यक्षराजस्य २ ९४
 तत्क्षण विधिना राज्य ३ १४
 तत्क्षण श्रीगणेशस्य १८ १६१
 तत्त्यक्त्वाऽन्तर्बाह्यसङ्ग- १८ २९
 तत्त्वातत्त्वात्तशास्त्राणा १७ १९२
 तत्त प्रदक्षिणीकृत्य ३ १०२
 तत्त्वार्थाना परिज्ञान १८ १४
 तत्पितास्य विभूत्यादौ ५ ३९
 तत्पुर तद्वन मार्गान् १२ ३७
 तत्पुर स्व पुर वाभात् ९ १०९
 तत्प्रभास्तुरगास्तुङ्गा १४ ३७
 तत्प्रणामे सुरेन्द्राणा १५ ३७
 तत्प्रश्नात्स उवाचेद ३ ७८
 तत्फलेन बबन्धाशु ६ ९८
 तत्फलेन बभूवासौ २ १२८
 तत्फलेनाभवत्कल्पे ३ ४५
 तत्फलेन स एवात्र ११ ३९
 तत्फलोत्थमहाभोगान् ५ १४६
 तत्फलं तत्र भुक्त्वा १९ १५६

तत्र कूलाभिधो राजा १३ ७
 तत्र गृहाङ्गणे रम्ये ९ ९४
 तत्रत्या मुनय केचिद् ७ ३
 तत्र पञ्चाग्निमध्यस्थ १९ १९०
 तत्र प्रारंभरे दिव्य ९ ५
 तत्र भुक्त्वा मर सौख्य १९ २०२
 तत्र भुङ्क्ते निराबाध १६ १७७
 तत्र भुङ्क्ते पर सौख्य १९ १३०
 तत्र योग निरुध्यासौ १९ २२१
 तत्र रोद्रे श्मशानेऽसौ १३ ६०
 तत्र वीथ्यन्तरेष्वासश्च १४ १०७
 तत्र वीक्ष्यावधिज्ञान ४ ८३
 तत्र श्रीजिनबिम्बाना ५ १२
 तत्र षोडशवाराशि- ३ ५७
 तत्र सिद्धत्वमासाद्य १९ २३४
 तत्र सोऽन्तर्मुहूर्तेन ६ १०५
 तत्राच्छस्फटिकाच्छाला १४ १६५
 तत्रातिक्षारदुर्गन्ध- ३ १३६
 तत्रादौ कमहन्तृणा १३ १०६
 तत्रान्त स्थ जगन्नाथ १५ १२१
 तत्रापि ते महेन्द्राद्या १९ २४९
 तत्रापि प्राक् स्वमिथ्यात्व- ३ ४
 तत्रापि पापिभि क्रूरै ३ १३९
 तत्राप्यन्तर्मुहूर्तेन ५ २५
 तत्राप्येन उपाज्योच्चै ४ ३
 तत्राभिषिच्य सपूज्य १४ १५९
 तत्राभ्यर्च्योष्टभिर्द्रव्यै- ६ ३
 तत्रावन्तम्बिता माला ९ ४
 तत्रासीनो नृपो भक्त्या १९ ९४
 तत्रास्मै भोक्तुकामस्य १९ १८२
 तत्रैकस्मिन् शिलापट्टे १२ ८८
 तत्रैव कानने पापात् २ ८३
 तत्रैव ते प्रपूज्योच्चै १९ २४६
 तत्रैव वैतरणी भीमा ४ १३
 तत्रैवाद्रौ महारम्ये ३ ७३
 तत्रैवामानुषेऽरण्ये १९.१९८
 तत्रोत्तुगपदारूढ १५ ३२
 तत्रोपपाददेशे च ३ ११५
 तत्रोपपादशय्याया ५ ११८
 तत्सुगन्धाम्बु ते चक्रु- ९ ३८

तत्सुदानेन भूयोऽपि	१३ ३७	तदाचारोत्थपुण्येन	१९ २०१	तद्वन राजतेऽजीव	१४ ८९
तत्सव त्व कृपानाथ	१६ २५	तदातनी परा भूति	८ १०५	तद्वयोरूपवेषादि-	९ १४२
तत्स्नानाम्भोभिराकीर्णं	९ २७	तदातनी परा शोभा	९ ६२	तद्वाक्यामृतपानेन	१८ १५५
तत्स्वावधिना ज्ञात्वा	४ ११४	तदा तोरणविन्यासे	९ १०८	तनुस्थित्यै तदाहार	१३ ३६
तत्त्वाथश्रीजिनादीना	४ ५१	तदा तद्दानतस्तुष्टा	१३ २४	तन्निन्द्यकमकतृस्तान्	२ ८५
तथा त्रिज्ञाननेत्रोऽग्र	१२ ८१	तदा तद्भूक्षणे दक्ष	१९ ११०	तन्मध्ये स्थितसीताया	२ ६
तथा दिव्यध्वनिश्चादा-	१५ १६	तदादाय पवित्र तद्	१९ २४४	तन्मध्ये चूलिका भाति	८ ११७
तथानन्तगुणै पूर्णो	११ २२	तदा दुर्व्यसनान्निन्द्याद्	३ ४८	तन्मध्ये नाभिवद् भाति	२ १७
तथापि निर्भरा सैका	१२ १११	तदादौ मानवा सन्ति	१८ ९६	तन्मध्ये मेरुराभाति	२ ३
तथापि भव्यसार्थाना	१४ ६८	तदानेकविमानैश्च	७ ११९	तन्मध्ये राजते तुङ्गा	१४ १६८
तथा भवद्विहारेण	१९ २६	तदा नृपालय दीप्र	७ ५१	तन्मध्ये स्थेन दिव्येन	२ ५८
तथामुत्र श्रियोऽनर्घ्या	१३ ३०	तदा पटहतूर्याणा	१९ ५०	तन्मध्ये विजयार्घ्यादि-	४ ७३
तथा मूलगुणै सर्वे	४ ९२	तदापि न मनाग् देव	१३ ६९	तन्महारूपसौन्दर्यं	८ ८७
तथा रत्नत्रयाचारै	११ १२६	तदा प्रभृति सिंहोऽभूत्	४ ५४	नन्मिथोद्भवपापेन	४ ३०
तथाचयन् महाभक्त्या	१५ ४०	तदा बलाहकाकार	१४ १३	तन्मुखेन्दो परा शोभा	१० ५१
तथा सन्मुखमायात	१९ ३५	तदा मध्योध्वभागेन	८ ७५	तन्वन् प्रभावना जैने	५ ११२
तथा सर्वाङ्गबद्धस्य	१६ १७५	तदारुह्य पुर विष्वक्	९ ९२	तन्वन्ति पापकार्याणि	१७ २०७
तथा सर्वे सुराधीशै	९ १९	तदा राजाङ्गण सव	१३ ३१	तप क्लेशभराक्रान्ता	२ ७९
तथैव तुरगादीना	६ १४२	तदारूढो जगन्नाथो	१२ ४५	तपःश्रुतव्रताढ्योऽपि	१६ ७२
तदज्ञानतप क्लेशाद्	२ १२०	तदाश्रिता नखा दीप्रा	१० ५५	तपसेह परत्रापि	६ ६४
तदनुग्रहधर्माय	१९ १६१	तदा स मातर स्वस्य	१२ ४१	तपोऽग्निना परित्यज्य	५ २४
तदनुग्रहबुद्ध्यासौ	१९ १७१	तदासौ स्मितमातवन्	१० ५	तपोदानजिनेन्द्रार्चा	११ १८
तदन्त स्थ महीभाग-	१४ ८६	तदास्य जन्ममाहात्म्यात्	८ ६२	तपोनियमसद्ध्यान-	१७ १७८
तदधमुखविस्तार	८ १२२	तदास्य मुकुटेनाल-	१० ४७	तपोभिर्दु करैरैतै	६ ५७
तदा कच्छादिभूपालै	२ ७४	तदुक्तमिति स श्रुत्वा	४ २३	तपोयमव्रतादीन् विना	१७ ११६
तदा कलकलो भूयान्	९ १८	तदेकैकचमूना स्यु	६ १४०	तपोरत्नत्रयेभ्योऽन्य-	५ ८
तदाकण्य जगौ भिल्ल-	१९ १०४	तदैव तेन योगेन	१२ १३८	तयोमध्ये गुणस्थाना	१६ ९६
तदाकण्य परे प्राहु-	१२ ६२	तदैव सामरा सर्वे	१२ ३५	तपो रसपरित्याग	६ ३५
तदाकर्ण्य द्विज प्राहु	१५ ९१	तदैवादिसुरेशस्या	७ १०५	तपोव्रतयमादीश्चा-	१७ १५२
तदाकर्ण्य नृपो मोहा-	३ २१	तदैवाषाढमासस्य	७.११०	तपोव्रतार्जिता येन	४ ११३
तदाकर्ण्य स इत्याख्यत्	१९ १०६	तदैवास्य गणेशस्य	१८ १५९	तसाय पिण्डनिर्घातै	४ १४
तदाकर्ण्य स इत्थ	१९ १३१	तदैवेन्द्राज्ञया देव-	८ ६७	तयो किं सत्फल पुसा	१६ २२
तदाकर्ण्य सोऽवादीत्	७ ९४	तद्गर्भाधानमाहात्म्याद्	७ ११२	तयोद्विजचरो देव	२ १२६
तदाकर्ण्येष साश्चर्य	१५ १००	तद्विताय जिनाधीशो	५ ७६	तयोर्द्वौ दिवश्च्युत्वा	२ १२२
तदाकर्ण्यपरैऽप्युचु-	७ ५४	तद्विताय परार्थी सोऽनघ	६ ४	तयो पुत्र स कुधोर्जात	३ ९
तदाकाशे नटन्ति स्म	८ ९८	तद्वैयमसम वीक्ष्य	१०-३२	तयोविशाखनन्द	३ ६९
तदाकृत ततो ज्ञात्वा	१९ १०५	तद्वन्धुभाषित श्रुत्वा	३-९२	तयोश्च्युत्वा स सौधर्मात्	४ ७६
तदागमनमाकर्ण्य	३ ९९	तद्भूयात्ते निपत्याशु	१० २९	तयो स कल्पतश्च्युत्वा	२ ११३
तदागम परिज्ञाय	१९ ८५	तद्भूयात्सोऽतिभीतात्मा	३ ३१	तयो स्वर्गात्स आगत्य	३ ७
तदा चतुर्णिकायेशा	१९ २३९	तद्वच श्रवणात्काल-	२ २५	तरा स्थापयितु भव्यान्	१९ ४७

तयो स निर्जर स्वर्गा- २ १०८	तस्या या यक्षराट् चक्रे १४ १७९	तेन दोषेण ते नास्ति १९ १४०
तयो स स्वगतश्च्युत्वा २ ६९	तस्या षोडश सोपान १४ १६९	तेन विश्वपरिज्ञान- १० १४
तयो सम्पद्विवाहादि ३ ९७	तस्यैवोपसङ्ख्याय ८ ११४	तेन सर्वाङ्गदग्धोऽस्मात् ३ १३५
तजयन्त इवानेक १५ ११	तस्योपरि जगत्सारा १४ १७७	तेन सौधमकल्पेऽभू- २ ११६
तपयित्वा सुदानाद्यै- ४ ७८	तस्योपरितले तुङ्गा १४ १७४	तेनाङ्गकलेशपाकेन ३ ५
तर्हि पुण्याहते कस्मात् १९ १६४	तस्योपरि स्फुरद्रत्न- १४ १७५	ते नाकादौ सुख भुङ्क्त्वा १७ १४४
तल्लीनहृदयस्यास्य ६ ६०	तादृशी पतती धारा ९ २१	तेनाज्ञतपसा जज्ञे २ १२४
तव पादाम्बुजे सम्यग् १९ ४४	तानि सर्वाणि वन्देऽह १५ १४३	ते धमश्रवणाय १५ ७७
तव शिष्यो भवाम्येव १५ ९३	तामथावेष्ट्य सर्वत्र ९ १	तेभ्य कन्यादिरत्नानि ५ ४८
तस्मादासन्नभयस्त्व १९ १५८	तामाप्य धममोक्षादौ ११ १२०	तेभ्यो जातमहापाप ४ १२
तस्मादेत्य निज स्थान ६ १६४	तावत्तत्सचिवा दक्षा ६ ११५	तेभ्योऽतीव दुष्प्राप्य ११ ११७
तस्मात्पलायमान त ३ ३५	तावत्ते प्राक्तना पापा ३ १३१	तेभ्य श्रुत्वा द्विधा धम २ ४५
तस्मात्पिण्डीकृतात्सौ- १६ १८१	तावन्तो हि प्रतीन्द्राश्च १४ ६२	तेभ्य श्रुणोति सद्धम ४ १३५
तस्मात्पूर्वदिशो भागे २ ४	तासा तटेषु विद्यन्ते १४ ८३	ते लभन्तेऽन्यपाकेन १७ ९४
तस्माद्द्विहरनन्तोऽस्त्या- १६ १३३	तासा मध्येषु भान्त्युच्चै १४ ७७	ते श्वभ्रादिगती भ्रान्त्वा १७, ११५
तस्मात्सुखाधिभिनित्य ७ ५८	तासा स्फटिकभितीना १४ १६६	तेषामन्तमहावीथ्या १४ १०२
तस्मान्मन्ये तदेवाह १७ १०३	तासु स्यु पटलान्येको ११ ९०	तेषामन्ते मुदाद्राक्षीत् ७ ६९
तस्माद्यो विपरीतात्मा १६ ७५	तियग्गतिकर निन्द्य ६ ४८	तेषु ये प्राग्भवे दुष्टा ११ ९१
तस्माल्लब्धजयो देवो १३ ११२	तियग्गती प्रगच्छन्ति १७ ७७	तेषा दर्शनवज्रेण १५ ११९
तस्मिन्नुपद्रवे वीरो १३ ६६	तियञ्च सिंहसर्पाद्या १९ २१६	तेषा पर्यन्तपृथ्वीषु १४ ८१
तस्मिन् बाहुसहस्राब्धे ९ १२४	तियग्लोकायितस्थूल- १४ १६	तेषा मध्ये त्रयोविंश- ६ १२७
तस्य दक्षिणदिग्भागे ८ १२३	तियग्विसारिण केचित् ९ २३	तेषा मध्येषु राजन्ते १४ ७९
तस्य दानानुमोदेन ११ ३८	तिसुभिर्भूमिभिस्तुङ्गौ १४ १०३	तेषामसख्यकालाणूना १६ १३६
तस्य पयन्तभूभाग- १४ ७१	तीर्थकर्तुं सुयात्रायै १९ ७५	तेषा शठात्मना मिथ्या १७ १७३
तस्य पुण्यवतो देवी २ ६८	तीर्थकृत्तीर्थभूतात्मा १५ १३५	तेषा सम्पद्यते साध १७ १८९
तस्य मध्यस्थहर्षासन- ८ १२४	तीर्थकृन्नामतीर्थेश १९ २३१	तेषा सर्वत्र जायेत १७ १६१
तस्य वायुवशात्तीव्र- ३ १३७	तीर्थनीरमिद नून १९ १८१	तेष्वर्चयै नृयुग्मानि ७ १५
तस्य स्वामी शुभादासी- ५ १३५	तीर्थनेता सुतीथज्ञ १५ १३६	तेऽसातकर्मपाकेन १७ ११८
तस्या उपरि सत्पीठ- १४ १७२	तीर्थेशगुरुसघाना- १७ १९६	तैर्भयानकरूपाद्यै- ३ ६४
तस्यादौ भवन्त्यार्या १८ ८९	तीर्थेशस्य गुणानेषु १४ ९७	तौ दम्पती महापुण्य- ७ ४१
तस्यादौ मनुजा पूर्वैक १८ १०३	तीर्थेशा सद्गुरूणा च १७ ८१	तौ भूयोऽनुमति लब्ध्वा ९ १०५
तस्यादौ श्रीजिनांगारे ९ १०६	तुङ्गवश महाकाय १४ १५	त दृष्ट्वाऽह कथ भुङ्गे १९ १८३
तस्यादौ स्युनरा एक १८ ९९	तुङ्गा साथकनामाने- १४ ८०	त धम केवलप्रोक्त ४ ८९
तस्याऽद्भुतपुण्येन ५ ४५	तुयशुक्लमहाध्यान- १९ २८८	त रम्य च तदुद्यान ३ ११९
तस्याद्रेरुत्तरश्रेण्या ४ ७४	तुष्यन्ति मनसा दृष्ट्वा १७ १४२	त विभीषयितु क्रूर- १० २८
तस्याद्य भद्रशालाख्य ८ १०९	तेऽत्यन्तविषयासक्ता १७ ७९	त्यक्त्वाखाद्यामिवाशेष १८, ६९
तस्या बाह्ये भवेद्रम्य २ १८	ते दुर्गती चिर भ्रान्त्वा १७ १६३	त्यक्त्वाङ्गादौ ममत्व स ६ ४६
तस्याभव-महादेवी ७ २८	तेऽधोगामिन एवाहो १७ १९१	त्यक्त्वा चतुर्विधाहारान् ५ ११४
तस्याभिषिक्तगात्रस्य ९ ४९	तेन ज्ञानत्रयेणात्र १० ९०	त्यक्त्वा देहममत्वादीन् २ ७६
तस्या मध्ये व्यघाद्रैद १४ १८१	तेन ते जायते नून ४ ४२	त्यक्त्वा बन्धून्नजान् १२ १२१

त्यक्त्वा भोगाङ्गससारान् ६ १९
 त्यक्त्वा ये चाजवादीन् १७ १४०
 त्यक्त्वाहारकषायादीन् १८ ५९
 त्रयत्रिशत्पयोराशि १६ १५८
 त्रयस्त्रिशत्प्रमा एते ६ १२९
 त्रयस्त्रिशत्प्रमास्त्राय- १४ २९
 त्रयोदशविध वृत्त ११ ७५
 त्रयोदशसमुद्रायु ४ ११६
 त्रयोदशीदिने शुक्ले ८ ६०
 त्रसस्थावरभेदाभ्या १६ ३८
 त्रिकरोच्चातिदिव्याङ्ग ६ १६५
 त्रिकालयोगयुक्ता १ ५८
 त्रिजगच्छर्मकर्तार ६ १०१
 त्रिजगत्तिलकीभूतस्या- ९ ५१
 त्रिजगत्स्वामिना स्वामी ९ ८०
 त्रिजगत्स्वामिनश्चाहद् १७ १७०
 त्रिजगद्देवसघाचर्या १ ३७
 त्रिजगन्नाथसेव्यार्च्य १७ ३९
 त्रिजगन्नाथससेव्य १६ ९१
 त्रिजगद्भव्यमध्यस्थो १५ ९
 त्रिजगन्मण्डनीभूत ९ ६७
 त्रिज्ञानसुकलाविद्या २ ६७
 त्रिज्ञानाष्टधिभूषाढ्यो २ ४९
 त्रिदण्डसयुत देव २ १०१
 त्रिधा वेदा कषायाश्च १६ ५४
 त्रि परीत्य जिनाधीश ९ ४४
 त्रि परीत्य जिनेन्द्र त ५ ७५
 त्रि परीत्य जिनास्थान- १५ २९
 त्रि परीत्य प्रणम्याशु १३ ८
 त्रिपृष्ठ प्राक् परिज्ञाय ३ ८२
 त्रिपृष्ठाख्यो द्विपृष्ठोऽथ १८ ११२
 त्रिपृष्ठाथ ददौ प्रीत्या ३ ९५
 त्रिपृष्ठेशभवे पूर्वं ४ १०
 त्रिपृष्ठोऽथ जगत्ख्याति ३ १०६
 त्रिपृष्ठो द्रुतमादाय ३ १०३
 त्रिवलीभङ्गुर देव्या ८ ५६
 त्रिलोकस्था जिनेन्द्रार्चा ४ ११५
 त्रिवग वृद्धिकुद्राज्य ४ १४०
 त्रिशुद्ध्या द्वादशोमानि १८ ५८
 त्रिशुद्ध्या नुतिपूजाद्यै- १७ १७

त्रिशुद्ध्या पालयन् गेहि १० ७८
 त्रिशुद्ध्या भावयन्नित्य ६ ६१
 त्रिशुद्ध्या सयम भूपो ३ १६
 त्रिसहस्राधिका पञ्च १९ २६१
 त्रिशद्वर्षाणि पूर्णानि १० ८०
 त्रिशद्दिनैरतिक्रान्तै ४ ६८
 त्रिषष्टिपुरुषादीना १ ८०,
 १९ १४५
 त्रिषष्टिपुरुषाणा १८ ११६
 त्रीण्याङ्गोपाङ्गानि १९ २२३
 त्रैकाल्य द्रव्यषट्क १५ ९९
 त्रैलोक्यशिखरावासान् १ ३८
 त्र्यशीतिशतवर्षागा १ ४७
 त्वत्त कल्याणमाप्स्यन्ति ९ ६९
 त्वत्तोऽन्नाभीष्टससिद्धि १२ २८
 त्वत्तो नाथाद्य सम्प्राप्य १९ १९
 त्वत्समा का महादेवी ८ ४६
 त्वदीया द्रुतमस्माक १५ ७५
 त्वदीया प्रतिमा देव १५ १४४
 त्वद्वाक्यजलदेनाप्य १२ २०
 त्वद्वियोग यतोऽन्नाह १२ ७२
 त्वद्धमदेशनावज्र- १९ १६
 त्वद्वचोऽसिप्रहारेण १९ १५
 त्वयाद्य साथक नाम ८ ७९
 त्वया वास्त्यावयो किन्तु ३ ९०
 त्वयोद्दिष्टमहातीर्थ ९ ७०
 त्वयोपदिष्टसन्माग १९ २९
 त्वरित करणीयं किं ८ १७
 त्व जगत्त्रयभव्येभ्यो १९ २१
 त्व दशनविशुद्ध्याद्यै १९ १५४
 त्व देव जगता नाथो १२ ९,
 १५ ५१
 त्व देव जगता स्वामी १० ३३
 त्व ज्ञानिन् जगता नाथो ८ ८९
 त्व देव त्रिदशेश्वरा- १५ १६९
 त्व देव परमात्मा च १२ १०८
 त्व देव परमानन्द ८ ८८
 त्व देव स्नातपूताङ्ग- ९ ६६
 त्व देवि भुवनाम्बासि ८ ७८
 त्वन्नामस्मरणाद्देव १० ३५

त्व स्वामिन् केवल ९ ७३
 त्वा जगत्त्रयदक्षेड्य १९ ५
 त्वाभिष्टुवता यस्मात् १९ ६
 त्वा मुदे हेत्यभिष्टुत्य ९ ८६

[ब]

दक्ष सनुमहाप्राज्ञो १९ २०३
 दत्वा दानानि बन्धुभ्यो ५,४०
 ददती चन्दनायाश्च १३ ९०
 ददते कुत्सिता शिक्षा १७ १२९
 ददते येऽन्वह दान १७ १४७
 ददर्शादौ गजेन्द्र सा ७ ६१
 ददाति मुनये दान ५ ६८
 ददते दृष्टिहार ये १७ ८५
 ददशुद्धरतो दीप्र १४ ६६
 दद्ये योग पर मुक्त्यै २ ७७
 दशनावरणान्यत्र १६ १४८
 दशनेन विना पुसा १८ १२
 दश कुष्ठुमा मानु- ११ ९६
 दशघा स्थावरा सूक्ष्म- १६ ४४
 दशभेदा ध्वजास्तुङ्गा १४ ११८
 दशभेद जिनेन्द्रोक्त १९ १५३
 दशम्या सुमुहूर्तादौ १२ १००
 दशलक्षचतुर्विंशति ६ १३८
 दशलाक्षणिको धर्म ६ १५२
 दातारो धार्मिका शूरा ७ १९
 दातृत्व कृपणत्व च १६ १६
 दानपूजातप शील- १ ७८
 दानिनो मादवा दक्षा २ ६०
 दाम्ना सुगन्धिदेहश्च ७ ९७
 दिगम्बरगुरूणा च १७ १८४
 दिग्पाला स्वस्वदिग्भाग ९ २
 दिनत्रयगते तेषा १८ ९०
 दिनद्वयान्तरे दिव्य १८ ९७
 दिन प्रति मनुष्यास्ते १८ १०४
 दिनरात्रिविभागोऽत्र ६ १२३
 दिव्यकेशरपत्राणि १९ ७१
 दिव्यभोगोपभोगाढ्यौ ३ ६७
 दिव्यरत्नत्रय तुङ्ग ६ १११
 दिव्यरूपधरोऽनेका १० २५

दिव्यरूपा नरा नाय	७ २१
दिव्यवाचा जिनेन्द्रस्य	१५ ५०
दिव्यस्त्रीभि सम नित्य	११ १०८
दिव्यस्त्रीभि सम प्राप्य	४ ११
दिव्या कराङ्गुली रम्या	९ १३४
दिव्याङ्गु श्रीमत प्राप्य	९ ३६
दिव्येन ध्वनिना तीर्थेत्	१६ २७
दिव्यै कल्पद्रुमोद्भूतै	१५ ४२
दिव्यैगन्धैस्ततामोदै	९ ४१
दिव्यौदारिकदेहस्थ	१५ १२
दीनाश्च दुर्धियो निन्द्या	१७ १८
दीप्तसारसमारूढो	१४ ४४
दीप्ताङ्गुगण्डारूढ	१४ ४५
दीप्तिकान्तिप्रतापाद्यै	७ २६
दीप्रा हिरण्मयी वृष्टि	७ ४८
दु कमशत्रवोऽसख्या	१ २६
दु खपूर्वास्तदन्तेऽपि	६ २५
दु खिनोऽसकृदाहारा	१८ १२१
दु षमदु षमाख्योऽथ	१८ १२२
दु स्थितिं ससृतेनित्य	४ ५५
दु स्वर सुस्वरानादेया	१९ २२६
दुन्दुभीना निनादा-	१३ २६
दुन्दुभीना महाध्वानै	८ ७१
दुगपालनिभा लोक-	१४ ३३
दुजना अप्यहो वीक्ष्य	१३ ८३
दुदमेन्द्रियमातङ्गान्	१२ ७४
दुर्घातिकर्मनाशेन	१९ ५९
दुर्धिय श्रेयसे तेषा	१७ २०१
दुर्भावकलिते जीवे	१६ १४१
दुर्मतोत्थ कुमिथ्यात्व	११ ६६
दुलभा त्रिजगल्लोके	५ १०७
दुष्कर्मारण्यदाहे स	१३ ५३
दूराद् बोक्ष्य मृग मत्वा	२ २३
दूषयन्ति न जीवान् ये	१७ १५७
दृक्चिच्छीलव्रतोपेता	१,७२
दृक्चिद्वत्ततपोऽर्च्याना	६ ४३
दृक्चिद्वत्ततपोयोगै	५ ८९
दृक्चिद्वृत्तादिरत्नाना-	७ १०२
दृक्चिदावृत्तिवेद्याना-	१६ १५६
दृक्शुद्धिरथवैका ये	६ १५८

दृग्ज्ञानसद्ब्रतोपेता	१९ २१४
दृश्योऽदृश्यस्त्रिचिद्भूष	८ १७
दृषदो रत्नसज्ञान्	१२ ११६
देवचिद्गुरुधर्मादीन्	६ ६६
देव ते या महत्योऽत्र	१५ ६६
देव त्वमेव लोकेऽस्मिन्	१३ ७६
देव मे महती श्रद्धा	१९ १३७
देव लोकाप्रशस्तान्य-	६ ७२
देवशास्त्रगुरुणा च	१७ १३०
देवश्रुतगुरुन् धर्मा-	१७ ११२
देवादेर्जीवतत्त्वस्य	१६ ४
देवादेवे मते सत्यासत्ये	१६ ७६
देवा देव्यस्त्वसख्याता	१९ २३५
देवा हि गुरव सर्वे	१७ १९४
देवाद्य पश्चिमे भागे	७ ९२
देवाचनीय निर्वाण	३ १४८
देवा सर्वेऽखिला देव्यो	९ ६४
देवि किं वेत्सि नास्येद	१२,७७
देवि मन्मैथुन किं ते	१९ १२८
देवी जयावती तस्य	३ ६२
देवीनिकरमध्यस्थो	१४ ६०
देहभोगाङ्गवर्गेषु	६ ८३
देहोऽशुच्याकरो नित्य	१९ १८६
देवोऽसौ विहरत्येव	१९ ५२
देवोदक्कुरवोऽत्रेश	१४ १३०
दोषान् गृह्णन्ति ये मूढा	१७ १६६
दौष्ट्यात्तद्धैर्यसामथ्य	१३ ६२
द्रव्यभावाभिधै प्राणै	१६ ९८
द्रव्यादिभ्रमणै पञ्च	११ २६
द्रुत सत्क्षपकश्रेणी	१३ ११३
द्वात्रिंशसन्मुखान्यस्य	१४ २१
द्वात्रिंशद्रम्यपत्राणि	१४ २३
द्वादशभ्यस्तपोभ्योऽन्यत्	१८ ९
द्वादशाङ्गगतार्थेना	१८ १३०
द्वारेषु त्रिकशालाना	१४ १६४
द्वारोपान्तेषु राजन्ते	१४ १०१
द्वाविंशतिसहस्राब्दे-	६ १६८
द्वासप्ततिप्रमा एता	१९ २२७
द्वितीये कल्पनार्यश्चा-	१५ २१
द्वितीया चन्द्रवद्विश्व	५,४१

द्विद्विपञ्चाङ्गनामानि	१९ ७२
द्विधाचर्चौर्ध्वैर्जच्छत्र	१४ १५८
द्विपञ्चाशत्समुत्कृष्टा	११ १००
द्विशताधिकैर्विशत्यब्दा	१ ४९
द्विषट्कालस्वरूप च	१६ २३
द्विषड्गुणस्थानस्या-	१३ १२८
द्विषड्भेदतपास्येव	१७ ८३
द्विषड्भेदा गणा भक्त्या	१५ २६
द्विषड्योजनायामा	२ १५
द्विषट्सहस्रदेवाढ्या	१४ ३०
द्विसागरोपमायुष्क	१ १११
द्वेषा जीवा भवन्त्यत्र	१६ ३३
द्वेषाय मुक्तिमार्गोऽत्र	१८ ३१
द्वेषा ससारिणो जीवा	१६ ३६

[ध]

धनदादिमहाशिल्पि-	१४ ६७
धनलाभादिपञ्चाना	१६ १५४
धन वा लभ्यते जातु	१८ १४१
धन्यास्त एव लोके-	११ १३१,
	१३ ७४
धन्योऽह देव नाथाद्य	१३ १२
धन्यो मम करौ स्वामिन्	१९ ९०
धम प्राचरितो मया	४ १४२
धम शान्तीश्वर	१८ १०७
धर्म श्रीकेवलप्रोक्त	५ ८८
धमकर्ता सुधर्माल्यो	१५ १२८
धमकर्मप्रणीर्धर	७ २४
धमकल्पतरोमूल	४ ४१
धर्मतीर्थकरोऽन्यो वा	१६ ८७
धर्मध्यानदयादीनि	४ ५७
धर्मबुद्ध्या भजेन्नित्य	१३ ५४
धमस्य कानि कतृ णि	८ २९
धर्मस्म किं फल लोके	८ ३०
धर्मश्चाचरितो मया	६ १७५
धर्मराड् धर्मचक्री त्व	१५ १२७
धमलाभोऽस्तु ते भद्र	१९ १००
धर्मसिद्धान्ततत्त्वार्था	१७ ११०
धर्मस्य शरण याहि	४ ९५
धर्माङ्गमार्जव धार्य	६ ७

धर्मात्सर्वाथससिद्धि	५ ६२
धर्मादिवारणै पाप-	१७ ६
धर्मादिष्टार्थसम्प्राप्ति	५ १४३
धर्माधमयुता काल-	१६ १३२
धर्माधमैकजीवाना	१६ १३७
धर्माभूतमयी वृष्टि	१६ ८८
धर्मिज्येष्ठोऽतिधर्मात्मा	१५ १२९
धर्मिण पापिनो भोग-	१६ १४
धर्मिणा त्व महाधर्मी	१५ ५५
धर्मं जिनोक्तमार्गं च	६ १४८
धर्मणानेन योगीन्द्रा	१८ ८३
धर्मण सुलभा सर्वा	११ १२७
धर्मणानन्तशर्माढ्य	११ ३४
धर्मक क्रियता ह्यनन्त	५ १४८
धर्मोऽधमहर सुधम-	७ १२५
धर्मो नाकिनरेन्द्रशर्म-	९ १४४
धर्मो मित्र पिता माता	११ १३०
धर्मोपदेशद मिष्ट	१७ ३०
धर्मोपदेशपीयूषै	१९ ८१
धर्मोपदेशहस्ताभ्या	१६ ८६
धम विधेहि चित्ते स्व	४ ९४
धार्मिका उत्तमाचारा	२ ६१
धीमन् धम पर कार्य	६ ५
धीमस्त्वयाऽयनुष्ठेयो	४ ९३
धूर्तप्रजल्पितेनानेन	१८ १३५
धृत्वा स्वहृदये धर्म	१२ ८५
धैयत्वेन दया कुर्वन्	४ ५६
ध्यायन्ति तद्गुणाप्त्यै	१७ १६४
ध्यायन्ति धर्मशुक्लाख्य	१७ ८४
ध्येयाना त्व सदा ध्येय	१५ ५४
ध्येयोऽय मुक्तिसिद्धयथ	१६ ९२
ध्वजचामरमाङ्गल्य	१४ ११४

[न]

न कीर्तिपूजादिकलाभ-	१९ २५५
न कृत परमो धम	३ १२६
नक्षत्रो जयफलाख्य	९.४८
न गृहीता न मुक्ता ये	११ २८
न च श्रीजिननाथाना	१७ १६९
न चाहतोऽत्र पुत्रादि	१७ १७५

न छाया दिव्यदेहस्य	१९ ६०
न जीवन्ति नृणा पुत्रा	१६ १७
नत्वा कृत्वा स्तुति	१८ १६०
नत्वा प्रपूज्य तीर्थेश	६ १६३
न धमसदृश कश्चिद्	१८ ८४
नन्दी हि नन्दमित्राख्यो	१ ४३
नन्दोत्तरादिनामान	१४ ८२
नम कर्मारिसन्तान-	१२ १३२
नमोऽद्य दीक्षितायाच्य	१२ १३०
नमो जगत्त्रयीनाथ	१५ ७२
नमो धर्मात्मने तुभ्य	१५ ७३
नम परात्मने तुभ्य	१५ ६९
नम श्रीवर्धमानाय	१० १,
	१५ ७१
नम सन्मतये तुभ्य	१५ १६५,
	१९ ४२
नम सुपाश्वनाथाय	१ १७
नमस्तीथकृते तुभ्य	९ ८२
नमस्तेऽद्भुतवीर्याय	१२ २९
नमस्ते शान्तरूपाय	१९ ४१
नमस्ते हृतदोषाय	१५ १६३
नमामि सुमति देव	१ १५
नमीश नमितारति	१ ३१
नमोऽक्षातीतशर्माक्त-	१२ १२९
नमोऽधिगुरवे तुभ्य	१२ ३०
नमोऽसख्यामरस्त्रीभि	१९ ४०
नमोऽनन्तमहावीर्यात्मने	१९ ३९
नमो निसर्गपूताय	९ ८४
नमो मुक्त्यङ्गनाभत्रै	९ ८५
नमो विश्वशरण्याय	१५ १६४
नमोऽस्तु श्रेयसे श्रेयो	१ २१
नयनेन विना सप्त	१६ १०१
नरके घोरदु खाना	११ ११८
नरेन्द्र सोऽतिपुण्यात्मा	७ २७
नतनैर्गीतिवाद्याद्यै	४ ११९
नवजीर्णादिपर्यायै	१६ १३४
नव प्राणा मता सद्भि	१६ १००
नवमासैर्व्यतीतै स	५ १२८
नवमे मास्यथाम्यर्णे	८ १४
नवेमा प्रतिमा येऽत्र	१८ ६७

नाकाद्विस्त्रीविमानादि	६ १०७
नाच्छाद्यन्ति सद्गीय	१७ २०५
नातिमन्द न शीघ्र च	१३ ६
नात्मध्यानात्पर ध्यान	१८ ८
नात्र जातु प्रवतन्ते	६ १२२
नात्र दीनोऽसुखी रोगी	६ १२४
नाथ त्वत्केवलज्ञान	१९ १७
नानादेशपुरग्रामान्	१९ २१८
नानारत्नमया धारा	७ ४७
नानारत्नमय दिव्य	१४ १४
नानासुवणरत्नोत्थ	१४ ७३
नानुष्ठित तप किञ्चित्	३ १२७
नामैकेनाखिलाथज्ञो	१५ १२५
नाहृद्भ्यो जातु देवोऽभ्यो	१८ ४
नासिकाधरदन्ताना	१० ५२
नास्तिका ये दुराचारा	१७ ७८
निगूढाथ क्रियाशब्दै-	८ १५
नित्यस्त्रीरागरक्तो य	८ १९
निदाघे तृषितो यद्भत्	२ ३३
निन्द्यकर्मान्विता निन्द्या	१७ ६७
निन्दा कुर्वन्ति ये दुष्टा	१७ १८२
निद्रा च प्रचला सोऽक्ष	१३ १२५
निधयो नव सरक्षया	५ ५८
निधयो मङ्गलद्रव्य	१४ १२६
निधिरत्नादिसपूर्णा	१७ ४१
निधिवत्तेजसा भूत्या	१४ २६
निरस्ताखिलवस्त्राय	१३ १२७
निराबाध निरौपम्य	१५ १३
निराहार विना जातु	४ ५२
निरौपम्यान् नृलोकेऽस्मिन्	५ ३४
निगत्य नरकादायु	४ १८
निघृणा क्वाथयन्त्यन्ये	३ १३३
निजरैरन्विता बाह्या	१४ ३१
निर्जिताशोकसच्छाय	७ ३४
निदग्ध विषयारण्य	६ १५१
निदया ये व्रतैर्हीना	१७ १७२
निघृततमसोद्योत	७ ६४
निधूयाज्ञानकुध्वान्त	१९ २१९
निमलस्य जिनेन्द्रस्या-	१९ ७४
निर्ययौ भारती रम्या	१६ ३०

निर्लोभा निरहङ्कारा	१ ६५
निर्वाणान्न पर किञ्चि	५ ७
निर्वाणभूमितीर्थेश	५ ६९
निर्वाणदर्शने तुभ्य	९ ८३
निर्वाणभूमयो यत्र	७ ६
निर्वाण ये गता भव्या	१६ ६१, १८ ३२
निर्विकल्प मन कृत्वा	६ १०३
निर्विकल्प महद्ध्यान	११ ७३
निर्वेदतत्पर धम-	१७ २७
निवृत्तावभिषेकस्य	९ ४०
निवृत्य लीलया स्वस्य	५ ४९
नि शङ्खादिगुणेभ्यो ये	६ ७६
नि शङ्खादिगुणोत्कर्षे	५ १४०
निशाता खड्गधारेव	९ ३४
निशाया पुण्यपाकेन	७ ६०
निश्चित्येत्याप्य सामग्री	१९ ७
नि शीलास्ते लभन्तेऽत्र	१७ १५६
नि शीलान् कुगुरुन्	१७ १८६
नि शोपा अस्य विज्ञेया	५ ६०
निष्क्रान्तै सार्धषण्मासै	४ ११७
नि स्नेहोऽपि स्वकायादौ	६ ६९
नि स्पृहाय नमस्तुभ्य	१६ २८
नि स्पहायाङ्गशर्मादौ	१२ १२५
नि सङ्ग विगताबाध	१३ १
निष्कल सिद्धसादृश्य	१६ ७९
निसगदिव्यगन्धाक्त-	९ ५०
निसगनिमला देवी	७ १०९
निसगभास्वरे काये	१४.१००
निसर्गेणामला बुद्धि	८ ५४
निहत्य सूक्ष्मलोभ	१३ १२२
नीचधमरता नीचा	१७ १०१
नीतिमागरता दक्षा	० ७ २०
नृत्यात् सलयस्मेर	१४ २४
नृत्यन्त सुरनर्तक्यो	१४ ३९
नृत्यारम्भेऽस्य सङ्गीत-	९ ११२
नृत्य चामरनर्तक्यो	९ ६
नृदेवखेचरावीशा	१९ २३६
नृपादीना सुख कुवन्	९ १२३
नेतार भव्यसार्थाना	९ ७९

नेपथ्यानि फलान्येषा	१४ १३१
नेमिनाथादयो धन्या	१० ८६
नैमित्तिक समाहूय	३ ७७
नोकर्माहारपुष्टस्या-	१९ ५६

[प]

पक्षपातच्युतो वाग्मी	१९ १०
पक्षमासादि षण्मासा-	६ ३२
पक्षमासोपवासादीना	५ १११
पङ्गवो बधिराश्रान्धा	१६ ११
पञ्चकल्याणकान्वेव	६ १७०
पञ्चकल्याणभोक्तार	८ १
पञ्चधा स्थावरा एक-	१६ ४०
पञ्चमे किल हास्यादि	१३ ११९
पञ्चरत्नोद्भवैश्चूर्णै	१५ ४८
पञ्चविंशतिदुस्तत्त्वान्	२ ११५
पञ्चाक्षजातिमर्त्यायु	१९ २३०
पञ्चाचारादिभूषा ये	१ ५७
पञ्चेन्द्रियनिरोधाश्च	१८ ७५
पञ्चेन्द्रियाह्वया प्राणा	१६ ९९
पञ्चैव स्थावरा द्वित्रि-	१६ ४१
पञ्चैवाणुव्रतान्यत्र	१८ ३७
पटहादिमहाध्वानै	१४ ४९
पठन्ति चाङ्गपूर्वाणि	२ १०
पठन्ति पाठयन्त्यन्यान्	१७ १३६
पठन्ति पापशास्त्राणि	१७ १०९
पठित्वानेकशास्त्राणि	४ ८०
पतन्ती सा गुरोरङ्के	९ ३१
पतिस्तस्य महीपाल	७ २२
पतिस्तस्या सुमित्राख्यो	५ ३७
पति कनकपुङ्खाख्य-	४ ७५
पदार्थान् स्वेच्छयादत्ते	१६ ६९
पद्म कालो महाकालो	५ ४७
पद्मप्रभमह नौमि	१ १६
पद्मरागमयास्तुङ्गा	१४ १५६
पद्मरागमयैस्तुङ्गै	१४ ९६
पद्मरागैधरापीठै	९ २५
पद्मापितकरा लक्ष्मी	१८ ५६
पपात कौसुमी वृष्टि	९ ४५
परद्रव्यातिग नित्य	१९ २३५

परनिन्दापर निन्दा	१७ ९
परपीडाकर लोक	१७ १३५
परमार्थेन विज्ञाय	५ ८६
परमेष्ठिजपस्तोत्र-	१७ २९
परया स्व-स्वसामग्र्या	१४ ६३
परस्त्रीधनवस्त्रादि	१७ ७
परस्त्रीसङ्गपापेन	४ १५
परस्त्रीस्तनयोऽन्यास्यान्	१७ १०७
परश्रीस्त्र्यादिवस्तूनि	३ १२३
परस्त्रीहरणादौ ये	१७ १४१
परस्व पतित स्थूल	१८ ४२
परात्मध्यानसन्तान	१३ ६१
परिग्रहपरित्याग	६ १२
परिग्रहप्रमाणेन	१८ ४७
परितस्त जिनाधीश	१५ २
परिधानमिवानेक	८ ११२
परिनिष्क्रान्तकल्याण	१२ ५
परिभ्रमणमत्यथ	१० ९६
परिषत्प्रथमायामप्सर-	६ १४४
परीत परया भूत्या	१९ ४९
परीत्याद्य गिरीन्द्र त	८ १२५
परीषहजयाताप-	१८ ७८
परीषहभयात्त्यक्त्वा	४ २८
परेद्युनतनैर्नेत्र-	८ ११
पर पात्रमिद दातु	१३ २७
पयन्तेऽथ वनाना	१४ १३५
पर्याप्तेतरभेदाभ्या	१६ ४८
पर्यायान्तरमेवाय-	१९ २४३
पर्वताभान् गजेन्द्रादीन्	१७ ३६
पवित्र तद्रपुर्मत्वा	१९ २४१
पवित्रमद्य गात्र ये	१३ १३
पवित्रमभिवन्द्यानु	१३ १०
पशूना वा मनुष्याणा	१७ १५५
पश्चात्तृतीयकाल	१८ ९८
पश्चाद्देवार्चन भूत्या	४ १३१
पाठयन्ति न पाठार्हान्	१७ १३३
पात्रदानजिनार्चा च	१७ १५०
पात्रदानात्पर दान	१८ ७
पात्रेभ्योऽग्निश दान	१७ १६०
पात्रोत्तम तमालोक्य	१३ ९२

पादाब्जयोर्महाकान्ति	१० ५९	पुन श्रीप्रतिमाना	४ ६३	पूर्वद्गोपुराण्यस्य	१४ १२५
पादौ गोमुखनिर्भासै	९ ५७	पुराणानि जिनेशाना	१९ ९५	पूर्वस्कारयोगेन	२ १०९
पापस्य कि फल यच्चा	८ ३३	पुरा पुरुरवा भिल्लो	४ २६	पूर्वाणा पश्चिमे भागे	१८ १६८
पापास्रवायबन्धौ च	१७ ५१	पुष्करै स्वैस्तयोर्दक्षित	१४ ३	पूर्वापराविरुद्धा च	१ ८२
पापास्रवायबन्धौ द्वौ	१७ ६२	पुष्परेणुभिराकीण	८ ६	पूर्वोक्ता वर्णना चैत्य	१४ १३४
पापिना लक्षण कीदृग्	८ ३४	पुष्पवृष्टि मुदा चक्रु	१२ ४९	पृथक्त्वाभिधमेकत्वा	६ ५३
पापिहृत्कुमुदान्याशु	७ ८३	पुष्पाञ्जलीनिवातेनु	१४ ४	पृथक्स्थल स्थल तस्य	१० ५३
पापोपदेशहिंसादाना-	१८ ५०	पूजान्ते ते सुराधीशा	१५ ४७	पृथ्व्यसेजोमरुत्	१६ ४२
पाप पुण्य परिज्ञाय	१६ ७३	पूजितस्त्रिजगन्नाथै	१ २२	पृथ्व्याद्या स्थावरा पञ्च	१६ ३९
पारणाहनि योगीन्द्रो	१३ ३	पूतिगन्धे कुरामाङ्गे	१२ ११४	पोषित शोषित चैतद्	११ ५९
पाश्व श्रीवधमानाख्य	१८ १०८	पूत स्वायम्भुव देह	९ १२	पौदनाधिपतिं सोऽपि	३ ८४
पालयन्ति त्रिधा शील	१७ १८५	पूर्ववत्सुचिर लोके	२ ११०	प्रकम्पन्ते सुरेशा	६ ९९
पालयन्ति त्रिशुद्ध्या ये	१८ ६३	पौरैश्च सन्निभा देवा	१४ ४०	प्रकुवन्नूजित नृत्य	९ ११६
पाशैर्बद्धो यथा सिंह	१२ ७९	प्रजाबाह्यसमाना	१४ ४१	प्रकृति स्थितिबन्धो-	१६ १४५
पिण्डिता निखिला देव्य-६	१३ ३७	प्रत्रय्या जगता शुद्धा	१२ १२४	प्रकृत्यादिप्रदेशाख्यौ	१६ १४६
पितास्यादौ जिनागारे	४ ७७	प्रशस्तार्थौघचिन्तादि	६ ५२	प्रजल्पन्ति वृथा येऽत्र	१७ १०८
पीठिका तामलचक्रु-	१४ १७०	प्रशस्ते भविता काले	७ ९५	प्रजा वणत्रयोपेता	२ ११
पीठिकाना च मध्येषु	१४ ७८	प्रशसापापिना मिथ्या	१७ १८४	प्रणम्य शिरसाऽप्राक्षीद्	४ ८४
पीयूषमिव कि पेय	८ १५	प्रस्खलत्पादविन्यासै	१० ९	प्रतिबाह्वमरेशस्य	९ १३५
पुण्यकारणभूताभि-	१७ ३४	प्रस्खलन्त समीक्ष्यति	३ ५०	प्रतिमायोगमाघाय	१३ १०१
पुण्य तीर्थकरादिभूति-	८ १२७	प्रस्तावेऽस्मिन् विलो-	१५ ७८	प्रतीन्द्रोऽपि महामूर्त्या	१४ २७
पुण्यास्रवायबन्धौ	१७ ५०,	प्रस्थानमङ्गलान्यस्य	१२ ५०	प्रतीक्षा प्राप्नुमिच्छामि	२ १००
	१७ ६१	प्राक्तना वृषभाद्या ये	१० ८५	प्रत्यङ्गमस्य ये रम्या	१ १३८
पुण्यास्रवायबन्धौ च	१७ ५५	प्राक्तपश्चरणोत्पन्नान्	५ ३३	प्रथमे च गजानीके	६ १४१
पुनगत्वास्य षट्त्रिंशत्	८ ११५	प्राक्परिभ्रमण स्वस्य	१० ८२	प्रथमोऽत्रावसर्पिण्या	१८ ८८
पुनर्देवा मुदा तुष्टा	१९ २४७	प्रागर्जितनिधीना य	११ ८१	प्रदीप्त साम्यतापन्न	१५ १४८
पुनर्देव्यो जिनाम्बाद्य-	७ १०७	प्राग्गर्भाधानत षण्मास-	७ ४९	प्रध्वनन्ति नभो व्याप्य	१२ ५३
पुनर्ननाट शक्रोऽन्य	९ ११५	प्रागर्जितायपाकेन	३ ११०	प्रभाते श्रावका केचित्	७ ७३
पुनरप्सरसो नेटु-	९ १२९	प्रागुक्तवर्णना यत्र	५ ३६	प्रपञ्चेनान्यदा भूप-	३ २२
पुनर्मिथ्यात्वपाकेन	२ ११४	प्रागुक्त निर्जराया	१६ १७१	प्रपूज्य दिव्यभूषास्रग्	७ १२१
पुनर्मुनिर्हरिं वीक्ष्य	४ २५	प्राग्भवेऽभ्यस्तनि शेष	१२ ४	प्रबोधितोऽथवा दीपो	१२ ११
पुनश्चैत्यद्रुमाघ स्था	५ १२२	प्रात कालोऽधुना देवि	७ ८४	प्रमोदनिर्भरान् विश्वान्	९ ११०
पुनस्तामीक्षितु चक्रे	९ ६३	प्रात शीतजलस्नानात्	२ १०२	प्रयुज्यासौ महच्छुद्ध	९ १२१
पुनस्तिर्यङ्मृत्कोके	५ २९	प्राणिहिंसादिना तस्य	४ २०	वरगुणसमुद्र घम-	१९ २६१
पुनस्त भूषयामासु	१२ ४०	प्रामाण्य सद्ग्वच कस्य	८ २४	व्रविश्यासख्यवर्षाणि	२ १३०
पुनर्निर्मलचित्तेन	१३ १०९	प्रायश्चित्त तपोवृत्त-	६ ४३	प्रियमित्रमुनीन्द्रोऽसौ	५ ११७
पुन पूर्वभयाभ्यासा-	२ १२३	प्रायश्चित्तातिगो देवो	१३ ४८	प्रिय विश्वहित चाभूद्	१० २०
पुन प्रपूज्य तीर्थेश	२ ४३	प्रावृत्काले विघत्तेऽसौ	१३ ४४	प्रीत सौधमकल्पेन्द्र	९ ९९
पुन प्राक्कर्मा भूत्वा	२ ११९	प्रासादा भान्ति ते	१४ १५२	प्रोक्तास्तीर्थकरोत्सेधा-	१४ १४२
पुन श्रीतीर्थकर्तार	९ २९	प्रासुक मधुर भूप	१३ २३	प्रोक्तुर्विभोमनाग् नासी-	१६ २९

[फ]

फलाम्बुबीजपत्रादि १८ ६१

[ब]

बद्धावत्र तीथकृत्नाम १९ १५५
 बभारोरुद्वय दीप्त १० ५८
 बभूवास्या पति श्रीमान् २ ६४
 बलिहन्ताभिषो रावणो १८ ११५
 बली मुष्टिप्रहारेण ३ ३४
 बहिरन्तमलापाया- १२ ११२
 बहिरात्मान्तरात्मा तु १६ ६६
 बहुनोक्तेन किं साध्य ५ १०२
 बहुभि खगपै सन्ये ३ ९८
 बहुश्रुतवता विश्वोद्योत ६ ९१
 बहुवतेनात्र किं साध्य ११ ५२
 बहूनि धमतत्त्वानि ५ १२४
 बहूनि षष्ठाष्टमादीश्च १३ ४१
 बहूपवाससकलेशात् १३ २०
 बाण-बाणासने गङ्गा १० ६८
 बालचन्द्र इवासाद्य ४ ७९
 बालासक्तजनैर्निदोष ६ ६७
 बाह्यान्त स्थाखिलान् ५ १४
 बुद्धिलो गङ्गसज्जोऽथ १ ४६
 बोधयन्ति बहून् १७ १३७
 ब्रह्मचय मुदा सेव्य ६ १४
 ब्रीह्यादिसर्वशस्यानि १९ ७३
 ब्रुवन्त्यत्रेष्यया दृष्टा १७ १०६

[भ]

भक्त्योत्तमसुपात्राय १७ ९५
 भगवन्नद्य पापारि- १९ १८
 भगवस्त्व जगन्नाथ १५ १२४
 भगवन्त मुदा नत्वा १९ ३
 भगवन्नादिमे द्वीपे ४ ३७
 भगवन् भव्यशस्यास्त्व १९ ३२
 भगवन्मत्पुरेऽत्रास्मिन् १९ १६०
 भद्र त्व नियम तस्य १९ १०७
 भरत सगरश्चक्री १८ १०९
 भतुर्दिव्याङ्गमाश्रित्य १० ६५
 भवत्तत्त्वोपदेशेन १२ २१

भवतो हेतुभूतेऽत्र १७ ६३
 भवत्तीथविहारेण १९ २७
 भवदीयामिमा शक्ति १२ १३४
 भवद्वाक्किरणैर्नाथ ९ ७१
 भवत्पादाम्बुजाभ्या या २५ १४९
 भवभ्रमणत श्रान्त ३ ३
 भवद्वचोऽशुभि केचि- १२ १७
 भवलक्ष्म्याङ्गभोगादौ ३ ४३
 भवान्तराणि सर्वाणि १८ ११७
 भवाब्धौ पतनाज्जीवान् ११ १२२
 भवाब्धौ पतनात्पूर्व- १२ ७८
 भवाब्धौ पतनाद् भव्यान् ४ ८६
 भवत्स्तुतिशुभालापै ९ ७८
 भविष्यसि न सन्देहो १९ १५७
 भवेदस्योन्नतिभूमे ८ १०८
 भवे ये प्र.क्तने दक्षा ११ १०६
 भवो यदि खलो नास्ति ६ २२
 भव्याना हेतवो ज्ञेया १७ ५८
 भागेऽस्यैव द्वितीयेऽष्टौ १३ ११८
 भाग्यानामिव सवासे ९ ६०
 भाति तत्परम पीठ १४ १७६
 भाति साथकनाम्नी सा १४ १७८
 भाति सा वातसघट्टौ १४ ८५
 भान्ति चामरतालाब्द १४ १६३
 भानुतीक्ष्णाशुसन्तपते १३ ४६
 भानुरश्म्यौघसन्तपते ६ ३९
 भारते सिद्धकूटस्य ४ ५
 भावबन्धनिमित्तेन १६ १४४
 भावना भावयन् वृत्ते ४ १२०
 भावयन् त्रिकसवेग १३ ५
 भासन्तेऽत्र हित सत्य १७ १३८
 भास्वताज्ञानकुध्वान्त ७ ९८
 भीत्वा तस्माज्जल्पे- १९ १७७
 भीमनामा महाभीम १४ ६१
 भुञ्जन्ति यच्च भो- १९ २३७
 भुञ्जान परमानन्द ६ १७१
 भुञ्जानो विविधान भोगान् ३ ६०,
 ४ ७०
 भुङ्क्ते त्यक्तोपम सौख्य ११ ४१
 भुङ्क्ते सोऽन्वहमत्यन्त ३ १४५

भुक्तैर्यैविविधैर्भोगै ३ ३७
 भुवनत्रयससेव्यौ १५ ३५
 भुजलानिनसमीरा सर्वे १६ ४५
 भूताश्च भाविनो वर्त- १८ १२९
 भूत्वा धर्मे रतोऽत्यन्त ५ ११९
 भूम्यप्तेजोमरुत्काया १६ ५०
 भृङ्गारिकलशाब्दाद्या १४ ९८
 भेजे सा परमा प्रीति ८ ८२
 भेरीरव परो जात १४ १०
 भेरीरवोऽतिगम्भीरो ७ ११४
 भोगान् भुजङ्गभोगा- ११ १२२
 भोगानामुपभोगाना १८ ५१
 भोगोपभोगवस्तुनि २ २८
 भो देव कुरु न स्वामिन् ६ ११७
 भो मन शुद्धिरेवात्र १८ १६२
 भोरिद दुषट काव्य १५ १०१
 भो विशतिःसहस्राङ्क १४ ७०
 भ्रातृभ्या सह जग्राह १८ १४९

[म]

मणिकुण्डलतेजोभि- १० ५०
 मणिदीपैर्महाधूपै ९ ४२
 मणिपीठेषु सुस्थास्ते १४ १३९
 मणिमन्त्रादयो विश्वे ११ १६
 मणि शुद्धाकरोद्भूतो ९ ७९
 मणिश्चत्रमसिश्चेति ५ ५६
 मतिश्रुतविधिज्ञान १० १३
 मतेर्मन्दकषायित्व ११ ११६
 मत्वेति ज्ञानिभि पूर्वं १० ९७
 मत्वेति त्वत्स्तुतौ देव १५ १६२
 मत्वेति देव भवत्याह १५ १२६
 मत्वेति धीधना मोक्ष १६ १८२
 मत्वेति धीवनै कार्या ११ २१
 मत्वेति नाकिनो नून ९ १३
 मत्वेति प्रत्यह यत्नात् १८ १७
 मत्वेति ये भजन्त्यत्र १७ १९५
 मत्वेति सवथा हेयो १६ ७४
 मत्वेति सुधिया स्वायु- ५ ९३
 मत्वेतीह महान् यत्नो ११ १२१
 मत्वेत्यादौ सुयत्नेन ११ ७२
 मत्वेत्येष सुधीनित्य ५ ६३

मत्स्ययुगेक्षणाद्विश्व-	७ ९९	महानच्युतनामाय	६ ११९	मिथ्यामार्गानुरागित्व	१६ २०
मत्स्यौ कुम्भौ महाब्धिश्च	१० ६७	महान्ति गोपुराण्यस्य	१४ ९५	मिथ्यामार्गानुरागेण	१७ २००
मत्स्यौ सरसि सफुल्ल	७ ६५	महान् मण्डपविन्यास	९ ३	मिथ्यासासादनौ मिश्रो	१६ ५८
मदखेदादयो जातु	१० ६३	महापापाकरीभूता	११ ६७	मुक्ताफलमयैर्दिव्यै-	१५ ४१
मद्गुरुश्रीवधमानारुयो	१५ ८९	महाप्राज्ञा परे ज्ञात-	७ ७५	मुक्तिरामा महाभाग	९ ७४
मद्यतुर्यविभूषास्रग्	१८ ९१	महामिथ्यामतासक्ता	११ ९२	मुक्ते को माग एकत्र	१६ २१
मद्भागिनेयपूज्यस्य	३ ९१	महामूर्खा कुशास्त्रज्ञा	१७ ७४	मुक्तोर्नित्य फल ज्ञेय	१८ ३३
मद्भाग्येनात्र सम्पूर्ण	१३ १६	महाव्रताद्यनुप्रेक्षा	१३ १०३	मुख्यवृत्त्या भवेत्कर्ता	१७ ५४
मद्यवद्विकलान् कुर्या-	१६ १५०	महाव्रतानि चाह्न	१७ ८२	मुख्या प्राणिदया यत्र	१ ७९
मदुपज्ञ तथा लोके	२ ९९	महाव्रतानि पञ्चैव	१३ ५६	मुग्धस्मित यदस्याभू-	१० ७
मद्युलिप्तासिधारेव	१६ १४९	महाशुक्रात्स आगत्य	५ ३८	मुञ्च तल्प यथायोग्य	७ ७२
मध्येऽत्र जीवराशीना	१७ ४५	महीरुह तमुन्मूल्य	३ ३२	मुदा भ्रान्त्वा चिर भूमौ	२ १०४
मध्ये देशधरा अष्टा	१ ५२	मातङ्गपाटके यद्वद्	११ ५८	मुद्रिकाङ्गदकेयूर-	१० ५४
मध्ये द्वाषष्टिवर्षाणा-	१ ४२	मातङ्गादिकुल निन्द्य	१७ २०	मुनिभ्यो दीयते दान	१८ ५७
मध्येऽमीषा विमानाना	११ १०२	मातृ प्रवचनस्यैष	१३ ५७	मुने पराक्रमस्तेऽद्य	३ ५१
मनोगुप्तिर्वचोगुप्ति	४ ९१	मानस करुणाक्रान्त	१७ ३७	मुनौ मलादिलिप्ताङ्गे	१७ १२७
मनोभूषामसकाश-	७ ३३	मान सज्वलन वै	११ १२०	मुन्यादिभ्यो व्रतादीनि	१ ३०
मनोवचनकायाद्यै-	६ ८९	मानस्तम्भमहाचैत्य-	१५ ३०	मुहु प्रदक्षिणीकृत्य	४ ५०,
मनोवचनकायैश्च	१८ ३८	मानस्तम्भा ध्वजास्त-	१४ १४१	८,७७	
मनोवाक्कायसशुद्ध्या	४ १०४	मानुष्य दुलभ चादा	११ ११४	मूढत्रययुतो भद्रो	१९ १७२
मन्यते मन्मनोऽत्रेद	१५ ११०	मायाविनोऽतिकौटिल्य-	१७ ७३	मूर्खा एव यत शोक	१२ ८३
मर्त्यजन्मकुलारोग्य	५ ८७	मालाशुकमयूराब्ज	१४ ११७	मूर्तान् स्वावधिना याता	५ १२९
मरीचिरपि तीव्रात्	२ ९०	मित्रत्व च प्रकुवन्ति	१७ ११४	मूर्त्ना नत्वा महावीर	१२ ७
मरीचिरपि तै सार्धं	२.८४	मित्रामयापनोदाथ	१९ १२१	मूर्त्ना नत्वा यतीन्द्राह्नी	३ ४०
मरीचिस्त्रिजगद्भुतु	२ ९७	मित्राशुद्ध मयोच्छिष्ट	१९ १८४	मूलभूता सदादेया	१८ ७७
मरुदान्दोलितस्तेषा	१४ १२०	मिथ्याज्ञानकुमार्गान्ध-	१९ ८२	मूलोत्तरगुणान् सम्यक्	५ १०९
मरुत्सुर सभास्थानात्	१९ ६९	मिथ्याज्ञानान्धकूपेऽस्मिन्	८ ९१	मूलोत्तरगुणै सर्वै	१८ ८२
मलजल्लाक्तदेहेषु	६ ६५	मिथ्यातपोऽत्र निधूय	६ ७०	मृगाधिप समासाद्य	४ ९
महती स्व श्रिय वीक्ष्या-	५ २६	मिथ्यात्वपञ्चभि क्रूरै	१७ ४	मृगेन्द्रवाह्नारूढ-	१४ ४३
महतोऽतिशयानेतान्	१९ ७८	मिथ्यात्ववासित पाप-	१७ ८	मृग्या ससारिणो जीवा	१६ ५७
महाकान्तिकलालाप	७ ३५	मिथ्यात्वाचरणेनाहो	१८ १४५	मृत्युपयन्तमेवाति-	३ ११२
महागहनमध्यस्थ	१९ ११४	मिथ्यात्वाद्युपधीन् सर्वा-	५ १०६	मृत्युश्क्वलेशदु खादे	५ ७८
महागुरुर्गुणा को	८ २३	मिथ्यात्वारातिसन्तान	१८ १४७	मृत्युजीवितशर्मादी-	१६ १२७
महाघण्टाद्वयोपेत	१४ २८	मिथ्यात्वेन सम पाप	४ ४४	मृदङ्गोऽहिस्रजो वीणा	१० ६९
महातेजा जगन्नाथो	१३ ७७	मिथ्यादृग्ज्ञानचारित्रा-	६ ७५	मृदुशिशिरतरोऽस्मा-	१३ १३५
महात्मा च महादान्तो	१५ १३१	मिथ्यादिप्रत्ययै सप्त-	११ ३२	मेषधारा नभस्तारा	१५ १६०
महादेवीभिरैवासौ	६ १७२	मिथ्यादृशश्च रागान्धा	१७ ९७	मेरोरीशानदिग्भागे	८ ११८
महाधर्मी महादेवो	१५ १३०	मिथ्यादृशा कुदेवाना	१७ १६८	मोक्षद्वीपान्तर नेतु	१९ ३०
महाधियो महाप्राज्ञा	१ ६६	मिथ्यादृशो भवन्त्यत्र	१७ ५९	मोहकर्मक्षिश्रूणा	१ ३२
महाधीरो महावीरो	१५ १३२	मिथ्यादृष्टिर्विधाता स्यात्	१७ ५६	मोहनिद्राघहन्तार	१९ १

मोहपङ्के निमग्नाना	१२ १९
मोहमल्लविजेतार	९ ७५
मोहारिजयोद्योग	१२ ५१
मोहारिविजयोद्भूत	१२ ५४
मोहारिविजयोद्योग	१२ १४
मौलयो नाकिनायाना	१४ ६

[य]

यत सज्जमिद वासीद्	१९ ३४
यत सेन्द्रं सुरै सर्वे	११ १५
यत सैवात्र भक्तिर्नो	१९ ४५
यतस्त्वत्त प्रभो प्राप्य	१२ १५
यतस्त्व दुजयारातीन्	१२ २४
यतस्त्रिज्ञाननेत्रस्त्व	१२ १३
यतस्त्व दृश्यतेऽतीव	३ ५२
यतस्त्वयजेद्विरक्तोऽत्र	१२ ६५
यतस्त्व परमो दाता	१५ १६८
यतस्तेऽङ्ग निरौपम्य	१५ १४७
यति स्वकृपयेत्याह	२ २६
यतो गर्भात्समारभ्य	११ ८
यतोऽत्र तपसाऽनन्ता	२ ५
यतोऽत्रैकादशाङ्गार्थ	१६ ६२
यतो धर्मेण जायन्ते	७ ५६
यतोऽत्रैते प्रजायेत	११ १२५
यतो न ज्ञायते नृणा	४ ९९
यतो न त्वत्समोऽन्योऽस्ति	१९ ३७
यतो न दशनैव	४ ४३
यतो मोहेन जायेते	१० ९५
यतो यदेव मन्यन्ते	११ २५
यतोऽय ते समायात	१२ २६
यतोऽय पोषित कायो	११ ६०
यतो यौवनभूपेन	१० १०१
यत्किञ्चिदुलभ लोके	१७ ४३, ११ १२९
यत्किञ्चिद्विहित मयात्र	१९ २५७
यत्किञ्चिद् दृश्यते वस्तु	११ ६
यच्छब्दोति स पुण्यात्मा	४ ३८
यजन्ति जिनसिद्धान्त-	१७ १७७
यत्तुङ्गपुरै शाल-	७ ११
यत्पुर राजते तुङ्ग	७ १८

यत्र केवलितीर्थेशा	७ १२
यत्र ग्रामपुरीखेट-	७ ८
यत्रत्या दानिनो नित्य	७ १६
यत्राक्षतस्करा सर्वे	६ २४
यत्रारण्याचलादीनि	७ ७
यत्रोन्नता जिनागारा	७ १३
यत्रोत्पन्नाश्च भव्यायां	२ ५१
यत्रोत्पन्नैर्महद्भिश्च	२ १४
यदात्र निर्जरा कृत्स्न-	५ ८५
यदायुर्दुलभ पुसा	११ ७
यद्विव्यध्वनिनात्रासीद्	१ २७
यद्यद्विचायते वस्तु	६ २७
यद्यनेनापवित्रेण	११ ६१
यद्यय वेत्ति सद्धर्मं	१ ६९
यद्यहो कालबालौघा	१२ १०४
यद्यौवन सता मान्य	११ ९
यद्रूपातिशय बीक्ष्य	१ ३
यद्ब्रह्म शस्त्रघातेन	१ २८
यथा कालोरग शर्करा-	१६ ६३
यथाज्ञानतमो दिव्य-	७ ८०
यथात्र निजनेऽरण्ये	११ १४
यथात्र मिलित पक्षि-	५ ६
यथा यथा नरान् प्राथ्या	५ ९७
यथाहृद्वचनाश्वौघै	७ ८२
यथावसर्पिणीकाल	१८ १२५
यथैष तीर्थनाथोऽत्रा	२ ९८
यथैष सकल सङ्घ	१९ २५
यमेन नीयमानोऽङ्गी	११ ३७
यस्माल्लब्ध्वा महामन्त्र	१ ३३
यस्य जन्माभिषेकस्य	९ ४६
यस्याद्रेर्मूर्ध्नि ता धारा	९ २०
यस्यानन्तगुणा व्याप्य	३ १
यस्यानन्तगुणा लोक	१ २४
यस्यान्नदानमाहात्म्याद्	१ ६
यस्यावतारत पूर्वं	१ २
यस्याथ क्रियते कर्म	११ ११
यस्या सम्यग् निरूप्यन्ते	१ ७७
या तु बीजपदादानात्	१९ १४७
यात्रा ब्रजति सोऽहन्	४ १३४
यादृश परमात्मान	१६ ९३

यानादवातरद्वीरो	१२ ९१
या पुण्यास्त्रवधारेव	९ ३२
या भारती जगन्मान्य	१ ५९
याभूच्छ्रद्धा परार्थाना	१९ १४८
यामत्रये गतेऽप्यस्या	१५ ७९
यावज्जीव प्रपाल्योच्च	४ ५८
यावत्कर्मास्त्रिवो योगा-	११ ७१
यावन्त सन्ति लोके	१५ १४६
यावानाकाश एवात्र	१६ १३९
ये कुवन्ति परा भक्ति	१७ १२५
ये कुवन्ति सदा धम	१७ १४३
ये गुणा गणनातीता	१२ १०९
येऽर्जयन्ति सदा पाप	१७ १४५
ये तन्वन्ति सदा धम	१७ १५१
ये ते ब्रजन्ति दु कर्म-	१७ ७१
येऽत्र मायाविनो मर्त्या	१७ ९६
येऽत्र सैव मया बन्धौ	१ ६०
ये दृष्टिभूषिता दक्षा	१७ ९०
ये धर्मेण विना मूढा	११ १३२
येन कायेन भुज्यन्ते	५ ९८
येन कुवन्ति सस्कार	१७ १२१
येन प्रकाशितो धम	१ ९
येन प्ररूपितो धर्मो	१ २५
येन ब्रतेन लभ्यन्ते	१९ १३२
येन श्रुतेन सम्भयाना	१ ८५
येनासाभ्युदय पुसा	४ ८७
येनासास्त्रिजगत्स्तुता	१९ २५४
येनोक्तो धर्मचार	१९ २६३
ये पठन्ति निपुणा श्रुत-	१९ २५८
ये पदार्थां न श्रुता पूर्वं	१५ १०४
ये योगा दु करा जाता	६ २६
ये सवसङ्गनिर्मुक्ता	१ ६३
ये सेवन्ते च धर्माय	१७ १९९
यै स्वकर्मास्त्रिवो रुद्धो	११ ७०
योऽजितो मोहकामाक्षा-	१ १२
योऽनन्तदर्शनज्ञान-	१९ ११
योऽभूद्धममयो व्यनक्ति	१८ १७०
योगिना त्व महायोगी	१५ ५२
योगिभ्यो ज्ञानदान	६ ८४
योगै कर्मास्त्रिवद्वार	११ ७४

योग्यकाले सुपात्राय	४ १३२
यो घातिकर्मनिमुक्तो	१६ ८५
योजनग्रामसीमाद्यै	१८ ४८
योजनाना नवव्यासा	२ ५९
यो देवेन्द्रनरेन्द्रवन्दित-	१६ १८४
यो निहृत्य महावीर्य	१ ८
यो बाल्येऽपिजगत्सारर	१ ५
यो बाल्येऽपि सुसयम	१९ २५३
यो मुक्त्वा नरदेवजा	११ १३६
यो विहायान्यकर्मणि	५ ९२
यो वीरोऽङ्गिपितामहो	९ १४५
यो लोकत्रयतारणैक-	१४ १८५
यौवनस्था यत केचिद्	११ १०
यौवने तु महामण्डले-	५ ४४

[र]

रक्षन्ते ये शठै प्राणा	१९ १११
रत्नत्रयतपोबाणान्	१९ २०
रत्नत्रयमहाबाण-	१३ १०४
रत्नत्रयात्परो नान्यो	१८ ६
रत्नपीठत्रयाग्रस्थ	१५ १८
रत्नवृष्टि चकारोच्चै	७ ५०
रत्नाभरणनानाभा	१४ ९९
रत्नोपपादशिलान्त स्थ	६ १०६
रम्या कल्पद्रुमास्तुङ्गा	१४ १२९
रम्या क्रीडाद्रयो यत्र	१४ ८७
रसत्याग तपो दध्या-	१३ ४३
रागद्वेषादयो भावा	११ ५०
रागादिदूषितेनैव	१६ १४०
रागाद्यै रागिणो यत्र	११ ६४
रागिणोऽणुभते ह्येक	१६ १६५
राजतानि विराजन्ते	१४ १३६
राजानो मौलिबद्धा	५ ५१
राज्यलक्ष्मी सुखादीनि	११ १२
राज्य रजोनिभ नून	५ १००
रात्रौ चतुर्विधाहार	१८ ६२
रुजादिभि स साधूना	६ ८६
रूपलावण्यतेजोङ्ग-	४ १२६
रेजे तदम्भसा पूर	९ २४
रे दुष्ट मत्तपोमाहात्म्यात्	३ ५४

रे भद्र तरवोऽत्रैते	१९ १७८
रोगक्लेशदरिद्राद्या	१७ १६
रोगिणो रोगहीनाश्च	१६ १२
रोदन चेति कुर्वाणा	१२ ७०
रौद्रकर्माशयोत्पन्न	६ ५०
रौद्रध्यानेन मुक्त्वासून्	३ ११४
रौद्रध्यानेन मृत्वेति	१९ १६९

[ल]

लक्षण कीदृश धर्मिणा-	८ ३१
लक्ष्योजनमानो य	३ १४३
लक्ष्मण कृष्ण एवात्र	१८ ११३
लक्ष्म्या पुञ्ज इवोद्भूत-	९ ५९
लभते परमानन्द	२ ३५
लभन्तेऽत्र यथा यक्षा	१२ १०५
लभ्यते येन धर्मेण	२ २७
लभ्यन्ते कमणा देव	१६ १५
ललज्जिह्वाशतात्युग्र	१० ३०
ललाट रुच्ये तस्य	१० ४८
लसत्कान्तिहृतध्वान्त	८ ६१
लसत्कान्ति महाकाय	७ ६२
लाभभोगोपभोगा	१३ १३२
लिखन्ति ये ग्रन्थमिद	१९ २५९
लोकयन्तो निरौपम्य	१५ ३१
लोकस्त्रिघात्मको बोधि	११ ४
लोकान्नेऽस्ति वियद्वत्न	११ १०९
लोकान्नेऽस्ति वियद्वत्न	१६ १३१
लोकालोकप्र देशे	१६ १३५
लोके गुरु युवा यस्मात्	९ १००
लोभिना त्व महालोभी	१५ ५७

[व]

वक्तव्य वचन सत्य	६ ८
वक्तृ-श्रोतृकथादीना	१ ६२
वच सत्य हित सार	१८ ४०
वज्रसेनो नृपस्तस्य	४ १२२
वदन्ति वेदिकादीना-	१४ १४५
वधबन्धादय पापात्	१८ ४३
वनदेवाश्चरन्तीमे	२ २४
वनयक्षी वसाम्यत्र	१९ ११६
वनवीथीमिमामन्त-	१४ १४७

वनाना मध्यभागेषु	१४ १०९
वनाना सर्वहर्म्याना	१४ १४३
वनेचरपति काश्चित्	१३ ८७
वन्दे जगत्त्रयीनाथ	१७ १
वन्दे वीर महावीर	११ १
वपुरादेविदित्वेत्य	११ ५३
वपुर्भगवतो दिव्य	८ १०२
वर प्राणपरित्यागो	१९ ११२
वर व्याघ्रारिचौराहि-	२ १३३
वर हुताशने पातो	२ १३२
वर्ततेऽत्र सदाप्येका	६ १२५
वणगन्धरसस्पश-	१६ ११६
वधमानलयै काश्चिद्	९ १३०
वधमानश्रिया वध-	१ ४
वर्धमानस्त्वमेवात्र	१३ ७९
वसन्ति तुङ्गसौधेषु	२-६२
वसन्ति यत्र रागद्वेष-	११ ५६
वसेद् व्याघ्राधिपस्तत्र	२ १९
वस्त्राभरणमाल्यानि	१२ ९४
वस्त्र विना समस्ताना	१८ ६६
वाञ्छन्ति सकला	१७ १५४
वाणिज्याद्यखिलो नि द्यो	१८ ६५
वात्सल्य कुरुते धर्मो	४ १३६
वायुवेगा तयोर्जाता	३ ७४
विकथालापवार्तादी	४ १०६
विकलामृतपञ्चे-	१६ ४६
विकृत्य स्थूलवेताल	१३ ६३
विक्रियाद्धिमय विक्रिय-	१४ २०
विक्षिप्तकरविक्षेपै	९ १२५
विघातान्मदनाराते	१२ ११९
विचारविकलो योऽत्र	१६ ६७
विचित्राभरणै स्त्रग्भ-	१० ७४
विचित्रैमणिपुष्पै	१५ ५
विचिन्त्येति पद त्यक्त्वा	५ १०५
विचिन्त्येति महाप्राज्ञ	१० १०४
विचिन्त्येति स कालादि	१५ ११४
विचिन्त्येति स गत्वाशु	१९ १३३
विचिन्त्येति समाहूय	३ ३९
विचिन्त्येति हृदा धीमान्	४ १०३
विचिन्त्येत्यनु विज्ञाय	१५ ८३

विचित्र बलिविन्यास	८ ७
विजयाख्योऽचलो धम	१८ १११
विज्ञायावधिबोधेन	४ ६१
विज्ञायेति क्षणध्वसि	११ १३
विज्ञायेति परित्यज्य	१६ ८३
विज्ञायेति बुधैर्वाय	१८ २४
विज्ञायेति महादेशे	१२ ८२
विज्ञायैतै परैश्चिह्नै	१४ ७
विज्ञेया आगमे दक्षै	११ ९९
विज्ञेय परमात्मासौ	१६ ९७
वितरन्ति न दान ये	१७ १६२
वितर्क्येति प्रसाध्यारीन्	३ ३०
विदित्वेति शरीरेणा-	११ ६२
विद्यते स प्रदेशो न	११ २९
विद्यमानान बहून्	१७ १४८
विद्यामदोद्धत वीक्ष्य	१५ ८८
विधीयते तपोयोगै	११ ८३
विधेयानि तपास्येव	६ ११
विध्यापितजगत्तापा	१३ १२३
विनयादिधर श्रीदत्ताख्य	१ ५१
बिना प्रयोजन यच्च	१८ ४९
विनाश प्राक्शरीरस्य	१६ ११३
विभावाख्याश्च पर्याया	१६ ११२
विभूत्या परया साक	९ ९१
विभूत्या परया सार्ध	८ ७४, १९ २४०
विभोर्ध्यानमहानन्दा-	१९ ६८
विभो प्राग्दिशमारभ्य	१५ २०
विभो भवत्प्रसादेन	१९ २४
विभो शिरसि दीप्राङ्ग	१५ ६
विभो साम्यप्रभावेन	१९ ५५
विभ्राजन्तेऽस्य शालस्य	१४ १६१
विमानमेरुनन्दीश्वरा-	३ ५८
विमुखायाखिलाक्षादौ	१२ १३१
वियोगैरिष्टवस्तूना	४ ३१
विरक्तिजनकैर्वाक्यै	१२ ८
विरक्तो नित्यकामिन्या	८ १६
विरम्य सवसावद्या-	१२ ९६
विलापमिति कुर्वाणा	१२ ७६
विविक्तमधुरालापै	१२ ४२

विवेकी कोऽत्र यो वेत्ति	८ ३६
विशाखनन्द एवाधी	३ ४९
विशाखभूतिरप्याग्य	३ ४२
विशाख प्रोष्ठिलाचाय	१ ४५
विश्वज्ञो विश्वतत्त्वज्ञो	१५ १३७
विश्वदु खाकरीभूत	५ ७९
विश्वनन्दिचरो देव-	३ ६३
विश्वनन्दिन उद्याने	३ २०
विश्वनन्दी भ्रमन्नाना	३ ४६
विश्वनेत्रस्य देवस्य	९ ५३
विश्वभव्योपकाराथ	१९ ५४
विश्वभूतिर्महीभतु	३ ८
विश्वधिसुखबीजानि	६ ५६
विश्वशमखनी सारा	११ ८५
विश्वाग्रणीर्हि विश्वात्मा	१५.१३८
विश्वान्नभक्षणाप्यशाम्या	३ १४२
विश्वामरगणाभ्यच्य	१७ ४०
विश्वोपकारिणौ जातौ	९ १०१
विश्वोत्तरगुणै साध	१३ ५८
विश्वाभ्युदयशर्माणि	६ १६
विषयोश्च नगर्य सप्त	११ ६७
विष्टराणि सुरेशाना	१४ ५
विष्टर तदल चक्रे	१४ १८२
विस्तरेण जिनाधीशो	१८ ११८
विस्तरेणास्रवस्यास्य	१६ १४२
विस्तरोक्त्या पदार्थाना	१९ १४९
विस्तीर्णा अद्रय सन्ति	१४ १४४
विहरन्ति गणेशाद्या	२ ८
विहरन्ति यतीशौघा	७ ९
विशतिर्गजदन्ता	११ ९५
विशत्यग्रशतायुष्क	१८ १२०
वीक्ष्य पाषाणराशि च	१९ १७३
वीक्ष्य मुद्रा समुद्भिद्य	३ ८५
वीक्ष्योपायेन नीत्वाशु	१३ ८५
वीणया सह गायन्ति	१४ १०५
वीरनाथगुणकोटिनिबद्ध	१९ २५६
वीरोऽत्रैष नुत स्तुत	१७ २०९
वीरोऽनन्तसुखप्रदो	२ १३७
वीरो योऽत्र मया चरित्र	१९ २५२
वीरो वीरगणाग्रणी	१२ १४८

वीरो वीरगणै स्तुतश्च	१० १०७
वीरो वीरजनाचितो	१९ २५१
वीरो वीरजिनाग्रणी	१५ १७१
वीरो वीरनराग्रणी	१ ८७
वीरो वीरबुधाग्रणी	७ १२६
वीरो वीरबुधै स्तुतश्च	८ १२०
वीर वीराग्रिम वीर	२ १
वीर कमजये वीर	१ ३४
वीर वीराग्रिम नौमि	१२ १
वीय तेऽन्तातिग नाथ	१५ १५५
वृत्तमूला कृपा कुर्याद	६ ४९
वृत्तहीनो जिनेन्द्रेऽपि	१८ २२
वृद्धिह्लासादिनिष्क्रान्त	१६ १७८
वृश्चिकैकसहस्राधिक	३ १२६
वृषभोऽजिततीर्थेश	१८ १०५
वृषभ वृषचक्राङ्ग	१ ११
वेदनाख्य कषायाभिधो	१६ १०९
वेदनीयस्य च द्वादश	१६ १५९
वेश्येव श्रीबुधैर्निन्द्या	५ १०१
वेषेणानेन ये मूढा	२ ८६
वेष्टितस्तैर्जगद्भर्ता	१५ २७
वैडूर्यसन्निभ तस्या	८ १२१
वैयावृत्येऽत्र योग्या स्यु	६ ८८
वै योजनसहस्राणि	८ ११३
वैराग्य भवभोगाङ्गे	१७ १३९
वैशाखशुक्लपक्षस्य	१३ १३०
व्यधुस्तीर्थकरोत्पत्नी	७ १०६
व्यवहारनयेनात्र	१७ ४८
व्यवहारनयेनास-	१६ १०७
व्याख्यामि यद्यह न	१५ ९४
व्यात्ताननैश्च तीक्ष्णास्त्र	१३ ६५
व्युत्सग दुष्कर घोर	१७ २०४
व्रज सिद्धयै जयारातीन्	१२ ५९
व्रजन्त त्रिजगन्नाथ	१९ ६७
व्रतशीलशुभध्यान-	७ २५
व्रतादिजफलेनाभूत्	४ ५९
व्रताद्याचरणे शक्ता	१८ १५६

[श]

शक्र पूर्णो वशिष्टश्च	१४ ५१
शक्रादिवेष्टितस्यास्या-	१९ ५७

शक्रेण प्रहितेन्द्राणो	८ ५८
शक्रादिदोषद्वार	१८ ३
शङ्खध्वनिरभूदीर्घो	१४ ९
शच्याद्या सकला देव्य	१५ ३६
शच्या प्रबोधिता राज्ञी	९ ९६
शतपञ्चधनुस्तुङ्ग	२ १३
शतपञ्चलघुद्वारा	२ १६
शतपञ्चप्रमा बाह्या	६ १३२
शतैकयोजनायामै	८ ११०
शक्ता येऽत्र निज वीय	१७ १०६
शतत्रयप्रमा ज्ञेया	१९ १०८
शब्दा स्पशरसा गन्धा	१६ १२१
शब्दोऽनेकविधो बन्ध	१६ १२४
शरभ्यो हि शरण्याना	१५ ५६
शरण्य यान्ति येऽमीषा	११ १९
शरण्या सद्बुधै प्रोक्ता	११ १७
शरीरवाङ्मन प्राणा-	१६ १०६
शरीरे ममता त्यक्त्वा	१७ ११९
शरीर गृह्यते यस्मिन्	५ ९९
शान्तिपुष्ट्यादिकामै-	९ ७
शास्त्राम्यसनशीलो वा	२ ३४
शिरोरक्षासमा आत्म-	१४ ३२
शिरोरुहमिवातीव	८ ११६
शिलासम्पुटगर्भे स	२ ३९
शीतल भव्यजीवाना	१ २०
शीलमाहृत्यतस्तस्या	१३ ९४
शुकशोणितभूत यत्	११ ५४
शुद्धाचरणशीला या	१७ ९८
शुद्धाशया त्रिनीताश्च	१७ ९३
शुभकर्मकर साम्य	१७ ३२
शुभप्रकृतिसर्वासा-	१६ १६२
शुभभावनया ध्याना-	१७ २६
शुभाख्या द्विजपुत्री च	१९ १६७
शुभेन कमणा केन	१६ ९
शुश्रूषाज्ञायरागाद्यै-	१३ १८
शृङ्गवेरादय कन्दा	१८ ५२
शृणु धीमन् मन कृत्वा	१६ २८
शृणोति स्वजनै साध	५ ७०
शृण्वन् मनोहर गीत	१ ४७
शेषा कल्पाधिपा सर्वे	९ १०

शेषास्त्रवादितत्वाना	१६ ६
शोमन्ते यत्र तीर्थेश	२ ७
शभव भवहन्तार	१ १३
श्रद्धान सततत्वाना	४ ४५
श्रवन्ति येऽतिसवेग	१७ ८६
श्रावका मुनयो वात्र	१७ ८९
श्रिया विश्वातिशायिन्या	१५ ६१
श्रीगीतम सुधर्माख्य	१ ४१
श्रीदात्र भारते क्षेत्रे	७ ४३
श्रीमते केवलज्ञान	१५ १
श्रीमते मुक्तिनाथाय	४ १
श्रीमते विश्वनाथाय	९६ १
श्रीमानित खगाधीश	३ ८६
श्रीवधमानतीर्थेशो	१३ ३५
श्रीवीरस्वामिनो रम्य	१ ८४
श्रीवीर त्रिजन्नाथ	१४ १
श्रीवीर मुक्तिभर्तार	१८ १
श्रीवृक्ष शङ्ख एवाब्ज	१० ६६
श्री श्रिय ह्री स्वलज्जा	७ १०८
श्रुतनाशभयात्ताभ्या	१ ५४
श्रुतसागरनामान	५ १३
श्रुत्वा तदुक्तिमित्याह	१९ ११९
श्रुत्वा सकृत्करोत्यत्र	१६ ८२
श्रेणीद्वयाधिपत्येन	३ १०८
श्रेयोऽनिबन्धिनी सारा	७ ८८
श्रेष्ठिभार्या सुभद्राख्य	१३ ८८
श्वभ्रादौ तत्फलेनात्र	१७ १४६
श्वेतछत्रत्रय दीप्त्या	१५ ७

[ष]

षट्खण्डसाधितस्तस्य	१ ६६
षट्प्रभावनियन्तान्	६ १६६
षडङ्गिना दया कृत्वा	६ १०
षड्द्रव्या केऽत्र कथ्यन्ते	१५ १०१
षड्द्रव्या यत्र लोत्रयन्ते	११ ८८
षड्लाक्षा विकलाक्षाणा	१६ ५१

[स]

स एव पण्डितो धीमान्	५ ९१
सकलासातपूर्णासु	४ ३३
सकलेतरभेदेन	१६ ८४

स क्रमाद् वृद्धिमासाद्य	२ ७०
स गन्धर्वा सुरा	१४ १५४
सग्रन्थाना सुसग्रन्थो	१५ ५८
सङ्कल्पमात्रसजातै-	५ १२१,
	६ १६१
सङ्गमाख्योऽमर श्रुत्वा	१० २६
सङ्गीतातोद्यनृत्यैश्च	१४ १३७
सन्धम्पानगरोद्याने	१९ २३०
सच्छिद्र च यथा पोत	११ ६५
सचक्षुय पतेत्कूपे	१० ९२
सञ्चरन्ति विभो तेऽद्य	९ ६८
सज्जातिसुकुलैश्वर्य	६ ७३
स तै साभरणैर्हस्तै	९ १६
सत्क्षामामादवोऽप्यार्जव	११ १२३
सत्येन वचसा कीर्ति	१८ ४१
सत्य श्रीमण्डपोऽत्राय	१४ १६७
सत्त्वर्हिसानुतस्तेयो	६ ४९
सत्सङ्गश्चातिदु सङ्गो	१६ १९
सद्य श्रीवर्धमानाहत्	१८ १६३
स घम कीदृशो नाथ	१९ १०१
स घर्मो द्विधा प्रोक्त	१८ ३५
सघर्मो मद्यमासादि	२ २९
सनत्कुमारमाहेन्द्रौ	८ १०४
सन्मार्गदूषण कृत्वा	४ २९
सन्मार्गसुपदार्यादीन्	७ ८१
सप्तकृत्वोऽधुना जाति	१९ १६३
सप्तद्रव्यसनासक्ता	१७ ६५
सप्तघातुमय निन्द्य	५ ८२
सप्तघातुमलस्त्रेदा-	४ ११८
सप्तमे घरणेन्द्राद्या	१५ २३
सप्तरज्जुप्रमेऽस्याद्यो	११ ८९
सप्तरज्ज्वन्तरे स्वर्गा	११ १०३
सप्तव्यसनसत्यक्ता	१८ ३६
सप्तैव तरकाप्येव	१७ १९
सप्रश्रय प्रजानाथ	३ ८९
सर्पिणीरिव सर्वान्य	१८.४४
सफला अद्य नो वाप्यो	१५ ६५
सफल जन्म कस्येह	८ ३९
सबन्धुभि कृत भूत्या	४ १२४
सबन्धुविहिता पुत्र-	५ १३७

समग्रस्वगराज्यस्य	६ १४६	सर्वानथकरीभूत	१० ९९	साक्षादस्याप्यनुष्ठान	६ १७
समता स्तुतिरेवानु	६ ९३	सर्वाब्धिसलिला साध्या	३ १४१	साद्राक्षीहामनी दिव्या-	७ ६३
समनस्का मनोहीना	१६ ४७	सर्वाथमागधी भाषा	१९ ६२	साभवत्प्रेयसी भतु	७ ४०
समर्था अपि ये पात्र-	१७ १५३	सर्वाशर्मातिगा पुसा	११ ८६	सामग्री सकला पूर्णा	९ ८७
समस्त प्राग्भव ज्ञात्वा	२ ४०	सर्वाथसिद्धिपयन्त-	१८ २६,	सामग्र्या दृग्विशुद्धिश्च	११ ११८
समेग्वल कटीभाग	१० ५७		१६ ८२	सामग्र्या परया सार्धं	९ २८
सम तद्योग्यवाद्यनि	९ ११९	सर्वास्रवनिरोधो य	१६ १६८	सामरा सकलत्रा जय-	७ ११८
सम मरीचिरप्याशु	१ ७५	सर्वेऽङ्गिनश्चिर भ्रेमु	११ २७	सामायिकादिचारित्र	११ ७६
सम्पद्यन्तेऽन तेपा च	१७ १५९	सर्वे तीथकरा पराथ-	१९ २६०	सामायिकाभिधा ज्ञेया	१८ ६०
सम्पूणवपुरामाद्य	४ ६०	सर्वे पिण्डीकृता सन्ति	१९ २१२	सारान् गृह्णन्ति	१७ १३२
सम्यक्त्रिद्वत्तवमादि	१७ १३९	सर्वेभ्य पापहेतुभ्य	१७ २४	साथकाख्यधरस्तुङ्गो	१५ ४
सम्यक्त्व क्षायिक चास्य	१० १२	सर्वे यद्बुभुजु सौख्य	१६ १८०	साथकानि शिरास्यद्य	१५ ६४
सम्यक्त्व क्षायिक ज्ञान	१३ १०७	सर्वेषा कर्मणा योऽत्र	१६ १७२	साथवाहेन धमस्य	२ २१
सम्यक्त्वज्ञानचारित्र	१९ ८३	सर्वेष्वात्मप्रदेशेषु	१६ १६४	साधद्वादशकोटिप्रमा	१५ ७
सम्यक्त्व क्षायिक मोक्ष-	१३ १३१	सलयै क्रमविन्यासै	९ ११७	साध पितामहेनैव	२ ७१
सम्यग्ज्ञानवता पुसा	६ ९६	सलेख प्राभृतेनामा	३ ८१	साध सदृग्विशुद्ध्या	४ १२८
सम्यग्दशनसशुद्धा	१८ ७२	स वज्रषभनाराच	१० १८	साध सवपरिवारेण	२ ४२
सम्यग्दृग्ज्ञानचारित्र-	१२ १२६	सविपाकाविपाकाभ्या	१६ १७०	सिद्धदिग्विजय श्रीमान्	३ १०९
सम्यग्वृत्तसुयत्नाद्या	११ ६८	सवृत्तिपरिसंख्यान	१३ ४२	सिद्धार्थपादप सौध-	१० ७२
सर प्रत्यङ्गिनी चका	१४ २२	स सामायिकमापन्नो	५ ७१	सिद्धार्थभूपति सार्धं	९ ९५
सरागस्थान् लोकादीन्	४ १०७	ससुत श्रेणिकस्तस्मात्	१९ २०५	सिद्धार्थाद्या नृपाधीशा	९ ११३
सर्पादिसङ्कुले झञ्झा-	५ १८	सहगामी नृणा धर्मो	६ १५५	सिंहशङ्खमहाभेरी	८ ६५
सवज्ञ सवलोकेश	१५ १३९	सहगामी सता कोऽत्र	८ २८	सिंहेनानन्तवीर्योऽसौ	७ ९६
सवज्ञानानिमित्तेन	१९ १४३	सहजाम्बरभूषास्रग्	३ ५९	सुखदु खोभय भाति	११ २४
सवत्र समतापन्न	१२ ९८	सहज वपुरात्मीय	११ ४६	सुखासीना ततोऽप्येषा	७ ९१
सवत्र स्वात्मनो ध्यान	१३ ४९	सहन्तश्च तप क्लेश	११ ७९	सुखिना विधिना धम	५ ९०
सवत्रास्थानतो दिक्षु	१९ ५३	सहन्ते निजशक्त्या	१७ १८१	सुख वैषयिक नित्य	१७ १८७
सवदु खनिधानेषु	२ १३१	सहम्यद्वितला केचि-	१४ १५१	सुगन्धिदीघनि श्वास-	१४ १७
सवदु खातिगा ज्ञेया	१६ ३५	स ह्यकर्ताप्यधम स्या-	१६ १३०	सुगन्धिद्रव्यसन्मिश्र-	९ ३०
सवदु खातिगो विश्व-	४ ७०	स हसन्निव द्विपव्याघ्र-	१४ ९४	सुतोऽस्या उदरस्थोऽपि	८ ५५
सवदवाधिप सव-	१५ १४०	सहस्रद्वचष्टसङ्ख्याभि	३ १११	सुधाधारैव या पुसा	९ ३५
सवपूर्वाङ्गवेत्तारो	१ ४४	सहस्रप्रमितान् बाहून्	९ १५,	सुधापिण्डजनैवेद्यान्	१५ ४३
सवयत्नेन सवत्रा	१७ ५२		९ १२२	सुधियोऽत्र भवद्वाण्या	८ ९२
सवयत्नेन सर्वा ये	१८ ७०	सहस्राणि त्रयोविंशति	११ १०५	सुधियो दुर्धियो मूर्खा	१६ १३
सवतुफलपुष्पादीन्	१९ ६५	सहस्राणि तान्युच्चै-	१४ १७१	सुबुद्धि ददतेऽप्येषा	१७ १३१
सवत्रतोत्थपुण्येन	१९ १२९	सहागत्य मुदा भक्त्या	१९ ८६	सुभटोत्तमवच्चाद्य	१३ ११७
सवसङ्गविमुक्ताय	१२ १२८	साभात्पुरुषरत्नेन	८ ५७	सुभद्राख्यो यशोभद्रो	१ ५०
सवसत्त्वेषु मैत्री स	६ ५८	सा कलेवैन्दवी कान्त्या	७ २९	सुभूमाख्यो महापद्मो	१८ ११०
सर्वा दिव्यश्च नतक्य	९ ४७	साक्षात्त्वा मूर्तिमन्त ये	१५.१४५	सुविधिं विधिहन्तार	१ १८
सर्वानन्दकरा पुसा	१९ ६३	साक्षाद्यच्च पर पुण्य	१९ १२	सूक्ष्मतत्त्वविचारेषु	६ ६३

सूक्ष्मबादरभेदाभ्या १६ ४३
 सूक्ष्मबुद्ध्यात्र ये तेषा १७ १९३
 सूनु कुणिकभूपस्य १९ १३५
 सूरवीरस्ततो गच्छन् १९ १२७
 सेनापति स्थपत्याख्य ५ ५५
 सेवन्तो यत्नतो धम १७ १५८
 सेवन्ते पर्या भक्त्या १७ १२२
 सेवन्ते प्रत्यह येऽत्र १७ १४९
 सोऽन्यदा वीक्ष्य पुण्येन १९ ९९
 सोऽपि तद्वाक्यमाकण्य १९ १०८
 सोऽपि सन्मानदानादीन् ३ ९३
 सोऽप्यहो शक्यते जातु १० ९८
 सोऽमरेन्द्रोऽच्युताच्युत्वा ७ १११
 सोऽमरो नाकतश्च्युत्वा ४ १२३
 सौधमार्ख्ये महाकल्पे २ ३८
 सौधमार्धिपतेरङ्ग- ८ १०३
 सौधमरेन्द्रोऽक्रोत्तस्य ११ ४४
 सौधमेश सम शच्या ९ ९७
 सौधोद्यानाद्विशेष्व- ५ १३०
 सञ्जसञ्जभिधा जीवा १६ ५६
 सन्यासेन सम चेद ४ ४६
 सवरस्य गुणानित्य ११ ८०
 सवरस्य मया पूव १६ १६९
 सवरादित्रितत्वाना १७ ५७
 सवरेण विना मुक्ति १८ २१
 सवरेण सता नून ५ ८४
 सवेगस्त्रिकनिर्वेदो ६ ७८
 ससगमुत्तमाना ये १७ १९०
 ससारजलधौ पाता- १८ ३४
 ससारसागरोऽपार १९ ९२
 ससारो ह्यादिमध्यान्त - ११ २३
 स्तनिताख्योऽमरो भक्त्या १९ ७०
 स्तुति स्तोता महान् १९ ८
 स्तुत्यास्ता कथमस्माभि १५ ६७
 स्तुत्वेति त जगन्नाथ ८ ९५
 स्तूपहर्म्यविलीरुद्धा- १४ १६०
 स्तूपानामन्तरेऽपेषा १४ १५७
 स्तुयन्ते ते कथ १२ ११०
 स्तोकान्तर ततोऽतीत्य १४ ८४
 स्त्यानगृद्ध्याख्यदुष्कर्म १३ ११४

स्त्रीपण्डकादिनि क्रान्ते ६ ३६
 स्थितिरन्तमुहृतप्रमा १६ १६०
 स्थिति भजन् जनातीता ५ ११०
 स्थूलसूक्ष्मास्तथा स्थूला १६ ११९
 स्नानेन यदि शुद्धा स्यु १९ १८७
 स्नापयन्त्यपरा दिव्यै- १० ३
 स्पर्शाद्या विशतिये स्यु १६ १२३
 स्फुरद्रत्नपटल्या हि १२ १०२
 स्फुरद्रत्नमयैर्दीपै १५ ४४
 स्फुरद्रत्नमय दीप्र १९ ७६
 स्मृत्वा तीथकरोक्त सो ४ ८
 स्यान्नाट्यशालयोगीति- १४ १२७
 स्रक्केतुषु स्रजो रम्या १४ १२१
 स्रग्भ्रान्त्यात्र यथा १८ १३४
 स्रग्वी स्वर्गोपनीतै १२ ५८
 स्वकराभ्या मुदादाय ८ ८१
 स्वकीय वर्धयन् धम ६ १७१
 स्वकृतैवर्धमानस्य १३ ६८
 स्वगुणाख्यापन दोषो- १७ १९८
 स्वज्ञानेन परिज्ञाय १२ ६
 स्वधैय प्रकटीकृत्य १७ १८०
 स्वपुण्यजनिता लक्ष्मी- ५ १२५
 स्वभावाख्या गुणा अस्य १६ १११
 स्वभावमादवोपेता १७ ९२
 स्वयमेवाभवत्सिंह- ७ ११३
 स्वय शुभशताचारै- ५ १४५
 स्वर्गाच्च्युत्वा तयोरासीत् २ ११८
 स्वर्गात्खदिरसाराङ्गि- १९ १३४
 स्वविमानावलोकेन ७ १०१
 स्वविमान मुदापश्यत् ७ ६७
 स्वल्पाक्षशमसन्तोषा- १७ ९९
 स्वल्पायुषो दिनान्यत्र १० ८८
 स्ववीय प्रकटीकृत्य ६ ३१
 स्वशक्ति प्रकटीकृत्य १३ १७
 स्वसन्तानसमान् यत्वा १७ १७६
 स्वसवेदनबोधेन १८ २८
 स्वस्कन्धारोपिता कृत्वा १२ ४७
 स्वस्थ्यङ्गमथनोद्धृता ३ ३८
 स्वस्य निन्दा च १७ १९७
 स्वस्य रत्नप्रभावाति १९ १५९

स्वस्य वाहनभूत्याद्यै १४ ५८
 स्वहस्तौ कुड्मलीकृत्य ६ ११६
 स्वाङ्गमध्ये बभारासौ १० ५६
 स्वाङ्गाभरणतेजोभि ७ ११७
 स्वाङ्गोपरितलेऽन्त- १४ ९१
 स्वान्यद्रव्यान्यदेहादि १६ ८०
 स्वाभियोग्यमुतोत्पन्न- १४ ४६
 स्वामिन्नद्य गतसव १९ २३
 स्वालये चत्यगेहेषु ५ ६७
 स्वेच्छया ये प्रवतन्ते १७ १११
 स्वेच्छाचरणशीलाश्च १७ १२
 स्वेददूर वपु क्रान्त १० १७
 स्वैन कर्मोदय ज्ञात्वा १३ ८६

[ह]

हत्वा घातिरिपून् शुक्ल- २ ९६
 हत्वा च दुर्ममत्वादीन् १७ १२६
 हत्वा दुर्ध्यानदुर्लेश्या १८ ५५
 हन्ता मोहाक्षशत्रूणा ६ १
 हन्तु दु कमखारीणा ६ ८५
 हरहर्यादिविश्वेपा ८ २०
 हसन्ति स्वखलित सूरे १ ७५
 हस्ताङ्गुलीपु शक्रस्य ९ १३३
 हस्तिनोऽश्वा रथा गन्धर्वा ८ ६८
 हस्तिनोऽश्वा रथा पादा- ६ १३९
 हस्त्यश्वमकटादीना १० १०
 हातिकोमलगात्रस्त्व १२ ७३
 हासि बालस्त्वमेकाकी १२ ७५
 हा पुत्र क्व गतोऽद्य त्व १२ ७१
 हालाहलनिभ घोर १६ ७०
 हालाहलविषाद्योऽत्र १६ ७७
 हितकृत्क इहामुत्र ८ २२
 हित जिनागम त्यक्त्वा १७ १३४
 हित्वाऽऽहारशरीरादीन् १९ १९९
 हिरण्य कल्पवल्ली हि १० ७१
 हिरण्यमयवृहत्स्तम्भो १४ १०४
 हिरण्यममहास्तम्भा १४ १५०
 हिसादिपञ्चपापाच्च १९ १३९
 हिसादिपञ्चपापाना १८ १८
 हे गौतमात्र याथात्म्य १६ ३२
 हेतुभूत परिज्ञेय १७ ६०
 हेमन्ते चत्वरे वासौ ५ १९
 हेयादेय स्फुट ज्ञात्वा १२ ११५
 हैमैर्जालैस्तरा स्थूलै १४ १८०

२. केवली और श्रुतधर-आचार्य-नामसूची

(जिनका नामोल्लेख प्रस्तुत चरितके प्रारम्भमें (तीन केवलज्ञानियोंके पश्चात्) ग्रन्थकारने किया है—)

केवली		एकादशाङ्गधारी	
१ श्री गौतम स्वामी	} समय ६२ वर्ष	१७ नक्षत्र	} समय २२० वर्ष
२ सुधर्मा स्वामी		१८ जयपाल	
३ जम्बूस्वामी		१९ पाण्डु	
		२० द्रुमसेन (ध्रुवसेन)	
		२१ कस	
श्रुतकेवली		आचाराङ्गधारी	
१ नन्दी (विष्णु)	} १०० वर्ष	२२ सुभद्र	} ११८ वर्ष
२ नन्दिमित्र		२३ यशोभद्र	
३ अपराजिस		२४ जयबाहु (यशोबाहु)	
४ गोवर्धन		२५ लोहाचाय	
५ भद्रबाहु			
दशपूर्वी		एकदेश अंग-पूर्वज्ञाता	
६ विशाखाचाय	} १८३ वर्ष	२६ विनयधर	} ११८ वर्ष
७ प्रोष्ठिल		२७ श्रीदत्त	
८ क्षत्रिय		२८ शिवदत्त	
९ जय		२९ अहहृत्त	
१० नाग		३० (धरसेन)	
११ सिद्धाथ		३१ भूतबलि	
१२ जिनसेन (धृतिसेन)		३२ पुष्पदन्त	
१३ विजय		३३ कुन्दकुन्द	
१४ बुद्धिल		(अधिकार २ श्लोक ४१-५६)	
१५ गग			
१६ सुधम (वमसेन)			

३. तिरेसठ शलाकापुरुष-नाम-सूची

चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण और नौ बलभद्र इन तिरेसठ महापुरुषोको शलाकापुरुष कहते हैं। ये तिरेसठ शलाकापुरुष प्रत्येक अवसर्पिणीके चौथे कालमे और उत्स-पिणीके तीसरे कालमे होते हैं। इस युगमे हुए शलाकापुरुषोके नाम इस प्रकार हैं—

२४ तीर्थकर	१२ चक्रवर्ती	९ नारायण
१ ऋषभदेव	१ भरत	१ त्रिपृष्ठ
२ अजितनाथ	२ सगर	२ द्विपृष्ठ
३ समवनाथ	३ मघवा	३ स्वयम्भू
४ अभिनन्दन	४ सनत्कुमार	४ पुरुषोत्तम
५ सुमतिदेव	५ शान्तिनाथ	५ पुरुषसिंह
६ पद्मप्रभ	६ कुन्थुनाथ	६ पुण्डरीक
७ सुपाश्वदेव	७ अरनाथ	७ दत्त
८ चन्द्रप्रभ	८ सुभूम	८ लक्ष्मण
९ पुष्पदन्त	९ महापद्म	९ कृष्ण
१० शीतलनाथ	१० हरिषेण	
११ श्रेयन्सनाथ	११ जयकुमार	
१२ वासुपूज्य	१२ ब्रह्मदत्त	
१३ विमलनाथ		
१४ अनन्तदेव		
१५ धमनाथ		
१६ शान्तिनाथ		
१७ कुन्थुनाथ		
१८ अरनाथ		
१९ मल्लिनाथ		
२० मुनिसुव्रत		
२१ नमिनाथ		
२२ अरिष्टनेमि		
२३ पाश्वनाथ		
२४ वधमान		
	९ बलभद्र	९ प्रतिनारायण
	१ विजय	१ अश्वग्रीव
	२ अचल	२ तारक
	३ धर्म	३ मेरक
	४ सुप्रभ	४ निशुम्भ
	५ सुदशन	५ कौटभारि
	६ नन्दी	६ मधुसूदन
	७ नन्दिमित्र	७ बलिहन्ता
	८ पद्म (रामचन्द्र)	८ रावण
	९ बलदेव	९ जरासन्ध



४. भ. महावीरके पाँचों कल्याणकोंकी तिथि और नक्षत्र

१ गभ कल्याणक—आषाढ शुक्ला षष्ठी,	उत्तराषाढा
२ जन्म कल्याणक—चैत्र शुक्ला त्रयोदशी,	उत्तराफाल्गुनी
३ दीक्षा कल्याणक—मागशीष कृष्णा दशमी	”
४ केवल कल्याणक—वैशाख शुक्ला दशमी,	मघा
५ निर्वाण कल्याणक—कार्तिक कृष्णा अमावस्या,	स्वाति



५. भ. महावीरके ५ नाम

- १ वीर, जन्माभिषेकके समय इन्द्र-प्रदत्त-नाम
- २ श्री वर्धमान—नाम सस्कारके समय पिता द्वारा प्रदत्त-नाम
- ३ सन्मति—विजय सजय मुनि द्वारा शका समाधान होनेपर प्रदत्त-नाम
- ४ महावीर—सगमक देव-द्वारा प्रदत्त-नाम
- ५ महति महावीर—स्थाणु रुद्र-द्वारा प्रदत्त-नाम



६. पौराणिक-नाम सूची

- अरुम्पन—एक राजा (२ ६५)
- अरुम्पन—अष्टम गणधर (१९ २०६)
- अग्निभूति—अग्निसहका पिता (२ ११७)
- अग्निभूति—द्वितीय गणधर (१९ २०६)
- अग्निमित्र—महावीरका ११वां भव (२ १२२)
- अग्निमह—महावीरका नवा नव (२ ११८)
- अजितजय—चारणधि मुनि—सिंहभवमे भगवान् महा-
वीरको सम्बोधित करनेवाले मुनि (४ ६)
- अतिमुक्त—श्मशान । रुद्र-उपसगका स्थान, उज्जैनका
मरघट (१३ ५९)
- अमितगति—अजितजयके मायी चारणधिमुनि (४ ७)
- अयोध्या—प्रसिद्ध नगरी (४ १२१)
- अर्ककीर्ति—ज्वलनजटीका पुत्र (३ ७५)
- अहर्दास—सुन्दर त्रिपुत्रका मिथ्यात्व छुड़ानेवाला एक
सेठ (१९ १७२)
- अलकापुर—विजयार्धको एक नगरी (३ ६८)
- अश्वमेध—प्रथम नागायण, महावीरका १९वां भव (३ ७०)
- इन्द्रभूति गौतम—भ का प्रथम गणधर (१९ २०६)
- उज्जयिनी—प्रसिद्ध नगरी (१३ ५९)
- उमा—अन्तिम रुद्रकी पत्नी (१३ ८२)
- ऋजुकूला नदी—जृम्भिका ग्रामके समीप बहनेवाली
नदी (१३ १००)
- कच्छ—एक राजा (२ ९६)
- कनकपुत्र—कनकोज्ज्वलका पिता (४ ७५)
- कनकप्रनपुर—विजयाधका एक नगर (४ ७४)
- कनकमाता—कनकोज्ज्वलकी माता (४ ७५)
- कनकवती—कनकोज्ज्वलकी स्त्री (४ ८१)
- कनकोज्ज्वल—भगवानका २५वां भव (४ ७६)
- कपिल—मरीचिका शिष्य (२ १०३)
- कपिला—कपिलकी स्त्री (२ १०७)
- कालशौकरिन्—राजगृहका एक कसाई जो कि प्रतिदिन
५०० जीवोंका घात करता था । (१९ १६२)
- कालिका—पुरूरवाकी स्त्री (२ १९)
- कुणिक भूप—श्रेणिकके पिताका नाम (१९ १३५)
- कुण्डलपुर—भ महावीरका जन्मनगर (७ १०)
- कूरपुर—भ की प्रथम पारणाका नगर (१३ ६)
- कूल राजा—भगवान् महावीरको प्रथम आहार दान
दाता (१३ ७)
- कौशल देश—प्रसिद्ध देश (२ ५०)
- कौशाम्बी—वत्स देशकी एक नगरी (१३ ९१)
- कौशिकी—गौतमकी स्त्री (२ १२१)
- खदिरसार भील—श्रेणिकके पूर्व भवका नाम (१९ ९८)
- गौतम—प्रथम गणधर (१५ ८३)
- गौतम द्विज—अग्निमित्रका पिता (२ १२१)
- गौतमी—अग्निभूतिकी स्त्री (२ ११७)
- चन्दना—चेतक राजाकी पुत्री (१३ ८४)
- चन्द्राम—एक विद्यावर (३ ७३)
- छत्रपुर—जम्बूद्वीपस्थ भरत क्षेत्रका एक नगर (५ १३४)
- जटिल—महावीरका पाचवां भव (२ १०८)
- जयावती—प्रथम बलभद्रकी माता (३ ६२)
- जृम्भिका ग्राम—जहाँ पर भगवान्को केवलज्ञानकी
प्राप्ति हुई । (१३ १००)
- जैनी—विश्वनन्दीकी माता (३ ६)
- ज्वलनजटी—विद्याधर राजा (३ ७२)
- द्युतिलकपुर—विजयाधका एक नगर (३ ७३)
- धवल—दशम गणधर (१९ २०६)
- धारिणी—भरतकी रानी, मरीचिकी माता (२ ६८)
- नन्द राजा—भ महावीरका ३१वां भव (५ १३६)
- नन्दिवर्धन—नन्दराजाका पिता (५ १३५)
- नमि—एक विद्याधर (२ ६६)
- नीलाञ्जना—प्रथम प्रतिनारायणकी माता (३ ६८)
- पाराशरी—स्थावरकी माता (३ २)
- पुण्डरीकिणी—विदेहकी एक नगरी (५ ३६)
- पुरूरवा—महावीरका प्रथम भव (२ १९)
- पुष्कलावती—पूव विदेहका एक देश (५ ३५)
- पुष्पदन्ता—भारद्वाजकी स्त्री (२ ११२)
- पुष्पमित्र—महावीरका सातवां भव (२ ११३)
- पोदनपुर—एक प्रसिद्ध नगर (३ ६१)
- प्रजापति राजा—विजय नामक प्रथम बलभद्रका पिता
(३ ६१)

प्रभास—एकादशम गणधर (१९ २०६)
 प्रियकारिणी—भ महावीरकी माता (७ २८)
 प्रियमित्र चक्रवर्ती—भ महावीरका २९वा भव
 (५ ३८)
 प्रोष्ठिल मुनि—नन्दराजाके दीक्षा गुरु (६ २)
 भरत—प्रथम चक्री (२ ६४)
 भारद्वाज—भ महावीरका १४वा भव (२ १२६)
 मगध—एक प्रसिद्ध देश (३ २)
 मथुरा—प्रसिद्ध नगरी (३ ४७)
 मथुराश्रीव—प्रथम प्रतिनारायणका पिता (३ ६८)
 मागध—एक देश (३ ६)
 मागधदेव—एक व्यन्तर देव (२ ६५)
 मृगावती—त्रिपृष्ठकी माता (३ ६३)
 मैत्रेय—सप्तम गणधर (१९ २०६)
 मौण्ड्य पुत्र—षष्ठ गणधर (१९ २०६)
 मौर्यपुत्र—पञ्चम गणधर (१९ २०६)
 रथनूपुर चक्रवाल—त्रिजयाधका एक नगर (३ ७१)
 रथावताचल—प्रथम नारायण—प्रतिनारायणका युद्ध-
 स्थल (३ ९८)
 राजगृह—प्रसिद्ध नगर (३ ६)
 रुद्र—महादेव (१ ६)
 वत्सदेश—जम्बू द्वीपस्थ भरतका एक देश (१३ ९१)
 वज्रसेन—हरिषेणका पिता (४ १२२)
 वायुभूति—तृतीय गणधर (१९ २०६)
 वायुवेगा—चन्द्राभकी पुत्री (३ ७४)
 विजयार्ध पर्वत—भरत क्षेत्रका एक पर्वत (३ ६८)
 विदेह—एक देश (७ २)
 विनीता—अयोध्या (२ ५६)
 विशाखनन्द—विशाखभूतिका पुत्र (३ ९)
 विशाखभूति—विश्वभूतिका अनुज (३ ८)
 विश्वभूति राजा—विश्वनन्दीका पिता (३ ६)
 विश्वनन्दी—महावीरका १७वाँ भव (३ ७)
 वीरमती—नन्दवधनकी रानी (५ १३५)

वृषभसेन—एक सेठ जिसने चन्दनाको आश्रम दिया
 था। (१३ ८७)
 व्यक्त—नवम गणधर (१९ २०६)
 शाण्डिलिब्राह्मण—स्थावरका पिता (३ २)
 शीलवती—हरिषेणकी माता (४ १२२)
 शुभा—एक व्यभिचारिणी द्विजपुत्री (१९ १६७)
 श्रीधर—पूर्व विदेहके तीथकर (४ ३६)
 श्रुतसागर मुनि—हरिषेण राजाके दीक्षा गुरु (५ १३)
 सच्चम्पानगर—जहाँसे भगवान्ने निर्वाण प्राप्त किया
 (१९ २३०)
 समाधिगुप्त मुनि—खदिरसारको व्रत देनेवाले साधु
 (१९ ९९)
 साकेता—अयोध्या (२ १०७)
 सागरसेन—पुरूरवाको सम्बोधित करनेवाले मुनिराज
 (२ १०)
 सारसपुर—एक नगर (१९ ११३)
 सालकायन विप्र—भारद्वाजका पिता (२ १२५)
 सिंह—भगवान्का २१वाँ भव (४ २)
 सिंह—भगवान्का २२वाँ भव (४ ५)
 सिद्धार्थ नरेश—भ महावीरके पिता (७ २२)
 सुधर्मा—चतुर्थ गणधर (१९ २०६)
 सुन्दर विप्रपुत्र—अभयकुमारके पूव भवका नाम
 (१९ १७१)
 सुभद्रा—चन्दनाको बन्धनमे डालनेवाली सेठानी (१३ ८८)
 सुमित्र—राजा—प्रियमित्र चक्रवर्तीके पिता (५ ३७)
 सुव्रता रानी—प्रियमित्र चक्रवर्तीकी माता (५ ३७)
 सूरवीर—खदिरसारका साला (१९ ११३)
 सौधर्म कल्प—प्रथम स्वर्ग (२ ३८)
 स्थाणु—अन्तिम रुद्र (१३ ६१)
 स्थावर—महावीरका १५वाँ भव (३ ३)
 स्यूणागर—एक नगर (२ ११२)
 स्वयम्भूता—त्रिपृष्ठकी पट्टरानी (३ ७५)
 हरिषेण—भ महावीरका २७वा भव (४ १२३)

७. गणधरोंका

दिगम्बर शास्त्रोमे भ महावीरके ११ गणधरोके नाम और कही पर उनके माता-पिता आदिका जानकर श्वे शास्त्रोके आधार पर उनका परिचय यहाँ दिया जा रहा है—

सुरया	१ नाम गणधर	२ पिता का नाम	३ माता का नाम	४ गोत्र-नाम	५ जन्म-नक्षत्र	६ जन्मस्थान	७ गृहस्थ जीवन
१	इन्द्रभूति	वसुभूति ब्राह्मण	पृथ्वी	गौतम	ज्येष्ठा	गोबर ग्राम (मगध)	५० वर्ष
२	अग्निभूति	”	”	”	कृत्तिका	”	४६ ”
३	वायुभूति	”	”	”	स्वाति	”	४२ ”
४	व्यक्त	धनमित्र ”	वारुणी	भारद्वाज	श्रवण	कोल्लाग(मगध)	५० ”
५	सुधर्मा	धम्मिल्ल ”	भद्रिला	अग्निवैश्यायन	उत्तरा फाल्गुनी	”	५० ”
६	मडिक	धनदेव ”	विजया	वशिष्ठ	मघा	मौयसन्निवेश	५३ ”
७	मौयपुत्र	मौय ”	विजया	काश्यप	रोहिणी	”	६५ ”
८	अक्म्पित	वसु ”	नन्दा	हारीत	मृगशिरा	मिथिला	४६ ”
९	अचलभ्राता	देव ”	जयन्ती	गौतम	उत्तराषाढा	कोशल	४८ ”
१०	मेताय	दत्त ”	वरुणा	कौडिन्य	अश्विनी	तुगिक सन्निवेश	३६ ”
११	प्रभास	बल ”	अतिभद्रा	”	पुष्य	राजगृह	१६ ”

जीवन-परिचय

उल्लेख मात्र पाया जाता है, पर श्वेताम्बर शास्त्रोमे इन गणधरोका विस्तृत वणन उपलब्ध है। उपयोगी

८ दीक्षा-स्थान	९ शिष्य सख्या	१० छद्मस्थ-काल	११ केवल-काल	१२ सवआयु	१३ निर्वाण काल	१४ निर्वाण-स्थान	१५ गणधर बनने के पूर्व शका-
मध्यम पावा	५००	३० वर्ष	१२ वर्ष	९२ वर्ष	४२ वर्ष	वैभारगिरि (राजगृह) —भगवान् महावीरकी केवलोत्पत्तिके पश्चात्	जीवके अस्तित्वमे
"	५००	१२ "	१६ "	७४ "	२८ "		कमके विषयमें
"	५००	१० "	१८ "	७० "	२८ "		जीव और शरीरके ,,
"	५००	१२ "	१८ "	८० "	३० "		पचभूतोसे जीवोत्पत्ति ,,
"	५००	४२ "	८ "	१०० "	५० "		मरणके बाद भी उसी पर्यायमें उत्पन्न होता है
"	३५०	१४ "	१६ "	८३ "	३० "		बन्ध और मोक्षके विषयमे
"	३५०	१४ "	१६ "	९५ "	३० "		"
"	३००	१२ "	१४ "	७२ "	३० "		नरकके विषयमे
"	३००	९ "	२१ "	७८ "	१६ "		पुण्यके "
"	३००	१० "	१६ "	६२ "	२६ "		परलोकके "
"	३००	८ "	१६ "	४० "	२४ "	मोक्षके "	

Bhāratīya Jñānapīṭha

Mūrtidevī Jaina Granthamālā

General Editors

Dr H L JAIN, Balaghat Dr A N UPADHYE, Mysore

The Bhāratīya Jñānapīṭha, is an Academy of Letters for the advancement of Indological Learning. In pursuance of one of its objects to bring out the forgotten, rare unpublished works of knowledge, the following works are critically or authentically edited by learned scholars who have, in most of the cases, equipped them with learned Introductions, etc and published by the Jñānapīṭha

Mahābandha or the Mahādhaḥvalā

This is the 6th Khanda of the great Siddhānta work *Satkhandāgama* of Bhūtabali. The subject matter of this work is of a highly technical nature which could be interesting only to those adepts in Jaina Philosophy who desire to probe into the minutest details of the Karma Siddhānta. The entire work is published in 7 volumes. The Prakrit Text which is based on a single Ms. is edited along with the Hindī Translation. Vol I is edited by Pt S C DIWAKAR and Vols II to VII by Pt PHOOLACHANDRA. Prakrit Grantha Nos 1, 4 to 9 Super Royal Vol I pp 20 + 80 + 350, Vol II pp 4 + 40 + 440, Vol III pp 10 + 496, Vol IV pp 16 + 428, Vol V pp 4 + 460, Vol VI pp 22 + 370, Vol VII pp 8 + 320. First edition 1947 to 1958. Vol I Second edition 1966. Price Rs 15/- for each vol.

Karalakkhana

This is a small Prakrit Grantha dealing with palmistry just in 61 gāthās. The Text is edited along with a Sanskrit Chāyā and Hindī Translation by Prof P K MODI. Prakrit Grantha No 2. Third edition, Crown pp 48. Third edition 1964. Price Rs 1/50.

Madanaparājaya

An allegorical Sanskrit Campū by Nāgadeva (of the Samvat 14th century or so) depicting the subjugation of Cupid. Critically edited by Pt RAJKUMAR JAIN with a Hindī Introduction, Translation, etc. Sanskrit Grantha No 1 Super Royal pp 14 + 58 + 144. Second edition 1964. Price Rs 8/-.

Kannaḍa Prāntīya Tādapatrīya Grantha-sūcī

A descriptive catalogue of Palmleaf Mss. in the Jaina Bhandāras of Moodbidri, Karkal, Ahyoor, etc. Edited with a Hindī Introduction, etc by Pt K BHUJABALI SHASTRI. Sanskrit Grantha No 2 Super Royal pp 32 + 324. First edition 1948, Price Rs 13/-.

Ratna Mañjūsā with Bhāṣya

An anonymous treatise on Sanskrit prosody Edited with a critical Introduction and Notes by Prof H D VELANKAR Sanskrit Grantha No 5 Super Royal pp 8 + 4 + 72 First edition 1949 Price Rs 3/

Nyāyaviniścaya vivarana

The Nyāyaviniścaya of Akalanka (about 8th century A D) with an elaborate Sanskrit commentary of Vādirāja (c 11th century A D) is a repository of traditional knowledge of Indian Nyāya in general and of Jaina Nyāya in particular Edited with Appendices, etc by Pt MAHENDRAKUMAR JAIN Sanskrit Grantha Nos 3 and 12 Super Royal Vol I pp 68 + 546, Vol II pp 66 + 468 First edition 1949 and 1954 Price Rs 18/-each

Kevalajñāna Praśna-cūḍāmani

A treatise on astrology, etc Edited with Hindī Translation, Introduction, Appendices, Comparative Notes etc by Pt NEMICHANDRA JAIN Sanskrit Grantha No 7 Second edition 1969 Price Rs 5/-

Nāmamālā

This is an authentic edition of the Nāmamālā, a concise Sanskrit Lexicon of Dhanamjaya (c 8th century A D) with an unpublished Sanskrit commentary of Amarkīrti (c 15th century A D) The Editor has added almost a critical Sanskrit commentary in the form of his learned and intelligent foot-notes Edited by Pt SHAMBHUNATH TRIPATHI, with a Foreword by Dr P L VAIDYA and a Hindī Prastāvanī by Pt MAHENDRAKUMAR The Appendix gives Anekārtha nighāntu and Ekāksarī kośa Sanskrit Grantha No 6 Super Royal pp 16 + 140 First edition 1950 Price Rs 4/50

Samayasāra

An authoritative work of Kundakunda on Jaina spiritualism Prākṛit Text, Sanskrit Chāyā Edited with an Introduction, Translation and Commentary in English by Prof A CHAKRAVARTI The Introduction is a masterly dissertation and brings out the essential features of the Indian and Western thought on the all important topic of the Self English Grantha No 1 Super Royal pp 10 + 162 + 244 Second edition 1971 Price Rs 15/—

Jātakatṭhakathā

This is the first Devanāgarī edition of the Pālī Jātaka Tales which are a storehouse of information on the cultural and social aspects of ancient India Edited by Bhikshu DHARMARAKSHITA Pālī Grantha No 1, Vol I Super Royal pp 16 + 384 First edition 1951 Price Rs 9/-

Mahāpurāṇa

It is an important Sanskrit work of Jinasena-Gunabhadra, full of encyclopaedic information about the 63 great personalities of Jainism and about Jaina lore in general and composed in a literary style Jinasena (837 A D) is an outstanding scholar, poet and teacher, and he occupies a unique

place in Sanskrit Literature This work was completed by his pupil Gunabhadra Critically edited with Hindī Translation, Introduction, Verse Index, etc by PT PANNALAL JAIN Sanskrit Grantha Nos 8, 9 and 14 Super Royal Vol I pp 8 + 68 + 746, Vol II pp 8 + 556, Vol III pp 24 + 708, Second edition 1963-68 Price Rs 20/ each

Vasunandi Śrāvākācāra

A Prākṛit Text of Vasunandi (c Samvat first half of 12th century) in 546 gāthās dealing with the duties of a householder, critically edited along with a Hindī Translation by PT HIRALAL JAIN The Introduction deals with a number of important topics about the author and the pattern and the sources of the contents of this Śrāvākācāra There is a table of contents There are some Appendices giving important explanations, extracts about Pratisthāvidhāna, Sallekhanā and Vratas There are 2 Indices giving the Prākṛit roots and words with their- Sanskrit equivalents and an Index of the gāthās as well Prākṛit Grantha No 3 Super Royal pp 230 First edition 1952 Price Rs 6/-

Tattvārthavārttikam or Rājavārttikam

This is an important commentary composed by the great logician Akalanka on the Tattvārthasūtra of Umāsvāti The text of the commentary is critically edited giving variant readings from different Ms. by Prof MAHENDRAKUMAR JAIN Sanskrit Grantha Nos 10 and 20 Super Royal Vol I pp 16 + 430, Vol II pp 18 + 436 First edition 1953 and 1957 Price Rs 12/ for each Vol

Jinasahasranāma

It has the Svopajña commentary of Paṇḍita Āśādhara (V S 13th century) In this edition brought out by PT HIRALAL a number of texts of the type of Jinasahasranāma composed by Āśādhara, Jinasena, Sakalakīrti and Hemacandra are given Āśādhara's text is accompanied by Hindī Translation Śrutasāgara's commentary of the same is also given here There is a Hindī Introduction giving information about Āśādhara, etc There are some useful Indices Sanskrit Grantha No 11 Super Royal pp 288 First edition 1954 Price Rs 6/

Purānasāra-Samgraha

This is a Purāna in Sanskrit by Dāmanandi giving in a nutshell the lives of Tīrthamkaras and other great persons The Sanskrit text is edited with a Hindī Translation and a short Introduction by Dr G C JAIN Sanskrit Grantha Nos 15 and 16 Crown Part I pp 20 + 198, Part II pp 16 + 206 First edition 1954 and 1955 Price Rs 5/ each (out of print)

Sarvārtha Siddhi

The Sarvārtha Siddhi of Puṅgyapāda is a lucid commentary on the Tattvārthasūtra of Umāsvāti called here by the name Grdhrapiccha It is edited here by PT PHOOLCHANDRA with a Hindī Translation, Introduction, a table of contents and three Appendices giving the Sūtras, quotations in the commentary and a list of technical terms Sanskrit Grantha No 13 Double Crown pp 116 + 506, Second edition 1971, Price Rs 18/

Jainendra Mahāvitti

This is an exhaustive commentary of Abhayānandī on the *Jainendra Vyākaraṇa*, a Sanskrit Grammar of Devānandī alias Pūjyapāda of circa 5th 6th century A D Edited by Pts S N TRIPATHI and M CHATURVEDI There are a Bhūmikā by Dr V S AGRAWALA, *Devānandīkā Jainendra Vyākaraṇa* by PREMI and *Khulapāṭha* by MIMĀMSAKA and some useful Indices at the end Sanskrit Grantha No 17 Super Royal pp 56 + 506 First edition 1956 Price Rs 18/

Vratatīthimirnaya

The Sanskrit Text of Sīnhanandī edited with a Hindī Translation and detailed exposition and also an exhaustive Introduction dealing with various Vratas and rituals by Pt NEMICHANDRA SHASTRI Sanskrit Grantha No 19 Crown pp 80 + 200 First edition 1956 Price Rs 5/

Pauma caru

An Apabhramśa work of the great poet Svayambhū (677 A D) It deals with the story of Rāma The Apabhramśa text with Hindī Translation and Introduction of Dr DEVENDRAKUMAR JAIN, is published in 5 Volumes Apabhramśa Grantha Nos 1, 2, 3, 8 & 9 Crown Vol I pp 28 + 333, Vol II pp 12 + 377, Vol III pp 6 + 253, Vol IV pp 12 + 342, Vol V pp 18 + 354 First edition 1957 to 1970 Price Rs 5/ for each vol

Jīvamdhara Campū

This is an elaborate prose Romance by Hanukandra written in Kāvya style dealing with the story of Jīvamdhara and his romantic adventures It has both the features of a folk-tale and a religious romance and is intended to serve also as a medium of preaching the doctrines of Jainism The Sanskrit Text is edited by Pt PANNALAL JAIN along with his Sanskrit Commentary, Hindī Translation and Prastāvanā There is a Foreword by PROF K K HANDIQUI and a detailed English Introduction covering important aspects of Jīvamdhara tale by Drs A N UPADHYE and H L JAIN Sanskrit Grantha No 18 Super Royal pp 4 + 24 + 20 + 344 First edition 1958 Price Rs 15/

Padma purāna

This is an elaborate Purāna composed by Ravisena (V S 731) in stylistic Sanskrit dealing with the Rāma tale It is edited by Pt PANNALAL JAIN with Hindī Translation, Table of contents, Index of verses and Introduction in Hindī dealing with the author and some aspects of this Purāna Sanskrit Grantha Nos 21, 24, 26 Super Royal Vol I pp 44 + 548, Vol II pp 16 + 460, Vol III pp 16 + 472 First edition 1958 1959 Price Vol I Rs 16/, Vol II Rs 16/-, Vol III Rs 13/-

Siddhi-viniścaya

This work of Akalankadeva with Svopajñavitti along with the commentary of Anantavīrya is edited by Dr MAHENDRAKUMAR JAIN This is a new find and has great importance in the history of Indian Nyāya literature It is a feat of editorial ingenuity and scholarship The edition is equipped with

exhaustive, learned Introductions both in English and Hindi, and they shed abundant light on doctrinal and chronological problems connected with this work and its author. There are some 12 useful Indices. Sanskrit Grantha Nos 22, 23 Super Royal Vol I pp 16 + 174 + 370, Vol II pp 8 + 808 First edition 1959 Price Rs 20/ and Rs 16/-

Bhadrabāhu Samhitā

A Sanskrit text by Bhadrabāhu dealing with astrology, omens, portents, etc. Edited with a Hindi Translation and occasional Vivecana by PT NEMICHANDRA SHASTRI. There is an exhaustive Introduction in Hindi dealing with Jain Jyotisa and the contents, authorship and age of the present work. Sanskrit Grantha No 25 Super Royal pp 72 + 416 First edition 1959 Price Rs 14/-

Pañcasamgraha

This is a collective name of 5 Treatises in Prākṛit dealing with the Karma doctrine, the topics of discussion being quite alike with those in the Gommatasāra, etc. The Text is edited with a Sanskrit Commentary, Prākṛit Vṛtti by PT HIRALAL who has added a Hindi Translation as well. A Sanskrit Text of the same name by one Śrīpāla is included in this volume. There are a Hindi Introduction discussing some aspects of this work, a Table of contents and some useful Indices. Prākṛit Grantha No 10 Super Royal pp 60 + 804 First edition 1960 Price Rs 21/-

Mayana-parājaya carit

This Apabhramśa Text of Harideva is critically edited along with a Hindi Translation by PROF Dr HIRALAL JAIN. It is an allegorical poem dealing with the defeat of the god of love by Jina. This edition is equipped with a learned Introduction both in English and Hindi. The Appendices give important passages from Vedic, Pāli and Sanskrit Texts. There are a few explanatory Notes, and there is an Index of difficult words. Apabhramśa Grantha No 5 Super Royal pp 88 + 90 First edition 1962 Price Rs 8/-

Harivamśa Purāna

This is an elaborate Purāna by Jinasena (Śaka 705) in stylistic Sanskrit dealing with the Harivamśa in which are included the cycle of legends about Kṛṣṇa and Pāṇḍavas. The text is edited along with the Hindi Translation and Introduction giving information about the author and this work, a detailed Table of contents and Appendices giving the verse Index and an Index of significant words by PT PANNALAL JAIN. Sanskrit Grantha No 27 Super Royal pp 12 + 16 + 812 + 160 First edition 1962 Price Rs 25/-

Karmaprakṛti

A Prākṛit text by Nemichandra dealing with Karma doctrine, its contents being allied with those of Gommatasāra. Edited by PT HIRALAL JAIN with the Sanskrit commentary of Sumatikṛti and Hindi Tikā of Paṇḍita Hemarāja, as well as translation into Hindi with Viśeśārtha. Prākṛit Grantha No 11 Super Royal pp 32 + 160 First edition 1964 Price Rs 8/-

Upāsakādhyayana

It is a portion of the Yaśastilaka campū of Somadeva Sūri. It deals with the duties of a householder. Edited with Hindi Translation, Introduction and Appendices, etc by Pt KAILASHCHANDRA SHASTRI. Sanskrit Grantha No 28. Super Royal pp 116 + 539. First edition 1964. Price Rs 16/-

Bhojacaritra

A Sanskrit work presenting the traditional biography of the Paramīra Bhoja by Rājavallabha (15th century A D) Critically edited by Dr B CH CHHABRA, Jt Director General of Archaeology in India and S SANKARNARAYANA with a Historical Introduction and Explanatory Notes in English and Indices of Proper names. Sanskrit Grantha No 29. Super Royal pp 24 + 192. First edition 1964. Price Rs 8/

Ṣatyaśāsana parīksā

A Sanskrit text on Jain logic by Ācārya Vidyānanda critically edited for the first time by Dr GOKULCHANDRA JAIN. It is a critique of selected issues upheld by a number of philosophical schools of Indian Philosophy. There is an English compendium of the text, by Dr NATHMAL TATIA. Sanskrit Grantha No 30. Super Royal pp 56 + 34 + 62. First edition 1964. Price Rs 5/

Karakanda carīu

An Apabhramśa text dealing with the life story of king Karakanda, famous as 'Pratyeka Buddha' in Jaina & Buddhist literature. Critically edited with Hindi & English Translations, Introductions, Explanatory Notes and Appendices, etc by Dr HIRALAL JAIN. Apabhramśa Grantha No 4. Super Royal pp 64 + 278. 1964. Price Rs 15/

Sugandha daśamī kathā

This edition contains Sugandha daśamī kathā in five languages, viz Apabhramśa, Sanskrit, Gujarātī, Marāthī and Hindī, critically edited by Dr, HIRALAL JAIN. Apabhramśa Grantha No 6. Super Royal pp 20 + 26 + 100 + 16 and 48 Plates. First edition 1966. Price Rs 11/

Kalyānakalpadruma

It is a Stotra in twenty five Sanskrit verses. Edited with Hindī Bhāṣya and Prastāvanā, etc by Pt JUGALKISHORE MUKHTAR. Sanskrit Grantha No 32. Crown pp 76. First edition 1967. Price Rs 1/50

Jambū sāmī carīu

This Apabhramśa text of Vīra Kai deals with the life story of Jambū Svāmī a historical Jaina Ācārya who passed in 463 A D. The text is critically edited by Dr VIMAL PRAKASH JAIN with Hindī translation, exhaustive introduction and indices, etc. Apabhramśa Grantha NO 7. Super Royal pp 16 + 152 + 402. First edition 1968. Price Rs 15/-

Gadyacintāmanī

This is an elaborate prose romance by Vādībha Singh Sūrī, written in Kāvya style dealing with the story of Jīvamdhara and his romantic adventures. The Sanskrit text is edited by Pt PANNALAL JAIN along with his Sanskrit Commentary, Hindī Translation, Prastāvanā and indices, etc. Sanskrit Grantha No 31 Super Royal pp 8 + 40 + 258 First edition 1968 Price Rs 12/-

Yogasāra Prābhṛta

A Sanskrit text of Amitagatī Ācārya dealing with Jaina Yoga vidyā. Critically edited by Pt JUGALKISHORE MUKHTAR with Hindī Bhāṣya, Prastāvanā, etc. Sanskrit Grantha No 33 Super Royal pp 44 + 236 First edition 1968, Price Rs 8/-

Karma-Prakṛti

It is a small Sanskrit text by Abhayacandra Siddhāntacakravartī dealing with the Karma doctrine. Edited with Hindī translation, etc by Dr GOKUL CHANDRA JAIN. Sanskrit Grantha No 34 Crown pp 92 First edition 1968 Price Rs 2/-

Dvīsamdhāna Mahākāvya

The Dvīsamdhāna Mahākāvya also called Rāghava-Pāndavīya of Dhanamjaya is perhaps one of the oldest if not the only oldest available Dvīsamdhāna Kāvya. Edited with Sanskrit commentary of Nemīcandra and Hindī translation by Prof KHUSHALCHANDRA GORAWALA. There is a learned General Editorial by Dr H L Jain and Dr A N Upadhye. Sanskrit Grantha No 35 Super Royal pp 32 + 404, First edition 1970 Price Rs 15/-

Saḍdarśanasamuccaya

The earliest known compendium giving authentic details about six Darśanas, i.e. six systems of Indian Philosophy by Ācārya Harībhadra Sūrī, Edited with the commentaries of Gunaratna Sūrī and Somatilaka and with Hindī translation, Appendices, etc by Pt Dr MAHENDRA KUMAR JAINA NYĀYĀCĀRYA. There is a Hindī Introduction by Pt D D MALVANIA. Sanskrit Grantha No 36 Super Royal pp 22 + 536 First edition 1970 Price Rs 22/-

Śakaṭāyana Vyākaraṇa with Amoghavṛtti

An authentic Sanskrit Grammar with exhaustive auto commentary. Edited by Pt ŚAMBHU NĀTHA TRIPĀTHI. There is a learned English Introduction by Prof Dr R BIRWE of Germany, and some very useful Indices, etc. Sanskrit Grantha No 37 Super Royal pp 14 + 127 + 488 First edition 1971 Price Rs 32/-

Jainendra-Siddhānta Kośa

It is an Encyclopaedic work of Jaina technical terms and a source book of topics drawn from a large number of Jaina Texts. Extracts from the basic sources and their translations in Hindī with necessary references are given.

Some Twenty-one thousand subjects are dealt in four vols Compiled and edited by Śrī Jinendra Varnī All the four volumes are published and as Sanskrit Grantha No 38, 40, 42, and 44 Super Royal pp Vol I pp 516, Vol II pp 642, Vol III pp 637, Vol IV pp 544 First edition 1970 73 Price Vol I Rs 50/-, Vol II Rs 55/, Vol III Rs 55/, and Vol IV Rs 50/ Advance Price for full set Rs 150/-

Dharmaśarmābhyaudaya

This is a Sanskrit Mahākāvya of very high standard by Mahākavi Haricandra Edited with Sanskrit commentary, Hindī translation, Introduction and Appendices, etc by PT PANNALAL JAIN Sanskrit Grantha No 39 Super Royal pp 30 + 397 First edition 1971 Price Rs 20/

Nayacakra (Dravyasvabhāvapīkāśaka)

This is a Prakrit text by Śrī Māilla Dhavala dealing with the Jaina Theory of Naya covering all the other topic dealt in the Ālāpapaddhati, Edited with Hindī translation and useful indices, etc by PT KAILASH CHANDRA SHASTRI In this edition Ālāpapaddhati of Devasena and Nṛṅgavarāṇa from Tattvārthavārtika are also included with Hindī translations Prakrit Grantha No 12 Super Royal pp 50 + 276 First edition 1971 Price Rs 15/

Purudevācampū

It is a stylistic Campūkāvya in Sanskrit composed by Arhaddāsa of the 13 14th century of the Vikrama era Edited with a Sanskrit Commentary, Vāsantī, and Hindī Translation by Pt Pannalal Jaina Sanskrit Grantha No 41 Super Royal pp 36 + 428 Delhi 1972 Price Rs 21/-

Nāyakumāracarī

An Apabhramśa Poem of Puspadanta (10th century A D), critically edited from old Mss with an Exhaustive Introduction, Hindī Translation, Glossary and Indices, Old Ṭippana and English Notes by Dr Hiralal Jaina This is a Second Revised edition Apabhramśa Grantha No 10 Super Royal pp 32 + 48 + 276 Delhi 1972 Price Rs 18/

Jasaharacarī

It was first edited by Dr P L Vaidya Here is a Second edition of the same with the addition of Hindī Translation and Hindī Introduction by Dr Hiralal Jaina This is the famous Apabhramśa Poem of Puspadanta (10th century A D), so well-known for its story Apabhramśa Granth No 11 Super Royal pp 64 + 246 Delhi 1972 Price Rs 18/-

Dakṣiṇa Bhārata Men Jaina Dharma

A study in the South Indian Jainism by PT KAILASH CHANDRA SHASTRI Hindī Grantha No 12 Demy pp 209 First edition 1967 Price Rs 7/-

Sanskrit Kāvya ke Vikāsa men Jaina Kavīyon kā Yogadāna

A study of the contribution of Jaina Poets to the Development of Sanskrit Kāvya literature by Dr NEMI CHANDRA SHASTRI Hindī Grantha No 14 Demy pp 32 + 684 First edition 1971 Price Rs 30/-

For Copies Please write to

BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪṬHA,
B/45-47, Connaught Place, New Delhi-1